

AN INDEX TO THE LANKAVATARA SUTRA



AN INDEX TO THE LANKAVA-
TARA SUTRA

(NANJIO EDITION)

SANSKRIT-CHINESE-TIBETAN,
CHINESE-SANSKRIT,
AND
TIBETAN-SANSKRIT,

WITH A TABULATED LIST OF PARALLEL
PAGES OF THE NANJIO SANSKRIT
TEXT AND THE THREE CHINESE
TRANSLATIONS (SUNG, WEI,
AND T'ANG) IN THE
TAISHO EDITION
OF THE TRI-
PITAKA

COMPILED
BY
DAISETZ TEITARO SUZUKI

SECOND, REVISED, AND ENLARGED EDITION

THE SANSKRIT BUDDHIST TEXTS
PUBLISHING SOCIETY

39 Ōno-machi, Koyama,
KYOTO
SHŌWA IX
(1934)

PREFACE TO THE SECOND EDITION

In this second, revised, and enlarged edition of the Index to the Nanjo Sanskrit text of the *Lankāvatāra Sūtra*, all the major imperfections found in the first edition, I hope, have been corrected. The enlargement consists in the addition of a Chinese-Sanskrit and a Tibetan-Sanskrit section.

In the Tibetan section, the figures refer to the pages of the Sanskrit section in the present work, while R means the right-hand side of the page and L the left-hand side.

In the first edition mention has been accidentally omitted to the effect that the Chinese terms given as equivalents of the Sanskrit are those found in the respective translations (S, W, T) where they are expected to be found, and for this reason the so-called equivalents may not sometimes be in exact correspondence with the literal meaning of the original words. For instance, *ekarasa* is 一味 in Sung and T'ang, which is literal enough, but 無差別 in Wei; and when this is reversed as in the Chinese-Sanskrit section of this Index, the reader will find 無差別 as equivalent to *abhinna* or to *alakṣana* or to *aviveśa*, as well as to *ekarasa*. Let it, therefore, be remembered that this Index is always to be referred to the three Chinese translations indicated as S, W, and T, and not to be considered in itself a Chinese-Sanskrit dictionary.

Towards the end of this Index, the pages of the different Chinese versions in the Taisho edition of the Tripitaka are given together in parallel columns with the corresponding pages in the Sanskrit text of the Sutra.

D. T. S.

Kyoto, July 1934

PREFACE TO THE FIRST EDITION

Owing to various circumstances the printing of this work has been delayed longer than at first planned. While in more ways than one, there are yet many things in it which require further elaboration, I have decided to send it out to the world now, hoping that at some time later I may have the opportunity to carry out all my plans and also that even in its present shape it may be of some use to students of Buddhism.

My first intention was to select such Sanskrit words only as supplied important keys to the understanding of the *Laṅkāvatāra*, but while this was developing, I conceived the idea of compiling a kind of index verborum, omitting however the conjunctions, pronouns, negative particles, etc., for instance, *ca*, *nu*, *kim*, *eva*, *punar*, etc. After a complete revision of what had already been accomplished this idea was carried out. Then the question came up about the verbs, when the work of indexing was too far advanced to attempt another general re-arrangement. So, after much deliberation, I decided to give in a special section all the verbal roots together with their derivatives. This independent treatment, therefore, of the roots is the result of mere practical convenience on the part of the compiler.

As far as available, all the Chinese equivalents are given from the three Chinese versions, Sung (S), Wei (W), and T'ang (T). As to the Tibetan part of this work, it is not quite up to a desideratum. To accomplish this, we shall have to wait for a further chance. The "Red" Peking edition has been used for the references.

The compilation of the present work has been very much expedited by the kind help of Professor Hokei Idzumi in the Sanskrit and of Professor Yenga Teramoto in the Tibetan, and this fact is gratefully appreciated by the compiler. In type-setting and proofreading Mr. Susumu Hoshinobori has done his utmost, for which also thanks are here duly offered.

Towards the preparation of this book I have been financially helped by the Keimeikwai, which is an association for encouraging special studies and inventions contributive to the public welfare. Of this I wish here to make public acknowledgment.

DAISETZ TEITARO SUZUKI

Kyoto, March 1933

CONTENTS

	Page
Preface to the Second Edition	v
Preface to the First Edition	vi
The Sanskrit-Chinese-Tibetan Section	1
The Chinese-Sanskrit Section	213
The Tibetan-Sanskrit Section	427
A Tabulated List of Parallel Pages of the Three Chinese Versions and of the Nanjio Sanskrit Text	487

THE SANSKRIT-CHINESE-TIBETAN SECTION

अ

अंशु 光明 SWT, अंशु (105a), 101^a, 294^a, 310^a.

अंस 肩 ST, अंस (69b), 22^a, 116^a.

अकथ्यमान (*not being told*), 287^a.

अकनिष्ठ 色究竟 SWT, 阿迦膩吒 S, 阿迦尼吒 W, अंष्टि (71b), 28^a, 33^a, 51^a, 56^a, 215¹⁴, 278¹², 361^a; -पद 色

究竟句 ST, 色究竟見 W, अंष्टि कैष (75b), 36¹⁷; -भवन 阿迦尼妙境 W, 色究竟天 T, अंष्टि व्यष्टि व्यष्टि कैष (175a), 56^a, 269^a.

अकर्महेतुक 不由於業 W, अंष्टि कृत्या मात्र (194b), 332^a.

अकलाविद्या-पद 非數句 S, 非工巧見 W, 非巧明句 T, अंष्टि विद्या कैष, अंष्टि विद्या भेद्य विद्या कैष (75a), 36^a.

अकल्प 非分別 W, अंष्टि भेद्य (161b), 231^a, 321¹².

अकल्पन 莫分別邪行 W, 離分別 T, अंष्टि (207b), 373¹¹.

अकल्पित 非妄計 T, 無……想 S, 不想 T, अंष्टि भेद्य भेद्य (196a), 257¹², 336^a.

अकल्प (unsuitable), अंष्टि अंष्टि भेद्य (169b), 249¹², 255^{8 12}.

अकार 阿字 WT, अ (110b), 113^a.

-कत्र 無作者 SWT, अंष्टि भेद्य (111b), 115^a.

अकारित (非他殺 T, 不殺人殺 W), अंष्टि भेद्य (170b), 253¹⁰.

अकिकनीकृत (किकनीकृत in text), (lost

their sense), 253^a.

अकिंचित्कर (*nothing made*), 199¹⁴.

अकीर्तिकर 惡名流布 WT, अंष्टि भेद्य भेद्य (168b), अंष्टि भेद्य भेद्य भेद्य (171b), 247^a, 256^a.

अकुशल 不善 W, 惡 T, अंष्टि भेद्य (68a), 18^a, 90¹¹, 171¹², 183^a, 193^a, 195^a, 212^a, 213^{9 17}, 220¹⁰, 234¹⁷, 235^{8 10}, 278^a, 366²; -हृषि 惡見 T, 邪見 W, अंष्टि भेद्य (64a), 10¹⁷.

अकूटराशित 不積聚 S, 無積聚 W, 無積 T, 80¹⁷.

अकृत (*not done*), अंष्टि (138a), 176¹⁰; -अवकाश (*suddenly*), 176¹⁰.

अकृतक 非作者 T, 非所作 W, 無作 S, (非自殺 T, 自己不殺 W), अंष्टि (86a), 60^a, 72^a, 77¹, 176¹⁰(bis), 177^a, 182^a, 187^{9 13 17}, 188¹, 190¹⁰, 217^{7 8}, 253¹⁰, 347^a, 361¹¹, 366^a; -भाव 72^a.

अकोविद 愚 WT, अंष्टि (201b), अंष्टि भेद्य (203b), 353¹², 359^{8 9}.

अकाशल्प-पद 非巧句 S, 非巧見 W, 非善巧句 T, 35^a.

अकिया 無因作 32¹⁸; -पद 非事句 S, 非作見 W, 非作句 T, अंष्टि

द्विक्षेण (75a), 36¹⁴.

अक्रेश-पद 非煩惱句 ST, 非煩惱見 W, 34¹⁴.

अश (eye), 106^a; -पुरुष (eye-man), 106^a.

अशणिक 非刹那 T, 不刹那 S, क्षेत्र द्वया पाप्यामधिक (138b), 84¹⁵, 177², 236¹², 238¹¹ (शणिक in text); -पद 非刹
那句 ST, 非刹那見 W, क्षेत्र द्वया पाप्यामधिक (74a), 34¹⁵.

अश-पाद 阿叉波 W, (足目), क्षेत्र द्वया मैत्र (265b), 366¹¹.

अश्वर 名字 SW, 文字 T, 諸字 T, 字 SWT, शिष्मे (110b), 37³, 48¹², 113⁴, 137¹³, 141¹⁴(bis)¹⁵(bis)¹⁶(ter), 143¹⁹, 144¹, 147¹, 148¹¹, 154¹⁴, 160¹⁴, 173¹⁸, 194¹⁹(bis)⁸, 224¹, 240¹⁴, 241¹¹, 274¹, 289¹⁴, 316¹, 344¹, 354¹; -गति 字…趣 S, 143⁹; -गोचर 字境界 W, 文字境 T, शिष्मेन्द्रियांशु (176b), 274¹; -पतित 墮於文字 ST, 墮於名字 W, शिष्मेन्द्रियांशु (145b), 194¹³⁴⁵; -पद 字句 S, 字見 W, 文字句 T, शिष्मेन्द्रियांशु (75b), 37³; -वर्जित 離文字 T, 離名字 SW, शिष्मेन्द्रियांशु (80b), शिष्मेन्द्रियांशु (189b), 48¹², 316¹; -संसक 計着名字 SW, 計着文字 T, 樂名字 W, शिष्मेन्द्रियांशु (158a), 224¹, 354¹; -समता 字等 S, 字平等 WT, शिष्मेन्द्रियांशु (123a), 141¹¹¹²¹³.

अशेच-पद 非刹土句 S, 非國土見 W, 非刹句 T, शिष्मेन्द्रियांशु, शिष्मेन्द्रियांशु

क्षेण (74a), 35¹⁴.

अख-पद (अखेद in text), 非虛空句 ST, 非虛妄 (!) 見 W, 35¹¹.

अलादित 249⁷.

अखेद-पद (see अख-पद), 35¹¹.

अगति 所不行 S, 所不能行 WT, 89³; -लबण 所不得相 S, 出於…境
界 T, शिष्मेन्द्रियांशु क्षेत्र द्वया (160b), 228¹⁷.

अगच्छ-पद 非健闢婆句 S, 非健闢
婆見 W, 非乾闢婆句 T, क्षेत्र द्वया पीठ-द्विक्षेण (74b), 36².

अग्न 沈水 WT, अग्नांश (207b), 373⁸.

अग्नु-पद 非師句 ST, 非師見 W, शिष्मेन्द्रियांशु द्विक्षेण (74a), 35¹.

अगोचर 非境界 SW, 非所行 T, 非
…所行 T, 非…所知 T, 非…境
界 T, क्षेत्र द्वया पीठ-मैत्र (149a), 164¹⁸, 201¹², 271¹⁰, 286¹, 338¹, 357¹⁸, 371⁸.

अगोच झ 非種 S, 非性 SWT, शिष्मेन्द्रियांशु (70b), 25², 63⁵; -पद 非種性句 ST,
非性見 W, शिष्मेन्द्रियांशु, शिष्मेन्द्रियांशु (74a), 35¹.

अग्नि 火 火 (103b), 18², 90⁸, 98⁸, 169¹¹, 170³, 208², 232², 301⁴, 354⁴, 357¹, 359¹², 360⁴, 365¹⁸, 372¹⁴, 373²; -ज्वाला 火焰
W, शिष्मे (68a), 18²; -हेतुभूत 以火
因故 S, 火所因故 T, शिष्मेन्द्रियांशु (162a), 232².

अग्र (स्त-)(tip), 335¹⁶, 353¹⁶.

अग्रहण 非取相 W, 非…可取著 T,

不取 SWT, 不攝 S, 無攝 S, 無
所取 T, 無法可取 W, 不著 S,
मर्कण्डेय-पुरुष-न्येन्द्रिय (148a), 19¹⁰, 92¹⁶, 169⁶⁷, 185², 199²; -पद 非攝受
句 ST, 非捕取見 W, शिष्मेन्द्रियांशु द्विक्षेण (75a), 36¹¹.

अघन-पद 非雲句 ST, 非雲見 W, 35¹¹.
अघोष 非聲 T, शिष्मेन्द्रियांशु (102a), 94⁷.

अङ्गुर 芽 WT, शिष्मे (68a), 18⁴, 41³, 82¹⁸.

अङ्ग 支分 S, 身分 W, 25¹², 30², 36⁸, 97⁴, 119⁹, 130¹¹, 137⁶, 151¹², 301¹², 363¹¹;

-क्षापा 自見影 W, 自見其影 T,
षष्मेन्द्रियांशु शिष्मेन्द्रियांशु (69b), 20¹⁶; -द (bracelet), 17¹; -पद
支句 S, 支見 W, 支分句 T, शिष्मेन्द्रियांशु (75a), 36⁸.

अङ्गिक (as its body), 277⁴.

अङ्गुल (finger), 365¹²(bis).

अङ्गुल 指 SWT, शिष्मेन्द्रियांशु (146b), 196⁷⁸, 335¹⁸; -प्रेषक 196⁶; -मालिक 央掘

利魔羅 S, 央掘摩 T, शिष्मेन्द्रियांशु (172a), 258⁴; -अङ्ग 指端 ST, शिष्मेन्द्रियांशु (146a), 196⁹¹¹, 223¹⁸, 353¹⁵; -अङ्ग-
य-ग्रहण 指端 ST, 196¹⁶; -अङ्ग-भिन्नेश (the finger tip illusion), 196¹⁰.

अचक 非輪 S, 非是輪 W, शिष्मेन्द्रियांशु (161a), 92⁴; -पद 非輪句 S,
非輪見 W, 非火輪句 T, शिष्मेन्द्रियांशु (74b), 36¹.

अचल 山 SWT, शिष्मेन्द्रियांशु (72a), 29⁷¹⁴, 30¹⁰, 32⁸¹⁸, 269¹¹, 306¹¹; -पद 非動句 ST,

非動見 W, शिष्मेन्द्रियांशु (75a), 36¹⁵.

अचला 不動 WT, शिष्मेन्द्रियांशु (66b), 15⁵, 221¹⁹.

अचिकित्सा-पद 非治句 S, 非治見 W,
非醫方句 T, शिष्मेन्द्रियांशु (75a), 36⁷.

अचित 無心 W, 非心 T, शिष्मेन्द्रियांशु (188a), 312⁴; -पद 非心見 W,
非心句 T, शिष्मेन्द्रियांशु (74a), 34¹⁶.

अचित्र 無諸相 W, 非多 T, 269¹¹.

अचिन्य 不思議 SWT, 不可思議
SWT, शिष्मेन्द्रियांशु (84a), 15¹⁰¹², 371⁹, 51⁵, 56⁶, 58⁹, 59¹¹¹²¹⁴¹⁶, 64¹⁵, 98², 117², 134¹⁴, 212¹⁷, 222², 285⁷, 293¹⁴(bis), 307⁷¹⁶, 323¹¹; -चुतिंगत 不思議變

易死 S, 不可思議變易死 W, 不
思議死 T, शिष्मेन्द्रियांशु (84a), 56⁶; -पद
支句 S, 支見 W, 支分句 T, शिष्मेन्द्रियांशु (75a), 36⁸.

अचिन्य 智慧 T, शिष्मेन्द्रियांशु (87b), 63¹²; -तान 不思議智
SW, 不可思議智慧 T, शिष्मेन्द्रियांशु (84a), 56⁶; -पद
非心句 ST, 非心見 W, 35¹¹; -परि=
णामिन 不可思議變 W, 不思變
易死 T, 307¹⁰; -परिणाम-चुति
不可思議變易生 W, 不思議變
易死 T, 134⁹; -परिणामिनी 不思
議變 W, 不思議死 T, शिष्मेन्द्रियांशु
मैत्र शिष्मेन्द्रियांशु (122b), 140¹⁷; -फल-गोचर 證果不思議
W, 果境不思議 T, क्षेत्र द्वया पीठे (122b),

—(4)—

—(5)—

मैत्रप (186b), 307^a; -वासना-परिणाम
-हेतुक 不思議熏及不思議變是
…因 S, 不可思議熏變因 W, 不
思議熏變因 T, 37^{1a}; -विषय 不思
議境界 S, 不可思議境界 W, 不
思議境 T, 不思議事處 T, वस्त्रम्
कुमैत्रपादि पुण (88a), 15^{1a}, 64^{1a};
-(न्यम)-आर्थ-गोचर 不思議聖境
W, 難思聖所行 T, वक्षणादपि
कुमैत्रपुण वस्त्रमैत्रप (180b), 28⁵.
अचोदित 不教求 T, 無教…求 W,
257^{1a}.
अचोक्त 不淨 SWT, मैत्रपट्टप (89b),
68¹⁵(bis).
अचोक्ता 非影 ST, 不影 W, वैषम्य
पिक (101b), 93¹⁴.
अच्छिद् (no-hole), 257¹.
अच्छिन्न-दशक 衣裳不割截 W, 衣雖
不割樓 T, कुमैत्रपादैम्भावैषम्य
प (205b), 365¹¹.
अच्युत 不退 W, 不滅 T, वैषम्य-कुमै
त्रप (88a), 311¹⁷.
अज (野羊)不生 WT, अपाद्य-कुमैत्रप
(110b), 113⁷, 311¹⁷.
अजन्म 無受生 S, 無生 WT, कुमै
त्रप (145b), 194².
अजल 非水 S, 無水 WT, कुमैत्रप
(134b), 168¹¹, 291¹; -पद 非水句 ST,
非水見 W, कुमैत्रपि क्षेप (74a), 35¹.
अजात 不生 SWT, मैत्रपट्ट (70b), 25¹
14, 84¹, 155^{1a}, 290¹⁵, 329¹⁴, 368¹; -क 不
生 W, 無生 T, मैत्रप (174b), 267¹¹,
289¹; -त्व 不生 SWT, कुमैत्रप (144
b), 191¹⁰; -पूर्व 本不生 WT, कुमै
त्रप (194a), 329¹; -शून्यता 不生空
WT, मैत्रपट्टप (290¹⁵).
अजाति 無生 ST, 不生 W, कुमैत्रप
प (128c), 153¹⁵, 325¹⁴; -क 不生 W,
無生 T, कुमैत्रप (201a), 352⁴.
अजानक 不生 W, 無生 T, मैत्रप
प (179b), 284¹.
अजानान 不知 WT, मैत्रपट्ट (193a),
106¹, 130¹⁴, 270¹⁰, 274¹⁰, 304¹, 326¹⁰, 327¹¹.
अजिन 阿示那 W, 鹿皮 T, वैषम्यप
(205b), 367¹⁷, 312¹.
अज 無智 SWT, मैत्रपट्ट (77b), 41¹⁵.
अजान 無智 SWT, 無明 WT, 無知
SWT, 非知 WT, 癡 S, मैत्रपट्ट
(77a), 40¹¹, 45¹⁶, 68¹¹, 169¹⁵, 170¹⁷, 171¹,
177¹⁷, 197¹⁴, 203¹⁴, 225¹⁰, 271¹, 281¹, 332¹¹,
340¹, 349¹, 371¹²; -कर्म-तृष्णा 無知業
愛 S, 無智業愛 W, 無知愛業 T,
मैत्रपट्टपद्य-वस्त्र-कुमैत्रप (89b),
69¹¹; -तृष्णा-कर्म 無知愛業 SWT, मै
त्रपट्टपद्य-कुमैत्रप (175b), 40¹¹,
177¹⁷, 197¹⁴, 203¹⁴, 271¹, 340¹, 349¹;
-तृष्णा-संबद्ध 無明愛和合 W, 無
明愛所繫 मैत्रपट्टपद्य-कुमैत्रप
(195a), 332¹¹; -अधिगम 非…唯智
能證 T, वैषम्य-कुमैत्रप (135a),
प्रद्यन्त-कुमैत्रप (161a), 20¹.

अज्ञेय-पद 非爾焰句 S, 非境界見 W,
非所知句 T, मैत्रपट्टपद्य-क्षेप
(74b), 35¹⁰.
अज्ञित 墓 SWT, 63⁷, 64¹.
अञ्जलि 合掌 SWT, मैत्रपट्ट (69b),
22⁴.
अटवी 曠野 SWT, वैषम्य (124a),
143¹⁴, 251¹³.
अहामर-पद (अहमर° in text), 非荒亂
句 ST, 非亂見 T, वैषम्य-क्षेप
(74b), 35¹⁷.
अण 阿ण S, 微塵 W, 尘 T, कुमै
त्रप (72b), 31⁷, 32², 35⁹, 39¹, 51¹⁸, 53¹⁷, 79¹¹,
96¹¹, 103¹¹, 114⁷, 197¹⁸, 225¹⁰, 282¹⁵, 309¹⁰,
320¹⁶, 333¹¹(bis), 353¹⁸; -क 微塵 WT,
कुमैत्रप (73a), 321²; -त्व 53¹⁷; -पद
阿ण句 S, 微塵見 W, 尘句 T,
35⁹; -शस 53¹⁶, 54¹⁵, 320¹¹, 316.
अणज 卵…生 WT, कुमै (206b),
370¹⁴.
अतर्क-पद 非覺句 S, 非覺見 W, 非
計度句 T, कुमै-मैत्रपद्य-क्षेप (98a),
36¹⁵.
अतर्किक 非思量 W, 思念 T(?) , मै
त्रपट्ट (182a), 291¹⁴.
अतिक्रम 次第 W, 漸次 T, 117¹.
अतिक्रम्य 過 W, 遠離 T, 15¹.
अतिक्रान 過 SWT, वैषम्य (161b),
16¹, 39¹⁶, 229¹⁷, 230², 231², 371¹.
अतिरूर 極遠 SWT, कुमै-क्षेप (135a),
169¹¹, 170⁸.
अतिप्रसङ्ग (intense attachment), 252⁴.
अदर्शन 不見 SWT, मैत्रपट्ट (101a),
अतिशय (eminence), 229¹⁷, 230², 16.
अतिशान 去寂靜 W, 趋寂靜 T, (ग=
तिशान?), ले (182b), 294¹.
अतिसेवत (attaching), 253².
अतीत 過去 SWT, 出 T, वैषम्य (68a),
61¹⁰, 191¹⁷, 191¹⁸, 40¹, 41¹², 62⁴, 120⁶, 125¹⁷,
141¹, 172⁴, 11, 190², 206¹¹, 229¹², 250¹³,
286¹⁰, 289², 294¹, 363²; -अनागत-प्र=
नुत्पत्त 去來現在 ST, 過去未來
現在 W, वैषम्य-कुमै-कुमै-वैषम्य-
कुमै-कुमै (104a), 40¹, 41¹², 62⁴, 99¹,
120⁶, 172⁴, 182¹⁷, 183¹², 260³.
अतीर्थ-पद 非外道句 ST, 非外道見
W, वैषम्य-उक्त-मैत्रपद्य-क्षेप (74b),
35¹⁸.
अतृष्णा-पद 非愛句 ST, 非愛見 W,
वैषम्य-मैत्रपद्य-क्षेप (74a), 34¹⁸.
अतृम 無厭足 SWT, क्षेप-मैत्रपट्ट
(89b), 69¹.
अत्म 究竟 SWT, मैत्रपट्ट (119a), 131¹⁶,
138¹⁴, 15¹⁷, 139², 221¹, 228¹¹; -शस 畢竟
ST, 常 W, मैत्रपट्ट (88a), 66¹⁰, 12; -प्र=
कृति-परिशुद्धि 畢竟清淨 S, 自性
清淨 W, 本性清淨 T, मैत्रपट्ट-
वैषम्य-कुमै-वैषम्य-कुमै-वैषम्य (156a), 221¹;
-म 常 W, वैषम्य-कुमै-वैषम्य (分別), कुमै
(186a), 305⁴.
अत्यल (अभ्यत ?), 251¹.
अत्यिरूल-पद 非三輪句 ST, 非三輪
見 W, वैषम्य-कुमै-मैत्रपद्य-क्षेप (74a),
35¹⁶.
अदर्शन 不見 SWT, मैत्रपट्ट (101a),

42¹¹, 92⁴, 106¹², 182⁹(*दर्शन in text*), 191⁹,
205^{12 13}, 301⁹, 344¹⁰.

अदृश्य 不現 S, 不見 WT, में दृश्य-ष (184a), 22¹⁴, 167¹⁰, 199², 273², 293⁴, 302⁹, 303⁴; -पद 非現句 ST, 非現見 W, दृश्य-ष-क्षेत्र (75a), 36¹¹.

अदृष्ट 不見 WT, में दृष्ट-ष (199b), 15¹¹, 16¹, 105¹, 205⁴, 346¹; -पर्मसुख-पद 非現法樂句 ST, 非現法樂見 W, दृष्ट-ष-क्षेत्र-पद-ष-क्षेत्र (74a), 35⁹; -नष 不可見毀壞 S, 不見滅 W, 雖不可見…然…壞 T, 205⁴; -पद 非見句 ST, 非見見 W, दृष्ट-ष-क्षेत्र (75a), 36²; -पूर्वम्

未曾見 WT, दृष्ट-ष-दृष्ट-ष 15¹¹; -शृग-पूर्वम् 未曾見聞WT, दृष्ट-ष-मृष्ट-ष 16¹; -अन्त 言 S, 言喻 W, 嘘 T, दृष्ट (161a), 229¹¹; -अन्त-पद 非譬句 S, 非譬喻見 W, 非譬喻句 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र (74a), 35².

अदेव-पद 非天句 ST, 非天見 W, दृष्ट-ष-क्षेत्र (75a), 36².

अदेशना 非說 SWT, दृष्ट-ष-मृष्ट (80b), 49¹, 816¹⁴; -अवतार-पद 非說句 S, 非說見 W, 非演說句 T, दृष्ट-ष-पूर्व-ष-मृष्ट-ष-क्षेत्र (75b), 37².

अदेह-पद 非身句 ST, 非身見 W, दृष्ट-ष-क्षेत्र (75a), 36¹⁴.

अदोहृत्य-दोष-आवह-त्र 不起過S, 不生諸過惡 T, 生煩惱過 W, दृष्ट-

वेद-षी-त्रिक्ष-ष-दृष्ट-ष-मृष्ट-ष (109a), 109⁴.

अदृष्ट-गुल्म-लता-वितान-पद 非鬱樹藤句 S, 非樹林見 W, 非樹藤句 T, मैं-दृष्ट-ष-मृष्ट-ष-दृष्ट-ष-गुल्म-लता-वितान-पद-ष-क्षेत्र (75b), 36¹⁷.

अद्वय 二種無我 SW, 無二 SWT, दृष्ट-ष-मृष्ट-ष-क्षेत्र (61a), 2², 73^{12 13}, 74¹, 76^{10 11 12}, 77¹, 193¹, 218^{17 18}, 288¹, 348¹⁹; -लक्षण 無二 S, 不二法相 W, 無二相 T, गतिक्ष-मैं-दृष्ट-ष-क्षेत्र-त्रिक्ष (98b), 76¹.

अद्वया 不二 WT, गतिक्ष-दृष्ट-ष-दृष्ट-ष-क्षेत्र (181b), 288¹.

अधन्व-पद 非弓句 ST, 非弓見 W, 35⁹.

अधम (the lowest), 258³, 362¹².

अधमूर्ध 覆 SW, 覆住 T, 28¹.

अधम �非法 WT, क्षेत्र-ष-मृष्ट-ष-क्षेत्र (67b), 17^{2 3 11}, 19⁴, 301⁴.

अधिकार (effort), 供養 W, दृष्ट-ष (62b), 6¹, 88¹⁴, 250¹.

अधिकृत 上首 W, 2⁹.

अधिगच्छेय 得 WT, दृष्ट-ष-प-ष (65a), 12⁴.

अधिगत 得 S, 證 WT, दृष्ट-ष-क्षेत्र (134a), 12⁹(bis) 10¹, 143^{7 8}, 144¹, 165¹⁷, 166^{1 2}.

अधिगत 得 SW, 證得 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र (123a), 142¹¹.

अधिगत 證 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र (119b), 修行 W, दृष्ट-ष-क्षेत्र (63b), 所修 T,

得 SW, 9¹², 10^{1 15}, 11^{7 17}, 12^{2(bis)} 3, 17¹⁸, 20¹, 63⁷, 64¹², 75¹, 80², 81¹, 102¹⁶, 118¹⁴, 119¹⁷, 121³, 133^{14 15}, 140^{12 14}, 157¹⁸, 184¹, 185¹, 194¹, 200¹, 215⁴, 218^{7 12}, 279³, 297¹; -न 知 WT, दृष्ट-ष-क्षेत्र-प-ष (63b), 9¹⁷, 12³, 102¹⁵, 214⁹; -स्वप्रत्यात्म-आर्थ-अभिसमय-गोत्र 自證法無間種性 S, 證實法性 W, 內身自證聖智法 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र-प-ष-दृष्ट-ष-मृष्ट-ष-क्षेत्र-प-ष-क्षेत्र-प-ष-क्षेत्र (88a), 64¹².

अधिपति 增上 SWT दृष्ट-ष-क्षेत्र-त्रिक्ष (97a), 84¹.

अधिमात्र 上 SW, 117¹².

अधिमुक्ति 解 S, 信 W, मैं-दृष्ट-ष-क्षेत्र (78a), 42¹²; -क 信心 W, 心 ST, क्षेत्र-ष (136a), 172⁹, 194¹⁸, 227¹.

अधिवचन 言 WT, क्षेत्र (68b), 191⁸, 21³, 98¹⁶, 149¹⁰, 175¹⁸, 182⁹, 191¹, 192¹, 205¹⁹.

अधिष्ठान 神力 S, 願力 W, 加持 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र-प-ष (2¹⁰, 15⁴, 37³, 42¹¹, 49¹⁶, 50^{3 6 15}, 66¹⁴, 100^{8 9 10}(bis) 11¹⁸, 101^{3 13}, 102^{1 3 5 7 10 13 18}, 103¹, 109^{7 9}, 139^{11 12 13 14}, 197⁶, 292¹³, 322³; -पद 處句 S, 住持見 W, 住持句 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र-प-ष-क्षेत्र (75b), 37²; -लक्षण 自願處相 S, 自願受持 W, 願持相 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र-प-ष-क्षेत्र-प-ष-क्षेत्र-प-ष-क्षेत्र (81a), 50⁵.

अधिष्ठित 對(佛) T, 於(如來) 前 W, उपायक्षेत्र (62a), 4¹³, 15⁸, 50¹⁶, 100^{9 11}, 101^{12 14}, 102^{2 4}, 197⁹.

अधृता 現在 W, दृष्ट-ष (68b), 6¹, 19¹⁷.
अथवसान (attempting), 251¹.

अध्यात्म 內 SWT, 內自 T, 內心 W,

क्ष (64a), 10¹, 42¹⁰, 67¹¹, 81¹, 83¹⁶, 124^{6 7 8}, 146¹⁴, 183¹¹, 234¹, 273⁴, 296¹, 355¹², 370¹¹; -क 内 SWT, 18¹, 67¹²; -दृष्ट-निलय 內身邪見 W, 內我見 T, दृष्ट-ष-क्षेत्र (206b), 370¹¹; -बास्या (वा in text), 內外 SWT, दृष्ट-ष-क्ष (183a), 42¹⁰, 67^{11 12}, 81¹, 296¹, 355¹²; -बा=स्य-आभाव 內外既不成 T, दृष्ट-ष-क्ष-मृष्ट-ष-मैं-दृष्ट-ष (202b), 355¹²; -वेद्य 自身中 W, 10²; -समापत्र 內心 實智 W, 內自覺悟 T, शाप्त-क्ष-दृष्ट-ष-क्ष-मृष्ट-ष-मैं-दृष्ट-ष (64a), 10¹.

अध्यात्मिक (see also under आध्यात्मिक), 內 SWT, क्ष (96b), 67¹², 82¹⁴, 83^{8 12}, 90¹⁰, 139⁹, 169².

अध्यान-पद 非禪句 ST, 非禪見 W, दृष्ट-ष-क्ष-मृष्ट-ष-क्षेत्र (75a), 36⁹.

अध्यावसत् (sitting), 248⁹.

अध्युषित 住 T, 4¹.

अध्येषणa 請 SWT, 勸請 T, दृष्ट-ष-प-ष (90b), 21⁶, 70¹⁶.

अध्येषित 受請 T, 受啓請 W, दृष्ट-ष-प-ष (65b), 13¹⁷.

/D अध्येषित (to be asked), 89¹³, 150².

अध्य-त्रय 三世 SWT, 306¹⁶, 371¹⁴.

अध्यन 所 WT, 世 SWT, 54 (111a), 4¹¹, 91¹², 114², 139⁷, 245¹⁰, 250^{9 11}, 253¹², 306¹⁶.

अनश्वर 無名字 W, 離文字 T, भिषो
मेन् (145b), 194², 294²; -त्व 無字 W,
離文字 ST, भीषो इमा एव शूद्रस
(145b), 194²; -पत्ति 不墮文字 S,
不著名字 W, 不墮於文字 T,
भिषोमेन्मेन् (145b), 194²; -पद 非
字句 S, 非字見 W, 非文字句 T,
भिषोमेन् धृति क्षेत्र (75b), 37².

अनगर 非有城 S, 非城 WT, अन्तः
स्थानमेन् (20a), 90¹² 14.

अनशु-पद 非阿蒼句 S, 非微塵見 W,
非塵句 T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (74a), 35².

अनधिक 無增 S, 不增 WT, अन्तःकंड
मेन् (123a), 142², 143², 193².

अनधिगत 未得者 S, 未得…修行
者 W, 未證 T, 215².

अनधिष्ठा-पद(निषा-पद?), 無盡句 S,
諸句盡處 W, 無盡願 T, 180².

अनधिष्ठान-पद 非處句 S, 非住持
見 W, 非住持句 T, 37².

अनधिष्ठित (not protected), 102¹².

अनध्वसित (not attached), 250².

अनधन 無世 W, 非世 T, अन्तमेन्
(207a), 371¹⁴.

अननुभृत 不受 SWT, अन्तमेन् (164a),
228¹¹, 236⁴.

अनङ्ग-पद 非支句 S, 非支見 W,
非支分句 T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र
(74b), 36².

अनन्त 無邊 ST, 無量 T, अन्तमेन्
(99b), 45¹⁰ 12, 89², 301¹², 358²; -त्या
233¹²; -त्वि 無邊際 SWT, अन्तमेन्

मेन् धृति क्षेत्र (162b), 233¹².

अनन्तर 無間 SWT, महेन्द्रमेन् ध
(122a), 83¹², 140²; -मृ 則 S, 即 W,
無間 T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (165a), 69¹²,
238¹², 356².

अनन्त-पान-पद 非飲食句 ST, 非飲
食見 W, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (74b),
36².

अनन्य 不異 ST, अन्तमेन् धृति क्षेत्र
(82b), 38¹² 16, 46², 52¹², 53², 87¹² 16,
114², 125¹², 130¹² 24, 148¹², 171², 187¹²,
188¹² 17, 189¹² 12 (bis), 193¹², 207², 314²,
331², 345²; -त्व 不異 S, 53², 125¹², 146²,
189², 350²; -यात्व 不異 SW, 無異
T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (82b), 196².

अनपराधि(न) (not blamed), 253²; -ई-
भूत 251².

अनबोध (see अनवबोध), 44².

अनभिश 不…了知 S, 不能…了 T,
अन्तमेन् धृति क्षेत्र (146a), 62², 195².

अनभिशा-पद 非明句 S, 非通見 W,
非神通句 T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र
धृति क्षेत्र (74a), 35¹².

अनभिनिरेश 無所計著 S, 無所執
着 W, 不取…成就 T, 不計著
S, 不執着 W, 無所著 T, 不著
S, 不取著 W, 不取 WT, 不生執
着 T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र
50², 176², 184¹², 237¹².

अनभिलाप 無有言說 S, 不說言語
W, 雖無言說 T, अन्तमेन् धृति

(98a), 75², 105¹², 116¹⁰, 287².

अनभिसंस्कुर्वत् (not creating), 209².

अनभिसंस्कृत 食生 ST, 不春不炊,
अन्तमेन् धृति क्षेत्र (146b), 196¹² 13
15.

अनभ्युपगम 不決定 S, 不說 W, 不
取 T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (151b), 208¹²;
-त्व 無取 S, 不可得 WT, अन्तमेन्
धृति क्षेत्र (125a), अन्तमेन् धृति क्षेत्र (125a), 146².

अनर्य 無價 WT, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (61
b), 3².

अनर्य 無利益處 W, 不饒益處 T,
無體 W, 無境 T, अन्तमेन् (171b),
99², 255¹², 336¹²; -अन्तर 異義一
W, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (110b), 112¹² 17, 113².

अनल 火 SWT, महेन्द्र (89b), 68¹²,
183¹².

अनवकाश (not in the same domain), 198².

अनवत्तर 不覺識 S, 不覺知 W, 不
知 T, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (77a), 40².

अनवद 無罪 S, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (163
b), 235².

अनवधारित 不知 SW, 不了 T, अन्त
मेन् धृति (111b), 51¹², 72², 90², 93¹², 115²,
150¹².

अनवधारित 不知 ST, 不能知 W,
अन्तमेन् धृति (110a), 44¹², 112².

अनवबोध 不知 ST, 不能覺知 W,
अन्तमेन् धृति (100a), 40², 44² (अन-
वबोध in text), 90¹², 100², 134², 151²,
164¹² 17, 170², 173¹², 177², 184², 196¹²,
205¹², 209² 4, 212², 213² 12, 220² 11, 225²,

235¹², 236², 326²; -क (अनवबोध in
text), 不覺 S, 能令…見 W, 不了 T,
अन्तमेन् धृति क्षेत्र (156a), 221²; -न
不覺識 S, 不覺知 W, 不知 T,
अन्तमेन् धृति क्षेत्र (77a), 40².

अनवस्था 無窮 SW, 成無窮過 T,
अन्तमेन् धृति क्षेत्र (198a), 104², 164¹⁰, 341¹²,
349².

अनवस्थायिन् 不住 SWT, अन्तमेन् धृति
(163b), 235¹².

अनाकार 無因 WT, अन्तमेन् (187b),
310¹².

अनागत 未來 SWT, अन्तमेन् धृति 5²,
19¹², 25², 40², 41¹², 61¹², 62² 7, 78², 79¹²,
91¹², 114², 120², 139², 172², 180², 206¹²,
229¹², 244², 250², 253¹², 258¹², 289², 294²,
333¹², 367²; -प्रत्युत्पत्ति 78²; -प्रत्युत्पत्ति-
काल 現在未來 SWT 244².

अनागामित अ那含 SWT, अन्तमेन् धृति क्षेत्र
अन्तमेन् (113b), 120².

अनागामि(न) 不還 SWT, 阿那含
SWT, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (88b), 65¹²,
116¹², 120² 7, 121¹²; -त्व 120²; -फल
不還 SWT, अन्तमेन् धृति क्षेत्र (178a),
65¹², 121¹², 279¹².

अनात्म 無我 SWT, अन्तमेन् धृति (85a),
58².

अनात्मक 無我 W, 無體 W, 非有
T, अन्तमेन् धृति (84a), 56¹², 299², 328².

अनादि 無始 WT, अन्तमेन् धृति (181a),
38¹², 39², 95¹², 288¹², 336¹², 337², 353²;

-क 無始 SWT, 275², 276¹², 372¹²;

-काल 無始 S, 無始世來 W,

無始來 T, स्वप्नाम् भेदं धौरीऽक्षण (76a),
38¹, 39⁴, 42², 43⁷, 44⁵, 66¹, 69¹, 71¹, 80⁴,
82², 86¹⁰, 90⁴ 13¹, 94¹², 100⁸, 165¹⁰, 170¹¹,
171¹⁰, 177⁴, 212¹¹, 214¹⁰, 220¹⁸, 233¹⁴, 284²;
-काल-दौषुल्य 212¹¹; -काल-प्रपञ्च
無始虛偽 ST, 無始身虛論 W,
स्वप्नाम् भेदं धौरीऽक्षण गुण्ड्वशाप (136a),
38¹, 42², 44⁵, 71¹³, 82², 171¹⁰; -काल-
प्रपञ्च-अभिनिवेश-दौषुल्य-स्वबीज-
वासना 86¹⁰; -काल-प्रपञ्च-दौषुल्य
284²; -काल-प्रपञ्च-दौषुल्य-हृष-
वासना 無始時來取著於色虛妄
習氣 T, 無始世來虛妄分別色
境界熏習 W, 無始虛偽過色習
氣 S, स्वप्नाम् भेदं धौरीऽक्षण गुण्ड्वश-
धौरीऽपक्षण-दूष-भेदं गुण्ड्वश-धौरी-
क्षण (76b), 44⁵; -काल-प्रपञ्च-दौषुल्य-
वासना 無始妄想熏 S, 無始
戲論虛妄習氣 T, 無始戲論妄
想熏習 W, स्वप्नाम् भेदं धौरीऽक्षण गुण्ड्वश-
धौरीऽपक्षण-दूष-भेदं गुण्ड्वश-धौरी-
क्षण (76a), 38⁷, 80⁴, 94¹²; -काल-प्रपञ्च-दौषुल्य-विकल्प-वासन (or ज्ञा), 無始
虛偽過妄想習氣 S, 無始世來虛
妄分別戲論W, 無始時來妄習所
起 T, स्वप्नाम् भेदं धौरीऽक्षण गुण्ड्वश-धौरी-
क्षण-दूष-भेदं गुण्ड्वश-धौरी-
क्षण (76b), 43⁷, 233¹⁴; -काल-प्रपञ्च-दौषुल्य-विचित्र-
वासना 71¹³; -काल-प्रपञ्च-दौषुल्य-विचित्र-
विचित्र-विपाक-विकल्प-वास-

ना ८२^a; -काल-प्रपञ्च-दौषुत्य-स्प्र= तिविकल्पना १७१^{१०}; -काल-प्रपञ्च- वासना-हेतुक 無始妄想熏是… 因 S, 因無始來戲論熏習 W, 無始戲論習氣爲因 T, ैषांम् भेदं दैं ५श्च गृह्णेत्रि पदे पश्च क्षणं गृह्णेत्रि कृपश्च पृष्ठं ए (८६a), ३८^१; -काल-प्रपञ्च- विकल्प-वासना-दौषुत्य १७७^a; -काल-विविध-प्रपञ्च-विकल्प-वासित ९०^a; -दोष 無始過 S, ैषांम् भेदं दैं त्रि (१०२b), ९६^१, ३२१^a, ३७४^a; -मति ९५^{१४} (गति in text), २९२^a, ३२८^a, ३३६^a; -मति २२३^{१०}, ३६८^{१४}; -विकल्प-वाच् 無始妄想言說 ST, 無始言說 W, ैषांम् भेदं दैं ५श्च गृह्णेत्रि कृपश्च दृष्टिश्च गृह्णेत्रि कृष्ण (९४a), ८६^{१०}; -हेतुक 無始因 W, 無始心所因 T, ैषांम् भेदं दैं (१९६b), ३३६^{१७}. अनाद्य (*no beginning*), २४३^{१२}, २८८^{१६}, ३५९^{१५}. अनाभास 無相 W, 無法相 W, 無影像 T, अभास-भेदं (१७६b), २७६^{१४}, २८५^७. अनाभोग 無開發 S, 開發 W, 無功用行 WT, 無開發行 S, अभिशुष्टिश्च अभिशुष्टिश्च (१७४a), ४२^a, ४३^a, ८९^a, १६१^a, १८१^a, २६६^a, २९९^१, ३५१^a; -क्रिया 自然無作者 W, 無即自然生 T, अभिशुष्टिश्च (२०१a), ३५१^a; -गति 自然 W, 無功用 T, अभिशुष्टिश्च (१८४a), ४२^a, २९९^१; -चर्या ४३^a. अनाय-य्य 不來不去 SWT, ९५^{१४} न्द्र-ब्रह्म-दैं दैं (१३५a), १७५^{१०}, १९५^{११}.

अनापूह 不可持來 S, 無取相 W,
無…來 T, ନୁହିଲା କିମ୍ବା ନୁହିଲା କିମ୍ବା
(111b), 115^m, 196^a.

अनारभ 無起 T, 無…起 W, 不動
 S, अनारभ अनारभ (अनी) निरु (78a).
 42¹⁰.

अनारम्भ 始造 T, 不更造 S, 五
५. देव्यम् (151a), 207^a.

अनार्य 非聖惡人 W, वृथमासाद्यात्
 घिन्-घदि-सु-टि (168b), 247^a, 249¹⁴; -जन
 247^a, 249¹⁴; -जुष 非聖所食味 W,
 वृथमासाद्य-घिन्-घदि-वृष्टि (171b), 250⁶;
 -त्र 非聖 SWT, वृथमासाद्य-घिन्-घदि
 (164a), 236¹¹(bis).

अनालप्प अनुवाद WT, 331¹¹

अनालय 不依 w, 無住處 T, अनुश
मेद्या (200b), 350¹⁰; -विज्ञान-हे=
तुक 藏識非彼因 T, 藏識非因 S,
不從阿梨耶識生 w, एवं शब्दे क्षमा
पद मेश परि कु घश धृष्ट एवं मी
दग्ध (76b), 38¹¹.

अनालीट 未曾知 w, 不能測 t,
 (離? SWT), कृमाद्यस्त्रियां द (136b)
 14¹³, 172¹².

अनाश 234^a; -गति-निष 不壞亦不去
S. 不滅亦不生 W. 非壞亦非趣
T. རྒྱྱଣ ༎ନ୍ଦ୍ରକୁଳପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ମରଣୀ (163
b), 234^a.

अनाप्रित 不依 w, 無所依 t, 不著

W, 離著 T, मिमांसा (176a), 273⁴, 373¹².

अनासद 不能近 w, 非…行處 t,
एनासद (180b), 286.

अनासव 無漏 SWT, ଅନ୍ତମେଣ୍ଟ
 (113a), 119^r, 134¹³ 14, 135¹¹, 139¹, 148¹¹,
 235¹ 17, 242⁸, 321¹⁵, 358⁹.

अनास्त्राद् 不嘗者 W, 未嘗者 T,
म'कुद्दस'प (203b), 360^a.

अनिःशरण 不離 S, 非出世想 T,
非究竟法生究竟想 W. 145*

अनिधिमधुर 不捨方便 S. 不休息
W. 不捨於勇猛精進 T. ດັບດຸດໍາ
緬: ပုဂ္ဂန္တံ့မဲ (157a), 222¹³.

अनिच्छनिकता 非一闡提 S. 不生
信心 W. 不生欲樂 T. १९८-के०
प्रकृतिशास्त्री.....मि॒ग्नुष्ट (88b), ६५१.

अनिच्छन्ति-पद 非一闡提句 ST, 非
一闡提見 W, १९६८-के०-धा०-भ०-ध०-
क० (75a), 36¹³.

ଆନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ସ୍ଵତଂ (85a),
 ୩୪^୧, ୫୮^୧, ୬୦^{୧୨}, ୬୧^{୧୦}, ୮୯^୨, ୯୦^୩, ୯୬^୧, ୯୭^୧, ୧୧୫
 ୧^୧, ୧୧୬^୧, ୧୨୨^୧, ୧୭୬^{୧୪}, ୧୮୨^୧, ୧୮୩^୧, ୧୮୪^{୧୭}, ୧୮୯^୧

अनिरुद्ध 不滅 SWT, मृष्टाण्डा (70b),
 25¹⁴, 45¹⁵, 115¹⁶ 17, 155¹⁸, 189¹⁹ (b.s), 191¹,
 197¹ 10, 198¹, 287¹².

अनिरोध 不滅 SWT, मृष्टाण्डा-मैदाण
 (144b), 15¹ 12, 161¹³, 191¹ 6 7 17, 192¹⁷,
 193¹ 10, 196¹⁴, 197¹⁰ 13, 198¹² 13; -पद
 非滅見 W, 非滅句 T, मृष्टाण्डा-
 मैदाण-द्विक्षेण (75a) 36^a; -बुत्त्यान-पद
 非滅起句 ST, 非起滅盡定見 W,
 मृष्टाण्डा-पक्षाल्प-मैदाण-द्विक्षेण (75a),
 36^a.

अनिगम 不出 ST, 出 W, मैदाण-प
 (130a), 158¹.

अनिर्धार्य 不覺 W, 不了 T, मैदाण-पद
 (206b), 356¹ 13, 369¹³.

अनिर्याण 不出 S, 非離處 W, 未
 出 T, मैदाण-क्षेत्र (87a), 64².

अनिर्यह 不可持去 S, 無取相 W,
 無去 T, द्वृक्ष-मैद (111b), 115¹²,
 196³.

अनिर्वाण-पद 非涅槃句 ST, 非涅槃
 見 W, शुद्ध-पक्षाल्प-मैद-द्विक्षे-
 ण (74b), 35¹⁶.

अनिर्वाण-हेतु 非涅槃因 ST, 不作
 涅槃因 W, शुद्ध-पक्षाल्प-मैद-द्विक्षे-
 ण (164a), 236⁴.

अनिश्चित 不決定 W, 安立 T, मै-
 पक्षाल्प (180b), 286⁵.

अनिष्ट (*not wished*), 187⁶.

अनिष्ट-पद (अष्टापद in text), 無盡句

(104a), 99^a, 1, 226^c, 228¹⁴; -पद 不斷
句 S, 非斷見 W, 非斷句 T, क०
एम-पित्-परि-क्षण (74a), 34¹⁶.
अनुजानीय (*permissible*), 253¹¹.
अनुशात (*permitted*), 254⁴; -वत् 249¹⁴
255^a, 256^a.
अनुशास्त्र-कामा 聽 W, 聽許 T, मण्ड-
(171a), 254^a.
अनुशर 阿耨多羅 SWT, श्वर-मिद-ष
(90b), 70¹², 73¹³, 79^a, 89¹⁰, 103², 112¹²,
144¹⁷, 148³, 156^a, 240², 244¹⁰, 286¹⁴,
306¹¹, 329¹⁰.
अनुशोष (not crossed), 214¹².
अनुपत्ति 無生 T, म-क्षेत्र-ष (93b), 76^a,
111^a, 166¹³, 16¹⁶, 167², 178¹⁸, 206¹⁹, 221^a,
238¹², 273^a, 275¹⁶, 280³; -क-धर्म-आनि
無生法忍 SWT, म-क्षेत्र-ष-क्षेत्र-ष-
ष्टव्य-ष (65a), 12^a, 81^a, 105¹¹, 215^a.
अनुपत्त अनुपत्ति 不生 SWT, म-क्षेत्र-ष (87a),
62⁹, 62¹², 76², 110¹⁷, 111^a, 115^a, 116^a, 129^a,
153^a, 155¹⁸, 166⁹, 10¹², 13 (bis), 17 (bis),
167⁸, 168¹, 189¹⁴ (bis), 191¹⁰, 194¹,
197¹¹, 198¹ (bis), 200¹¹, 13, 14, 203⁸,
273⁵, 277⁴, 283¹², 287¹², 325², 336¹⁸, 33
7⁸, 10, 12, 340¹, 342¹², 343⁸, 349⁷, 350¹⁸, 352
13, 355⁸, 361¹², 18, 371¹²; -त् 924.
अनुपाद 無生 ST, 不生 W, म-क्षेत्र-
ष (69b), 22¹³, 34¹², 37⁹, 42¹, 48^a, 62¹³
(उत्पद in text), 73¹², 74⁴, 76¹³, 77³,
78², 91¹⁸, 111², 6, 12, 112^a, 116⁷, 124², 143
12, 157¹², 161¹², 175¹⁸, 188¹⁸, 191⁸, 9, 17, 18,
192³, 193¹⁰, 196¹⁸, 197¹⁰, 198⁸, 12, 13, 199
11, 200⁵, 201², 8, 10, 13, 15, 202¹, 3, 6, 8, 203²
10, 11 (bis), 205², 11, 13, 14, 218³ (bis) 9, 18,

अप्त्वा (150b), 206^a; -हेतुक 展轉因
 S, 遂共爲因 W, 相互爲因 T,
 अप्त्वा-मौक्षिकाद्य (76a), 37^a, 44^a,
 127^a; -अनुभूत-परिकल्पन 無展
 轉離不實妄想 S, 妄心展轉分別
 T, अप्त्वा-क्रिया-प्रिया-द्य (160a), 228^a;
 -अपेक्षा-कारण共相待法S, 展轉相
 因起 T, अप्त्वा-क्रिया-प्रिया-द्य (198a),
 341^a; -अपेक्षा-संकल彼此迭共鎖W,
 अप्त्वा-क्रिया-प्रिया-द्य (197a), 389^a;
 -अभिन्न-लक्षण 迭共無差別W, 展
 轉無別相 T, अपेक्षा-प्रिया-द्य (194b),
 44^a, 331^a; -अभिन्न-सं
 並 -ए別和合 W, 展轉互相
 依 T, अप्त्वा-क्रिया-प्रिया-द्य (195a),
 326^a; -आगत्तुकत्व 226^a.
 अन्त्य (connection), 251^a.
 अन्वित (joined), 163^a, 293^a, 314^a, 361^a.
 अप (water), 354^a.
 अपकृत 減 S, 出於河 W, 取 T, अप
 की-प्रो-मौक्षिकाद्य-प्रिया-द्य (161a),
 232^a.
 1) अपगत 斷 S, 離 W, 無有 T, अप
 (161b), 225^a, 231^a, 255^a.
 2) अपगम 離 WT, अप्त्वा-द्य (176a), 272^a.
 अपवय 集諸法 W, 長養 S, अप्त्वा-
 द्य-प्रिया-द्य (129b), 157^a.
 अपतत 不墮 SWT, अप्त्वा-द्य (141b),
 181^a, 185^a, 239^a; -ता 不墮 SWT,

अपेक्षा-द्य (136b), 172^a.
 अपतितत 不墮 ST, अप्त्वा-द्य (143a),
 188^a.
 अपत्य 子 W, 諸子 T, अप्त्य (170a),
 251^a.
 अपर 他世 ST, मारुत् (ऐ-प्रिया-द्य)
 (140b), 182^a, 192^a, 347^a; -प्रणय 不
 隨他教 S, 不隨他悟 T, 不由於
 他 S, 不由他悟 T, 不隨覺相 S,
 不墮 (sic)一切虛妄 W, 不隨…妄
 解 T, मारुत्-ऐ-प्रिया-द्य (63b),
 91^a, 133^a, 148^a.
 अपस्तर 189^a.
 3) अपराज 後際 ST, 未來 W, अपराज
 -स्थिति (115a), 123^a.
 अपरानुष 不轉 ST, अप्त्वा-मौक्षिक
 (156b), 221^a.
 अपरिकल्पन 離…妄想 S, अप्त्वा-
 अप्त्वा-द्य-प्रिया-द्य (160a), 228^a.
 अपरिज्ञान 不識 S, 不知 S, 不了 T,
 मौक्षिकाद्य (142b), 17^a, 186^a, 193^a, 234^a,
 310^a, 345^a.
 अपरियक 無捨 T, 不捨 SW, अप्त्वा-
 अप्त्वा-द्य (89a), 66^a.
 4) अपरिनिर्वाण 不般涅槃 S, 無涅槃
 WT, अप्त्वा-प्रिया-द्य (88b),
 66^a, 134^a, 240^a; -धर्मक 不般涅槃法
 相 S, 無涅槃性 W, 無涅槃種
 性 T, अप्त्वा-अप्त्वा-प्रिया-द्य (98a),
 165^a, 66^a, 240^a; -धर्मत 不…般涅
 漪法 S, 不能…證於涅槃 W, 無

…般涅槃法 T, अप्त्वा-अप्त्वा-
 प्रिया-द्य (120a), 184^a.
 5) अपरिनिर्वत 未涅槃 T, 不入涅槃
 W, 不般涅槃 S, अप्त्वा-प्रिया-द्य (88b),
 66^a.
 6) अपरिप्रक्षेपन्द्रिय 根未熟 SWT, अप्त्वा-
 अप्त्वा-प्रिया-द्य (111b), 115^a.
 7) अपरिपूर्णत 不滿足 SW, 不能滿足
 T, अप्त्वा-अप्त्वा-प्रिया-द्य (153a), 212^a.
 8) अपरिमित 無量 SWT, अप्त्वा-
 अप्त्वा-प्रिया-द्य (167b), 245^a, 161^a.
 9) अपरिमुक 不脫 S, 不得出離 W,
 不能解脫 T, अप्त्वा-अप्त्वा-प्रिया-द्य (127a),
 174^a.
 10) अपवर्ग 有滅 S, 221^a.
 11) अपवाद 謗謗 ST, 謗 W, 損(益) T,
 (有)無 W, अप्त्वा-प्रिया-द्य (90b),
 70^a, 71^a, 72^a, 92^a,
 96^a, 131^a, 155^a, 226^a, 247^a, 248^a, 304^a,
 309^a, 310^a, 331^a; -क 92^a; -समारोप
 309^a.
 12) अपवादिन (blaming), 91^a, 331^a.
 13) अपश्यत (not seeing), 291^a, 293^a, 300^a.
 14) अपश्यमान (not seeing), 328^a.
 15) अपस्तार 阿波羅 W, अप्त्वा-प्रिया-
 द्य (173b), 261^a, 262^a.
 16) अपस्तारी 阿波羅女 W, अप्त्वा-प्रिया-
 द्य (193b), 262^a.
 17) अपहत 奉入 W, 入於… T, 251^a.
 18) अपातनत 不墮 SWT, अप्त्वा-प्रिया-
 द्य (159a), 226^a.
 19) अपाय (hell), 226^a.

20) अपायास (उपायास in text), 迷亂 S,
 अपायास-प्रिया-द्य (137a), 174^a,
 180^a.
 21) अपारमिता-पद 非波羅蜜句 ST, 非
 波羅蜜見 W, अपारमिता-प्रिया-
 द्य (74b), 36^a.
 22) अपुण 非福 ST, 罪 W, अपुण-कृत्य
 म-प्रिया-द्य (141a), 183^a.
 23) अपुनरारम 不更造 S, 非復共造 T,
 अपुनरारम-प्रिया-द्य (151a), 207^a.
 24) अपुष 無有起處 T, 無生因 W,
 अपुष-प्रिया-द्य (196a), 336^a.
 25) अपूर्व-चर (having no antecedents), 241^a.
 26) अपेक्ष 觀察 S, 相待 WT, अपेक्षा-
 (82b), 52^a, 103^a, 104^a, 202^a, 339^a,
 341^a; -ए 依 W, 相待 T, अपेक्षा-
 (262a), 354^a; -संकला 緣鉤鎖 SWT,
 सुनक्तम-प्रिया-द्य (149b), 202^a.
 27) अपेक्षा 觀 ST, 依…故 W, 58^a, 166^a,
 230^a.
 28) अपेक्षित 觀 S, 相待 T, अपेक्षा-
 (92b), 74^a.
 29) अपेक्षितय (to be considered), 191^a.
 30) अपेक्ष्य (to be considered), 341^a.
 31) अप्रचरित 行 SWT, 74^a, 17^a; -पूर्व 本
 來…無有諸行 T, 未曾行 W,
 अप्रचरित-प्रिया-द्य (98a), 74^a; -शून्यता
 不行空 W, 無行空 ST, अप्रचरित-
 प्रिया-द्य (92b), 74^a, 17^a.
 32) अप्रचार 離 T, 減 W, अप्रचार-प्रिया-
 द्य (68b), 19^a.

अप्रज्ञान 不知 W, 不能知 T, ८८
कुरुषाधारमात् (196b), 336¹⁶.

अप्रज्ञानत् (not knowing), 170¹⁴.

अप्रतिष्ठि-पद 非假名
見 W, 非假立句 T, परिषाधामेद्
धर्मिक्षण (74b), 35¹⁴.

अप्रतायमान (not being known), 238⁹.

अप्रतिष्ठाण-पद 非願句 ST, 非願見
W, श्वेतामेदाधर्मिक्षण (74a), 35⁸.

अप्रतिष्ठित 無願 SWT, श्वेतामेदाध
यन्त्र (94b), 78⁷, 176⁸.

अप्रतिहान 不了 T, मैत्रेयाध (125a),
146¹⁴.

अप्रतिलभ 不可得 T, 不得 S, 84⁴.

अप्रतिष्ठ 不住 W, 無住 T, परिषाधेद्
(198b), 343⁸.

अप्रतिष्ठित 不住 SWT, मैत्रेयाध
(82b), 53¹⁴.

अप्रतिसंख्या-निरोध 非數滅 S, 非緣
滅 W, 非擇滅 T, परिषाधाध
पर्याध (138b), 177³, 197¹².

अप्रतिसंवेदक 不覺 S, 能得 W, 受
T, मैत्रेयाध (156b), 221⁴.

अप्रतिसंवेदित 不知 S, 不生 W, 分
別…受 T, 221⁴.

अप्रतिहत 無礙 ST, 無有障礙 W,
परिषाधामेद् (96a), 81⁷ ११ १४.

अप्रतीय-समुत्पत्ति 不從緣生 ST, 不
從因生 W, कुरुत्तेऽप्येषाधामात्
परिषाधाध (106b), 104².

अप्रत्यय-पद 非緣句 ST, 非緣見 W,
कुरुत्तेऽप्येषाधामेद् (74a), 34¹⁷.

अप्रपत्तन (not falling), 102¹⁵.

अप्रमाण 無量 SWT, कुरुत्तेऽप्येद् (88a),
30³, 65¹⁶, 121¹², 188⁶, 229¹⁶, 232⁸ ६, 279¹¹.

अप्रयत्न 自然 WT, 355¹⁸.

अप्रलय (no destruction), 200¹⁷.

अप्रविष्ट-निर्गत 不出不入 S, 不入
不出 WT, उपरिषाधामेदाधामात्
यन्त्र (145a), 193⁸.

अप्रवृत्त 不生 S, 無 WT, मैत्रेयाध
(202b), 162⁸, 345⁷, 356⁷; -त्व 不生
SW, 無 T, मैत्रेयाध (153b), 214⁴.

अप्रवृत्ति 不住 S, 不起 T, 不生 S,
不…起 T, परिषाधामेद् (68b), 9⁸ १०,
19⁴, 52¹⁰ ११ १२, 74¹¹, 80¹⁶, 97¹⁷, 133¹⁸, 136¹⁹,
170¹² १५, 176³ ६, 178¹² १७, 179¹⁴, 180¹⁶,
182², 183² ७, 185², 199⁴, 200⁶, 205¹⁰ १२,
215¹, 221¹⁶, 226⁴ ११, 228¹⁶, 237¹² १८, 311¹²,
342⁷, 345⁷, 347⁷, 351¹⁴, 356⁷, 360¹⁴; -त्व
不生 SW, 不起 T, मैत्रेयाध (127b),
151¹⁷; -भव (不見有諸行 W?),
9¹⁰; -लब्ध-हेतु-वादिन 說無生
無相無因 S, 說一切法無因無
緣無有生相 W, 說一切法無生
無相無因無緣 T, कुरुत्तेऽप्येद्
परिषाधामेद् (139b), 179⁸;
-विकल्प 不住分別心 W, 不起
分別 T, कुरुत्तेऽप्येद् परिषाध
(63b), 9⁸.

अप्रवेश 不入 ST, मैत्रेयाध (127b),
158¹.

अप्रवृत्त 非正問 ST, 問非是 W, त्व
परिषाध (111a), 114⁴.

अप्रहीण 非舍 S, 非可捨 W, 無捨
T, श्वेतामेदाध (104a), 63¹¹, 99¹¹,
121⁷, 240¹⁴.

अप्राप्त 不得 S, 無所得 W, 無得
T, श्वेतामेदाध (18a), 134¹⁰, 157¹⁷.

अप्सर 妻 W, 妹女 WT, श्वेताध (62b),
4⁸, 6⁸, 7¹.

अप्सरस 天女 W, 15¹⁸.

अफल-पद 非果句 ST, 非果見 W,
परिषाधामेदाधिक्षण (75a), 36⁸.

अविच्छ (for अविच्छ), 非像 SWT,
परिषाधामेदाधिक्षण (101b), 94¹ २;
-पद 非像句 S, 非像見 W, 非
影像句 T, परिषाधामेदाधिक्षण
(74b), 36¹.

अबीज (for अबीज), 無子 W, 非種 T,
27⁵; -क विवेचन 無種子 W, 非種 T, श्वेतामेद्
(177b), 275⁴.

अबुध 不覺 S, 無知 W, 不了 T,
愚人 WT, मैत्रेयाध (149b), 131⁷, 203⁸,
274⁷, 317⁸, 340⁷, 349³, 350¹⁴.

अबुद्धि-पद 非慧句 S, 非智見 W, 非
覺句 T, श्वेतामेदाधिक्षण (74b), 35¹⁵.

अबोध 不覺 S, 不見 W, 不了 T,
मैत्रेयाध (166b), 242¹⁷.

अभात् 水界 ST, 水大 W, कुरु
परिषाध (115b), 124⁴, 354⁴.

अभस्त 不食肉 SWT, त्वपरिषाधामात्
मैत्रेयाध (71b), 27¹⁵, 245⁹, 246³ ४ ५ ७ ९ ११ १२,
247² ६ ७ ९ ९, 248² ३ ७ १४ १६ १७, 249², 252¹⁴,
256¹⁰ ११.

अभिज्ञन 不損壞 ST, 不增不減 W,
कुरुत्तेऽप्येद् (164a), 236¹⁰.

अभय (fearless), 92⁴.

अभव 無有 SWT, 無 WT, 非性 S,
श्वेतामेदाध (72b), 30⁸, 168¹⁵ १६,
184¹⁸(bis), 266¹³.

अभाजन (see under भाजन), 313¹².

अभाव 無性 S, 無有實體 W, 無
WT, 非有 T, 非性 S, 無體 T,
無法 W, श्वेतामेदाध (82b), 17²,
40⁹, 41¹, 51¹¹, 53² ३, 60⁴ १४, 61¹⁴ ७ १० ११ १७,
62⁹, 64¹, 71⁷, 72⁶, 73⁵, 74⁴ ११ १२ १५, 76⁴, 80¹
15 १६, 82¹, 86², 88², 90¹¹, 92⁶, 93⁶, 94⁷ ११,
97¹¹, 99², 104¹⁰, 105¹, 106¹⁰(bis) १४,
108⁴, 110¹³, 111⁴, 112⁴, 115¹⁰, 116³, 118⁷,
120³ ६ ९, 123¹⁶, 125⁷, 131^{१०} १२ १५, 132¹⁰ ११,
133⁹, 134¹³, 135¹⁴, 136¹⁴, 139¹⁶, 145⁵ १२,
146^{१०} १५ १४ ७, 149⁵, 151^{१५} १४ १७, 153¹⁶(bis),
156^१, 158¹³, 159¹⁶, 162⁴ ११, 163¹⁴, 165⁸, 166¹,
169¹, 170¹ ११ १२ १५, 171² ६, 176², 178¹⁴,
181⁶, 184¹⁶, 191^{१०} ११, 193¹⁰, 194^{१२} १२, 198¹⁷,
199^{१२} १४, 200¹⁶, 201^{१०} ११, 202⁴, 203², 205^१,
206^{१२} १७ १२, 208^१(bis) १७, 209², 212¹, 217^१ १३,
237¹³, 238⁵, 241¹⁵, 269¹⁰, 282^{१०}, 287^{१३},
288^{१५}, 292^४ ६, 296^{१०}, 297^{१४}, 302^५,
304¹¹, 305¹ २, 307¹¹, 311^१ ४, 313¹ २, 319¹⁵,
321¹⁶, 323¹⁵, 325^१ १०, 330^१, 332^१ ४ ११, 336^१
१०, 337^१ ३ ११, 338^१, 339¹¹, 342^१, 345¹⁵,
349^१ ११, 350^१, 355^१ ११ १२, 356^१, 359^१, 370^१
११, 371^१ ११, 372^१.

अभाषा (for अ), (see under भाष), 360^१.

अभिषु-पद 非比丘句 ST, 非比丘見

W, वृष्णु-मेद-धर्मी-क्षेत्र (75b), 37^a.
अभिग्रहण 取 W, धैर्य-द (68a), 18^a.
अभिशा 神通 SWT, 通 SWT, मर्त्त
दस-मेष (61a), 1^a, 24¹⁰, 28¹⁵, 30^a, 34¹⁰, 35¹⁰, 42¹⁰, 45¹⁴, 73¹⁰, 120^a, 126², 137¹⁰, 160¹⁵, 227², 231¹¹, 237⁸, 269⁴, 273⁷, 276¹¹, 292¹⁴, 309^a, 318^a, 359¹⁶, 374¹⁶; -न 神
通 S, 神力 W, 通 T, मर्त्त-धर्म-
मेष-द (96a), 81¹³; -पद 明句 S, 通
見 W, 神通句 T, मर्त्त-धर्म-मेष-
धर्मी-क्षेत्र (74b), 35¹⁰.
अभिनम (burnt), 90^a.
अभिघोषन 顯示 S, 明了顯示 T
दृष्ट-द (108b), 108¹³.
अभिधर्म 比疊 W, 論 T, क्षेत्र-मर्त्त-
द (181b), 290^a.
अभिधा 有名字 T, 說於名字 W
प्रश्न-त्रिद्वय-वृद्ध (68b), 19^a.
अभिधान 說 SWT, 名義 T, 名 T
言說 S, 言語 W, 語言 T, वृद्ध-
द (77b), 42^a, 111², 113¹¹, 187² 10, 189¹⁵,
287⁶, 329¹⁰.
अभिधेय 所說 SWT, वृद्ध-प्र-प्र-द (117
b), 42^a, 128¹³, 187² 10, 189¹⁴; -वस्तु 所
說事 ST, 前法實事 W, वृद्ध-प्र-प्र-
प्र-वस्तु-धर्मी (117b), 128¹²; -विकल्प
所說妄想 S, 可知分別 W, 所
說分別 T, वृद्ध-प्र-प्र-प्र-वस्तु-धर्मी-
क्षेत्र-द (117b), 128⁴ 11.
अभिनिर्भित 化 W, 8^a.
अभिनिर्वाह 行 WT, मर्त्त-धर्म-वृद्ध-

(66b), 15¹⁰ 12.
अभिनिहृत 行 W, 所持 W, 起 WT.
मर्त्तव्यसंप्राप्तिसंप्राप्ति (85b), 15¹¹ 12.
 58¹⁵.
अभिनिविश्यमान (*adhering to*), 107¹³,
 227¹⁴.
अभिनिविष्ट 著 W, 執 T, **मर्त्तव्यसं**
प्रित्येक (64b), 10¹, 11⁸ 11, 14⁹ 14, 51¹¹ 14 15,
 58¹⁶, 57¹⁶, 62¹⁶, 77¹², 79², 90¹⁶, 91¹⁴, 92⁹ 7,
 104¹⁶, 112² 4, 115¹⁶, 129¹⁶, 150¹¹, 157⁹ 10,
 162¹⁶, 170¹⁷, 171¹², 175¹¹ 11, 178¹², 193¹⁰,
 194¹⁴, 196¹⁰, 197⁴, 220¹³, 221⁴, 223⁹ 8,
 230⁵, 236², 237⁴, 244¹³.
अभिनिवृत्त 起 S, 所成 W, 入 T, 得
 離 S, 不離 W, 斷 T, 51⁷, 152⁶.
अभिनिवृत्ति 生 ST, 緣生 W, 130¹¹.
अभिनिर्वृत्त 生於彼 S, 所生 W, 所
 成就 T, 70².
अभिनिर्मिति 生 W, अस्ति? (199b),
 347³.
अभिनिविशत् (*attaching*), 225⁹.
अभिनिवेश 執著 WT, 計著 S, 取著
 T, 執 T, 染著 T, 著 S, 妄執 W,
 11⁴ 11, 18¹, 19⁹, 44¹², 51¹⁴, 53⁸, 56¹⁶ 17 19,
 57¹⁶ 16, 58⁴, 64⁹, 67⁹ 10 (bis)¹¹ 12, 68¹¹, 71¹⁰ 14,
 72⁵, 74² (bis), 77⁴, 78¹², 80⁷, 82³, 84¹⁰, 85⁹ 11,
 86⁸, 90² 4 14, 97¹⁰, 100¹ 2 3 (b's)⁴, 107¹⁸ 17,
 108¹⁷ 18, 109¹ 2 17, 110¹ 2 7 8 13, 111¹¹, 118²
 4 8, 122¹⁶ 11 13 14, 124⁹ 11, 126¹⁰, 127¹ 3,
 128¹⁰ 14, 129⁵ 7 11 16, 150¹⁰ 11 14 15 17, 151¹
 7 8 9 11, 152³ 10, 155¹⁸, 158¹⁴, 160¹³, 161¹⁰
 11 (bis)¹² 13 (bis)¹⁴ 15, 162⁴, 163² 3, 165⁴
 (b's)¹⁵, 170¹⁶, 173¹⁷, 174¹², 175⁹ 11, 176²,
 178², 179¹ 2 3, 180⁸, 184³ 18, 190⁶ 10, 199¹⁴,
 207⁴, 214⁷, 220¹², 225⁵, 230³, 237⁴ 13,
 277¹⁴, 291⁹, 303¹⁰; -प्रतिविकल्प-संख्या

計著相續 S, 執着相續 W, 執着 T, मर्त्तव्यस्थापनी मर्त्तव्यस्थापना (131b), 161¹¹ 12¹³ 14; अभिनिवेद 51¹⁵ 53⁶, 57¹⁶, 77¹².
अभिनिवेद W (*to be adhered to*), 130⁵.
अभिनिष्ठत 成就 W, 起 S, 幻作 T
शूष्टिः (84a), 57².
अभित 不壞 S, 而生分別 W, 無別體相 T, 無別 W, षष्ठी-यज्ञ-प्रयोग
मित्य-प्रयोगकर्त्तव्य (117a), कर्त्तव्य (117b), 37¹⁸, 44¹⁸, 46¹⁴, 127²,
193⁶, 206¹⁸, 235¹¹, 314¹¹, 326¹⁸, 330¹⁸,
331¹¹, 372¹⁸; -त्व अ無差別 W, 無別
T, 330¹⁸; -लक्षण 不壞相 S, 無差別相 W, 無異相 T, कर्त्तव्य-षष्ठी-यज्ञ-प्रयोग
मित्य-प्रयोग (76a), 37¹⁸, 44¹⁸, 46¹⁴, 206¹⁸, 296⁶,
314¹¹; -संहा 取差別相 W, 不分別名 S, 差別名號 T, मैष-षष्ठी-यज्ञ-प्रयोग (145b), 193⁶.
अभिप्राय 意 W, 說 T, षष्ठी-यज्ञ-प्रयोग (20a),
347¹².
अभिभव 隱蔽 ST, 不見異 W, विषय-प्रयोग (135a), 169¹⁰ 17.
अभिभावित (*overpowered*), 353¹.
अभिमानिक 增上慢 ST, 橋慢 W,
द्विकृत्यांक (125a), 146¹⁹(bis).
अभियुक्त (*intent on*), 73².
अभियोग (*exertion*), 197¹.
अभिरत 樂著 T, षष्ठी-यज्ञ-प्रयोग (141a), 14², 186⁴.
अभिलक्षण (for अभिलाषण), 得樂修
W, 專求 T, षष्ठी-यज्ञ-प्रयोग (95b), 80².

अभिलपत् (*talking*), 111^{3 4}.

अभिलाप 言說 SWT, 能說 T, 言語 W, **अभिलाप॑ दर्शन॒ विद्या** (71a), 26⁴, 33⁹, 77¹², 85¹⁴₁₅, 87¹¹, 100^{1 2}, 104¹²_{13 14 15}, 105^{1 2 4} (*bis*)^{13 15}, 128^{5 9 10 13 17}, 280^{12 13}, 319^{12 13 14}; -विकल्प 言說妄想 S, 言語分別 W, 言說分別 T, 128^{4 9 10}.

अभिलाप्ति 所說 ST, 義 W, 言語 W, 語默 T, **कृष्ण॑ गीत॒ अध्यात्म॒ विद्या** (97b), 18⁷, 85^{14 15}.

अभिलाप्ति 樂求 W, 樂 SW, 執着 T, 取著 T, **कृष्ण॑ विद्या** (115b), 124¹¹, 128¹⁷ (°प in text), 183¹⁰, 241⁵.

अभिलाप्तिन् 樂 ST, 樂求 W, **अभिलाप्ति॑ दर्शन॒ विद्या** (100a), 90¹⁰, 119⁵, 237^{5 11}.

अभिविद्धि 善分別 S, 說 W, 解說 T, **द्वृश्यम्॒ विद्या** (131a), 160¹².

अभिव्यक्ति 現 SW, 顯現 T, 所現 S, 所行 T, **अभिव्यक्ति॑ विद्या** (77a), **गणयन॑ विद्या** (98b), 40¹⁴, 86¹⁶, 87⁸, 113⁷, 155⁷, 159^{2 3}.

अभिव्यञ्जक (*revealing*), 228⁹.

अभिशब्दित (*mentioned*), 357⁴.

अभिषिक्त 受位 W, 灌其頂 T, **नष्ट॑ वृक्ष॒ विद्या** (61a), 1¹¹, 123⁶, 374¹⁷.

अभिषेक 灌其頂 SWT, 灌頂 SWT, 受位 W, **नष्ट॑ वृक्ष॒ विद्या** (61a), 1¹¹, 45¹⁴, 70³, 100⁶, 101^{11 12}, 102¹³, 103⁶, 123⁶, 190¹⁷, 359¹⁶, 329⁴; -ति 受佛職 W, 灌其頂 T, **नष्ट॑ वृक्ष॒ विद्या** (66b), 157.

अभिष्वङ्गि 受 T, 樂 SW, 179¹.

अभिसमय 行 WT, 修行 S, 如實修

行法 W, 具修行法 T, 如實法 W, 現證實法 T, 現證 T, 無間 S, 空無自性 (64a), 10¹², 12¹, 63² 8 4 5 10 (bis), 64² 4 5 9 10 11 12 13 (bis)¹⁷, 79¹⁸, 139 11 16 17, 161¹⁸ 17, 215¹, 216⁴, 218⁶ 7, 242¹⁰, 243⁹, 349¹²; -**पर्म** 無間法 S, 如實修行 W, 242¹⁰; -**प्राप्ति** 得無間 S, 證法 W, 得證法 T, 236¹⁰; -**अनिक** 所起 S, 得證 W, 所得 T, 243⁹.

अभिसमित-धर्म 證如實法 W, 現證實法 T, 無間等 S, 空無自性……空無自性空無自性 (121b), 139⁹.

अभिसमेत 無間等法 S, 得證 W, 現證 T, 空無自性空無自性 (122a), 139¹⁰.

अभिसंकार 善修方便 ST, 修…方便 W, 諸行 T, 行 S, 諸功用 W, 作行 S, 作業 W, 空無自性空無自性 (147a), 196¹⁰, 209¹, 222⁸.

अभिसंकारिक 有爲作 W, 有爲 T, 空無自性 (204a), 361¹⁷.

अभिसंकारिकिन 有行 S, 有爲行 W, 有作 T, 空無自性空無自性 (152b), 211¹⁴; -^{text} **real** **सत्** (152b), 211¹⁴.

अभिसंबद्ध (connected), 184⁴, 240⁴

अभिसंबुद्ध 得最正覺 S, 證大菩提 W, 成最正覺 T, 空無自性空無自性 (123b), 142¹⁷, 144².

अभिहित 說 SWT, 106³, 120¹¹.

अभूत 不實 S, 虛妄 WT, 無 T, 非實法 W, अनुष्ठानप्रिय (126b), 19³, 38⁴, 62¹¹, 69¹⁰, 77¹⁴, 79³, 91⁶, 118³, 150⁹ 17, 151⁷ 11, 152¹⁰ 11, 163⁹, 199⁵, 218¹⁵ 16, 221³, 225¹⁴, 227¹⁰, 239⁹, 254¹, 303¹, 334¹⁵ 10; -**पद** 非實句 S, 非四大見 W, 非大種句 T, अनुष्ठानप्रियपरिक्षण (74b), 35¹⁰; -**परिकल्प** 不實妄想 SW, 虛妄分別 T, अनुष्ठानप्रियपरिक्षण (126b), 38⁴, 69¹⁰, 118³, 149¹⁴ (bis)¹⁴ (bis)¹⁷ (bis), 221³. अभूतिक (unreality), 368¹⁴.

अभूमि-पद 非地句 ST, 非地見 W, 空無自性空無自性 (74b), 35¹³.

अभेद 不壞 S, 差別 W, 不異 T, 空無自性空無自性 (108a), 106¹⁸.

अभेद्य 不壞 W, अनुष्ठानप्रदेव (206a), 239³, 368¹⁰.

अभौति 無大 W, 非實 T, अनुष्ठानप्रिय (67b), 17⁸; -**का** 非造所造 T, 非四大生 W, 非造非所造 S, अनुष्ठानप्रिय (121a), 137⁴, 303³; -**का** 非諸大 W, 非諸造 T, अनुष्ठानप्रिय (185a), 303⁴.

अभ्यन्तर 皆悉 T, 中 SWT, कुट (134a), 166¹² 16, 175¹⁴, 176¹.

अभ्यवकाश 露地 W, 餘地 T, अनुष्ठानप्रदेव (187a), 308¹⁹.

अभ्यसन 更學 W, 現習 T, अनुष्ठानप्रियप्रदेव (180a), 287⁷.

अभ्यस्त 以學 W, 已習 T, 發 W,

वेद्यशास्त्र (114b), 120¹³, 287⁷.

अभ्यस्त न व T, 18¹¹.

अभ्याल्यान 謗 W, 謗謗 T, अनुष्ठान (171b), 66³ (-ल्याना in text), 254¹, 255⁸.

अभ्यास 習 S, अनुष्ठान (166a), 241¹².

अभ्युपगम 受 ST, 145¹¹.

अभ-कृ झ雲雨樓 W, अनुष्ठान (20b), 349¹⁵.

अभान्ति-पद 非迷句 ST, 非迷見 W, कृपनप्रियक्षण (75a), 36⁸.

अमणि 非摩尼 S, 非寶珠 W, 非珠 T, कृपनप्रिय (101a), 92¹⁴.

अमध्यम-पद 非中句 ST, 非中見 W, 34¹⁷.

अमनुष झ非人 W, मीमांप्रिय (169b), 249³, 261¹², 262¹⁵; -**अवचार** 248⁴.

अमनुष्टी 非人女 W, मीमांप्रिय (173b), 261¹³.

अमरीचि-पद 非焰句 S, 非陽炎見 W, 非陽焰句 T, अनुष्ठानप्रियक्षण (74b), 36¹.

अमल 離垢 W, 無垢 T, अनुष्ठान (190b), 3¹¹, 303¹¹, 318¹⁰, 343².

अमात 大臣 WT, कुट्टी (170a), 251², 308¹⁷.

अमाया-पद 非幻句 ST, 非幻見 W, कृपनप्रियक्षण (74a), 35¹⁷.

अमित (inmeasurable), 269⁴.

अमिताभ 阿彌陀 W, 無量壽 T, कृपनप्रिय (179a), 283⁷.

अमुक्त 非解脫 T, माश्रेव (207a), 371⁶.

अमुच्चमुच्च in text), 265², 268¹⁵.

अमुच्चन 不妄 S, 不失 W, 無有妄 T, अनुष्ठानप्रिय (166a), 241¹⁶.

अमोक्त-कारण 不至解脫 S, 能離解脫因 W, अनुष्ठानप्रिय (156b), 221⁵.

अमैयुन-पद 非婬欲句 ST, 非婬欲見 W, अनुष्ठानप्रियक्षण (74b), 36³.

अयथाभूत 不…如實 SWT, अनुष्ठानप्रिय (110a), 112⁴.

अयस्काल 磁石 WT, अनुष्ठान (174a), 266¹.

अयाचित 無…求 S, 不見聞不疑 W, 不教求 T, माश्रेव (72a), 257¹².

अयान 非乘 SWT, अनुष्ठानप्रिय (88b), 65¹¹, 243⁴, 297⁷, 306³; -**चय-पद** 非三乘句 ST, 非三乘見 W, अनुष्ठानप्रियक्षण (74a), 35⁴.

अयुक्त 無修行者 W, 不如理 T, कृपनप्रिय (199b), 343¹⁵.

अयुक्ति 不與如實正法相應 W, 不如於理 T, अनुष्ठानप्रिय (141a), 185⁷; -**त** 無智 WT, मीमांप्रिय (203b), 359¹¹ 13; -**पद** 非成句 S, 非相應見 W, 非相應句 T, अनुष्ठानप्रिय (74a), 35².

अयोनिज 從邪生 W, 邪念復有因 T, 349¹.

अयोनिशस 邪念法 W, 虛妄 T, 265¹⁵.

अरस्य-पद 非護句 ST, 非護見 W,

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟିକ୍ଷଣ (75a), 36¹⁰.
 ଅରବଦ-ଚକ୍ର-ୟନ୍ତ୍ର ର୍ବୀଲୁଟ୍ ST, 轉轎車
 輪機關 w, କୁଞ୍ଚିତ-ଶ୍ରୀ-ର୍ବୀଲୁଟ୍-ପରିଷର-ଶ୍ରୀ-
 ର୍ବୀଲୁଟ୍ (90a), 69¹.
 ଅରାସିବନପ୍ରସ୍ଥ ଅରାସିବନପ୍ରସ୍ଥ w, ର୍ବୀଲୁଟ୍-
 ର୍ବୀଲୁଟ୍ (169a), 248¹.
 ଅରତ୍-ପଦ 非寶句 ST, 非寶見 w,
 36¹².
 ଅରବ �非彼所成 SW, 應非彼成 T,
 ନ୍ତ୍ର-ର୍ବୀଲୁଟ୍-ପରିଷର-ଶ୍ରୀ-ର୍ବୀଲୁଟ୍-ପିତ୍ର (76a),
 38¹¹ (bis).
 ୫ ଅରସ-ଗୃହ (not coveting delicacies), 250⁹.
 ଅରସ-ପଦ 非味句 ST, 非味見 w, ର୍ବୀଲୁଟ୍-
 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟିକ୍ଷଣ (75a), 36¹⁴.
 ଅରାୟ-ପଦ 非王句 ST, 非王見 w,
 କୁର୍ବା-ଦୈଶୀଳ-ମାଯୀନ-ଶ୍ରୀ-ର୍ବୀଲୁଟ୍-କ୍ଷଣ (75a),
 36¹¹.
 ଅର �怨 WT, ର୍ବୀଲୁଟ୍ (121b), 138¹³.
 ଅରିଷ ଅରିଷ w, 知無盡者 T,
 192¹⁵.
 ୧୦ ଅରସ �非色 SWT, ର୍ବୀଲୁଣଶ-ମୀତ୍ର (118b),
 131⁷, 304⁹, 355¹⁴.
 ଅରସିନ �非色 S, 無色相 w, ର୍ବୀଲୁଣଶ-
 ମେତ୍ (116a), 125² 4, 344¹¹.
 ଅର୍ଧ 大價 S, 無價 WT, ର୍ବୀଲୁଣଶ-
 କ୍ଷଣ-ର୍ବୀଲୁଣଶ (94a), 77¹⁷.
 ଅର୍ଚିସ 火焰 w, 焰熒 w, 焰 T,
 ମୋତ୍ରେ (68a), 18², 274¹².
 ଅର୍ତ୍ତ-ପଦ 非節句 S, 非時見 w, 非時
 節句 T, ର୍ବୀଲୁଣଶ-ଶ୍ରୀ-ର୍ବୀଲୁଟ୍ (75a), 36¹⁷.
 ୧୧ ଅର୍ଥ 義 SWT, 境界 WT, 法 w, 說

T, 境相 T, བ୍ରତ୍ତ (61a), ୨୧^{୧୦}, ୧୧^{୧୧}_{୧୩},
୧୯^୧, ୨୦^୧, ୨୨^{୧୪}, ୪୭^୧, ୫୮^୧, ୭୧^୧, ୭୭^{୧୦୧୧}, ୭୮^୧,
୮୫^{୧୦୧୬}, ୮୬^{୧୫}, ୮୭^{୧୬}, ୮୯^{୧୩୧୫}, ୯୯^{୧୨}, ୧୦୮^୧,
୧୧୨^{୧୨୧୬}, ୧୨୪^{୧୭}, ୧୫୦^{୧୦୧୪୧୬}, ୧୫୧^{୧୪୨}, ୧୫୨
୧୦୧୧(bis), ୧୫୪^{୧୦୧୧୧୭}, ୧୫୫^{୧୦୫୬}(bis)?(bis)
୧୪^୧, ୧୫୮^{୧୦}, ୧୬୦^୦(bis)^{୧୫}, ୧୬୯^{୧୦୧୩୧୬}, ୧୭୦^{୧୦୧୧},
୧୭୩^{୧୦}, ୧୭୭^{୧୧}, ୧୭୮^{୧୬}, ୧୮୦^୦(bis), ୧୮୨^୧, ୧୮୬^{୧୬},
୧୮ସ^{୧୬}, ୧୯୩^{୧୩୧୪}(bis)^{୧୫୧୮}, ୧୯୪^{୧୦୨୦୨୦}, ୧୯୫^{୧୭},
୧୯୬^{୧୭}(bis), ୧୯୭^{୧୦୧୦}, ୧୯୯^୦(bis), ୨୦୦^୦,
୨୦୩^୧, ୨୨୩^{୧୭}(bis), ୨୨୬^{୧୧}, ୨୩୩^{୧୦୧୫}, ୨୩୬^{୧୫},
୨୩୭^{୧୫}, ୨୩୪^{୧୦୧୨}, ୨୫୪^{୧୦}, ୨୮୦^{୧୦}, ୨୮୪^{୧୦}, ୨୮୫^{୧୫},
୨୮୭^{୧୫}, ୨୯୦^{୧୦}, ୨୯୧^{୧୦}, ୨୯୩^{୧୧}, ୨୯୪^{୧୦}, ୨୯୯^{୧୫}(bis),
୩୦୦^{୧୬}, ୩୦୧^୧, ୩୦୮^୧, ୩୨୦^{୧୬}, ୩୨୧^୧, ୩୨୬^{୧୦୧୩},
୩୨୭^{୧୦୧୧}, ୩୨୯^{୧୧୧୩}, ୩୩୪^{୧୦}, ୩୩୬^{୧୦୧୨}, ୩୩୭^{୧୦},
୩୩୯^{୧୨}, ୩୪୧^{୧୦}, ୩୪୩^୧, ୩୪୫^{୧୨}, ୩୪୬^୧, ୩୫୦^{୧୧},
୩୫୨^{୧୦}, ୩୫୩^{୧୨}(bis), ୩୫୪^{୧୭}, ୩୫୬^{୧୦}, ୩୬୦^{୧୨},
୩୭୩^{୧୨}, ୩୭୪^{୧୦}; -କାମ 欲求義者 ST,
欲得義者 W, ଦ୍ଵାରା ପାଇ (147a),
୧୯୭^୧; -କୋବିଦ �如实知 W, 了其
義 T, ଦ୍ଵାରା ପାଇଶ (202b), ୩୫୬^{୧୧}:
କୀଶତ୍ୟ 善於義 ST, 善義者 ST, 義
巧方便 W, 義方便 W, ଦ୍ଵାରା
ପାଇଶ (147a), ୧୯୭^୧(bis); -ଗୋଚର
實有境界 W, 所行義 T, ଦ୍ଵାରା
ହୃଦୟ (190b), ୩୧^{୧୦}; -ଜୀ 知於如
實義 W, 善解…義 T, ଦ୍ଵାରା ପାଇ
(187a), ୩୦୮^୧; -ଇଷ ୩୦୦^{୧୦}, ୩୫୦^{୧୪}; -ପର
能取於正義 W, 住於義 T, ଦ୍ଵାରା
ପାଇଶ (207b), ୩୭୩^{୧୨}; -ପ୍ରବିଚ୍ୟ �觀察
義 SWT, ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ପାଇ
(103a), ୨୭^୧, ୨୯^୧, ୨୮୪^୧; -ପ୍ରବିଚ୍ୟ-ଘ୍ୟାନ
觀察義禪 SWT, ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ପାଇ
(103b), ୨୭^{୧୨୧୪}, -ମୁଖ୍ୟ
爲 W, 開悟 ST, ଏହି ହୃଦୟ (106)

अ, ६^४, ४७^४, ६४^३, ७३^०, ७८^०, ७९^{२ ३ ४}, ८१^३, ९७^{२ १४}, १०२^{१४}, १०८^{१०}, १११^{१०}(bis) १५ १७, ११२^२, ११४^{१२}, *passim*; -विकल्प 利妄想 S, 義分別 W, 財分別 T, वैद्यन्तकरण
 एवं कृष्णादि (११७b), १२८^{१६}; -संकात
 境界…現 T, 體形相 W, द्विकृति-वैद्यन्त (१९३a), ३२६^{१३}; -संबद्ध 體
 和合 W, 緣境 T, ३३०^{१२}; -अन्तर-
 प्रियेष 更有餘義 S, 更有義 W,
 爲別有義 T, द्विकृति-वैद्यन्तमध्येष (१६०b), २२९^{१४}; -अभियोग १९६^{१७}; -आ=
 कार 諸事 S, 諸境 W, 境相 T,
 似義 W, द्विकृति-वैद्यन्त (१५८a), २२३^{१७}, ३५३^२; -आभास 無物而見物 W, 所
 現虛妄相 T, 分別義 W, 似生 W,
 似外境 T, 似境 T, 外義 W, 影
 像 T, द्विकृति-वैद्यन्त (१७९b),
 २८३^{१६} (०४ in text), २८४^४ (०४ in text),
 २८५^५, ३३६^{४ ५ ६}.
 सर्वम् (*on account of*), ६^४, १११^{१०}(bis) १५ १७,
 ११२^३, ११४^{१२}, *passim*.
 सर्वाय (*for the sake of*), ४८^१, ८९^{१५}, १५०^४,
 ३१०^२.
 सर्थिन् (欲得) 欲得 W, 欲求 T, द्विकृति-वैद्यन्त (१६२a), २३०^१, २३२^{१७}, ३२७^२; -उत्पत्ति २५४
 २ ३; -उत्पत्तिनिदान २५२.
 सर्थे (*for the sake of*), ४८^१, ३०९^१.
 सर्थ 半 ST, ३१^{३ ५}.
 सर्थ-हार 要珞 WT, शिरा (६६b), १५^{१४}.
 सर्वुद (*a shape of foetus*), २८५^{१२}.
 सर्विं-पद 非仙句 ST, 非仙人見 W,

अलोकायत 非世論 ST, 非盧伽耶陀 W, वैदिकं द्वितीयं धर्मं प्रियं द्वि^{१०} (139a), 178^{१० १५}.

अलोक्य 無貪 S, 不歡喜 W, 非想 T, मैंक्षम्याद् (102a), 94^{११}.

अलोक्लृप 不生貪著 T, 不爲世間貪著諸味 W, मैंक्षम्याद् (169b), 250^०.

अस्त-महा 大小 T, 17^७.

अवंश-पद 非族句 S, 非族姓見 W, 非種族句 T, इश्वरं द्विरूपं (75a), 36^{१०}.

अवकाश 聽 W, 許 T, अपासु (66a), 14^१, 15^१, 16^१, 23^१, 176^१.

अवक्षय (not being told), 300^०, 369^{११}, 371^०, 372^१, 373^०.

अवक्षण 超入 S, 入 T, वृक्षाद् (88a) 65^४.

अवगन्त्य (not being known), 327^{१५}, 341^४.

अवचन 不說 ST, 非言 W, 非語 W, मैंक्षम्य (123b), 143^{२ ३}.

अवचनीय 218^१.

अवचर (domain), 3^३, 16^{१ ७}, 248^४.

अवतार 超 S, 入 W, 了達 T, वृक्षाद् (110a), 37^१, 42^१, 89^४, 112^१, 148^१, 158^१, 176^१, 261^{१ १३}, 262^{१ १५}, 302^१, 303^१, 317^१; -ण 入 W, वृक्षाद् (92a), 73^४.

अवधारक 知 ST, 觀察 W, क्षम्याद् द्वेरूपं (130a), 44^१, 157^१(bis)^५.

अवधारण 隨 S, 入隨 W, 令達 T, 持 S, 專念 W, द्वेष्टुष्टुवृक्षाद् (78b), 43^१, 128^१, 163^१, 164^१.

अवबङ्ग 着 WT, 17^१.

अवबोध 覺 S, 覺知 WT, वैदिकं लुक्षणं (66a), 14^१, 63^१, 67^१, 69^{१ १६}, 73^१, 84^१, 99^१, 104^१, 108^१, 111^१, 123^१, 133^{१ १५ १६ १७}, 134^१, 136^१, 137^{१ २ ११}, 138^१, 140^{१ ११}(bis), 151^१, 152^१, 162^१, 163^{१ १४}, 170^१, 173^{१ १५}, 178^१, 179^१, 180^१, 183^१, 184^{१ १२ १३}, 185^१, 194^१, 199^१, 208^१, 214^१, 221^१, 225^१, 234^१, 237^१, 296^१, 299^१, 311^{१ १५}, 323^१; -क 365^१.

अवबोधि (awakening), 307^१.

अवभास 色像 SWT, 前境 W, 衆像 T, 55^१, 56^१, 192^१, 276^१, 281^१; -क 138^१, 221^१; -न 176^१.

अवयव 分 SW, वृक्षाद् (134a), 92^१, 151^१, 166^१, 167^{१ १०}, 826^१.

अवरोपित-कुशलमूल 種諸善根 W, 250^०.

अवलम्बि 取 S, 由 W, 為因…為緣 T, वैदिक्षम्याद् (156b), 221^१.

अवलम्बित (suspended from), 用纏裹 WT, लूपाद् (61b), 3^०.

अवलम्बन 留連 S, 著 WT, वृक्षाद् (144a), 190^१.

अवश्यम 畢竟 W, 16^१, 196^१, 303^१.

अवस्तु 無事 S, 不實事 W, 非物 T, वैदिक्षम्याद् (108b), 108^१, 283^१(for वस्तु); -क 無事 W, 無境 T, वैदिक्षम्याद् (184a), 299^१, 335^१.

अवस्था 住 SWT, 所住 T, अपास (93b), 76^१, 232^१, 238^१, 288^१, 368^१; -न 處 S, 體相 W, 住 S, 入 WT, वैदिक्षम्याद् (80a), 48^{१ १३}, 97^१,

102^१, 112^{१ ६}, 124^१, 133^१, 176^१, 184^१, 315^१.

अवस्थित 住 WT, अपासाद् (115b), 17^१, 40^१, 103^१, 124^१.

अवायु-पद 非風句 ST, 非風見 W, वैदिक्षम्याद् (74b), 35^१.

अविकर 不變 ST, 不滅 W, मैंक्षम्याद् (148a), 198^१.

अविकल 不生妄想 S, 不分別 W, 無分別 WT, वैदिक्षम्याद् (75b), 37^१.

अविनाश 不壞 ST, 不…滅 W, मैंक्षम्याद् (141a), 183^{१ १४}, 198^१, 207^१, 227^१, 311^१, 349^१; -क 311^१, 351^१.

अविनाशित 不壞 S, 不滅 W, 不滅 T, मैंक्षम्याद् (150b), 206^१.

अविनाशित 不壞 S, 不滅不失 W, 不壞滅 T, मैंक्षम्याद् (162a), 232^१.

अविनिर्भाग 不相離 W, मैंक्षम्याद् (87b), 63^१.

अविपर्यस्त 不顛倒 SWT, वैदिक्षम्याद् (133a), 164^१.

अविपर्यस 不顛倒 S, 不生顛倒 WT, वैदिक्षम्याद् ……मैंक्षम्याद् (104b), 99^१, 106^{१ १५}, 107^{१ ८}.

अविपश्चित 愚癡無智慧 S, 愚無智 W, 凡愚 T, मैंक्षम्याद् 70^१, 163^१.

अविप्लव (sec अविप्लव).

अविवक्त-दर्शन 不見寂靜 SW, 不見寂滅 T, वैदिक्षम्याद् द्वेरूपं (148b), 200^१.

अविशिष्ट 無差別 S, 無有奇特 S, 不異 W, 同 T, वैदिक्षम्याद् (147b), 83^१, 198^१.

अविश्वमाण (*not different*), 198⁷ 12.
 अविशेष 無差別 S, शे शा मेद् ए
 (141b), 61¹, 184¹, 206⁴ 1, 207¹, 211¹;
 -लक्षण 非…差別之相 WT, 因⁵
 एद्-ग्री-मक्तु त्रिद्-मा-मक्ति-ष-ए (67b), 17¹,
 211¹; -व 不知…無差別 W, 不知
 …差別 S, 不知…差別之相 T,
 因⁵-एद्-क्ली-मेष-ए (86b), 61¹.
 अविषय 非境界 SWT, शुभा-प्यिक
 (84b), 49¹, 54¹⁷, 57¹⁵, 192³, 221¹⁴, 320⁷.
 अविषाण-रुतुक 不因角生 S, 非因角
 有 W, 非角因 T, शीघ्र-शी-कृ-प्य-
 मेद् (82a), 52¹⁷.
 अविस्मित (*showing no surprise*), 13¹³.
 अविचिन्त क्षमा-क्षमा (145c), 52¹⁷.

अवैच्यक 無擇地獄 S, 無間 W, 阿
 鼻獄 T, ພັນ-ເມດ-ໄຟ (121b), 138⁴.
 अवीज (see अबीज).
 अवैच्य-पद 非雜句S, 非種種見W,
 非種種句 T, ຂ'ຄ້າສ-ເມດ-ບັນ-ຄ້າ
 (75b), 37¹.
 अन्य 不滅 SW, 無滅 T, ເມ-ຫຼາ-ໄ
 (94a), 78⁴.

(०) अवदान 染 WT, 18^a.
 अवलोक्य 不能見 S, 不得見 W,
 不能 T, शुद्ध-प्रसंभेद-शुक्ष (105b),
 101¹².
 अवाकरण-पद 非記句 ST, 非記見 W,
 शुद्ध-प्रसंभेद-शुक्ष-प्रविरक्षा (75a), 36¹³.
 अवाकृत 無記 SW, 無記論 ST, 無
 記法 W, शुद्ध-भाव-प्रसंभ (111a), 114^a
 (bis)^{12 13 14}, 116^a, 176²⁰, 278^a, 280^a, 301^a.
 अवाकृत 不可滅 S, 不可轉 T, शु

पर्वत-पद-पद्म (108b), 108¹⁵.

अबुच्चिच लंग-नन्तर S, 不斷絕 W,
相續恒住 不斷 T, मैं नक्द- प (156b), 44¹¹, 220¹⁵.

अशरीर 無身 S, 無體 WT, असमेद
(145b), 194², 232¹⁴ 16; -त्व असमेद S,
無實體 W, 無體性 T, असमेद
(145b), 146⁶, 193¹⁵, 232¹⁴ 16; -वत 非
身 S, 無身 W, 無有身 T, असमेद
(162a), 232¹⁵.

अशास्त्र बहु सWT, कृष्ण-पद-पितृ-प
(104a), 99¹², 226⁷, 228¹⁵; -ता 無常
ST, 不生實心 W, मैं कृष्ण-प (107b),
106⁶; -पद 非恒句 T, 非常句 S,
非邊見 W, मैं कृष्ण-पदि-कृष्ण (73b),
34¹⁷.

अशित (*black*), 249⁷.

अशित्यकलाविद्या-पद 非工巧技術
明處句 S, 非明處見 W, 非伎倣
句 T, शुद्धपद-पूर्णपद-पूर्णपद-
पूर्ण-कृष्ण (74b), 35¹².

अशिष्य-पद 非弟子句 T, 非弟子見
W, शुद्धपद-पितृ-पदि-कृष्ण (74a), 35²;
-परिग्रह 惡弟子受 S, 無有弟子
能受 W, शुद्धपद-पितृ-पदि-कृष्ण-
पूर्ण-प (137b), 175³.

अशील-पद 非戒句 ST, 非戒見 W,
कृप्रियकृष्ण-पदि-कृष्ण (74b), 36⁴.

अशुद्ध 不淨 SWT, 未清淨 T, अ-पद-प
(109a), 109¹⁴, 222¹⁶, 281¹², 328¹⁴; -शय-
तान 不淨盡智 W, 非淨智 T.

मेषाद्यमाद्यात्तिद्यत्तद्यद्यृष्ट्युद् (67b),
 17^a; -चिह्न-संतान 無信心 W, 心
 不淨 T, माद्याद्य (193b), 328¹⁴.

अशुद्धि 不淨 SWT, द्याद्यमेद् (113a),
 118¹⁷; -पद 非淨句 S, 非淨見 W,
 非清淨句 T, द्याद्यमाघिन्दिर्क्षण
 (74a), 35².

अशुभ 不淨 SWT, मेष्ट्याद्य (103a),
 97^a, 285¹².

अशून्य 不空 SW, श्वेद्यमाघिन् (191a),
 75¹², 319^a, 320¹³, 341^a; -ना 88^c; -ना-पद
 不空句 S, 不空見 W, 非空句 T,
 श्वेद्यत्तिद्यमाघिन्दिर्क्षण (74a), 34¹⁵.

अशोक-वनिका 阿舒迦園林 W, 無
 憂園 T, 阿輸迦園 T, अष्ट्वाग्रि-
 क्षण (62b), 6^a, 81¹⁰.

अश्रेय 所不能信 S, 無信 W, 不
 能信受 T, घीर्केष्टद्यमेष्ट्याद्य
 (161b), 230¹⁷(bis).

अश्रु 淚 SWT, श्वेद्यघिन् (87b), 64⁵.

अश्रेय (*not excellent*), 200⁴.

अश्व 馬 SWT, ५ (100a), 91^a, 113⁷, 188
 10 11(bis), 226^a, 246^a, 251¹², 309¹⁰.

अष्ट 八 ST, एत्तद् (80a), 37¹⁴, 46¹⁴, 126
 13, 137¹, 139¹, 227¹⁰, 229² ६, 235⁷ (bis),
 344⁵; -रूपक 八種物 W, 八物 T,
 द्यक्ष-एत्तद् (175b), 270^a, 278^a; -धा
 227¹⁰, 265¹⁰, 306¹², 345¹; -मी 第八之
 地 S, 第八地 WT, 八地 SWT,
 श्वेद्यमेद् (81a), 50², 81³, 212¹³, 215¹¹,
 216¹², 291¹⁷, 292¹, 318¹¹ 17, 319¹; -लक्षण

八相 S, ମର୍କଣ୍ଡେନ୍ ସତ୍ୟ (75b), 37¹⁴.
ଆଷବତ୍ (eight kinds), 356².
ଆଷାଙ୍କିକ 八聖道 W, 八支道 T,
ଯତ୍ନ-ସମ୍ପଦ-ସତ୍ୟ-ପିଣ୍ଡମ (150b), 204¹⁰,
299⁴, 341³.
ଆଷାଦଶକ 十八 WT, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ
(190a), 317⁴.
ଆଷାପଦ (for ଅନିଷା-ପଦ), 227⁴.
ଆଷୋହା 34¹⁰, 37⁴, 97²; -ନିରାଭାସ-ପଦ-
ଶତ 百八句無所有 S, 百八句無
相法 T, ଶତ-ସମ୍ପଦ-ସତ୍ୟ-କଣ୍ଠ-ସତ୍ୟ
(103a), 97²; -ପଦ-ଶତ 百八句 S, 百
八見 W, 一百八種句 T, ଶତ-ସତ୍ୟ-
କଣ୍ଠ-ସତ୍ୟ-ଧ୍ୟ (73b), 34¹², 37¹, 50¹²; -(ରୁ)
ନୟଶତ 法門有百八 T, 306⁶; -(ରୁ)
ପଦ-ଶତମ 一百八句 ST, 百八見
W, 34¹⁰; -(ରୁ)ପ୍ରଥ-ଶତମ 百八義
ST, 百八問 W, ଶତ-ସତ୍ୟ-ଧ୍ୟ-କଣ୍ଠ-
ସତ୍ୟ-ଧ୍ୟ (70a), 23¹²; -ଶତାଭିମନ୍ତିତ
ଚୂର୍ଣ୍ଣି-ଶତମ 一百八偏 T, ସତ୍ୟ-କଣ୍ଠ-ସତ୍ୟ-
ସତ୍ୟ-ଧ୍ୟ (173a), 261¹⁴.
ଆସନ୍ତକ 不著 WT, ମାକଣାଶ (182a),
291¹².
ଆସନ୍ତଗ 不著 SW, 無所染着 T, 不
近境界 W, 不樂憤鬧 W, 捨
離憤鬧 T, ମାମ୍ବନ୍ତକା-ଧର୍ମ-ବୈନ୍ଦଧ
(ମୈନ୍ଦି?) (87b), 64¹, 99¹⁵.
ଆସନ୍ତରିତ 不流轉 S, 不生六道
W, 非流轉 T, ମାମ୍ବନ୍ତକା-ଧର୍ମ-ବୈନ୍ଦଧ
(163b), 236¹.
ଆସନ୍ତୁ ବିନ୍ଦମ ବିନ୍ଦମ-ବିନ୍ଦମ
不隨 ST, 離於 W, ମାମ୍ବନ୍ତକା-ଧର୍ମ-ବୈନ୍ଦଧ

८ (147a), 197^a, 349¹¹.

असंस्कृत 非有爲 SW, 非爲 T, 無爲 SWT, 無爲法 WT, 189¹⁴, 199¹⁴, 234¹⁷, 236^a, 266¹⁶, 317¹⁶, 357¹, 369¹¹, 372⁷; -पद 非有爲句 ST, 非有爲見 W, नृशंसामाप्तिर्दीर्घा (75a), 361⁶.
असंस्यान 非樹形 ST, 無樹則無 W, वैद्यमीषेषमास्त्र (101b), 93¹⁴.
असंकर्त्त्व 不應說 ST, 不應爲說 W, एनमप्रवद्यमाप्ति (86b), 61¹³, 331¹⁰.

असंक्षिप्त 不想 S, 心不疑殺 T, 他不爲殺 W, त्रिन्दिमाप्तिश्च (170b), 253¹⁰.

असंलग्न 無和合 W, 無窮盡 T, मध्यभूतमेद (193a), 326⁷.

असंख्यागणित-पद 非數句 S, 非數見 W, 非算數句 T, शब्दसंदर्भमेद्यार्थीक्षण (74b), 351¹⁰.

असंख्य 192¹⁰, 193⁴.

असङ्ग 不着 T, 無礙 S, 無障礙 W, क्षेत्राद्यमेद्य (130a), 157¹⁴ 16.

असंचर 無所動 T, तुष्ट्यमेद्य (199a), 345⁶.

असत 無因 SWT, 無 WT, 非有 SW, 無有 T, नृशंसाध्यमेद (87a), 32¹⁴, 41⁷, 62⁸ 17, 71² 3 (ter) 4 9 10 12 14 16 18 19, 72³ 4 7 8, 73⁵, 82¹¹, 85³, 88⁵, 91¹⁴, 92⁶ 10, 94¹⁶, 95⁷, 103¹³, 104¹⁵, 111⁸ 10 11, 116⁷, 118¹, 152¹⁶ (bis) 17 (bis), 178¹¹, 188² (bis) 11, 202¹³ (bis), 220³, 222¹⁰, 269¹, 280⁴, 282⁴, 300¹ (bis), 303¹³, 319⁷ 11, 322⁷, 324¹⁵ (ter) 17 (bis), 329⁶, 332⁸, 334¹⁷,

335³, 389⁹ (ter), 353¹⁴, 354¹⁷, 361⁸; -का=ये-वाद 無因論 T, 無因 W, नृशंसाध्यमेद्य (195a), 333¹⁰; -सत् 有種無種 S, 有無 W, 從無生有 T, 32¹⁰ 16 41², 324¹², 343¹; -सत्-पश्च-पद 非有品句 S, 非有無立見 W, 非有句 T, त्रिन्दिमाप्तिर्दीर्घा (75a), 356.

असता 實無 W, 無 T, मेद्य (178a), 279⁶, 296¹⁵.

असत 非法 W, 無衆生 S, 無人我 W, 無有我 T, मेद्य (201a), 20¹⁰, 33⁶, 115⁸, 351⁷; -पद 非衆生句 ST, 非衆生見 W, क्षेत्राद्यमेद्यार्थीक्षण (74b), 351¹⁰; -आत्म 我無我 ST, 人我 W, नृशंसाध्यमेद्यार्थीक्षण (72a), 29³; -आत्म-कथा 無衆生 S, 無人我 W, 無有我 T, नृशंसाध्यमेद्यार्थीक्षण (73a), 29³, 33⁶ (असत्य-आत्म in text).

असत अ無實 S, 非有 T, मेद्य (177b), 277³, 359¹⁷; -पद 非諦句 ST, 非諦見 W, नृशंसाध्यमेद्यार्थीक्षण (75a), 36⁶; -आत्म-कथा 33⁶.

असदृश 非譬所譬 S, 非如譬喻 W, 非喻所及 T, मेद्यार्थीमेद्यार्थीक्षण (91a), 229¹, 230¹, 357⁷.

असह-टुष्टि-समारोप 非有見建立相 S, 建立非正見相 W, 無有見建立見 T, मेद्यार्थीक्षण नृशंसाध्य (188a), 311⁸ 9.

(द्विमक्तिर्दीर्घा) (91a), 71¹⁰ 18.

असहेतुसमारोप 非有因建立相 S, 建立非有因相 W, 無有因建立因 T, 71¹⁰, 72².

असद्वाप 無 W, 無有 T, मेद्य (334¹⁸); -विकल्प-समारोप 72⁹; -समारोप 非有性建立相 S, 建立非有體 W, 無有性建立性 T, मेद्यार्थीक्षण नृशंसाध्यार्थीक्षण (91b), 72⁴.

असद्वृत 不實 S, 非實 W, 妄 T, 虛妄 T, 不實法 W, नृशंसाध्यमेद्य (139a), 122¹³, 178¹¹, 270³.

असन्त 無 SWT, मेद्य (107a), 105¹⁸, 322⁶, 333⁷.

असन्त (see सन्तासन), 151³.

असंघि 不相續 S, 無相續 W, 非密 T, मेद्यार्थीक्षण नृशंसाध्यमेद्य (132a), 160¹¹ (bis) 13 14, 162¹⁰, 163¹.

असंध्या-भाष्य-कुशल 不善於我隱覆之說 S, 不得我意 W, 不解于我秘密之說 T, नृशंसाध्यमेद्यार्थीक्षण (164a), 236¹⁵.

असंप्राप्ति 非得 S, 非可取 W, 無得 T, मेद्यार्थीक्षण (104a), 99¹¹.

असमृद्ध अ集 ST, नृशंसाध्यमेद्य (113a), 118¹⁰.

असंबन्ध 常相隨 WT, नृशंसाध्य (119a), 131¹⁵.

असंबोध 不覺 W, 無覺 T, मेद्यार्थीक्षण (188a), 311⁸ 9.

असंभव 不生 SWT, मेद्य (115a), 123¹³, 127¹², 267⁹, 306¹⁴, 342¹², 353⁸, 355¹⁰.

असंभूत 非性 S, 無有實物 W, 不生 T, 無 W, 無生 T, मेद्य (115a), 123¹⁴, 299¹⁴, 305¹⁵.

असञ्चाल्य-समारोप 非有相建立相 S, 建立非有相 W, 無有相建立相 T, मेद्यार्थीक्षण नृशंसाध्यमेद्य (91a), 71¹⁰ 11 14.

असाधक 不能成彼 W, 非…能成立 T, नृशंसाध्यमेद्य (207b), 372¹⁴.

असाधारण 不共 S, 不同 W, 不與…共 T, त्रिन्दिमेद्य (175a), 222⁴.

असारक 非堅 W, 不堅固 T, लैट्यमेद (174a), 265⁹.

असिङ्ग-पूर्व (not attained yet), 209⁴.

असिध्यारण 修行者利劍 W, 修行利智劍 T, नृशंसाध्यमेद्यार्थीक्षण (204a), 361⁴.

असुर 修羅 SW, 阿修羅 SWT, क्षमेद्य (72a), 29¹⁷, 174¹¹, 175¹³, 261⁸, 262², 347⁷.

असुरी 阿修羅女 W, क्षमेद्यमेद (173a), 261⁶, 262⁸.

असुवर्ण 非金 WT, नृशंसाध्यमेद (181a), 288¹².

असोम-भास्कर-नक्षत्र-पद 非日月星宿句 ST, 非日月星宿見 W, लैट्यमेद (188a), 311⁸ 9.

अस्त्रमभेदपरिकैश्च (75a), 36¹².
 असौम्य (*ugly, not pleasing*), 11¹¹.
 अस्त्रन्य 非陰 SW, 非蘊 T, क्षम्य
 माप्ति (144a), 190¹¹; -पद 非陰句
 S, 非陰見 W, 非蘊句 T, क्षम्य
 भेदपरिकैश्च (74b), 35¹¹.
 अस्ति 有 SWT, घट्य (77b), 41¹²,
 54¹⁴, 73¹⁵, 77¹, 96¹⁴, 122¹, 147¹² 14, 190
 14, 214¹⁶, 287¹⁴, 288¹⁶, 290¹⁵, 294¹⁶, 300¹⁶,
 310¹², 320¹⁰ 14, 327¹⁴, 330¹⁶, 331¹⁴, 349¹⁶,
 351² 15, 354¹¹, 356¹²; -ता 有 SWT,
 घट्य (125b), 110¹⁵, 147¹¹ (अस्तित्व
 in text), 183¹³, 276¹; -त्व 有 SWT,
 घट्य (82b), 53¹⁶, 54¹⁴, 90¹⁶, 145¹²,
 147¹⁰ 11, 156⁷, 165¹², 190¹⁴ 15, 282¹¹, 290
 11¹², 320¹⁶, 327¹⁶ 17, 341¹⁶, 345¹⁴ 15, 369¹⁶;
 -त्व-नित्यत 依有 S, 見有 W, 有
 見 T, घट्यपरमक्षम्य (124b), 145
 17; -त्व-साधन 成於有 W, घट्यपर-
 मक्षम्य (191a), 54¹⁴, 820¹⁶, 341¹⁶; -दोष
 有法過 W, घट्यपरिकैश्च न्द्रं क्षम्य
 मक्षम्य (202b), 356¹⁸; -नास्ति 有及
 於無 W, 有無 T, घट्यन्द्रं क्षम्य (201a), 122¹⁶, 147¹⁴, 300¹⁶, 351² 15; -ना-
 स्ति-विनिरुक्त 離有無 W, 遠離於
 有無 T, घट्यन्द्रं क्षम्य न्द्रं क्षम्य
 क्षम्य (201a), 351²; -आत्मन् 有我
 SWT, पद्मपर्याय (188b), 176²⁰.
 अस्त्रीयुन्युसक-पद 非女男不男句
 ST, 非男女見 W, घट्यन्द्रं क्षम्य
 भेदपरिकैश्च (75a), 36¹².

अस्त्वान 無有是處 SW, 198¹⁶.
 अस्तिति 非住 SWT, 34¹⁴; -अन्यथा-
 त्व-पद 非住異句 ST, 非住異見
 W, पद्मपरिकैश्च न्द्रं क्षम्य भेद-
 परिकैश्च (73b), 34¹⁴.
 अस्तिन् सतीदं (भवति) 此有故彼有
 ST, 因此法生彼 W, 依此法生此
 W, 有此因緣故則有此法生 T,
 न्द्रिघट्यकैश्च न्द्रं क्षम्य (207a), 103
 17, 104¹⁷, 372².
 अस्त्र-पद 非夢句 ST, 非夢見 W, मै-
 घट्यभेदपरिकैश्च (74b), 35¹².
 5 अस्त्रप्रत्यालायशान-पद (非緣自性智
 句) S, 非緣內身聖見 W, 非自
 證聖智句 T, वृत्तम्यन्द्रं क्षम्य
 भेदपरिकैश्च (74a), 35¹⁷.
 अस्त्रभाव 離自性 SW, 非自性 T, 無
 自性 ST, 無實體相 W, 無性 T,
 न्द्रं क्षम्यन्द्रं क्षम्य (74a), न्द्रं क्षम्यन्द्रं
 (184b), 34¹⁶, 35¹⁴, 88¹⁶, 167¹⁶, 202¹⁶,
 270¹⁶, 219¹⁶, 337¹², 340¹⁶; -क विशेष
 T, 無法體相 W, न्द्रं क्षम्यन्द्रं (176
 b), 273¹⁶; -त्व विशेष ST, 無自體
 W, न्द्रं क्षम्यन्द्रं क्षम्य (72a), 29¹⁴, 319¹⁶;
 -पद 非自性句 S, 非自性見 W,
 非體性句 T, 離自性句 S, 離自
 性見 W, 非自性句 T, न्द्रं क्षम्य
 भेदपरिकैश्च (74a), 34¹⁶, 35¹⁴.
 अस्त्रभाव 無自性 ST, 無體相 W,
 न्द्रं क्षम्यन्द्रं क्षम्य (134b), 188¹⁶.
 अहाया॒ 無人奪 W, 無有人侵奪

T, मै-घट्य (205a), 365¹¹.
 अहित विशेष विशेष W, न्द्रं क्षम्य
 (171b), 255¹⁰.
 अहेतु 無因 SWT, तुभेदपरिकैश्च (86a), 41¹⁶,
 61¹⁶, 71¹⁶, 96¹⁸, 110¹⁶, 129¹⁶, 164¹⁴, 300¹⁶, 310
 14, 338¹⁸, 338¹⁸, 349¹⁸, 360¹⁴, 374¹⁶; -क विशेष
 因 SWT, तुभेदपरिकैश्च (68b), 19¹⁶, 177
 18, 200¹², 201¹⁵ 18, 206¹⁶ (for हेतुक),
 338¹¹, 335¹⁴ 18, 336¹⁶, 337¹⁰ 14, 338² 3,
 341¹⁶ (bis), 372²; -क-कारण-वाद 無
 因說 S, 無因之法 W, 無因 T, तुभेदपरिकैश्च
 (106b), 104¹⁶; -क-त्व विशेष S, 無因 W, 不見
 有因 T, तुभेदपरिकैश्च (150b), 206¹⁷; -त्व
 無因生法 W, 無有因 T, तुभेदपरिकैश्च
 (106b), 104¹⁶, 338¹⁶; -पद 非
 因句 ST, 非因見 W, तुभेदपरिकैश्च
 (74a), 34¹⁶; -फल-पद 非因果
 句 ST, 非因果見 W, तुभेदपरिकैश्च
 (75a), 36¹⁸; -वाद 無
 因說 S, 此說無因 T, तुभेदपरिकैश्च
 (106b), 103¹⁶, 151¹⁰, 177¹², 181¹⁶,
 200¹⁰, 201¹² 14, 310¹⁴, 337¹⁷, 338¹⁶, 350¹⁶,
 351¹⁴; -वादिन विशेष因 W, 177¹²,
 203¹⁶, 339¹⁶; -वृत्त विशेष W, 非因
 生 T, तुभेदपरिकैश्च (149a), 201
 16, 338¹³; -शरीर विशेष身 S, 先有
 體不從因起 T, न्द्रिघट्यन्द्रं क्षम्य
 भेदपरिकैश्च (118a), 129
 17; -सद्ग-भाव विशेष物 W, 無因
 T, तुभेदपरिकैश्च (207b), 374¹.

अहोडिम (or उहोडिम is जनेन्द्रिय
 according to Prof. U. Wogihara), 醜陋
 SW, 卑陋 T, न्द्रिघट्यन्द्रं क्षम्य (71a), 33¹⁶.

आ

आकर 性 S, 生 W, विषय (71a), 26²,
 30², 143¹¹, 184¹.

आकर्षण 開引 S, 擬 T, न्द्रिघट्य (140a),
 79², 180¹.

आकल्पात विशेष W, विशेषपरिकैश्च
 (191b), 321¹³ (अकल्पात in
 text).

आकार 形相 WT, 種 SWT, विशेष
 (69a), 20⁸, 67⁸, 94⁵, 96⁸, 98¹, 102¹, 110¹,
 119², 127², 128², 142¹ 3, 175¹, 186¹⁵, 223¹⁷,
 228², 267², 332², 345¹¹, 352¹⁸, 353¹⁷, 374²;
 -ण 因緣 W, 為因 T, तुभेदपरिकैश्च
 (207b), 372¹¹.

आकाश 虛空 SWT, न्द्रिघट्य (93b),
 53⁸ 10 11 12 14(bis), 54³, 60⁸, 72⁴, 76¹⁷, 105
 17, 124⁴, 125⁴ 5 6, 177³ 18, 189¹⁸, 190¹, 192⁸,
 197¹², 217¹³ 18, 277⁸, 279⁸, 299¹⁰, 322⁸, 328
 15, 336⁴; -निरोध-निर्वाण 72¹; -पृथ्वी

虛空華 SW, 虛空花 T, न्द्रिघट्य-
 भेदपरिकैश्च (97b), 85⁸, 267⁴; -सम 189¹⁸.

आकृति 真實體 W, 實 W, 像 S,
 形相 W, 所作 T, विशेषपरिकैश्च
 (116a), 9⁷, 90¹³, 94³, 125¹⁰, 221³, 228⁸,
 235¹⁸, 297¹¹, 355¹.

आत्म (named), 46¹², 76¹⁰, 83⁵, 95⁸, 128¹⁴,
 135⁷ 18, 200¹², 221⁷, 271¹, 279⁸, 291¹, 321
 9 17.

आव्यापक 戲論 WT, ए८८ (64a), 10^o.
 आव्यापिका 經論 S, 邪論 T, 話 W, 談論 T, ए८८-प८८-प८८-प८८
(80b), 49^o, 363².
 आगत 來 SWT, ए८८ (72b), 41⁴, 30³, 70¹, 101⁴, 179^o 10, 239^o, 308¹²; -आगत 諸來 會衆 S, 集如來所 W, 衆而來集 會 T, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (137b), 175¹².
 आगति 來 ST, प८८-प८८ (139b), 178¹⁴, 185¹³, 330^o, 308¹⁴, 370¹².
 आगतुक 客 W, 爲客 T, 客塵法 W, ए८८-प८८-प८८-प८८ (193a), 226^o, 358¹⁵; -त् 327¹.
 आगतु-क्रेष 客塵 ST, 客塵煩惱 W, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (157b), 222¹⁶.
 आगम 阿含 W, 理教 T, 聖教 T, ए८८ (149b), 301⁵, 41², 59³, 203¹⁷, 340¹⁶, 369¹², 370¹⁶; -त् 生 W, 有生 T, ए८८-प८८ (184b), 94¹⁷, 301⁴, 343⁷.
 आगार (house), 249⁴.
 आग्रात (smelled at), 119¹⁴.
 १ आचार्य 阿闍梨 SWT, ए८८-प८८ (71a), 261², 48⁴, 316⁴.
 आचित (collected), 358¹⁴.
 आचेद 斷 ST, 節々分解 W, ए८८ (137a), 174⁷.
 आचीर-संसृष्ट 惡命活 W, 活命與俗交 T, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (189a), 308¹⁶.
 आहाकर (a servant), 67.

आतुर 病人 SWT, ए८८-प८८ (80b), 49² (bis), 204⁴, 316¹⁵(bis), 340¹⁵.
 आत्म(न) 我 SWT, 其身 WT, ए८८ (90a), 12¹¹, 20⁴, 33⁵, 56¹⁶, 68¹⁰, 69⁷, 71¹⁷, 75², 79⁷, 80⁷, 92⁷, 93⁷, 112⁴, 153¹⁰, 156⁶, 162³, 17¹¹, 183¹⁵, 187⁴, 188⁹ 10, 190⁶, 195², 196¹⁴, 214¹², 220³, 248¹³, 251⁷, 272⁷, 282⁹ (bis), 291¹⁶, 301¹⁷, 317¹³, 324⁹ 10, 325¹⁰, 328³, 345⁸ 6, 353⁴, 354¹⁴, 357¹⁰ 14, 358² 12 15, 359³ 11 17, 360⁸, 361⁶, 369¹⁰ 17 14, 371² 10; -क 真實 ST, 實…人 W, ए८८-प८८-प८८ (84b), 57⁴ 15, 79³, 84⁴, 176²⁰(bis), 177¹¹, 188¹¹ (bis), 278¹, 305¹³, 317¹³, 324⁹ 10, 325¹⁰, 328¹, 329⁹ 4, 354⁴; -क-त् 無身 W, 無體性 T, ए८८-प८८-प८८ (143a), 187⁷; -ग्राह 執我 T, 著我 W, 我 ST, 我相 W, ए८८-प८८-प८८ (64b), 11³, 93⁷, 177¹⁴, 317⁵; -ज 子 SWT, ए८८-प८८ (70a), 23⁴, 73⁸; -टुटि 身見 W, 我見 WT, ए८८-प८८ (64a), 10¹³, 121⁶; -भाव 身 WT, 自身 W, 自…身 T, ए८८-प८८ (63a), 84¹⁵; -भूत 245¹⁵; -वाद 我論 T, 瞥神我 W, ए८८-प८८-प८८ (94b), 78² 4 5 18, 79² 7, 220¹⁴, 357¹³, 360⁶; -संयुत 354¹⁴; -सभान्ति 自身迷惑 W, 迷惑不自見 T, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (182a), 291¹⁶; -साधक 立我 W, 所立我 T, ए८८-प८८-प८८-प८८ (203a), 357¹¹; -सुख-निर्वाण 自己涅槃樂 S, 為於自身求涅槃樂 W, 執着涅槃希求自樂 T, ए८८-प८८-प८८-प८८

ए८८-प८८-प८८ (164b), 237¹⁰; -अभिनिवेश 依於內身有我而行 W, 執着於我 T, ए८८-प८८-प८८-प८८ (64b), 11¹⁰, 78¹²; -आत्मीय 我我所 SWT, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (92b), 68¹⁰, 75², 80⁷, 124¹, 127¹, 129⁶, 140², 150¹⁶, 152⁸, 170¹⁶, 209¹⁶, 212⁸, 213⁸, 220¹¹, 225⁸ 14, 228¹, 237⁴, 291¹¹.
 आत्मिक 内 SWT, ए८८-प८८ (68a), 18⁵, 169², 215¹² 18 14, 292⁷.
 आत्मीय 我所 SWT, ए८८-प८८ (89b), 68¹⁰, 345⁸.
 आद (taking), 251⁶, 252¹² 4 7 10, 258² 14.
 आदर्श 現 ST, ए८८-प८८ (79b), 44¹⁰.
 ६ आदि 180¹⁰; -(दिं)-कृता 從起 S, ए८८-प८८ (140a), 54¹³, 68¹¹, 81² 8, 83¹², 89⁹; -काल 21¹⁴, 104¹⁶, 208⁸, 354¹⁰, 371², plus-sim; -परिनिर्वात 本來般涅槃 S, 本來涅槃 WT, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (89a), 66¹²; -मत 有本 W, 有始 T, ए८८-प८८-प८८-प८८ (195b), 333¹⁶; -मध्यान 初中後 WT, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (175a), 269¹⁰; -विशुद्ध 77¹⁵.
 आदित्य 日 SWT, ए८८-प८८ (71b), 28⁴, 56³, 94¹⁰, 98¹², 227¹³, 310¹⁰, 363³.
 आद्य 始 S, 根本 WT, ए८८-प८८-प८८-प८८ (207b), 71³, 41¹, 75¹² 15, 78⁷, 83⁴, 103⁶, 105⁴, 113⁷, 114⁷ 15, 141⁵, 182⁹, 187¹³, 192⁸, 202⁷, 208⁸, 258⁹ 13, 306¹⁴, 314⁵, 322⁴, 334⁴, 389³, 347⁶, 349¹, 351⁶, 352¹, 354¹³, 358¹³, 363⁷, 366¹ (bis) 14, 367¹⁴, 368¹³, 370¹⁴, 372¹¹, 373² 10; -दर्शन 見根本

WT, 見始 S, 41¹.
 आधान 得 SWT, ए८८-प८८ (79b), 45⁹, 372⁹.
 आधार 能持 T, 持 S, 依此法有彼法 依彼法有此法 W, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (82b), 53¹¹; -क 持 S, ए८८-प८८-प८८-प८८ (160a), 227¹⁴.
 आधिपत्त 增上事 S, 增上 WT, ए८८-प८८-प८८-प८८ (97a), 88¹⁴, 251¹.
 आधीन (resting on), 63¹⁶, 176¹⁴, 358⁹ 10 (bis).
 ७ आधेय 所持 ST, ए८८-प८८ (82b), 53¹¹.
 आधात्मिक (see also under आधात्मिक), 内身 W, 内處 T, 内 W, ए८८-प८८-प८८-प८८ (190a), 82¹⁴, 83³, 90¹⁰, 203¹⁴, 236¹⁴, 317⁸, 340⁷; -बात् (वात् in text), 内外 SW, ए८८-प८८ (164a), 236¹⁴.
 आननद (immediate sequence), 523⁹.
 आननद्य 無擇地獄 S, 無間 W, 阿鼻獄 T, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (121b), 138² 3⁴, 139⁴ 10; -कारिन् 無間苦行此者 S, 行此無間者 W, 造無間業者 T, ए८८-प८८-प८८-प८८-प८८ (121b), 139³ 5 13 17. आनिमित् 無相 ST, ए८८-प८८ (176b), 23², 274⁴.
 ८ आनुपूर्व 次第 SWT, ए८८-प८८ (103a), 97³.
 आनुश्रय (see आश्रय), 43¹.
 आन्य 盲 WT, ए८८-प८८ (204b), 362⁴.
 आपशि 不成(?) T, ए८८-प८८-प८८-प८८ (189a)

(199b), 846^a.

आपरमाणु-प्रविचय 乃至微塵分別 S, 乃至觀察微細微塵 W, 分析 …乃至微塵 T, त्रृप्तिश्वरुपि द्वा न् धरणश (82a), 52^a, 53^a.

आपेक्षा 願懶 S, 憐懶 WT, वैद्यन्ते ए (85a), 58^a.

आस (*obtained*), 133^a.

आतुष्टि-प्रविचय 智慧觀察 S, 如實 觀察 W, 以智觀察 T, वैद्यन्ते न् धरणश (164b), 238^a.

आभ 如 SWT, पद्मन्त्र (126a), 25^a, 34^a, 70^a, 95^a, 131^a, 132^a, 149^a, 287^a, 288^a, 304^a, 309^a, 313^a, 326^a, 327^a, 331^a, 333^a, 343^a, 374^a.

आभरण 勝妙莊嚴之具 WT, शीर्ष शुभ्रधरणश (67a), 16^a, 17^a, 101^a.

आभा 影 T, 見 W, शूद्धं ए (198a), 302^a, 317^a, 343^a, 344^a, 374^a.

आभाव (*existence? a peculiar usage not found in lexicon*), 41^a.

आभास 無而現 S, 實無而見有 WT, 所照 S, 見前 W, 所見 T, 似如有 W, 似有法 W, 似物而影起 T, 現法相 W, 影像 T, शूद्धं ए मैत्र (182b), 96^a, 120^a, 225^a, 283^a (°ष in text), 284^a (°ष in text), 289^a, 293^a, 303^a, 317^a, 327^a.

१० आभासा 隨自心見說 W, पद्मन्त्र क्षेष्णशुद्धं ए मैत्र (171a), 254^a.

आभास्तर 光音天 W, वैद्यन्ते धरणश (206^a), 239^a, 368^a; -विभास अ光音天

宮殿 SW, 光音宮 T, वैद्यन्ते धरणश शुष्टुप्राप्तमेद्याप्त (165a), 239^a.

आमलक 阿摩勒果 S, 莴摩勒果 T, शूद्धं ए धरणश (157b), 222^a.

आमलो 阿摩勒 SW, 莴摩羅 T, अश्व (72a), 29^a.

आमिष 貪欲 S, 欲食 W, 世間財利 T, वैद्यन्ते धरणश (186b), 173^a, 179^a, 180^a, 181^a, 247^a; -काय

飲食身 W, 雜食身 T, वैद्यन्ते धरणश (171b), 255^a, -सग्रह 攝受

貪欲 S, 攝欲味 W, 財利 T, वैद्यन्ते धरणश (139b), 179^a, 180^a;

-आहार 資生 W, वैद्यन्ते धरणश (171b), 247^a, 255^a; -आहार-स्थिति 255^a.

आमृश 觸 S, 觸味 W, 可觸 T, धरणश (39b), 180^a.

५ आमृष 菩薩 ST, 菩摩羅 W, अश्वी धरणश (83b), 55^a.

आय 生 SWT, 來 SWT, वैद्यन्ते धरणश (137b), 174^a, 175^a, 182^a, 347^a.

आयतन 入 SW, 處 T, 入處 S, धरणश मैत्र (68a), 18^a, 40^a, 41^a, 42^a, 57^a, 58^a, 63^a, 68^a, 69^a, 71^a, 77^a, 83^a, 111^a, 119^a, 136^a, 182^a, 195^a, 218^a, 220^a, 221^a, 237^a, 317^a, 327^a, 344^a, 372^a.

आयति 未來 SWT, मात्रेद्याप्त (118b), 119^a.

आय-वय 生滅 SWT, 來去 SWT, वैद्यन्ते धरणश (137b), 174^a, 175^a, 182^a.

आयास 鐵 WT, शुष्टुप्राप्त (174b), 266^a.

आयुस 命 W, 壽 T, के (192a), 323^a.

आयूह 來 ST, 持來 S, 取相 W, धरणश (111b), 80^a, 115^a; -निर्यूह-विगत 來無所從, 去無所至 T, 離持來去 S, 無取相, 無捨相 W, धरणश वैद्यन्ते धरणश (112b), 80^a, 115^a.

आयूहमान 持來 S, 取 W, 來 T, 115^a.

आरण्यक (*one who lives in the forest*), 254^a.

आरथ (*undertaken*), 14^a.

आरम्भण (*support*), 28^a.

आरम्भ (*undertaking*), 207^a.

आरामिक 白衣 W, 淨人 T, वैद्यन्ते धरणश (187a), 308^a.

१० आरूढ (*mounted*), 所乘 T, पद्मन्त्र (61b), 61^a.

आरूप (*formlessness*), 312^a.

आरूपिन 無色 SW, 非色 T, पद्मणश मैत्र (110b), 113^a.

आरूप 無色 SWT, पद्मणश मैत्र (70a), 24^a, 29^a, 65^a, 121^a, 279^a, 297^a, 306^a,

312^a, 355^a, 361^a; -चारिन 無色行 ST, 無色者 W, पद्मणश मैत्र धरणश (72a), 29^a;

-धारु 無色 W, 無色界 T, पद्मणश मैत्र धरणश (183b), 297^a, 306^a; -रूप 無色界無色 W,

從於無色界 T, पद्मणश मैत्र पद्मणश (188a), 312^a.

आरोपित (*elevated*), 251^a.

६ आर्त (*afflicted*), 252^a.

आर्य 聖 SWT, वैद्यन्ते धरणश (61a), 2^a, 17^a, 40^a, 50^a (bis) 10 (bis) 11 14 16, 65^a,

69^a, 72^a, 77^a, 81^a, 87^a, 99^a, 106^a, 107^a, 108^a, 109^a, 125^a, 132^a, 147^a, 156^a, 158^a, 164^a, (ter) 12, 168 12 13 16, 199^a, 203^a, 222^a, 225^a, 235^a, 236^a, 255^a, 259^a, 267^a, 281^a, 284^a, 285^a, 288^a, 291^a, 292^a, 295^a, 297^a, 298^a, 303^a, 304^a, 313^a, 328^a, 330^a, 332^a

18 17, 340^a, 342^a, 348^a, 356^a, 373^a, 374^a, 1, 375^a; -गोचर 聖境界 SWT, वैद्यन्ते धरणश धरणश (118b), 131^a, 132^a, 285^a, 298^a, 304^a, 313^a, 333^a, 373^a;

-गोच 聖種性 ST, 聖人性 T, वैद्यन्ते धरणश धरणश (108a), 107^a, 352^a;

-गोच-मार्ग 聖種性道ST, 聖道W, वैद्यन्ते धरणश धरणश (157a), 222^a;

-जन 聖人 WT, 賢聖善人 T, वैद्यन्ते धरणश धरणश (168b), 247^a, 249^a

14; -जा 49^a, 16^a; -जान 聖證智 W, 聖智 SWT, वैद्यन्ते धरणश धरणश (67b), 17^a, 50^a, 49^a, 49^a, 77^a, 87^a, 99^a, 128^a;

-जान-गति 聖者趣 S, 聖人智修行 W, 聖智所行境 T, वैद्यन्ते धरणश धरणश (116a), 49

17, 125^a, 128^a; -जान-गोचर 聖境界 S, 聖人智境界 W, 聖智所行 T, वैद्यन्ते धरणश धरणश (82a), 52^a;

-जान-गोचर-विषय 聖智所行境界 S, 聖智境界 WT, वैद्यन्ते धरणश धरणश (183b), 165^a; -जान-

प्रयात्म-गति 聖智自覺所得 S, 聖智內證 W, 聖智內自證境 वैद्यन्ते

पूर्णसंदेशमेषादिप्रेमेष (98b),
87¹²; -हान-प्रत्याल्म-गोचर 聖智自
覺境界 S, 內身聖智修行境界
W, 自證聖智所行境界 T, १५३
पूर्णसंदेशमेषादिप्रेमेषादि
कृत्तुभूषण (104a), 99¹; -हान-प्रत्याल्म-
धिगम 聖智自覺 S, 自身內證聖
智 W, 自證聖智 १५३ पूर्णसं
देशमेषादिप्रेमेष (101b), 98¹²;
-हान-प्रत्याल्माधिगम 已得聖智
自覺 S, 聖者內證之法 W, 聖
智內證 T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादिप्रेमेष
मेषादिप्रेमेष (101a), 92¹⁴;
-हान-वस्तु 聖智事相 SW, 聖智
T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि
कृत्तुभूषण (108a), 50¹⁴, 107⁴, 165¹⁴;
-हान-स्वभाव-वस्तु 聖智自性事 ST,
聖智法體 W, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि
कृत्तुभूषण (133b), 165¹⁰;
-दर्शन 聖人見正法 W, 聖見 T,
१५३ पूर्णसंदेशमेषादि (194a), 830², 370²;
-प्रत्याल्म-हान-गति 自覺聖智所行
S, 聖智自證覺所行 W, 自證聖
智所行 T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि
प्रेमेषादिकृत्तुभूषण (99b), 89²; -प्र
त्याल्म-हान-वस्तु 自住事 S, 聖人
內身證智 W, 聖智自證法性 T,
१५३ पूर्णसंदेशमेषादि
कृत्तुभूषण (102a), 94¹⁴; -प्रत्याल्म-वस्तु-
धिगम 自覺聖智事 S, 自身內證

聖智 W, 聖智所證法 T, १५३
पूर्णसंदेशमेषादिकृत्तुभूषण
प्रेमेषादि (102b), 95³; -भाव-वस्तु
聖性事 S, 聖人境界 W, 諸聖
法 T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि
कृत्तुभूषण (132a), 164⁹; -वस्तु 聖事 S, 聖人
境界 W, 聖人所見法 T, 164¹²,
335⁹; -वस्तु-नय 聖法 W, 衆聖所
行 T, 335⁹; -वस्तु-भाव 聖事性 S,
聖人境界 W, 聖人所見法 T,
१५३ पूर्णसंदेशमेषादिकृत्तुभूषण
प्रेमेषादि (133a), 164¹¹; -वस्तु-आवक
諸聖弟子 T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि (171
b), 255¹¹; -वस्तु-स्वभाव 聖智事自
性 S, 聖人知法體相 W, 聖事 T,
१५३ पूर्णसंदेशमेषादिकृत्तुभूषण
प्रेमेषादि (133b), 165¹²; -विषय (聖)
境界 WT, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि (61a), 2²;
-सङ्गम-लङ्घावतार 375¹⁵; -उपग्रह
所住 T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि (198
a), 342¹⁵.
आलभ (obtained), 305¹².
आलभ 攀緣 S, 念 W, 能緣 T,
觀 W, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि (128a), 57¹⁴, 153⁴,
221⁹, 325^(bis); -न 緣 S, 觀彼法
W, 所緣 T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि (76a), 38⁹,
67¹⁶, 83¹¹, 84⁶, 126¹⁷, 127⁹, 221¹⁴, 237¹⁶,
242¹³, 248¹⁴, 277⁴, 298¹⁶, 317¹.
आलभ 所緣 ST, 所念 W, १५३
पूर्णसंदेशमेषादि (128a), 153⁶, 169⁵, 170⁹, 171⁴, 292¹¹, 325
*(आलभ in text), 327⁸.

आलभित (obtained), 251⁹.
आलय 藏 SWT, 阿梨耶 W, 梨
耶 W, 阿賴耶 T, 真如 W, उत्त
मिति (70b), 24¹⁴, 38^{3 14 15 19} (bis), 42⁴,
43¹⁸, 44⁷, 45^{6 11}, 46^{5 12}, 47^{10 11}, 51⁸, 54¹⁰,
56⁹, 57¹⁴, 62¹, 64¹⁵, 65⁶, 68¹³, 73⁹, 98¹⁷,
106¹, 126¹⁹, 127², 156⁴, 167¹⁶, 213¹⁴, 242
17, 243¹¹, 269¹⁵, 270⁹, 272¹⁵, 276⁷, 285¹⁰,
293⁹, 296¹⁰, 299¹¹, 300^{10 16}, 307^{2 7 8}, 314⁹,
315^{9 10}, 319^{2 18}, 320⁴, 323^{1 2}, 330^{9 10}, 345⁹,
354¹⁴, 358^{1 6}, 369⁶, 374^{9 4}; -विज्ञान 阿
梨耶識 W, 藏識 ST, 阿賴耶識
T, 真識 S, उत्तमिति कृत्तुभूषण
प्रेमेषादि (61b), 2¹⁴, 17⁸, 38^{3 14 15 19}, 42⁴, 43^{7 18}, 44⁷,
45⁶, 56⁷, 62¹ (विज्ञानालय) 15, 126¹⁸,
127², 220¹⁴, 221¹², 222^{9 10 14}, 223^{2 6 11},
235^{7 16}, 241¹³, 272⁶, 278¹, 317⁷; -विज्ञा-
न-ज्ञानि-लक्षण 藏識真相 S, 阿梨
耶識若異相 W, उत्तमिति कृत्तुभूषण
प्रेमेषादि रैषिकृमकृत्तुभूषण (76a), 38¹⁴.
आलिङ्गन 抱 W, मध्यं छृष्ट-प्रेमेषादि (113b),
119¹⁴ (लिङ्गित in text).
आलीन (abiding in), 269¹².
आलोक 光明 SWT, छृष्ट-प्रेमेषादि (73b),
34⁴, 39⁶, 72¹, 232⁶, 299¹⁰.
आवरण 障 SWT, 蓋 W, छृष्ट-प्रेमेषादि (122
b), 97², 116⁷, 134⁶, 140^{11 16}, 185⁴, 213¹⁸,
240¹³, 241¹⁰ (bis) 11¹⁸, 255¹⁰, 323¹⁰; -इय
二種障 WT, छृष्ट-प्रेमेषादि (103a), 97²,
140^{11 16}, 185⁴, 323¹⁰.
आवह 起 S, 能生 W, 成就 T,
१५३ पूर्णसंदेशमेषादि (109a), 107^{9 15 16}, 108^{1 3 5 7},
109^{6 4}, 249¹², 318¹⁹, 370¹⁶; -क 249¹⁵; -न
251¹⁰.
आवसित 煙習愛著 W, वस्तुकृत्तुभूषण
प्रेमेषादि कृत्तुभूषण (169b), 250⁵.
आविड (thrown), 253⁵.
आवृत 覆障 ST, 障處 W, वस्तुकृत्तुभूषण
(158b), 225⁶, 255¹⁰, 362⁶.
आशय 惕望 S, 心 W, 煩惱 W, 希
望 S, 欲 T, 11⁶, 13¹⁴, 14¹, 50¹⁴, 62¹⁷,
72¹⁶, 77⁶, 79⁴ (bis), 90¹⁰, 91^{13 14}, 92^{1 9 10 18},
93¹¹, 95¹, 103¹, 112^{1 4}, 146¹⁵, 151¹⁴, 157¹⁰,
194^{6 15}, 225⁶, 230⁶, 237¹⁰.
आशु-विद्युत-सदृश 電光剎那頃現
S, 電光即見即滅 W, 電光見 T,
不實速如電 ST, वस्तुकृत्तुभूषण
प्रेमेषादि कृत्तुभूषण (109b),
110^{10 18}, 276².
आश्रय 見 WT, 見行 WT, 所依
ST, 依法 W, 所依因 T, 依 SWT,
依止 WT, 心 W, एक्षण्य (76a),
10⁶, 11², 15², 38^{6 7}, 43¹, 50¹⁷, 52^{14 15} (bis),
57¹, 67¹⁴, 98², 118¹, 125¹¹, 129¹⁶, 137⁸, 151
11, 152⁷, 155², 161^{3 4 17}, 202³, 227¹², 233¹⁶,
238⁶, 245¹⁴, 265¹⁷, 286⁷, 318¹⁷, 327⁶, 338¹⁰,
342¹, 351⁴, 369⁶, 375³.
आश्रित 依 SWT, 依止 T, एक्षण्य
(156a), 220⁶, 290⁶, 294⁶, 355⁴.
आश्रिता 依止 W, 所依性 T, एक्षण्य
प्रेमेषादि (174a), 266².
आश्वलायन 阿舒羅 W, 馬行 T,
५-कृत्तुभूषण (205b), 367³.
आसंद्वा-निरोध 非想滅盡定 W, 無
想滅定 T, १५३ पूर्णसंदेशमेषादि
प्रेमेषादि (103a), 97¹¹.

आसन 座 SWT, 離 (69b), 22^a, 102^a,
 249^a.
 आसन् 無 W, 非有 T, 空 (190a),
 317¹².
 आसादितवत् (suffered), 251^a.
 आस्यत् (fallen into), 374^a.
 6 आस्मि 微笑 T, 笑 SW, 漢 (107a),
 105^a.
 आस्वाद (delicacies), 248¹³.
 आहत 吹 SWT, 44¹⁰.
 आहार 食 WT, 食 (168b), 247^a 12,
 249^a 10¹³, 255¹² (bis) 13 14 15 16, 257^a, 258¹³.

इ

इषु (sugar-cane), 360^a.
 इष्वाकु 甘蔗 SWT, 善 (71a), 27¹¹.
 इक्षिन 作相 S, 直爾示相 W, 現
 異相 T, 105^a.
 इच्छ (see इष्ट), 246¹³.
 इच्छत् (wishing), 246¹², 247^a, 248^a.
 इच्छनिक 一闡提 ST, 闡提 W, 955^a
 केन्द्र (71a), 27^a, 30^a, 36¹², 65¹¹ 13, 66^a
 11 12 14 17, 306^a; -पद 一闡提句 ST, 一
 闡提見 W, 955^a केन्द्र केन्द्रिक्ष (75a),
 36¹².
 इच्छनिका 一闡提 SWT, 955^a केन्द्र
 (88b), 65¹⁷.
 इच्छ-पिशिताशित् (desirous of meat-eat-
 ing), 246¹³.
 इतर (other), 253^a.

इतरेतर 離第一 W, 過遷 T, 異 (201b), 75¹⁷, 853¹¹; -शून्यता 彼々
 空 SWT, एठेणाशीषाएठेणाशीषाशीष (92b), 74^a, 75¹⁰ 17 18.
 इतस् ततस् 東西 W, 彼此 T, 異 (303a), 322^a, 357¹³.
 इति-हास 談笑 T, 話笑 W, 戲笑
 T, 笑語 T, एतम् 95 12 (64a),
 10¹⁰, 363^a, 364¹⁰.
 इन्द्र 帝(釋) W, (釋提桓)因 SWT,
 因陀羅 SWT, 955^a (137a),
 15¹⁴, 141⁵, 174⁴ 5 9, 192⁴ 10, 193¹¹, 251⁵,
 252², 350¹, 367¹⁴; -जाल 因陀羅網
 SWT, 955^a 12 13 (71b), 28¹; -ध=
 तुम् 虹 WT, 雨 (65b), 13^a, 349¹⁵;
 -नील 大青因陀羅寶 WT, धीपद
 वीर्यादागीक्ष (61b), 3^a; -राज 帝
 釋太子 S, 帝釋王 W, 955^a 12
 13 14 15 (105a), 101¹⁰.
 इन्द्रिय 根 SWT, 955^a (76a), 22¹⁴, 32¹³
 (bis), 36¹⁵, 38⁸, 44⁹, 57¹⁴, 61¹⁷, 68¹², 115⁹,
 119¹³, 151⁶, 160⁴, 169¹², 170⁴, 177¹¹, 190⁴
 8, 204¹⁰, 221⁷, 242⁹, 270⁹, 272¹³, 279⁹,
 289⁴, 301⁴, 308⁷, 317¹³, 323², 332¹⁰ 13, 333
 2, 341¹ 2, 345¹, 356² 4(bis) 5 10(bis); -पद
 根句 ST, 根見 W, 955^a 12 13 14 15 (75a),
 36¹⁵; -विज्ञान 根識 ST, 諸根
 W, 955^a 12 13 14 15 16 17 18 (76a),
 38⁹.
 इन्धन 薪 WT, एतेष्विद् (203b), 12^a,
 17¹⁰, 359¹².
 इषु 箭 WT, एतम् (205b), 366^a.

इष्ट (desired), (इच्छ in text), 246¹³, 368¹.
 इष्टक (brick), 217¹¹.

इह (here), 193^a.

इहामुत्र 今世後世 S, 今後生 WT,
 現未 W, 955^a 12 13 14 15 (175a), 23⁷,
 265^a, 268¹⁵ (ईहामुत्र in text).

ई

ईरित 所動 ST, 吹動 W, एत्तेष्वि (79b),
 46³ 5, 127⁸, 272¹.

ईश्वर 自在 SWT, 955^a (76b), 39^a,
 79¹², 96¹¹, 103¹¹, 184¹, 192¹⁴, 197¹⁰, 225¹⁶,
 238¹, 282⁶, 295¹², 354¹⁶, 364².

उ

उक 說 SWT, 言 W, एत्तेष्वि (75b),
 37¹⁴, 59^a, 86¹², 108¹² 13 15, 110¹⁷, 131²,
 132¹⁶, 140⁸, 142¹⁶, 143⁴ 6, 144⁶, 146¹²,
 154⁸, 191⁶, *passim*.

उच्चारण 正法 W, 955^a 12 13 14 15
 (195b), 334¹¹.

उच्चिन्न वृक्ष SWT, एत्तेष्वि केन्द्र (162a), 232¹¹.

उच्चेद 斷 SWT, एत्तेष्वि केन्द्र (64a),
 10⁸, 22¹⁰, 25⁵, 33⁸, 34¹⁶, 39¹, 40¹⁷, 70¹³,
 72¹⁷, 76¹⁵, 99² 5, 111¹⁴, 171², 181³ 5 16,
 208¹¹, 212¹⁷, 217⁹ 10, 224¹⁷, 233¹¹, 236²,
 242¹⁶, 243¹², 244¹³, 264⁷, 301¹⁷, 310¹²,
 346¹⁶, 356¹⁴, 374¹; -दर्शन 斷見 WT,

310¹⁴ 16; -हुष्टि 斷見 SWT, 242¹⁶; -पद
 斷句 ST, 斷見 W, केन्द्र केन्द्रिक्ष (74
 a), 34¹⁶; -वाद 斷見論議 S, 斷見
 戲論 W, 斷滅論 T, केन्द्र केन्द्र (76b), 39^a; -शाश्वत-वादिन 邪見斷
 常 S, 斷常…見 W, 斷常 T, 955^a
 ध 955^a केन्द्र केन्द्र (167b), 244¹⁸;
 -आप्य 斷見 WT, केन्द्र केन्द्र (70
 b), 10^a.

उच्चित 建立 T, एत्तेष्वि (67a), 16^a.
 उगुक 輪 WT, केन्द्र केन्द्र (96a),
 82^a.

उक्तासन 聲歎 S, 嘎 W, एत्तेष्वि
 ध 955^a (107a), 105^a.

उक्तृष्ट 上 SWT, 955^a (72b), 18^a, 31¹, 347^a.

5 उक्तेप 放 W, एत्तेष्वि (205b), 366^a.

उक्तम 上者 ST, 上 W, एत्तेष्वि केन्द्र
 5 (112b), 117¹¹, 315¹².

उक्तमाङ्ग 頸 T, एत्तेष्वि (63a), 7^a.

उक्तर (*upper*), 359¹⁶.

उक्तरण (crossing over), 214¹⁰.

10 उक्तरासङ्ग 衣服 W, एत्तेष्वि (69b), 22^a.

उक्तरीय 衣裳 W, 衣 T, मृदृष्ट
 (205b), 365¹².

उक्तरोत्तर 漸次上々 S, 次第上々
 W, 上々 SWT, 上增進 T, 轉更
 T, एत्तेष्वि केन्द्र 5 (63b), 9¹⁶, 10¹⁶, 89⁵,
 114⁷, 116¹⁵, 123⁵, 133¹¹, 136⁴, 180¹⁶, 185⁴;
 -क्रम 上々次第 W, 次第 T, 展
 轉相 S, एत्तेष्वि केन्द्र एत्तेष्वि केन्द्र
 5 केन्द्र 5 (111a), 114⁷; -भूमि

上々地 S, शैर्द्धक्षमेऽनुष्ठ (115a),
 123⁶, 136¹.
 उहानीकृत (wide-opened), 228¹³.
 उहीर्ण出 T, 渡至 W, 過 (61a), 2¹.
 उत्तास 恐怖 ST, 驚怖 W, क्षणाद
 (111a), 114¹¹, 167^{12 13}; -पद 114¹¹, 165¹³,
 167¹².
 उत्तासमान (fearing), 167¹⁴.
 उत्तित (risen), 360⁶, 373¹⁰.
 उत्तसि 生 SWT, ९४८ (77b), 23⁸,
 39⁴, 41^{7 8}, 62⁹, 74¹⁵, 82¹², 83^{10 12}, 84¹, 87²,
 92¹¹, 103^{10 11 12 14}, 111^{8 10}, 112², 116¹, 118⁸,
 119⁶, 124¹⁵, 129³, 138¹³, 166¹¹, 195¹⁴,
 197^{14 15 17}, 199¹³, 208⁴, 238¹³, 254^{2 3}, 265¹,
 271², 273², 274¹⁶, 297⁶, 313¹⁰, 334², 338⁵,
 352¹², 356⁶; -त्व 生 ST, क्षेत्राद (134a),
 166¹¹.
 उत्तद 本生 W, प्रक्षेत्राद 276³.
 उत्तदमान (being born), 145¹.
 उत्तन 生 SWT, 起 SWT, क्षेत्राद (111b),
 83^{6 15}, 85⁸, 87¹⁴, 116², 157¹(bis), 168²,
 194¹, 203⁸, 206¹⁸, 221¹, 276³, 277⁴, 329⁵,
 333¹¹, 334¹³, 348^{2 4}, 349⁴.
 १० उत्ताद 生 SWT, क्षेत्राद (64b, 72a), 11⁴,
 22⁸, 29¹³, 34¹³, 37^{7 8 11}(bis), 40^{15 16}, 42^{8 9},
 15¹, 43⁶, 62^{13 16 17}, 72¹⁷, 77³, 79¹⁴, 80¹³, 81²,
 16¹, 85¹, 90¹⁰, 92¹⁰, 94¹³, 95³, 109², 111⁵,
 129⁷, 143¹¹, 147^{7 12}, 149⁶, 157⁶(bis)¹⁰,
 159^{2 4 14}, 161^{6 12}, 168¹⁴, 175¹⁷, 176¹⁴, 181⁵,
 198^{13 16}, 199^{11 15 18}, 200⁶, 201⁷, 204¹⁴, 205²,
 207³, 218⁸, 225¹⁵, 230⁸, 264⁵, 276⁵, 288¹³,
 291⁸, 293^{2 5}, 294¹⁰, 295¹¹, 300¹⁵, 306¹²,
 309^{6 8}, 311⁶, 319³(bis), 323¹⁶, 334¹⁸, 337⁶,
 338^{4 6}, 351^{3 4}, 352¹, 353⁴, 357¹⁰; -क न
 能生 WT, क्षेत्राद (196a), 336^{1 2}; -पद

生句 ST, 生見 W, क्षेत्राद्विकृत्या (73b),
 34¹³; -भज्ज 生滅 WT, क्षेत्राद्विभज्ज (174b), 198¹³;
 -विभज्ज (206b), 22⁸, 40¹⁶, 72¹⁷, 149⁸,
 168¹⁴, 198¹⁶, 264⁵, 291⁴, 309⁶, 323¹⁴, 334¹⁸,
 370¹⁰; -भज्ज-नियुक्त 離諸生死法 W,
 क्षेत्राद्विभज्ज-नियुक्त (181b), 168
 14, 291⁸, 309⁶; -भज्ज-संबद्ध 生滅和合
 W, 生滅而相續 T, 149⁶, 323¹⁶, 368¹⁰;
 -भज्ज-संयुक्त 生滅相相應 WT, क्षेत्राद्विभज्ज-संयुक्त (182b), 294¹⁰.
 -भज्ज-स्थिति 生住滅 SWT, क्षेत्राद्विभज्ज-स्थिति (77a), 90¹⁰;
 -राग्नि 趣聚會生 S, 生聚 W, 集生
 T, क्षेत्राद्विभज्ज-स्थिति (138a), 175¹⁷; -लक्षण
 生相 T, 諸相 W, क्षेत्राद्विभज्ज-लक्षण
 (201b), 353⁴; -वाद 說法生 W, क्षेत्राद्विभज्ज-वाद
 (181b), 290¹³; -वादित 說
 見諸法者 W, 生論 T, क्षेत्राद्विभज्ज-वादित (183a), 295¹¹; -विकल्प 生妄想 S, 生
 分別 WT, क्षेत्राद्विभज्ज-विकल्प (117b) 128⁶, 129⁶; -वय-धर्मिन् 204¹⁴;
 -स्थिति 生住 SWT, 40¹³; 207³; -स्थिति-
 ति-भज्ज 生住滅 SWT, 42⁵, 43⁵, 79¹⁷,
 62¹⁸, 80¹³, 81¹⁶, 94¹³, 95³, 181⁵; -स्थिति-
 निरोध 生住滅 SWT, क्षेत्राद्विभज्ज-
 निरोध (75b), 37^{7 8}; -स्थिति-विकार 生住滅 WT, क्षेत्राद्विभज्ज-
 विकार (151a), 207³; -अनियता-वाद 生無常義 ST, क्षेत्राद्विभज्ज-
 विकार (150a), 205¹³;

-अनियता-वाद 不生無常 WT, क्षेत्राद्विभज्ज-
 विकार (174b), 198¹³; -अनुत्पाद-विकल्प 生不生妄想 S,
 生不生執着 W, 生非生執着 T, क्षेत्राद्विभज्ज-विकल्प (131
 b), 161¹².
 ५ उत्पादित 生 W, 所起 T, क्षेत्राद्विभज्ज-
 (180a), 144², 243⁸, 287²; -वत् 251¹⁴.
 उत्पाद 生 W, 所生 T, 已生 S, 本
 …不生 W, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (97b),
 85⁶, 176¹⁴, 336¹.
 उत्पर्ग 捨 ST, 焚燒 W, क्षणाद
 (88b), 66^{1 2 4 13 14}.
 उत्पाद 埪能 S, 煙增長力 W, 炎盛
 T, क्षणाद (115b), 124⁵.
 ५ उत्पादा 養育 T, 立 SWT, क्षणाद (121
 a), 138¹².
 उत्पक 水 SWT, ॲ (91b), 25¹¹, 72¹⁸, 77⁸
 (bis), 78⁴, 82¹⁶, 90⁵(bis)⁷, 95⁸, 96¹⁰,
 106^{12 13}, 281¹⁶, 289¹⁰, 359⁶, 369¹⁶; -चन्द्र
 水中月 SWT, 25¹¹, 42¹, 158¹, 193⁶,
 225¹³, 374¹²; -चुड़पक 水泡 SWT,
 क्षणाद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (101a), 92¹⁴; -भाव 水
 想 SWT, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (100a), 77⁴, 90⁵.
 उत्पध 大海 WT, 巨海 ST, क्षुभक्त
 (61b), 2¹³, 30¹⁷, 43¹⁸, 44^{10 11}, 45¹⁸, 46^{3 9},
 11, 47^{9 11}, 48³, 135⁸, 136¹², 220¹³, 265¹⁶,
 271¹⁵, 314⁶ (उत्पध in text)^{8 12}, 315^{8 10 18},
 321¹⁰; -तरंग 海浪 ST, 大海浪 W,
 क्षुभक्त-प्रतिष्ठा (117a), 43¹⁸, 127⁴, 220¹⁵.
 उत्पद्य-भास्त्र 日千光 W, 日舒光 T,

क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (65b), 13⁶.
 उदानमुदानयति स 而自嘆言 W, 高
 聲唱言 T, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (61b), 2¹⁵.
 उदाहत (declared), 143¹, 144⁸, 240⁶.
 उदित (risen), 149¹¹, 225¹⁴, 227¹³, 271¹⁵, 305
 12, 309¹², 324⁴, 354¹⁸, 374⁸.
 उदुम्बर-पुष्प 優曇鉢華 ST, 優曇華
 WT, क्षुभक्त-प्रतिष्ठा (161a),
 230^{8 10 12 14}.
 उद्धर 取 WT, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (176b), 273¹⁵.
 उदाह (configuration), 231¹⁴.
 उद्दिष्य 故爲 WT, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (187a), 309⁵.
 उद्घोतन (उघोतन in text), 能顯 WT,
 現作 S, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (97a), 83¹⁶.
 ५ उद्धव 生 S, 有 W, 起 T, क्षेत्राद्विभज्ज-
 (158a), 80¹⁷, 131¹⁸, 212⁹, 285¹, 287¹⁵,
 299¹¹, 300¹⁸, 301¹, 305⁶, 356², 364¹.
 / उद्धावक(所觀 W, 說 T, ?), 11¹⁷.
 उद्धावयत (explaining), 2⁹.
 उद्धान 園林 SWT, क्षणाद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (100b),
 17¹⁶, 91².
 उद्देक (abundance), 275⁹.
 उद्धिग्न �厭離 ST, 生厭聞生驚怖
 W, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (161a), 230⁷.
 उद्धेग-मानस 生厭心 W, 厥離 T,
 क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (187b), 310³.
 उद्धेजन 厥離 ST, 生厭聞生驚怖
 W, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (161a), 230⁷, 246¹¹, 247
 2; -कर 憎惡驚怖 S, 驚怖 WT, 恐
 怖 S, 怖 W, क्षेत्राद्विभज्ज-प्रतिष्ठा (168b), 259⁴;
 -कर-त्व 246¹¹, 247².

उद्देजनीय (*to be feared*), 256¹⁴.
 उच्च 高 SWT, मैथुन (100b), 91¹¹¹².
 उच्छव 發狂 S, 頗狂 W, 狂亂 T, कृत्युदि (147a), 196¹⁴, 257¹⁴, 258¹⁴.
 उच्छूलित 拔 SWT, वृद्धि (100b), 91¹⁴.
 ५ उपकरण 諸資生 W, वैद्यसंकुट 255¹⁴.
 उपकार 說 W, 分別 T, कृमिद्युद्युम्यादि (201b), 358¹⁴.
 उपक्रिए 所覆 S, 垢染 W, 所染 T, 222¹⁴.
 ५ उपक्रेश 煩惱 W, 隨煩惱 T, 諸塵土 W, 尘垢 T, 358¹⁴, 369¹⁴.
 उपग 所生 W, 生 T, 轉 W, वृद्धि (95a), 18¹⁴, 332¹⁴ (*गत in text*), 942¹⁴.
 १० उपगत 入 SW, हेतुश्वद्वृष्टिद्युम्यादि (78a), 42¹⁴, 245¹⁴.
 ५ उपगत-रक्ष-भाव 護衆生命 W, 245¹⁴.
 ५ उपगम 得 SWT, स्वेद्य (114a), 121¹⁴.
 ५ उपगन्तु-काम 250¹⁴.
 ५ उपगृहित 懷抱 W, पौर्णमासादि (182a), 95¹⁴, 292¹⁴.
 ५ ५ उपघात 斷 SWT, वृद्धिद्युम्यादि (121b), 138¹⁴, 139¹⁴.
 ५ उपचय 集 WT, 成熟 S, वृद्धमासादि (79b), 45¹⁴, 157¹⁴.
 ५ उपचार 行 SWT, 往來 T, वृद्धि वृद्धि (95b), 16¹⁴, 80¹⁴, 213¹²¹⁴, 317¹⁴, 225¹⁴.
 ५ उपचारिक (*serving for*), 284¹⁴.
 ५ उपच्छेद 斷 ST, 拔 W, वृद्धिद्युम्यादि (121b), 138¹⁴.

उपजीव 攝養 S, 受用 W, 饒益 T, वृद्धिद्युम्यादि (112b), 117¹⁴, 126²³⁵, 382¹⁴.
 ५ उपजीवता 善能饒益 S, 悉得饒益 T, वृद्धिद्युम्यादि (112a), 117¹⁴.
 ५ उपदिष्ट (*taught*), 119¹⁴, 134¹⁴, 139¹⁴, 141¹⁴.
 ५ उपदेश 當思惟 S, 當知 W, 觀察 T, 演說 S, 為說 W, 說 SWT, वृद्धिद्युम्यादि (92a), 41¹⁴, 54¹⁴, 61¹⁴, 73¹⁴, 78⁴⁶⁸¹⁰¹²¹⁴, 79¹²³⁶, 111¹⁴, 112¹⁴, 121¹⁴, 125¹⁴¹⁶, 129¹⁴, 133¹⁴, 134¹⁴, 148¹⁴, 165¹⁴¹⁶, 167¹⁴¹¹, 172¹⁴, 175¹⁴, 184¹⁴, 208¹⁴, 215¹⁴; -मात्र 說身少分 T, 當爲汝略說 S, 我說少分 W, वृद्धिद्युम्यादि (167b), 245¹⁴.
 ५ ५ उपदेश 宣揚 S, 讚歎 W, 顯揚 T, वृद्धिद्युम्यादि (92a), 73¹⁴.
 ५ उपनामित (*offered*), 奉施 T, वृद्धिद्युम्यादि (61a), 61¹⁴.
 ५ उपनिवड 莊嚴 ST, 相應 W, 56¹⁴, 69¹⁴, 80¹⁴, 96¹⁴, 174¹⁴, 175¹⁴.
 ५ उपन्यस्त (*mentioned*), 230¹⁴.
 ५ उपन्यास 次第建立 S, वृद्धिद्युम्यादि (73b), 34¹⁴.
 ५ ५ उपपति 受…生 T, 生 SWT, वृद्धिद्युम्यादि वृद्धिद्युम्यादि वृद्धिद्युम्यादि (64a), 11¹⁴, 73¹⁴, 111¹⁴, 119¹⁴, 121¹⁴, 141¹⁴, 176¹⁴, 179¹⁴, 195¹⁴, 237¹⁴, 347¹⁴.
 ५ उपपद्यमान-काल 依時行乞食 W, 次第而乞食 T, वृद्धिद्युम्यादि वृद्धिद्युम्यादि वृद्धिद्युम्यादि (204b), 363¹⁴.
 ५ उपपत्र 所生 W, 受…生 T, 生 SWT,

५ क्षेत्रादि (68a), 18¹⁴, 355¹⁴.
 ५ उपभोग्यता 攝養 S, 受用 W, वृद्धिद्युम्यादि (112a), 117¹⁴.
 ५ उपम (*like*), 27¹⁷, 28¹², 42¹⁴, 203¹⁴, 264²⁹, 265¹⁴, 287¹², 295¹⁴, 296¹⁴¹⁴, 300¹⁴, 307¹, 309¹⁴, 329¹⁴, 334¹⁴, 340¹⁴, 343¹⁴, 372¹⁴, 374¹²¹⁷.
 ५ उपमा (譬), 13¹⁴.
 ५ उपमा-मात्र 譬喻但是少分 W, 唯以少分爲其喻耳 T, 少分譬喻 W, वृद्धिद्युम्यादि (161b), 230¹⁴, 231¹⁴.
 ५ ५ उपरत (*ceased*), 215¹⁴.
 ५ उपरम 離 S, 減 SWT, कृत्युदि (76b), 39¹⁴ (bis) ⁴, 61¹⁷, 183¹⁵.
 ५ उपरिवड 相續 S, 相續果 T, 相續次第 W, वृद्धिद्युम्यादि (97a), 83¹⁴.
 ५ उपरिषात 上 SWT, 49¹⁴¹⁶, 363¹⁴.
 ५ उपलब्ध 觀 S, 善解 W, 善知 T, 觀察 T, वृद्धिद्युम्यादि (95b), 80¹⁴, 82¹⁴.
 ५ ५ उपलभ 可得 SWT, वृद्धिद्युम्यादि (69b), 22⁹¹¹, 264⁸¹⁰.
 ५ उपलभि (不)可得 T, 唯說 T, वृद्धिद्युम्यादि (110b), 112¹⁴, 113¹⁴, 174¹⁴, 280¹⁰¹⁴, 357¹⁴; -निःस्वभाव 見於虛妄法 W, 於無自性中…而有物起 T, वृद्धिद्युम्यादि (178b), 280¹⁰.
 ५ उपलभ 可得 T, वृद्धिद्युम्यादि (127a), 150¹⁴, 151¹⁴, 177¹⁴.
 ५ उपशम 寂滅 SWT, वृद्धि (183a), 53¹⁴, 196¹⁴, 295¹⁴.
 ५ उपशोभन 莊嚴 SWT, वृद्धिद्युम्यादि (114a), 121¹⁴.
 ५ ५ उपशोभन 莊嚴 SWT, वृद्धिद्युम्यादि (72a), 29¹⁴, 70¹⁴, 91¹⁴.
 ५ उपसंकात (*come over*), 176¹⁴.
 ५ उपसंहार 莊嚴 ST, 因譬喻說 W, (हृष्णान्), कृत्युद्युम्यादि (137a), 174¹⁴, 175¹⁴, 178¹⁴.
 ५ उपसंहित 不依 W, 不如 T, वृद्धिद्युम्यादि (137a), 173¹⁴, 178¹⁴, 194¹⁴.
 ५ उपहत (*injured*), 253¹⁴.
 ५ उपाह 諸受 S, 諸取 T, 受 S, 有受 T, 內法 W, वृद्धिद्युम्यादि (156b), 221¹⁴, 235¹⁴.
 ५ उपादात 能取 WT, वृद्धिद्युम्यादि (203a), 357¹⁴.
 ५ उपादान 所取 T, 可取 W, 諸受 ST, 取 W, 受 ST, 攝受 S, वृद्धिद्युम्यादि (202b), 183¹⁴, 235¹⁴, 237¹⁴, 357¹⁴⁸⁹¹⁰, 358¹⁴, 369¹⁴, 371², 372².
 ५ ५ उपादाय 依 W, 13¹⁷, 17¹², 142¹⁴, 159¹², 188¹⁴, 194¹⁴, 211¹⁴, 232¹⁴, 246¹⁴.
 ५ ५ ५ उपाय 方便 SWT, वृद्धिद्युम्यादि (63b), 91¹⁴, 151¹⁴, 35¹⁴, 42⁸¹⁷, 66¹⁴, 78¹⁴, 116¹⁴, 120¹⁷, 148¹⁴, 160¹⁴, 171¹⁴, 186¹², 266¹⁴, 351¹⁴, 353¹⁴; -कुशल-विद्व-पूर्वक 以巧方便ST, 先說善巧方便 W, वृद्धिद्युम्यादि (126a), 148¹⁴; -कौशल्य भाव भाव W, 方便 T, 42¹⁴; -कौशल्यगतिंगत 善達方便 T, 得究竟大方便解 W, वृद्धिद्युम्यादि (63b), 91¹⁴; -पद 方便句 ST, 方便見 W, वृद्धिद्युम्यादि (74a), 35¹⁴.
 ५ ५ ५ उपायास (see under अपायास), 174², 180¹⁴.

उपेक्षा 待觀 S, 相待 W, 因待 T, **पृष्ठ**
ए (82a), 52^b 1^a.

उपेक्षा 待 S, 相待 W, 觀待 T, 89^a
ए, 166¹¹; -हेतु 83^a 1⁷.

उपेत (come to), 79^a, 214^a, 282², 242¹⁴, 859¹.

उपेन्द्र (*younger brother of Indra*), 15¹⁴.

उभ (both), 257^a, 358¹⁴.

उभय 二 SWT, 與 S, 共 T, **पृष्ठशाप**
(82b), 14¹¹, 24^a, 35^a, 58^a, 74¹², 80¹⁵, 89²,
90^a, 91¹⁴ 1⁸, 92^a 1⁰, 94^a 1¹³, 95^a, 96^a 1¹⁵, 97
1³, 114², 122^a, 129^a, 138¹³, 187¹⁴ (प्रभय
in text), 217^a, 248^a, 295¹², 321^a, 360^a
(bis), 375^a (bis); -त्व ज俱 SWT, **पृष्ठश**
ए (101b), 98¹⁴, 172¹⁶, 176¹⁷, 184^a, 189¹⁰,
218^a; -या 217^a; -दोष-प्रसङ्ग俱 有過
T, 二俱有過 S, 二邊應有過失 W,
पृष्ठ-पृष्ठ-पृष्ठ-पृष्ठ-पृष्ठ (154b), 217^a;
-पद 俱句 ST, 有二見 W, **पृष्ठ-**
पृष्ठ-क्षमा (74a), 35^a; -संचर 二邊取
相 W, 具二種行 T, **पृष्ठ-पृष्ठ-**
पृष्ठ-क्षमा (177b), 278^a; -अन्त-कथा
俱異說 SW, 說二異俱 T, **पृष्ठश**
पृष्ठ-पृष्ठ-पृष्ठ (70a), 24^a.

उभावत 二 SWT, **पृष्ठ** (125a), 147^a.

उरस 胄 SWT, **पृष्ठ** (98b), 86¹¹.

उलूक 鳴鳥 WT, **पृष्ठ-पृष्ठ** (170a), 252^a.

उज्जापिनी 誑惑 ST, 迷惑 W, **पृष्ठ**
(94a), 77^a.

उषित 已立 **पृष्ठश** (87b), 63¹³.

उष्ट 駝 WT, **पृष्ठ** (68b), 19^a, 62¹⁰, 72^a

उष्ण 煙 ST, 热 W, 火 (85a), 59²,
 122¹¹, 128¹⁶, 204¹, 270⁴, 340¹⁹, 354¹²;
 -द्रव-चर-कठिन 堅濕煖動 ST, 堅
 濕熱動 W, 火-湿-堅-熱-動 (149), 59², 122¹¹, 128¹⁵, 204¹, 270⁴, 340¹⁹.
 उष्मन 煙 WT, 火 (92a), 323².
 उहोडिम (see under अहोडिम), 卑陋 S.
 座陋 W, 卑陋人 T, 火-坐-卑-陋 (71a), 274.

 ऊ

 ऊ आ W, 腹 T, 腰? WT, 腹 (65b), 13⁴.
 ऊर्ण-कोश 頂上肉髻 W, 眉間 T,
 13⁴. cf Edg 150A

 ऊ

 ऊच्चा 自然 T, 忽然 W, 突 (183a), 295¹².
 ऊचु 正直 W, 端 (身住) T, 直 (55-56) (87b), 309¹⁸.
 ऊतु 時 W, 時節 T, 时 (73a), 32¹⁰,
 36¹⁷; -पद 時節句 ST, 時見 W,
 五時 (75a), 36¹⁷.
 ऊडि 神通 SWT, 神力 T, 妙神通
 力 W, 大神通力 T, 神通 (65a), 4¹¹, 12⁶, 30², 64⁴, 102¹; -पाद 如
 意足 SWT, 神通 (72b), 30².

क्षम्ब (a musical note), ३७, ३६२^a.
क्षषि 倦 s. 仙 w. 仙人 T. ५८-४९
(71b), २७¹², २९^a, ३२¹³, ३३¹², ३६¹⁰, १९२¹⁴
३६३^a, ३६७⁴; - गन्धर्व-मणित 天僕撻
闕婆莊嚴 s. 仙樂人莊嚴 w. 仙嚴
婆莊嚴 T. ५८-४९-८३-४९-४९
(73a), ३२¹³; - गन्धर्व-संकीर्ण 僕闕婆
充滿 s. 仙樂人充滿 w. 仙人乾
闕婆一切皆充滿 T. ५८-४९-८३-४९
४९-४९-४९-४९ (72a), २९^a; - हीर्घ-न=पस
仙人長苦行 ST. 長壽仙 w.
शुद्धिराश्चन्द्रश्च नान् सुष (73b),
३३¹³; - वर् 倦句 s. 仙人見 w.
仙句 T. ५८-४९-४९-४९ (75a), ३६¹⁰,
-भोजनाहार २४७⁵.

(119b), 133¹⁰, 249⁵.
स्वादश (*eleventh*), 176¹⁰.
सैक— WT, 8^{4 5 6 11}, 12¹⁴, 34⁷, 174⁷,
 185¹¹, 200¹⁰.
शडक 羊 SWT, 羊 (98a), 31⁴, 75^{12 15},
 113⁷.
शवाय 如是等 SWT, नित्याभ्यर्थक
 (111a), 114¹⁵, 354¹³.
शं-भाविन 如是 WT, नित्या (67b),
 17⁷.
शं-वादिन 如是說 ST, 如是…說
 W, नित्याभ्यर्थक (111a), 114¹³.
शं-मया-शुत 如是我聞 WT, 我
 聞如是 T, नित्याभ्यर्थक (204b), 1⁵, 363⁸, 364⁹.
शषणा 求 W, नित्या (171b), 255¹⁴.

से

शडक 羊 WT, 羊 (186b), 307¹⁸.

ओ

ओष 水流處 S, 暴流水 T, 水大
 流 S, 水流 W, 濟流 T, 暴水
 W, नित्याभ्यर्थक (79a), 44⁷, 46⁸, 127¹², 267
 9, 277⁷.

ओजोहार 鳴周何羅 W, 嘴闇何羅
 W, 261¹¹, 262¹³.

ओजोहारी 鳴周何羅女 W, 嘴闇
 何羅女 W, 261¹¹, 262¹³.

ओम 𠙴 1² (bis).
ओषधि 藥草 W, 草木 T, नित्या
 में (88b), 55¹².
ओष 唇 SWT, मुख (98b), 86¹⁷, 154¹⁵,
 286⁴.
ओस्लारक 鳴多羅 W, नित्याभ्यर्थक (173a),
 261⁹, 262¹¹. Ed, p160B
ओस्लारको 鳴多羅女 W, नित्याभ्यर्थक
 (173a), 261⁹, 262¹¹.

औ

औष 水 S, 大海水 W, 河 T, 暴
 水 W, 暴流 T, नित्याभ्यर्थक (754a), 214^{10 12},
 270¹, 272¹, 294¹², 318¹⁷.

औन्सुक्ष 方便 ST, 大方便 W, 214¹²,
 215².

औदार्य 快妙 W, 大 T, नित्याभ्यर्थक
 मुक्ते (181b), 291⁹.

औपपति 生 WT, नित्याभ्यर्थक (177b), 277⁶

औरभिक (a shepherd), 246⁷.

औरस 子 SWT, 31¹², 33⁷, 319⁶.

औषधि 香藥 W, 藥 T, नित्याभ्यर्थक
 द (203b), 55¹², 359¹².

क

कञ्जप 魚 WT, नित्याभ्यर्थक (161b), 231⁷.
कट 席 SWT, 幕 W, 簾幔帷帳 T,

簾幔帷障 T, नित्याभ्यर्थक (96b), 82¹⁷,
 169¹¹, 170², 324^{4 5}; -क 銀鉄 WT,
 शशमृष्ट (180b), 159⁷; -पूतन 迦
 吐福多羅 W, 加吒福單那 W,
 शशमृष्ट (173a), 261¹², 262¹⁴; -पूतन
 नी 迦吐福多羅女 W, 加吒福
 單那女 W, शशमृष्ट (173a), 261
 12, 262¹⁴; -मुकुट-पट 席冠白毬
 W, 衣冠及席 T, नित्याभ्यर्थक
 (195b), 334⁴; -अश्व-ईश्वित 胸視 W,
 मिष्टुर (113b), 119¹⁴.

कटि 腰 WT, नित्याभ्यर्थक (65b), 13⁴; -मूच
 腰繩 W, 腰綵 T, नित्याभ्यर्थक
 (204b), 363¹³.

कठस 石 W, 瓦礫 T, नित्याभ्यर्थक (175a),
 268³.

कठिन 堅 WT, नित्याभ्यर्थक (85b), 59²,
 122¹², 128¹⁵, 340¹³.

कणभुज 噎糠 W, 揭那 T, नित्याभ्यर्थक
 (163a), 333⁹.

कणाद 迦那 WT, नित्याभ्यर्थक (204b), 362⁸.

कणटक 利刺 S, 棘刺 W, 刺鍼 T,
 184¹.

कणठ 喉 SWT, मण्ड (93b), 83¹⁸.

कथा 說 SWT, नित्याभ्यर्थक (65a), 12¹⁶, 24⁶,
 29³, 33⁸, 64⁹, 77¹¹, 103⁸, 209⁵, 329⁸.

कथित (spoken), 144¹², 324⁷.

कदम्ब 軀 W, 積集 T, नित्याभ्यर्थक (207b),
 372¹¹; -क 聚 SW, 68¹¹, 124⁹.

कदली 芭蕉 SWT, नित्याभ्यर्थक (162b),
 149⁹.

कनक 黃金 ST, 閻浮檀金 W,
 नित्याभ्यर्थक (105a),
 101⁷, 275^{2 3}, 281⁷, 365⁶; -मुनि 拘那舍
 车尼 SWT, नित्याभ्यर्थक (122b), 141⁹.

कनका 金色 W, 爲金 T, नित्याभ्यर्थक
 (178b), 281⁷.

कनिष्ठ 色究竟 SWT, नित्याभ्यर्थक (75b),
 36¹⁶; -पट 色究竟句 ST, 色究竟
 見 W, नित्याभ्यर्थक (75a), 36¹⁶.

कपाल 破 SWT, नित्याभ्यर्थक (77a), 41².

कपिल 迦毗羅 SW, 迦毘羅 T,
 नित्याभ्यर्थक (204b), 192¹⁵, 362⁸; -अङ्ग 迦
 比羅 W, 迦毘羅 T, नित्याभ्यर्थक
 (195b), 334¹³.

कपोत 鳩 WT, नित्याभ्यर्थक (170a),
 251⁹.

कम्बल 欽婆羅 W, 欽婆 T, नित्याभ्यर्थक
 (186b), 307¹⁶.

कर 手 SWT, 妙光明 W, नित्याभ्यर्थक (200b), 98
 12, 101⁹, 192¹⁵, 239⁶, 310¹⁰, 350⁴; -ण 事
 ST, नित्याभ्यर्थक (103b), 98³; -नलामलक-

वत् 猶如掌中視阿摩勒果 S, 如
 觀掌中菴摩勒果 T, नित्याभ्यर्थक
 नित्याभ्यर्थक (157b), 222¹⁴; -आगत
 239⁹.

करणीय (to be done), 60¹¹, 63¹, 64^{3 6}, 76¹³,
 82⁷, 113¹², 121⁶, 125¹⁵, 137¹¹, 149¹, 166⁷,
 167^{4 6 8 10 11}, 172¹⁶, 157¹, 223¹², 229¹.

करणा 慈悲 S, 大慈大悲 W, 大悲
 ST, 大悲心 T, नित्याभ्यर्थक (78a),
 42^{8 17}, 214³, 233².

कर्तव्य (*to be done*), 78¹², 154^a, 299^{13 15}, 309^{8 9}.

कर्ता 作者 SWT, देवता (94b), 78³, 79¹², 220¹⁰, 279¹⁰, 282⁶, 301¹⁴; -ना 作者 S, देवता (114a), 183¹⁶, 184¹.

कर्दम 泥土汁 W, 泥 T, नुस्खा (186b), 307¹⁷, 363¹⁰.

कर्म(न) 業 SWT, 行 (69a), 20^a, 37¹³, 38¹⁴, 40^{11 12 17}, 41^a, 44¹², 45¹⁰, 46¹⁷, 68¹¹, 69¹, 75², 76¹⁰, 83⁴, 86⁴, 102¹⁴, 111¹⁵, 128¹², 134¹, 140¹, 158¹, 177¹⁴, 197¹⁵, 203¹⁴, 225¹⁰, 240¹²(bis), 271², 279¹⁰, 285^{12 13}, 293¹³, 401¹⁴, 302⁴, 306¹⁷, 314¹⁴, 323⁶, 330^{6 11 12}, 332^{14 15}(bis), 347⁶, 349¹, 355⁷, 357⁶, 358¹⁴, 375¹³; -क्रिया-रहित 無業無行 W, 無業無報 T, 行 (55-56), 20¹⁰; -ना 因業而發生 W, 因業(愛)生 T, 作業生 W, 行(業) (186b), 307^a, 332¹; -जाति-लक्षण 業生相 S, 業體相 W, 業與生相 T, 行(業)-स्वरूप (79a), 44¹²; -तुष्णा-अहान 業愛無知 SW, 愛業無明 T, 行(業)-शृद्ध-धृद्ध-भृद्ध-भृद्ध (79b), 45¹⁰; -दोष 成大罪障 W, त्रिष्टुप्पि-क्षीप्पि-क्षीप्पि (171b), 25¹⁰; -पय्य業 WT, 行 (184b), 301¹⁴; -प्रभव 從業生 ST, 行(業)-स्वरूप (166b), 242¹²; -प्रोति 惡業果報 S, 餘報 T, 行(業)-त्रृत्ति (165b), 240¹²; -लक्षण 業相 ST, 業相識 W, 行(業)-मक्तु-त्रैद (75b), 37¹², 38¹⁴, 44¹²; -वर्जित 不由

於業有 W, 業性…遠離 T, 行(業)-त्रृष्टुप्पि (195a), 332⁴; -वायु 業風 WT, 行(業)-त्रृत्ति (180a), 285¹³; -आवरण 惡業障現 S, 罪業 W, 業障 T, 行(業)-त्रृत्ति (165b), 240¹²; -संबन्ध 和合業 W, 所起業 T, 行(業)-विशेष (194b), 330¹³.

कर्ष 迦梨沙那 S, 兩 WT, 痘 (72b), 31⁸; -ण 迦梨沙那 S, 兩 WT, 48¹¹, 816⁷.

कलविष्ट 運陵頻伽 SWT, ग्राघिष्ट-ग्री (123a), 142⁸.

कला 技術 S, 呪術 W, 技術 T, एव (71a), 26^a, 30¹⁵, 35¹¹, 36⁴, 319¹; -प 聚 ST, 種々 SWT, शुक्लण (126b), 127⁴, 150¹⁴, 151², 200⁷, 202^{9 10 11}, 204⁴, 339^{6 7 10}, 340¹⁴, 359⁴; -विद्या-पद 巧明處句 S, 巧明見 W, 巧明句 T, शुक्लण-प्रियंका (75a), 36⁴.

कल 末世 W, 極惡 T, 末世時 W, 五蘊-聚-滅 (204b), 362¹³, 364⁶, 365⁹, 366¹⁴ (कालि in text); -युग 極惡時 T, 末世世 W, 五蘊-聚-滅 (204b), 362¹³, 363¹.

कलिन 末世時 W, 惡世 T, 364⁶.

कलुष 垢穢 S, 泥濁 WT, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (205a), 131⁴, 293⁷, 304¹⁰; -कारक 起於諸濁 W, 而作諸濁亂 T, 293⁷.

कलेवर (body), 297².

कल 覺想 S, 覺 W, 能…分別 T

妄想 S, 執着 W, 分別 T, 劫 SWT, दुष्टि (80b), 48¹⁴, 57⁹, 101³, 123³, 127¹⁷, 135¹³, 147¹, 236⁹, 271², 277⁵, 284^{11 14}, 285^{1 6}, 302¹², 331¹⁴, 338¹³, 365⁴;

-ना 分別 WT, दुष्टि-दुष्टि (200b), 349⁹; -ब्रह्म 271², 277⁴, 284¹¹, 285⁹;

-न 分別 WT, 想 S, 能…分別 T, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (68b), 9^a, 108¹⁴, 158¹⁴, 201¹⁶, 270¹¹, 286⁴, 298¹, 316¹⁰, 325¹⁴, 336¹⁵; -ना 想 SW, 分別 T, दुष्टि (72b), 30^a, 88⁴, 105¹⁸, 108¹⁴, 121¹⁷, 132¹⁸, 186¹, 225¹⁴, 265⁸, 271⁶, 297¹⁴, 313⁷(bis), 320¹⁴, 322⁶, 329¹⁶, 342¹³, 373¹³; -ना-मात्र 121¹⁷, 186¹, 265⁴; -मात्र 妄想量 S, 唯是虛妄

心 W, 此皆是妄想 T, दुष्टि-दुष्टि (114b), 121¹⁷; -मात्र 130¹², 132¹⁵, 313⁹;

-स्थित 雖經劫數 S, 住於一劫 W, 雖經劫住 T, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (104a), 286^{9 13}; -अन्त 於後時 W, 劫盡 T, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (205a), 365⁴.

कल्पितव व分別 SWT, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (82a), 52^{9 10 11}, 53⁸.

कला 分別 W, 妄計 T, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (196a), 336³.

कल्पिक 聽 SWT, 258¹⁵.

कल्पित 妄想 SW, 虛妄 W, 妄計 T, दुष्टि (118b), 84^{2 17}, 130^{10 15}, 131^{2 5 10 12 16}, 132^{9 13 14 18}, 152², 203⁹, 273³, 275¹², 282⁴, 283¹⁸, 288⁴, 291¹⁵, 297¹³, 302¹⁷, 304^{2 3 5 7 16}, 305^{1 6}, 309¹², 312^{14 16}, 313^{4 5 13}, 316¹¹, 322⁶, 326¹⁵, 327⁴, 328^{1 9 14 17},

331^{1 3 6 6 7 12 17}, 333⁴, 335¹⁷, 336⁶, 340², 344¹; -ना 妄想性相 S, 分別 W, 著…相 T, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (35) (127b), 152².

कल्पोदाह 劫盡燒時 ST, 大地火燒 W, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (162a), 231¹⁴.

कल्प्य 所想 SW, 所分別 T, 19^a, 30^a, 48¹⁴, 159¹⁴, 201¹⁶, 253¹¹, 254^{7 9}, 316¹⁰, 325¹⁴, 338¹³; -मात्र 分別 W, 分別 時 T, दुष्टि-दुष्टि (193b), 190¹², 199¹⁷, 303¹⁵, 311⁸, 327¹⁴, 328¹.

कल्पापद 斑足 WT, दुष्टि-दुष्टि (170a), 251¹⁴.

कल्प्य-मित्र 知識 S, 善知識 द्वय-पद्म-पद्म-पद्म-पद्म (79b), 45^{14 17}, 140².

कलाय 淡味 S, 46^a, 314⁹.

कांस 銅 ST, दुष्टि (186b), 307¹⁵.

काङ्गा 求 T, दुष्टि-दुष्टि (167a), 244⁴.

काण 睹 W, दुष्टि-दुष्टि (204b), 362⁴.

काण्यान 運旅延 WT, 運多衍那 T, 運多延 T, दुर्ज्यान (204a), 361¹, 364¹⁴, 366¹³.

कानार 嘴野 S, 險難 W, 225¹².

कानि (splendour), 358⁷.

काम 欲 SWT, दुष्टि (167a), 33¹⁴, 119¹³, 243¹⁰, 248¹⁴; -धातु 欲界 SWT, दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि-दुष्टि (67a), 16³, 28⁷, 33¹⁵, 297¹, 361⁶, 363³.

काय 身 SWT, 衆 T, दुष्टि (66b), 13⁵, 15^{10 11}, 26¹⁰, 42¹⁶, 43^{2 3}, 44^{1 13 14}, 50⁴, 51⁴, 64⁶, 65⁷, 70⁴, 73⁸, 100^{9 15}, 101¹¹, 112^{10 11}.

१४^{१५}(bis), १०^{११}(bis), २७^{२८}(bis), ११८^{१९} ६ ११^{१९},
११७^१, ११८^१, १८५^{१८} १५, १८६^{१८} ११ १४, १३७^१ १५,
१३९^१, १४२^१(bis), १५४^१, २२२^१, २२६^१, २२७^१,
२३५^१, २४१^१, २४२^१, २७०^१, २७३^१, २७६^१, २९०^१,
२९३^१, २९५^१, २९६^१, २९७^१, ३१२^१, ३१८^१ ११^१,
३२१^१ १७, ३२८^१, ३२६^१, ३७०^१, ३७४^१; - जी=
वित-भोगानध्यवसित 於身命財不
生貪著 T, शुश्राद्वश्चाद्वद्यत्वा
हृदयम् क्षमाद्य (१६९b), २५०^१; - चय
三種身相 SWT, शुश्राम् ग्रीष्मकर्त्त
वीर्ण (१२१a), १३७^१; - समता 身等 S,
身平等 WT, शुश्राम् ग्रीष्मकर्त्तव्य (१२३a),
१४१^१, १४२^१.
कार(maker), ३४२^१; - क 作者 SWT, वीर्ण
धि (१११b), ११५^१, २९४^१, ३७२^१.
कारण 因 WT, 作 SW, 能作
T, शुश्राद्वद्य (७६b), ११^१, १८^१, २४^१, ३०^१,
३९^१ (bis), ४४^१, ४५^१, ५३^१ १२, ५९^१ १४,
६०^१, ६३^१, ६६^१, ७८^१, ८४^१, १०२^१, १०८^१ १०^१,
१०४^१ ११ ११, १०९^१, १११^१, ११२^१, ११४^१, १२४^१,
१५२^१ ११ १६, १५९^१, १६६^१, १७५^१ ११, १७६^१, १७०^१,
१८१^१ १२ १२, १८४^१ (bis), १८६^१, १८७^१ ११, १८८^१,
१८९^१, १९०^१ १२ १०, १९७^१ १३ १४, २०१^१, २०६^१
(bis) ११ (bis), २१८^१, २२०^१, २३४^१, २३९^१,
२४५^१, २६९^१, २७२^१ १७, २८१^१, २९७^१, ३०५^१, ३०६^१,
३०९^१, ३१२^१, ३१७^१, ३२४^१ ११, ३३४^१, ३४१^१,
३४५^१ १०, ३४६^१ १२ ११, ३४८^१, ३४९^१, ३५१^१,
३५३^१, ३५४^१, ३५५^१, ३६१^१ १४, ३६८^१, ३६९^१,
३७२^१, ३७३^१; - करवत् २८१^१; - त 作於
因 W, 能有所作 T, शुश्राद्वद्य (१०९b), ३४६^१; - दिग्मूढ 迷因果 W,
執能作迷方 T, शुश्राद्वद्य (२०७b), ३७३^१; - प्रत्यय-हेतुकी
因生 S, 依諸因緣生 W, शुश्राद्वद्य (१४७a), १९७^१; - हेतु
作因 SW, 能作因 T, १११^१ १४; - आ=

धीन 因…(受生) S, 依於因 W,
由…因緣 T, त्रूप्यंस्य (138b), 60^a,
 68¹⁶, 176¹⁸.
कारणिन् 作因 ST, 能生法 W,
 त्रूप्यंप्रगुच्छ (109a), 109^a, 233¹⁷, 241¹⁶.
कारणितय (*to be caused to do*), 229^a.
कारुणिक 大慈悲 W, 大哀愍者 T,
 मुण्डश्चेत् (65a), 12^a.
कार्य 果 W, 所作 SWT, 作 T,
 वृत्तश्चमि (70a), 24^a, 30¹², 84⁴, 104^{2 3 4},
 118^a, 152^a, 153^a (bis) ⁴ (ter) ⁵, 181^{12 13},
 182^a (bis), 186^a, 187^{a 13 15}, 188², 189¹³,
 190^{1 2 6 10}, 198¹¹, 206² (bis) ⁶ (bis) ⁹ (bis)
 (bis) ¹¹, 212¹⁶, 266^a, 272¹³, 305¹⁸, 306¹⁷,
 325³ (bis) ⁴ (ter) ⁶, 333⁶, 345⁸, 346^{12 13},
 347³ (bis), 348⁹, 354¹¹, 369¹ (bis) ³, 372¹³.
 ↗ **कार्मिक** 運梨沙那 S, 兩 WT, 𠙴¹
 (72b), 31^a.
काल 時 SWT, वृक्ष (76b), 5^a, 12¹, 38²,
 39^a, 40¹⁴, 89¹⁷, 96¹⁸, 102¹⁸, 103¹¹, 140^{4 9},
 160^a, 173^a, 184¹¹, 196¹⁰, 225¹⁶, 235¹⁵, 239
¹, 244^a, 258¹⁴, 279⁹, 286^{9 10}, 295¹², 301⁹,
 309¹⁰, 315¹⁷, 330¹, 331¹, 333⁶, 342³, 353
¹¹, 356³, 367⁶, -कर्ता 時是作者 S, 時
生世間 T, 諸萬物皆是時 W,
 वृद्धदर्शवृक्षभिन् (141b), 184¹¹; -वर
 297²; -अन्तर 時隔 WT, वृक्षमार्गवृक्ष-
 वृक्षभिन्नादि (201b), 353¹¹; -अन्तर-
देशना 我時時說 S, 爲待時故說
 如是法 W, 我別時說 T, वृक्ष-
 मार्गवृक्षवृक्षपृष्ठादि (111b), 115
⁵, -आप्य वृक्ष 184¹¹.
कालुष 濁法 W, 濁亂 T, द्वेषादि
 (183a), 296¹¹.

काश्यप 過葉 SWT, दैर्घ्य (72a),
29¹, 141¹⁰, 142¹⁴, 365².

काषाय 製裟 WT, 五श्चेष्टा (170b),
253¹⁸, 307¹⁸, 333²; -धन्त्र-धारित् 被
我製裟 W, 五श्चेष्टा पीतुभासक्तु
मेष्टा (170b), 253¹⁸; -वासो-वसन 身
被於製裟 W, 身著於製裟 T,
五श्चेष्टा पीतुष्टा कीष्टा (195a), 333².

काष 木 SWT, 浮木 SW, 梅·木
木·木 (120a), 57¹, 135², 217¹¹, 268²,
321¹⁰, 341¹² 14, 366¹.

किंकनीकृत (see अकिंकरीकृत), 253².

किं-हेतु-संभव 何因生 W, 何因起
T, 360¹⁸.

किंनर 繫那羅 W, मी·धन·ठे·धन (173
b), 16², 261⁵, 262².

किनरी 繫那羅女 W, मी·धन·ठे·धन
धन (172a), 262².

कियन 久如 SWT, 28¹⁰.

किरण 光明 SW, 光 T, दैर्घ्य (79b),
46¹, 56¹¹, 123², 160¹⁸, 227¹, 314².

१० किरीट 寶冠 WT, 冠 T, 金冠 W,
डैर्घ्य (67a), 15¹⁸, 17¹, 101⁷.

किल (*indeed*), 2¹¹.

कील 楔 SW, 楊 T, पृष्ठ (102b),
95¹⁸ (bis), 292¹⁰ (bis).

कुञ्चि (*the belly*), 247¹².

कुञ्च 石壁 SWT, 壁 WT, डैष·प
(96a), 81² (कु in text), 169¹⁰, 170²,
277², 295¹⁵, 316², 318¹, 319¹⁸.

कु (used as a prefix implying deterioration,
depreciation, contempt etc.), -तक्के-

惡覺 S, 惡(見) T, ཅନ୍ତର୍ଦ୍ଵିଦ୍ଵାଣୀ
(137b), 175²; -ନାର୍କିକ 惡思覺者 T,
無智慧者 W, 惡覺 ST, 邪見 W,
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵିଦ୍ଵାଣୀ (111a), 114¹, 167¹⁷, 171
1⁸, 172¹⁸, 276⁸, 288¹², 371⁹, 373⁸; -ନାର୍ଥିକ
諸外道 W, ଶିଖିତାତ୍ମକ କମଳ (146a),
195⁴; -ନାର୍ଥି 惡見 S, 諸外道 W,
外道邪論 T, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵିଦ୍ଵାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ
ନାର୍ଥିକ (80b), 49⁹, 103¹, 185⁷, 329⁹;
-ତ୍ସନୌଯ 可厭惡 W, 可厭患 T,
ଏଠେ ସର୍ବଧୂଷନ (172a), 257¹⁶; -ଦର୍ଶନ
邪見法 W, 諸惡見 T, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ
(206b), 370⁹; -ହୃଦି �邪見 W, 惡見
SWT, ଶିଖିତାତ୍ମକ (77b), 14⁹, 405⁸, 411⁴,
541⁶, 561², 643⁹, 701², 71⁸, 91⁸, 921⁹ 10, 951¹,
112¹⁴, 129⁴, 180⁸, 195², 209⁹, 213⁹, 226¹¹,
230⁶, 286⁷, 320¹², 333¹², 352⁶, 373¹²; -ଜ୍ଞାନ
ଲ �邪見網 W, 諸惡見網 T, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ
ଏ (207b), 373¹⁵; -ହୃଦିମାର୍ଗ �邪徑 S,
邪見等法 W, 諸惡見中 T, ଶି
ଖିତାତ୍ମକ ନାର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ (153b),
213⁹; -ହୃଦିବାଦ 說邪法 W, 惡見
T, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ (201a), 352⁴.
କୁଞ୍ଜ 半月曲 W, 半月形 T, 308³.
କୁମ୍ଭ 285¹¹; -କର୍ଣ୍ଣ �聾耳 WT, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ
(62b), 61¹; -କାର 陶家 S, 陶師 WT,
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ (83b), 55⁹, 781² 17, 242¹³; -ଆରାଦ
鳩槃茶 W, 261⁸, 262¹⁰, -ଆରାଦୀ 鳩
槃茶女 W, 261⁸, 262¹⁰.
କୁରୁଟ ବ୍ରଚ୍ଚ WT, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାଣୀ (176b), 274⁵.
କୁଳ 種 T, 性 S, ରୀତିଶ (172a), 212¹⁶.

250^a, 257¹¹, 258^{1 2 11}, 273²; -दुहित 善女人 SWT, देवता-सुभूति (146a), 138^a, 139^a, 195^a, 196^a, 248¹², 250^a, 254^{11 12}, 261^a, 262^a; -पुत्र 善男子 SWT, देवता-सुभूति (146a), 138^a, 139^a, 195^a, 196^a, 248¹², 250^a, 254^{11 12}, 261^a, 262^a; -वंश 種 SW, 種性 T, तुर्तु (153a), 212¹⁴.

कुलान (*belonging to the family?*), 309^a.
कुशल 善 SWT, देवता-सुभूति (68a), 2^a, 9^a, 17^a, 10^{13 14}, 15^a, 18^a, 43¹², 67^a, 68^a, 69¹² (bis), 80¹², 82^a, 90^a, 91¹⁷, 116¹⁸, 123^{11 12}, 133^a, 148¹⁶, 155¹⁶, 160¹³, 171¹⁷, 195¹⁷, 196^a, 212^a, 213^a, 220^a, 221¹⁶, 234¹⁷, 235^{15 16 10}, 236¹⁵, 242^a, 278^a, 330^a, 347¹⁰, 366^a; -मूल 善根 SWT, देवता-सुभूति (68b), 9¹², 45¹⁰, 66^{1 2 4 13 14 15}, 101^a, 120^{14 17}, 250^a; -अकुशल 善不善 SWT, 善惡 T, मैदेवता-सुभूति (68a), 18¹⁰, 212^a, 220^a, 278^a, 366^a; -अकुशल-हेतु 善不善因 SWT, देवता-सुभूति (68a), 220^a.
कुष 惡願 W, देवता-सुभूति (169b), 249^a.

कुसुम 衆妙 T, 諸華 S, 花 T, देवता-सुभूति (78b), 43¹⁵, 308¹⁴.
कुसुमित 妙華 SW, 如花開敷 T, देवता-सुभूति (121a), 81¹³, 137^a, 227^a.

कूठ (mass), 349¹⁴.
कूर्म 龜 SWT, देवता-सुभूति (77b), 41^a; -रोम 龜毛 SWT, देवता-सुभूति (107a), 41^a, 104¹⁶.
कूर्त 作 WT, 純善(時) T, 正(時) W,

देवता-सुभूति (171a), 60¹³, 69¹⁷, 91¹¹, 103^a, 112^a, 115^a, 152^a, 191^a, 195¹³, 244^a, 255^a, 301^a, 309¹⁶, 334¹¹, 346^a, 354^a, 364^a, 365^{7 10}, 367¹¹; -क 作者 T, 作 SW, 人力分別說 W, 假安立 T, 所作 ST, 60¹⁴, 61¹⁸, 105^a, 176^{11 12} (bis), 177^a, 182^a, 187^{9 13 18}, 190¹⁰, 217^{9 10 12}, 228^a, 347^a, 361^{11 13}, 366^a; -कृत 作 WT, देवता-सुभूति (134a), 167^a, 177¹⁶, 349²; -त 所作 WT, 188¹⁷; -भक्त-पिण्ड 飲食 WT, देवता-सुभूति (187b), 309¹⁶; -युग 正時 W, 純善 T, देवता-सुभूति (205a), 364^{5 6}; -योग्य 244^a; -वत् 254¹²; -विद्य 照明(諸地) ST, 善解(諸地) W, देवता-सुभूति (81b), 51^a, 69¹⁷, 152^a; -अर्थिन 供養(者) T, 5¹⁵; -अवकाश 蒙(佛)許已 T, 聞(佛世尊)聽已 W, देवता-सुभूति (67a), 15¹⁶, 16^a.
कृति (王)像 S, (王)座 W, देवता-सुभूति (90b), 70^a.
कृतिन 名正時 W, 出純善時 T, देवता-सुभूति (205a), 365^a.
कृत्ति (for कृत्ति), 31^a.
कृत्य 事 ST, 用 W, 作 SWT, 所事 W, देवता-सुभूति (77b), 41^{2 3}, 83^{10 14 16}, 98^a, 105¹¹, 240^a, 375^a.
कृत्ति 悉 S, 普 T, 229^a, 344^a.
कृपा 慈悲 S, 大慈大悲 W, देवता-सुभूति (69b), 22^{7 10 11}, 23^a, 42¹⁷, 264^{6 8 10 12}; -कृपणा 大悲 SWT, 大慈悲心 W, देवता-सुभूति (153b), 42¹⁷, 214^a; -लु 245

1^a, 250¹⁰; -आत्मक 大慈 W, 大悲 T, देवता-सुभूति (176b), 274^a; -आत्मन् 245^a, 246^a, 247^a, 248^{2 15 17}, 249^a, 252¹⁴; -एक-रस 慈悲一等 W, देवता-सुभूति (167b), 244¹⁴.
कृमि 微蟲 W, 蟲 ST, शीर्ष-सुभूति (107a), 105¹⁴.
कृष्ण 黑 SWT, देवता-सुभूति (93b), 76^a; -पश्चिक 世論婆羅門 WT, 蘆伽耶陀婆羅門 W, देवता-सुभूति (189b), 179^a.
केश (hair), 317^a; -उगडु 327^a; -उगडुक झ 輪 SWT, देवता-सुभूति (67b), 17^a, 72^a, 82^a, 92^{2 4}, 95^a, 96^{5 6}, 106^a, 168^a, 200¹⁸, 202^a, 267^a, 274¹⁴, 275^a, 277^a, 281^{13 15}, 295³, 321², 331¹³, 335², 337¹³, 349¹⁵.
कैलास 鷄羅 SW, 鷄羅婆 T, देवता-सुभूति (72a), 29^a.
कैवर्त 捕魚 WT, देवता-सुभूति (68a), 246¹³, 253³.
कैशिक (a musical note), 3⁷.
कोटि 際 SWT, 實際 WT, 億 WT, मैत्र (128b), 2^{4 12}, 78^a, 88¹³, 154¹, 192¹⁷, 222³, 233^{8 12}, 240¹¹, 269^a, 271¹⁴, 288¹, 301⁷, 326¹², 333¹⁶, 336¹³, 349¹¹.
कोटी 聖利 S, 一億 W, 億 SWT, 實際 WT, मैत्र (72b), 31^a, 73¹, 290^a, 325¹⁴, 326¹².
कोनाक-मुनि 拘那含 SWT, देवता-सुभूति (72a), 29^a, 142¹⁴.
कोविद (experienced), 152¹⁴, 322^a, 324¹⁴.
कोश (पटल-), 羽 T, 羽膜 W, 11^a; -कार-कोटक 蟻作繭 SWT, 5⁵

शीर्ष-सुभूति (158a), 225¹¹.
कौष 惡願 W, मैत्र (169b), 249^a.
कौकृत्य 戒悔 W, 改過 T, 除疑悔過 S, देवता-सुभूति (122a), 139¹⁴ (bis) 1³.
कौटिल्य 側僻 T, देवता-सुभूति (205b), 367¹.
कौतुक (curiosity), 226¹⁴.
कौतूहल 欲見 S, 樂見 WT, 疑心 W, देवता-सुभूति (66a), 14^a, 44^a.
कौरबक (bird-catcher?), 253³.
कौरव 鳩羅婆 W, 橋拉婆 T, देवता-सुभूति (204b), 362¹¹.
कौशल 善修 WT, 善知 T, मैत्र (131a), 11^a, 15^{2 11} (bis), 35¹, 45¹⁰, 69^a, 160¹⁴, 229^a.
कौशल्य 大方便 W, 方便 T, 巧方便 SW, 善巧方便 S, 方便善巧 T, 善 T, मैत्र (63a), 9¹⁶, 42^a, 78¹⁶, 197³ (bis), 211^{3 4}, 212^a, 213^{3 4}; -पद 巧句 S, 巧見 W, 善巧句 T, मैत्र (74a), 35¹.
कौशेय-क्रिमि 蟻 SWT, 蟻蟲 S, शीर्ष-सुभूति (132a), 162², 163^a.
कृकुच्छन्द 拘留孫 SWT, 29^a, 141^a, 142¹⁴ (-कृकुच्छन्द in text), 365⁵.
कृम 次第 WT, 度 S, 相至 S, देवता-सुभूति (70a), 24⁵, 25¹⁴, 30¹³, 31³, 42¹¹, 43¹¹, 44^a, 48^{2 7}, 55^{4 5}, 82¹¹, 84^{12 14}, 89^a, 114⁷, 211³, 213⁷, 215⁷ (bis), 216^a, 221¹¹, 224^a, 292³, 316^{1 3}, 351¹⁶; -कृति 漸 S, 次第 W, 漸次 T, देवता-सुभूति (83a), 48³, 55^{4 5 12}, 84^{3 5 6 7 9}, 103¹⁶, 316¹; -शम 漸 ST, 漸次 W, देवता-सुभूति (83b), 55^{5 6 9 11 13 15 17},

-अनुसंधि 次第相續 S, 次第行 W, 次第…相續 T, अनुसंधि (154b), 215^a.

ऋण-विक्रय 販賣 W, 賣買 T, ऋण-विक्रय (187a), 308^a.

ऋणाद 食肉 SWT, मृत्यु (71b), 27^a, 244^a, 247¹², 250^a, 257¹⁵, 258¹¹; -भोजन (flesh), 256¹⁰; -भोजिन (carnivorous), 244^a; -सत्त्व (flesh eater), 244^a.

क्रिय 所作相 S, 所作事 W, 所作 T, क्रिया (166b), 242¹³.

क्रिपि 惡蟲 W, 諸蟲 T, क्रिपि (169b), 162^a, 163^a, 249^a.

क्रिय 所作 SWT, 修 T, (for -या metri causa), क्रिया (178b), 280^a, 937^a; -विचित 異於作 W, 不待修 T, क्रिया (195a), 332¹³.

क्रियमाण (being done), 125^a.

क्रिया 所作 SWT, क्रिया (70b), 12^a, 20^a, 241^a, 321^a, 332^a, 361^a, 401^a, 41^{9 11}, 421^a, 43^a, 44¹¹, 57¹⁴, 581^a, 73^a, 75^a, 83¹², 841¹⁴, 94¹⁶, 112², 115⁷, 124¹⁴ (bis), 127^a, 143¹⁴, 159^a, 163^a, 204^a, 206¹², 220¹², 266^a, 267^a, 268¹⁴, 276¹⁰, 279¹⁰, 306¹⁷, 332¹⁵ (-क्रिय in text), 340¹⁵, 344^a, 351^a (bis), 357^a; -पद 事句 S, 作見 W, 作句 T, क्रिया-क्रिया (75a), 361^a; -भेद 種々 治 S, 方異 W, 方藥種々殊 T, क्रिया-क्रिया (197b), 204^a, 340¹⁵; -वर 作事 S, 事 W, क्रिया-क्रिया (148a), 199^a; -हेतु-भाव-लक्षण 作因性相 S, 因體所作之事 W,

所作自是無常 T, क्रिया-क्रिया (150b), 206^{12 14};

-अभिवक्ति 所作分明 S, 作法了別 W, 所作明了 T, क्रिया-क्रिया (180b), 159^a.

क्रोश 拘樓舍 S, 十里 W, 俱盧舍 T, क्रोश-क्रोश (72b), 31^a.

क्रिट 染 W, 習染 T, क्रिट-क्रिट (207b), 372¹⁰.

क्रेदनात्मक 爛諸物 W, 爛爛壞 T, क्रेदनात्मक-क्रेदनात्मक (202a), 354^a.

क्रेश 煩惱 SWT, क्रेश-क्रेश (65a), 12^a, 23^a, 34¹⁵, 63¹¹ (bis), 65^a, 97^a, 102¹⁴, 120^a, 135¹⁰, 140^{12 14}, 146^a, 183¹⁷, 185^a, 204¹⁰, 222¹⁴, 241^{9 11}, 255¹⁷, 264¹¹, 301¹⁴, 321^{9 14}, 323¹⁰, 324¹¹, 340¹⁷, 341², 358^{4 15}, 361¹⁵, 373^a; -जाल 煩惱罪 W, 煩惱網 T, क्रेश-क्रेश-क्रेश (186b), 307¹¹;

-क्रेय 煩惱及爾焰 ST, 煩惱障智障 W, क्रेश-क्रेश-क्रेश (173b), 23^a, 242¹, 264¹¹; -क्रेयावरण-इय 二煩惱 S, 二種障 WT, क्रेश-क्रेश-क्रेश (166a), 242¹; -दोष 煩惱 S, 煩惱過 W, 煩惱病 T, क्रेश-क्रेश-क्रेश-क्रेश (149b), 204⁷, 340¹⁷; -इय 185^a; -पद

煩惱句 ST, 煩惱見 W, क्रेश-क्रेश-क्रेश (74a), 34¹⁵; -आवरण 煩惱障 SWT, क्रेश-क्रेश-क्रेश-क्रेश (166a), 241^{9 11}; -इन्धन 煩惱薪 WT, क्रेश-क्रेश-क्रेश-क्रेश (65a), 12^a.

अण 刹那 ST, 念 W, 念念 W, क्रिया-क्रिया (89b), 68¹⁴, 76^a, 146¹⁶, 234¹¹, 235¹⁵, 240⁹, 347¹¹ (bis) 14¹⁷ (bis), 356^a, 374^a;

-जन्म-परंपरा 念展轉生滅 W, 受生念遷謝 T, क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया (200a), 347¹⁴; -परंपरा-

-भेद-भिन्न 刹那展轉壞 S, 諸相展轉彼々差別 W, 刹那無常展轉差別 T, क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया (125a), 146¹⁶; -प=रंपरा-भेद-लक्षण 240^a; -भङ्ग 刹那壞 S, 念不住 W, 刹那滅 T, क्रिया-क्रिया-क्रिया (70b), 25^a, 110¹¹, 234¹¹, 239², 368^a; -भङ्ग-हृष्ट-नष्ट-दर्शन 刹那頃現現已卽滅 S, 卽見卽滅 W, 見以卽滅 T, क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया (109b), 110¹¹; -भेद 念差別 W, 刹那相 T, क्रिया-क्रिया-क्रिया (208a), 374^a.

अणिक 刹那 ST, 刹尼迦 W, क्रिया-क्रिया (138b), 34¹⁵, 177^a, 221², 235¹⁵ (bis) 17^a, 236² (bis) 8^{11 14}, 238^{8 10 12}, 239¹⁰, 234¹², 242², 279¹⁴, 280^{1 2}, 319², 352^a, 356^a; -दृष्टि-विकल्प-वासित-मति 利

那見妄想熏心 S, 邪見熏習言--切法刹那不住 W, 分別熏心…起刹那見 T, क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया (164a), 236^a; -पद 刹那句 ST, 刹那見 W, क्रिया-क्रिया (78b), 34¹⁵; -अक्षणिकता 刹那非刹那 ST, 刹那不

住 W, क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया (163b), 236^a; -अर्थ 刹那義 W, क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया (178a), 280^{1 2}.

अणिका 刹那 ST, 念不住 W, क्रिया-क्रिया (165a), 234¹², 239⁷, 279¹⁴, 356^a, 368^{12 13}.

अणगता 忽知 ST, 忽 W, क्रिया-क्रिया (164b), 237¹⁷.

अण 盡 SWT, क्रिया-क्रिया (81b), 51¹¹, 157¹⁵, 183¹⁷, 219^{1 2}, 238¹¹, 370¹⁸; -कर-盡 WT, 12^a; -शान 尽智 WT, क्रिया-क्रिया-क्रिया (193a), 17^a, 326^a.

अणात (patient), 302¹⁴.

अणित 忽 SWT, क्रिया-क्रिया (130a), 158^a, 203¹¹, 237⁴, 340^a; -अनुत्पत्ति 無生忍 WT, क्रिया-क्रिया-क्रिया (176a), 273^a; -पार-रमिता 屢提波羅蜜 SWT, क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया-क्रिया (164b), 238^a.

अणित 地 SWT, क्रिया (72b), 30¹⁶.

अणि 放 WT, क्रिया (205b), 366².

अणील 已盡 SWT, क्रिया-क्रिया (87b), 63¹², 127¹², 267^a.

अणीर 珂乳 SW, 乳 T, क्रिया (79b), 147^a, 159^{13 14}, 205^a, 314^a.

अणेन 國土 WT, 刹 SWT, 刹土 S, क्रिया (63a), 8^{7 14}, 13¹, 24⁴, 27^{18 19}, 28², 29¹⁶, 31² (bis), 33¹³, 34⁴, 35⁴, 42¹⁷, 45¹³, 51⁸, 54⁶, 70³, 72¹⁵, 73² (bis), 98¹², 105^{4 6}, 123^{4 5}, 160¹⁵, 279⁹, 282⁹, 283⁶, 291⁹, 306⁷, 307^{3 4 12}, 310¹⁰, 312¹, 313^{9 12}, 366⁴; -कोटि 萬億國土 W, 諸億刹 T, क्रिया-क्रिया-क्रिया (188a), 312¹; -पद

刹土句 S, 國土見 W, 刹句 T,
ब्रह्मवैक्षण (74a), 35^a; -संकम 國
土轉 W, 超…諸刹 T, ब्रह्मवैक्षण
(78a), 279^a; -सूति 念刹土 s, 憶
念 T, 佛國土念 W, ब्रह्मवैक्षण
(107a), 105^a; -अवबोध 國土覺
W, 諸刹…令覺悟 T, ब्रह्मवैक्षण
(186b), 307^a.

ख

ख 空 S, 虛空 WT, कुमारपाल (71a),
27^a, 192^a, 246^a, 247^a; -ज(चन्त्र?), 340^a;
-ज-मृद्गङ्ग-चक्र 墓泥團輪 W, 種
子泥輪 T, वैष्णव-वैदिक-भैरव-शुभ
(197b), 203^a, 340^a; -पद 虛空句
ST, 虛妄見 W, 35^a; -पृथ्वी 虛空
華 SW, 虛空花 T, कुमारपाल-मे
रुण (69b), 22^a, 25^a, 264^a.
खचित (painted?), 20^a.
खच-गर्दभ 跛驥 SWT, वैद्यनाथ
(81a), 50^a.
खङ 刀 WT, रथ्यांशु (196a), 335^a.
खण्ड 魔陀 W, खृष्ट-डे (169b), 250^a,
360^a.
खट (a kind of blow), 119^a.
खदोत 螢火 W, 螢光 T, शैक्षण्य-
घुरु (174b), 268^a.
खर 驢 WT, खृष्ट-घ (68a), 19^a, 62^a,
72^a, 218^a, 246^a, 334^a.
खलु (indeed), 13^a, passim.

खादित (*devoured*), 249^a.
खारी 佢黎 S, 十斛 WT, खण्ड (72a),
31^a.
खे-चर 空行 S, कुमारपाल-कुण्ड (170
b), 253^a.
खेज (चन्त्र?), 208^a.
खेद-पद (see खपद), 35^a.
ख्याति 現見 W, 能見 T, खेद (175b),
37^a 10, 17 18, 271^a; -विज्ञान 現識 ST,
了別識 W, खृष्ट-घै-कुमारपाल-मे
रुण (75b), 37^a 10 17 18.

ग

गगन 虛空 SWT, कुमारपाल (69a),
10^a, 16^a, 25^a, 98^a, 131^a, 192^a, 203^a, 218
11, 277^a, 287^a, 296^a, 302^a, 304^a, 340^a,
343^a, 367^a, 372^a; -नल (虛空) 13^a;
-अग्नि 虛空火 W, कुमारपाल-मे
रुण (187b), 310^a; -उपम 如虛空 W,
मारपाल-ख (71b), 25^a, 27^a, 203^a, 287
12, 340^a, 372^a.
गङ्गा 恒河 SWT, गंगा (161b),
231^a 10 17, 232^a 8 11 18, 233^a, 234^a; -न=
दी 恒河 SWT, गंगा-गृह्ण (160b),
229^a 18, 230^a, 231^a 14, 232^a, 233^a; -महा-
नदी 231^a; -उदक 恒河水 T, गंगा
गृह्ण (107b), 106^a.
गज 象 SWT, गंगा-गृह्ण (71a), 27^a, 30^a,
113^a, 141^a, 307^a, 322^a.
गण 大衆 SWT, कुण्ड (92a), 1^a, 15^a, 26^a,

73^a (bis), 308^a, 334^a; -ना 數 SWT,
125^a; -संसृष्ट ऋ所襍 W, 間衆所
集處 T, कुण्ड-खृष्ट-घ (187a),
308^a.
गणित 數 SW, 算數 T, गणित-खृष्ट-
कुण्ड (74b), 35^a.
गण 薩 WT, खृष्ट-घ (68a), 18^a.
गत 由 S, 隨順 W, 順 T, 28^a, 42^a, 63^a,
72^a, 77^a, 98^a, 141^a 13, 155^a, 201^a, 266^a,
286^a, 307^a, 323^a, 328^a, 338^a, 371^a, 372^a,
373^a; -शृण 惡心堅固 W, 心無慈
愍 T, खृष्ट-घ-मेद-घ (170b), 253^a;
-वत 行 WT, 251^a.
गति 境界 SWT, 往 ST, 去 W, 境
T, 行止 T, 去來 W, 行相 T, 行
W, खृष्ट-घ (65b), 11^a, 12^a, 13^a, 14^a,
18^a, 25^a, 27^a, 30^a, 45^a, 50^a, 51^a, 57^a 17,
62^a 6 18, 63^a, 66^a, 69^a, 72 13 16, 80^a, 81^a
11 13 14, 85^a 10, 89^a 7, 93^a 11, 95^a, 98^a,
116^a (bis), 117^a, 120^a, 121^a, 124^a,
127^a (bis), 128^a, 133^a (b's) 18 (bis), 135
12, 136^a, 140^a, 142^a, 143^a, 148^a (bis), 152
1, 155^a, 161^a, 162^a, 17, 173^a, 178^a, 180^a,
185^a, 196^a, 198^a, 214^a, 220^a, 224^a 7 16,
225^a 15, 226^a (bis) 17 18, 230^a, 233^a
(bis), 234^a, 238^a, 241^a, 243^a, 244^a, 269^a,
292^a 14, 293^a, 299^a, 303^a, 310^a, 320^a,
330^a, 332^a, 347^a, 356^a, 370^a, 371^a; -क
362^a; -गति-गत 究竟 WT, 通達
SWT, खृष्ट-खृष्ट-घ-कुण्ड (70a), 2^a,
9^a, 23^a, 43^a, 49^a, 85^a, 101^a, 117^a, 122^a,
126^a, 137^a, 148^a, 156^a, 195^a, 196^a, 269^a,
312^a, 330^a; -पञ्चक 五趣 ST, 五道
W, खृष्ट-घ (132b), 162^a; -संकर 諸趣

ST, 五道生死 W, खृष्ट-घ-मेद-घ
(156a), 220^a; -संधि (餘) 趣相續
S, (異)道 W, (餘) 處受生 T,
14^a, 162^a, 371^a; -आगत 往來 ST,
去來 W, खृष्ट-घ (72b), 17^a, 30^a;
-आगति 去來 WT, खृष्ट-खृष्ट-घ
(194a), 330^a, 370^a.
गच 長頌 S, 長…句 W, 長行句 T,
廣說 S, 廣…說 W, 長行 WT,
कुण्ड-शृण-घ (71a), 26^a, 32^a, 363^a.
गत्य (to be gone), 190^a 15, 327^a.
गच्छ 香 SWT, खृष्ट-घ (66b), 15^a, 226^a,
247^a, 248^a, 369^a; -सुगच्छ 香積 S, 衆
香 W, 妙香 T, खृष्ट-घ-कुण्ड (107a),
105^a.
गच्छर्व 闢婆 ST, 乾闢婆 SWT, 捷
闢婆 S, 樂人 W, खृष्ट-घ (63b), 9^a,
16^a, 25^a, 29^a, 32^a 15, 42^a, 96^a, 160^a, 200
12 18, 202^a, 261^a, 262^a, 273^a, 287^a, 289^a,
303^a, 306^a, 307^a, 321^a, 331^a, 335^a, 337^a
13, 353^a; -नगर 韻闢婆城 SW, 乾
闢婆城 ST, खृष्ट-घ-कुण्ड (77b),
42^a, 90^a, 106^a, 199^a, 272^a, 277^a, 283^a,
301^a, 317^a, 374^a; -पद 韵闢婆句
韻闢婆見 W, 乾闢婆句 T, खृष्ट-
घ-कुण्ड (74b), 36^a; -पुर 韵闢婆 S,
乾闢婆 W, 乾城 T, खृष्ट-घ-कुण्ड
(165a), 239^a, 368^a; -रूप 乾闢婆 W,
乾城色 T, खृष्ट-घ-कुण्ड (186a), 306^a.
गच्छर्वी 乾闢婆女 W, खृष्ट-घ (173a),
261^a, 262^a.
गम 數 WT, 向 S, 30^a, 319^a, 343^a; -न

至 SWT, ର୍ତ୍ତ୍ଵୀଷ (73a), 24¹₂, 32¹⁴,
 33², 50¹, 70¹, 94¹⁷; -ନ-ଆଗମନ ଗୁଡ଼ କାହିଁ ଆଗମନ
 来 WT, ର୍ତ୍ତ୍ଵୀଷ (198a), 94¹⁷, 343⁷.
 ଗମ୍ଭୀର (to be gone), 87¹², 89¹, 128¹².
 ଗମ୍ଭୀର ହିତାର୍ଥ କାହିଁ ଆଗମନ (173a),
 261¹, 262¹.
 ଗମ୍ଭୀର ହିତାର୍ଥ କାହିଁ ଆଗମନ (173a),
 261¹, 262¹.
 ଗମ୍ଭୀର ତାର୍ଥ କାହିଁ ଆଗମନ (173a),
 25¹, 33¹, 78¹₁₀¹⁶, 79¹¹, 223¹⁴,
 307², 357¹⁵, 358¹⁵, 359¹⁰, 366¹², 369¹;
 -ଦର୍ଶନ 369¹; -ସମ୍ବାନ କାହିଁ ଆଗମନ
 藏處 T, ର୍ତ୍ତ୍ଵୀଷିଷ୍ଟେର୍ଯ୍ୟ (208a), 358¹.
 ୬ ଗମ୍ଭୀର ତାର୍ଥ W, 懷胎藏 WT, ର୍ତ୍ତ୍ଵୀଷ
 M (206b), 359¹⁰, 369¹.
 ଗହିତ (see also ବିଗହିତ), 257¹⁴, 259².
 ଗହନ ତାର୍ଥ WT, ସମ୍ବାନ (207b), 45¹¹,
 373⁴.
 ଗହନ ତାର୍ଥ WT, ସମ୍ବାନ (203b), 357¹².
 ଗାଚାର (a musical note), 3⁷.
 ୧୦ ଗାଯା ଗାୟ SW, ପ୍ରେତ T, ଯତ୍ତା ଯତ୍ତା SW, ଯତ୍ତା
 T, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟତନ୍ତ୍ର (62a), 3⁹, 4⁶,
 22¹, 23¹, 26¹, 46¹, 65¹, 70¹, 71¹, 73¹, 76¹⁴,
 79¹⁰, 244², 264¹; -ଗୋତ ଯତ୍ତା ଯତ୍ତା W,
 କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟତନ୍ତ୍ର (62a), 4⁶.
 ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ W, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ
 (181a), 291¹.
 ଗାନ୍ଧିନ ଗାନ୍ଧିନ W, ଲୀନ T, ର୍ତ୍ତ୍ଵୀଷ (204a),
 113¹, 119¹, 361².
 ଗିରି ଗିରି WT, ଗିରି (62b), 6¹², 8¹₁₁, 12¹⁵,
 43¹¹, 81¹, 91¹; -ମଲ୍ୟ ମଲ୍ୟ ଗିରି WT,
 此山中 T, ମାଧ୍ୟ (78b), 43¹¹.

ଗୋତ ମୁଦ୍ରା SWT, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ (88b), 3⁹, 4⁶,
 55¹¹, 128¹⁰; -କାହିଁ ଗୋତ ମୁଦ୍ରା W,
 ଗୁଡ ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ W, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ (169b), 250².
 ଗୁଣ ଗୁଣ ST, କାହିଁ ଆଗମନ WT, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ
 (64a), 11¹, 18¹⁷, 51¹¹, 89¹¹, 102¹⁰, 114¹,
 183¹⁴, 184¹, 244¹, 249¹²₁₄, 252¹¹₁₂¹³,
 256¹¹, 320¹¹, 333¹³(bis), 334¹⁴, 358¹², 362
 1, 369²; -ଦୋଷ ଗୁଣ S, ଗୁଣ失 T, ଗୁଣ
 W, କାହିଁ ଆଗମନ (167b), 244¹, 245²; -ମେଦ
 ଗୁଣବିକାର W, ଗୁଣବିକାର T, ଗୁଣବିକାର
 (206a), 369².
 ଗୁଣିତ ଗୁଣିତ S, ଗୁଣବିକାର S, 所作 W,
 ଗୁଣିତ T, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟତନ୍ତ୍ର (111a),
 114¹, 184¹.
 ୬ ଗୁମ ଗୁମ W, ଗୁମ T, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ
 (204b), 308⁷, 362¹².
 ଗୁରୁ ଗୁରୁ WT, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ (73b), 33¹⁰₁₄, 35³;
 -ପଦ ଗୁରୁ ST, ଗୁରୁ W, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ
 (74a), 35³.
 ଗୁରୁ ଗୁରୁ W, ଗୁରୁ T, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ
 (203b), 36¹⁷, 55¹², 57¹,
 94¹⁰, 102¹.
 ଗୁରୁ ଗୁରୁ W, ଗୁରୁ T, ଗାନ୍ଧୀର୍ଯ୍ୟ (187a), 45¹¹,
 308⁹.
 ଗୁରୁ (hidden), 294¹.
 ୧୦ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ST, ଗୁରୁ W, ଗୁରୁ ଗୁରୁ
 (172a), 25¹¹.
 ଗୁରୁ (a vulture), 250¹.
 ଗୁରୁ ଗୁରୁ WT, ଗୁରୁ T, ଗୁରୁ W, ଗୁରୁ
 宮殿 WT, 宮殿 T, ଗୁରୁ W, ଗୁରୁ
 宅 W, ଗୁରୁ (105b), 6¹, 8¹₁₁, 17¹⁵,
 20¹⁶, 102⁷, 271¹², 370¹; -ମହାନ-ଉଦ୍‌ଯାନ-
 ପ୍ରାଚାଦ ପ୍ରାଚାଦ WT, ଗୁରୁ ଗୁରୁ

(68a), 17¹⁵; -ସ୍ଵ ବ୍ୟାଜ W,
 俗人 T, ବ୍ୟାଜ (187a), 308⁹.
 ଗୁରୁ 317¹; -ମାନ (being seized), 360¹.
 ଗୋ ଗୋ WT, ଗୋ ଆଗମନ (98a), 75¹²₁₅, 91²,
 113⁷, 188¹⁰₁₁, 307¹³, 369¹⁰; -କାର କାର
 SWT, 所行 T, କାର (67b), 10⁹,
 11², 16¹⁵₁₆, 17¹⁰, 21⁴, 39¹³₁₄(ter), 15(bis)
 16, 42¹, 43¹, 44¹, 45¹⁵, 49⁶₇, 54³, 55¹, 56⁸₉,
 62⁵(bis) 14, 67¹⁷, 70², 78¹⁰, 79⁴, 86¹⁶,
 87¹³, 89⁷, 95¹², 98¹⁰₁₉, 106¹¹, 117², 132¹³,
 137¹⁴, 147³₄, 152¹, 164¹⁵, 176¹, 189¹,
 222¹⁶₁₇, 226¹³, 231¹, 265¹, 266¹₇, 267¹⁴,
 271¹₅, 274¹, 284¹₆, 285⁷₈, 288⁵₆₈, 289
 18, 293¹⁴, 297²₁₂₁₄, 298⁴, 299⁴(bis) 5⁶,
 304⁵, 307⁷, 313⁴, 317¹⁰, 319¹³, 320¹, 333⁷,
 337⁴, 373⁴; -ଖୂର ଖୂର W, 小豆 T,
 小豆 (20b), 250¹, 366¹⁰; -ମାନ ମାନ
 WT, ମାନ (186b), 307¹⁴, 363¹⁰;
 -ବିଶାଳ ବିଶାଳ S, 牛二角 WT, ମାନ
 (143b), 53¹⁵₁₆, 189²₄; -ଶୁଙ୍କ
 (作)牛有角 (想) S, 牛角 W,
 (生)牛有角 (想) ମାନ (143b), 51¹⁵, 52⁷, 54³.
 ଗୋତ ଗୋ ST, 性 WT, 性 SWT;
 性 T, 性類 WT, 真如性
 W, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ (70a), 1⁷, 23⁹, 25², 26⁹, 27¹⁶,
 30⁷, 33⁹, 35³, 63²₃₄(bis) 5¹⁰, 64¹¹₁₂₁₃
 (bis), 65¹, 107⁴(bis) 10¹²₁₄₁₆, 108⁵
 (bis) 7, 266², 269¹², 292¹⁶, 297¹⁵, 306²,
 307⁸(bis) 9, 318⁵₇₉₁₁₁₃, 332⁴, 361¹;
 -କ 64²₄₆₁₇; -ପଦ ଗୋତ ST, 性
 କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ (74a), 35²;
 -ଅଗୋତ ଗୋତ S, 性非種 S, 性非性
 WT, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ (70b), 25².
 ଗୌତମ (name of Śākyamuni), 176¹¹₁₃₁₇
 19, 177¹⁴, 178¹⁵₆, 179¹⁶.
 ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ W, 教 T, କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ (181b), 290⁹,
 375¹¹(bis).
 ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ W, 結繩 (118a), 129¹².
 ଗ୍ରହ ଗ୍ରହ W, 摄受 T, ଗ୍ରହ (176a), 272³; -ର
 摄取 SWT, 摄受 S, 離 W(?), 取
 T, 27³₅, 30¹⁰, 36¹¹, 37¹⁸, 39⁹, 44⁴, 45¹,
 68¹¹, 92¹⁵, 124¹⁴, 147¹, 178¹⁴, 184¹⁰, 191⁶₁₀₁₇₁₉,
 196¹⁷, 199²(bis), 237¹²₁₃, 281⁴₁₄,
 288⁷, 317⁸, 348¹²; -ର-ପଦ ଗ୍ରହ
 摄受句 ST, 摄取見 W, ଗ୍ରହ ଗ୍ରହ କୌଣସିଷ୍ଟ୍ୟ
 (75a), 36¹¹.
 ୬ ଗ୍ରହିତ ଗ୍ରହିତ W, 能…取 T, ଗ୍ରହ (184a), 299¹².
 ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ T, 音 W, 城邑 SWT, 村
 W, ଗ୍ରାମ (100b), 3⁸, 91², 138¹³, 252³.
 ଗ୍ରାହ ଗ୍ରାହ WT, 所攝 S, ଗ୍ରହ (80a),
 11¹, 47⁶, 85⁷, 90¹¹, 93⁷(ter) 9(bis),
 95¹⁴, 122¹⁰₁₁₁₄, 127¹, 128¹, 140², 163⁴,
 170¹⁶, 213², 219², 223¹⁵, 228¹, 237⁴₆, 238
 1, 267⁴, 279¹, 285¹, 291⁵, 292⁹, 299¹², 302
 1, 310¹⁶, 311¹₉, 317⁵₆, 345⁴₁₄, 348¹₁₀₁₅
 (bis) 15; -କ 摄 S, 能取 W, ଗ୍ରହ (77b), 42⁵, 49⁶, 62¹⁵, 93⁴, 104⁷₉, 114¹⁷,
 115¹, 128¹, 133¹⁶, 150¹¹₁₈, 185¹, 169¹,
 177¹³, 181¹⁶, 208¹⁶, 209¹⁶, 211¹⁶, 212¹⁶,
 214¹⁵, 215², 235¹³, 238¹, 272¹⁶, 268¹, 273¹⁶,
 284¹³, 335¹¹, 346¹⁶, 351⁴, 366⁴.
 ଗ୍ରାହିତ ଗ୍ରହିତ S, 墓 W, 執取 T,
 墓 (164b), 237⁵.
 ଗ୍ରାମ ଗ୍ରହ S, 可取 W, 所取 T,
 墓 (77b), 42⁵, 47⁵₆, 49⁴, 62¹⁵, 85⁷,

98^a, 104^a, 114¹⁷, 115¹, 138¹¹, 150¹¹,
 169^a, 177¹², 181¹⁰, 185¹, 208¹¹, 209¹⁴, 211
¹⁵, 212¹⁰, 213¹, 214¹, 215², 238¹, 267¹,
 268⁴, 272³, 273¹⁴, 284¹³, 285³, 299¹²,
 311¹⁴, 315⁴ (bis), 317⁵, 335¹¹, 346¹⁰,
 348¹⁶, 351⁴.

४

चक्र 輪 SWT, चक्रवृत्त (86b), 36¹, 62²,
69³, 2 (bis), 82⁴, 92⁵ (bis), 203⁶, 230⁷,
273⁸, 307⁹, 340¹⁰, 363¹¹, 370¹²; -पद 輪句
S, 輪見 W, 火輪句 T, चक्रवृत्तविदि-
क्षेण (74b), 36¹³; -मण्डल 溝灌 W,
軍持 T, (-कुण्डिका?), 367¹⁴; -वर्ति-
गुण 轉輪功德 W, 輪王功德 T,
चक्रवृत्तशक्तिशक्तिं तद् (204a), 362¹⁵;
-वर्ति(न) 轉輪 SW, 轉輪王
WT, 轉輪聖帝王 SW, 轉輪聖
王 S, 輪王 T, चक्रवृत्तशक्तिशक्तिं
द्य (73a), 26¹⁶, 32¹⁷, 101¹⁸, 362¹⁹; -वर्ति-
नृप 轉輪王 SWT, चक्रवृत्तशक्ति-
षट्ठीकृपादि (97a), 83²⁰; -वर्ति-पुत्र 轉
輪聖王太子 S, 轉輪王…太子
W, 轉輪王子 T, चक्रवृत्तशक्ति-
षट्ठीष (90b), 70²¹; -वाड 鐵圍 SW,
輪圍 T, चक्रपुण्डि (72a), 29²².
चक्षु 眼 W, 根 T, मीषा (208a), 374²³.
चक्षुर्-विशान 眼識 SWT, मीषामीक्षम-
धर्म-प्रेषणादि (76b), 39²⁴, 44²⁵, 225²⁶, 242²⁷.
चक्षुम् 眼 SWT, मीषा (89b), 39²⁸, 40²⁹, 44³⁰,
31³¹, 68³², 72³³, 164³⁴ (bis), 225³⁵, 286³⁶,
299³⁷, 334³⁸, 375³⁹.
चक्षुरूप 眼色 W, मीषा-द्वय-प्रशंसा-
(208b), 375⁴⁰.
चक्षा-माणविका 旃遮摩納 S, 旃遮摩

那毗 W. 旃遮婆羅門女 T. 旃
遮婆羅門女 (165b), 240¹².
चण्डाल 旃陀羅 SW. 旃茶羅
旃陀羅 (172a), 258¹.
चतुः 21²; -प्रतिसिविद् 四無礙 SW
(षष्ठि-धृि) षष्ठि-धृि-द्वा-धृि-स्त्रा-धृि
क्षमा-धृि-षष्ठि-स्त्रा-धृि-मध्याधृि (15
b), 213¹; -स्कन्ध 四陰 SW, 四蘊
T, 空-色-受-想 (112a), 118¹; -स्कन्ध-
अरूप-लक्षण-त्व 四陰無色相 SW
四蘊無色相 T, 空-色-受-想-無色
空-色-受-想 (113a), 118¹.
चतुर् 71²(bis)⁴, 97²(bis), 280⁶, 297¹⁰, 308
³, 329¹⁴, 349⁴, 353¹²; -अक्तुल 四-寸 W,
四指量 T, षष्ठि-षष्ठि-धृि-क्षमा (187a),
292¹⁴, 308⁹; -य 97², 325¹⁰; -यी 第四
ST, 四(地) W, षष्ठि-॒ (154b), 216²,
292²; -धान 第四禪 S, 四禪 WT,
षष्ठि-॒ (156b), 221¹; -वा=
सना 四住地 S, 四種地 W, 四
種智 T, 四種熏習氣 W, षष्ठि-
क्षमा-॒ (166a), 241¹⁷, 243²;
-विध-पद-प्रश्न 四種記論 ST, 四種
說 W, ॒ क्षमा-॒ वा-॒ षष्ठि-॒ षष्ठि-॒ वा-॒
क्षमा-॒ (111b), 115³; -विधा 243¹⁰,
325¹².
वतुष् 122¹; -कोटिका 四句 ST, 四法
W, ॒ क्षमा-॒ वा-॒ षष्ठि-॒ षष्ठि-॒ वा-॒
四句 ST, 四種見 W, ॒ वा-॒ (103a),
96¹⁴; -षष्ठि 六十四 SWT, 142¹³.
वतुष्म-संख्या 四數 ST, 四種數相 W,

षट्कृष्णश (116a), 125⁴.
चन्दन 旃檀 WT, नक्तदर (207b),
 373²; -ज 旃檀 W, नक्तदर (207b),
 373².
चन्द्र 月 SWT, 月 (71b), 25¹, 28⁴,
 30¹, 161¹, 307⁴, 312¹, 353¹⁵, 365¹² (bis)
 1³ (bis), 374¹³; -अंगु 月光明 SW.
如盛滿月放大光明 T, 月(83)
 द्वितीय (105a), 101⁴; -अन्तर 365¹³.
चपल 躍動 S, 輕躁動轉 W, 躍動
 不安 T, मैपक्काय (99a), 681⁴, 871⁴.
चपेट 打 W, 375² (113b), 119⁴.
 6 **चम्पक** 蒜荳 S, 蒜荳 W, 蒜荳花
 色 T, मैरेण्डमध्या (105a), 101⁴.
चम्पा 蒜波 WT, नम्पाय (205a), 364¹⁵.
चरण 足 SWT, 月 (70a), 23¹⁴, 100⁷.
चरि 行 W, 月 (174a), 266⁴; -(ट)-
 गत 266⁴.
चरितवत् 行 SW, 修 T, 月 (165b),
 241².
चरिता-विन 行 S, 修行 W, 月 (165b)
 (114a), 120¹⁶.
चरित्र (行), 21.
चर्मा 行 SWT, 月 (114a), 43⁹, 120¹⁶,
 123¹, 161¹, 241³ 4, 349¹²; -भूमि 修行
 地 T, (住諸地中) W, 月 (165b), 15¹¹.
चल 動 SWT, 月 (85a), 36¹⁵, 59²,
 122¹¹, 128¹⁵, 169², 204³, 270⁴, 292², 340¹³;
 -पद 36¹⁵.
चाषाल 旃陀羅 WT, 月 (168a), 246¹³.

चातुर्महा-भौतिक四大及造色 S, 依
四大生四大 W, 四大及所造色
T, चतुर्महा-द्वय-प्रवृत्ति (116a),
125^a.

चातुर्संवर्ण 四姓 WT, चतुर्संवर्ण (204b),
363^a.

चातुर्षोटिक 四句 ST, 四種見 W,
मप्त्य-प्रवृत्ति (115b), 124^a, 125^a, 171^a, 184^a,
188^a(bis) 4^a, 326^a, 349^a; -बाल 出
於四句 S, 離四種相 W, 超過四
句 T, मप्त्य-प्रवृत्ति-चैत्र्य (149a),
188^a 4.

चातुर्षोटिका 四句 S, WT, मप्त्य-प्रवृत्ति
(128a), 152^a, 296^a, 324^a.

चारित्र-वत् (virtuous), 246^a.

चारित 行 SW, 修 T, चैत्र्य (165b),
20^a, 29^a, 68^a, 241^a, 332^a.

चिकित्सा 醫方 SWT, मर्त्य-प्रवृत्ति-पात्रणा
प्रवृत्ति (72a), 28^a, 30^a (स in text), 36^a;
-पद 治句 S, 治見 W, 醫方句 T,
मर्त्य-प्रवृत्ति (75a), 36^a; -शास्त्र 醫
方論 मर्त्य-प्रवृत्ति-पात्रणा प्रवृत्ति (72a), 28^a,
30^a.

चिकिर्षा (desire to do), 357^a.

चित्त (see also स्त-चित्त), 心 SWT
सेमश (66a), 21^a, 14^a, 14^a (३), 15^a, 22^a,
24^a, 25^a, 26^a, 27^a, 28^a, 29^a, 30^a, 33^a, 34^a,
35^a, 38^a, 40^a, 42^a, 43^a, 44^a, 45^a, 46^a, 47^a,
48^a, 49^a, 50^a, 51^a, 52^a, 53^a, 54^a (bis)¹¹, 55^a, 56^a, 57^a, 58^a, 62^a, 64^a, 65^a, 68^a,
69^a, 70^a, 71^a, 72^a, 73^a, 79^a, 80^a, 81^a,
84^a, 85^a, 86^a, 90^a, 91^a, 93^a, 94^a, 96^a, 97^a,
100^a, 104^a, 108^a, 109^a,

122^a, 127^a, 120^a, 135^a, 136^a, 142^a,
137^a, 138^a, 140^a, 147^a, 150^a, 151^a, 152^a,
153^a, 154^a, 155^a, 158^a, 159^a,
162^a, 169^a, 172^a, 176^a, 180^a, 181^a
(bis), 182^a, 186^a, 200^a, 202^a, 203^a,
209^a, 215^a, 223^a, 224^a, 225^a,
227^a, 228^a, 234^a, 238^a, 239^a, 247^a,
257^a, 264^a, 266^a, 268^a, 269^a, 271^a,
271^a, 272^a, 273^a, 275^a, 276^a, 277^a,
277^a, 278^a, 279^a, 281^a, 282^a, 283^a (ter), 283^a, 284^a,
285^a, 288^a, 289^a, 291^a, 292^a, 293^a,
294^a, 295^a, 296^a, 297^a, 297^a,
298^a, 299^a, 300^a, 301^a,
302^a, 302^a, 303^a, 303^a, 304^a,
304^a, 304^a, 305^a, 307^a, 311^a, 312^a,
312^a, 312^a, 314^a, 315^a, 315^a, 317^a,
317^a, 317^a, 317^a, 318^a, 319^a, 320^a,
320^a, 322^a, 323^a, 325^a, 325^a, 326^a,
326^a, 327^a, 328^a, 330^a, 335^a,
335^a, 337^a, 340^a, 342^a, 342^a, 343^a,
343^a, 343^a, 344^a, 345^a, 346^a,
347^a, 348^a, 350^a, 351^a, 352^a,
353^a, 354^a, 355^a, 357^a, 358^a,
359^a, 360^a, 361^a, 362^a, 363^a, 364^a,
364^a, 365^a, 366^a, 367^a, 371^a,
372^a, 374^a, 375^a; -कलाप 心
聚 ST, 種々 心 W, सेमश (117a),
127^a; कल्प 心分別 W, 心無境界
T, सेमश-प्रवृत्ति (190a), 317^a; -अण
念々 SWT, सेमश-कल्प (152b),
211^a, 212^a (bis), 212^a (bis); -गोचर
心境界 SW, 心所行 T, 唯自心
境界 W, 唯是自心分別境界 T,
सेमश-ग्रीष्मद्बृत्ति (63b), 9^a, 39^a, 271^a,
194^a, 271^a, 297^a; -चरित्र 2^a; -चैत्र 心
數法 W, 心心法 WT, 心法 W,

迷亂心 T, 心及心數法 W, 心心
所 T, सेमश-द्वय-सेमश-प्रवृत्ति (175
a), 150^a, 200^a, 227^a, 228^a, 269^a, 271^a,
275^a, 354^a, 359^a; -चैत्र-कलाप 心心
法品 S, 心心數法 W, 心心所法
T, सेमश-द्वय-सेमश-प्रवृत्ति (141a),
150^a, 151^a, 182^a, 200^a, 359^a; -चैत्र-
अर्धिन् (-अर्धात्?), 心心法 W, 心
心所 T, सेमश-द्वय-सेमश-प्रवृत्ति
(193a), 327^a; -ता 33^a; -दर्शन 見
心 W, 見自心 T, सेमश-प्रवृत्ति
(184b), 301^a; -दृश्य 自心現量 S,
見自心 W, 自心所見 T, सेमश-
प्रवृत्ति (114a), 121^a, 123^a, 171^a,
186^a, 311^a, 338^a, 344^a, 345^a, 346^a,
-दृश्य-मात्र 自心現量 S, 自心
見 W, 自心所現 T, सेमश-
प्रवृत्ति (99b), 88^a, 100^a; -देशना 心
說 S, 心而說 W, 心…言說 T, 30^a;
-धर्मता 心法 W, 心性 T, सेमश-
ग्रीक्षण-त्रैद (184b), 300^a; -धारा 心
慮 W, 心流注 T, सेमश-ग्रीक्षण
(186a), 306^a, 335^a; -पद 心見 W,
心句 T, सेमश-ग्रीक्षण (74a), 34^a;
-परिग्रह 心所取 W, 心…所取
T, …取内心 W, सेमश-प्रवृत्ति-
प्रवृत्ति (149a), 202^a, 339^a; -प्रज्ञा-
शान-लक्षण 心智慧相 S, 智慧之
相 W, 智慧心相 T, सेमश-द्वय-
सेमश-ग्रीक्षण-त्रैद (81a), 50^a; -बीज
心種子 WT, सेमश-ग्रीक्षण (182 b),

294^a; -मनो-विज्ञान (for -मनो-म=
नो-विज्ञान), 45^a; -मनो-मनोवि-
ज्ञान 心意意識 SWT, सेमश-द्वय-
प्रवृत्ति-द्वय-प्रवृत्ति (63b), 9^a, 10^a,
43^a, 45^a, 69^a, 72^a, 81^a, 93^a, 108^a, 172^a,
180^a, 185^a, 194^a, 212^a, 213^a, 214^a, 215^a,
218^a, 231^a, 235^a; -मात्र 心量 ST,
但心 WT, 唯心 SWT, 唯心 W, 隨
心應量 ST, 唯心應器 W, 心無法 W,
唯是心 T, 自心 (所現) 分齊 S, सेमश-ठम (70b), 25^a, 29^a, 30^a,
13^a, 43^a, 49^a, 51^a, 54^a, 62^a, 65^a, 70^a,
73^a, 79^a, 121^a, 13^a, 152^a, 153^a, 154^a,
158^a, 162^a, 181^a, 201^a, 202^a, 208^a,
209^a, 210^a, 215^a, 276^a, 277^a, 278^a,
279^a, 282^a, 284^a, 294^a, 298^a, 300^a,
301^a, 301^a, 302^a, 303^a, 311^a, 312^a, 316^a,
316^a, 320^a, 323^a, 324^a, 325^a, 325^a,
325^a, 326^a, 327^a, 328^a, 333^a, 335^a,
338^a, 342^a, 343^a, 345^a, 346^a,
351^a; -मात्रक 277^a; -मात्रगति-नि-
राभासवादिन 說唯心無有境界
T, 唯心相滅得寂靜法 W, 說心
量趣無所有 S, सेमश-ठम-नु-त्रैण
प्रवृत्ति-प्रवृत्ति (86b), 62^a; -
हता 300^a; -मात्रता 自心現量 S,
唯自心見 W, 唯心所見 T, सेमश-
प्रवृत्ति-प्रवृत्ति (135b), 170^a; -मोहन
妄分別 W, 心迷惑 T, सेमश-
ग्रीक्षण-त्रैद (126b), 370^a; -मोहिनी 迷
惑心 W, 迷亂心 ST, सेमश-प्रवृत्ति
(174a), 95^a, 265^a; -राजन 心王 WT,
सेमश-ग्रीक्षण-प्रवृत्ति (174a), 266^a; -वश 心

自在 T, शेषा त्रुट्याद् (190b), 318¹⁵; -विकल्प-भावाभावविगम 離心性無性妄想 S, 離有無分別心 W, 離有無見則不分別能所造 T, शेषा नन् कृपा पद् कृपा पा नन् नन्देशं नन्देशं अशेषा नन्देशं नन्देशं (151b), 209¹; -विज्ञान 識心 ST, 心意識 W, शेषा नन् कृपा पद् शेषा पा नन्देश (69b), 22⁴, 264⁹; -विज्ञान-प्रज्ञा-लक्षण (see चित्त-प्रज्ञा-ज्ञान-लक्षण); -विभ्रम 心惑亂 S, 心迷沒 W, 心妄有 T, शेषा धृत्याद् (114b), 65¹⁰, 121¹⁵, 279¹⁴, 281⁴; -विषय 心境界 WT, शेषा धृत्याद् (192a), 323⁵; -संतान 心器 T, (शेषा त्रुट्याद्) नन्द (188b), 313¹²; -संभव 從心…生 SWT, शेषा धृत्याद् (118b), 130¹³, 154³; -सारथि 世尊 W, 佛 T, शेषा धृत्याद् (71a), 27⁴; -स्वाध 心自性 ST, 心諸法體 W, शेषा त्रुट्याद् धर्मिन् (61b), 81¹⁰, 155¹⁴; -अर्थ 心義 W, शेषा त्रुट्याद् (199a), 345¹²; -आशय 心 WT, शेषा नन्द-धर्माद् (65a), 12⁴, 50¹⁴; -आशय-विचार 心行之法 W, 心 T, शेषा नन्द-धर्माद् कृपा पद् नन्दाद् (65b), 14¹, 50¹⁴; -उदयि 心海 ST, 大海 心波 W, शेषा त्रुट्याद् मूर्त्ति (120b), 136¹².

चित्ति 心 SWT, शेषा (80a), 46¹⁰.
चित्र 種々 SWT, 布彩 SWT, 畫 SWT, 汝等觀此 S, 如是如是青

黃赤白汝何不觀 W, 此事希有 T, शुक्लेषा (79b), 27¹⁴, 46^{8 12}, 48^(bis) 9^{10 11 17}, 57¹¹, 78¹⁷, 88¹², 92^{3(bis)}, 96³ (जित्त in text) 12¹³, 98^{8 9}, 130¹², 131^{4 8}, 132¹³, 137¹⁶, 154^{2 6}, 186^{14 17}, 215¹⁶, 264², 265¹⁶, 268^{1 13}, 269¹¹, 271¹³, 272^{2 9}, 277⁸, 278¹⁴, 281^{3(bis)7}, 290¹⁷, 295¹⁵, 298⁷, 303¹³, 304^{8 9}, 309¹², 310^{4 6 7}, 313^{4 13}, 314⁹, 316^{4(bis)}, 318^{1 8}, 319¹⁵, 321², 326^{1 10}, 328¹⁸, 332^{3 4}, 345¹¹, 367¹³, 370¹⁵; -कर 91¹¹; -ता 種々 SWT, शुक्लेषा (73b), 33^{10 13}, 131⁵, 304⁷, 313¹⁴; -दर्शन 現見 種々 法 W, 雖見有種々 T, शुक्लेषा धक्षिणाद् नन्द (188b), 313¹³, 326¹⁰; -मान 356¹⁴; -रूप 諸種々色 W, 種々衆色 S, 種々色 W, 衆色相 T, शुक्लेषा धक्षिणाद् (102b), 96¹³, 289¹³; -संभव 269¹¹; -आचार्य 工畫師 ST, 巧畫師 W, 畫師 W, दीर्घदि-मापद्याद् (80b), 48⁸, 316⁴; -अन्तवा=सिक 畫師弟子 WT, 畫弟子 S, दीर्घ-मापद्याद् (80b), 48⁸, 316⁴. चित्रित (various), 285¹². चित्रिता 種々法 W, 種々 T, शुक्लेषा (176b), 27². चित्र-मय (consisting of thought), 312³. चित्रित्यत् (thinking), 179¹². चिना 思 SWT, धर्माद् (128b), 154⁷; -मणि 如意寶珠 S, 如意寶 W, 摩尼 T, धैर्य-धृति-कृपा (91b), 72¹³. चिन्म 心 SWT, 35¹³; -पद 心句 ST,

心見 W, शेषा त्रुट्याद् (74a), 35¹³. चिर-काल 無始世來 W, 久遠 ST, शुक्लेषा (112b), 118⁶.

चीर्ण-व्रत 修實行 W, 修苦行 T, धक्षिणाद् नन्द (205a), 365¹.

चुम्बित (kissed), 119¹⁴.

चूर्णिक 長行 WT, नन्दाद् (204b), 363⁷.

चेतस् (mind), 247¹⁶, 253^{7 14}.

चेष्ट (चेष्ट in text) 作 T, 323¹.

चैतसिक 心數法 W, 心所 T, शेषा नन्द-शेषा धर्माद् (154a), 215³.

चैत्र 心數 S, 心數法 W, 心所法 T, शेषा नन्द-शेषा धर्माद् (127a), 150¹⁴, 151², 200⁷, 227¹³, 228¹⁰, 269⁵, 271³, 327², 354⁸, 357⁴; -अर्थिन् (for -अ=र्यात्), 327².

चुति 死 SWT, निर्मद्य (85a), 58⁸, 63¹², 99¹⁰, 140^{12 17}, 178¹⁶, 307^{10 11}, 323¹¹, 375⁹;

-इय 二種死 SWT, निर्मद्य-धर्माद् (166a), 140¹², 242¹.

छ

छव 益 W, 檍益 T, नन्देश (66b), 15¹³.

छन्द 欲 S, 求 WT, नन्द (184b), 145⁵, 300⁷.

छन्न (covered), 327⁷.

छाया 陰 S, 影 WT, शेषा धर्म (93b), 76⁷, 98^{13 14}, 95⁶, 265¹¹, 319¹⁵.

छिद्र 257¹, 348¹⁴, 370⁴; -गृह 孔 W, 孔隙 T, निष्ठा (20b), 370⁴.

छेद 斷 SWT, निष्ठाद् (118b), 181³, 140⁷, 174⁷, 277⁷, 304⁴, 355¹⁰; -न 斷 SWT, निष्ठाद् (73a), 33³, 308³.

ज

ज (-born), 153¹², 304¹², 322⁸, 332⁶, 373⁷.

जग 世間 WT, निष्ठाकैर (188b), 313¹⁴, 364².

जगत् 諸衆生 W, 諸世間 S, निष्ठा निष्ठाद् धर्माद् (141b), 96¹, 147¹⁴, 182², 184², 197^{14 15}, 265¹⁴, 273^{3 13}, 275², 276¹⁴, 290¹⁸, 295¹³, 298¹⁴, 324¹², 329⁸, 388¹¹, 384¹³, 344⁷, 347², 349¹⁰, 363², 375¹.

जगेश्वर 自在 W, 人王 T, निष्ठाद् धर्म (205b), 364².

जघन 最巔 ST, 巍淺 W, 75¹⁹.

जन 人 T, मै (134b), 168⁴, 193⁵, 246¹, 247^{4 14}, 249¹¹, 315¹²; -क 生 S, 能生 WT, निष्ठाद् (97a), 84⁶, 204², 221⁶, 248¹⁵, 331², 361¹⁴; -काय 89¹⁶, 150⁴; -ता 衆生 SWT, निष्ठाद् (65b), 14¹, 79¹³, 180², 230¹⁰, 333¹⁰; -पद 島 SWT, निष्ठाद् (100b), 91^{3 4}.

जनित 從…生 T, निष्ठाद् (184a), 221^{3 4}, 257³, 277¹¹, 287¹¹, 298⁵.

जन्म (a creature), 71¹⁷, 245¹⁵, 246¹⁶, 247¹⁸, 249⁹, 347¹⁶.

जन्म (न) 生 SWT, ज्ञेय 27^a, 80¹⁴, 99^a, 119¹⁴, 160^a, 174¹⁴, 200^a, 245¹¹, 249^a, 251^a, 252¹¹, 275^a, 287^a, 290^a, 296^a, 311¹⁷, 326^a, 339¹¹, 340¹¹, 348^a, 355^a, 357^a, 361¹⁰, 364¹²; -गति 起生 ST, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (156a), 220¹⁰; -संकर 生亂 W, ज्ञम-पद्म (177a), 275^a; -संभव 生 W, ज्ञेय-पद्म (198a), 326^a.

५ जन्मक 狸 W, (जन्मक in text), ज्ञेय-पद्म (170a), 252¹².

जन्म 所生 ST, ज्ञेय-पद्म-पद्म (97a), 84^a, 203¹¹, 204¹, 339¹², 340¹¹.

जरन (जरायु?), 胎 WT, ज्ञम-पद्म (206b), 370¹⁴.

जरा 老 ST, 古 (106b), 108¹⁵, 174¹, 180^a.

जल 水 SWT, 水 (69a), 20¹⁵, 35^a, 44⁷, 93¹³, 95^a, 131^a, 158^a, 168¹¹, 169¹¹, 170^a, 246¹⁰, 247¹³, 265¹¹, 294¹², 304¹⁰, 312¹, 363¹³, 375^a; -प्राप्त 水想受 S, 取水相 WT, 水-पद्म-पद्म (134b), 168¹¹, 291¹³; -चन्द्र 水中月 SWT, 水-पद्म-पद्म (159b), 227^a, 253^a, 312¹; -चर 253^a; -पद 水句 ST, 水見 W, 水-पद्म-पद्म (74a), 35^a; -कुडक 水泡 SWT, 水-पद्म (101a), 92¹²; -नृष्ण-च्छाया-सहृदय 水中樹影 W, 水樹影 ST, 水-पद्म-पद्म (74a), 265¹¹; -संनिश्चित (liv-ing), 246¹⁰, 247¹³.

जल्प 言語 SW, 言說 T, 説-पद्म (142a), 154¹⁰, 186¹⁰.

जागरिका 常自覺悟 SW, 醒…睡眠 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (80b), 49^a.

जात 生 WT, ज्ञेय (181b), 202¹⁰, 289^a, 290¹⁵, 329^a, 339^a, 366¹⁰; -क ग生經 S, 本生 WT, 生 S, 本生經 W, 本生之事 T, 受生 S, ज्ञेय-पद्म-पद्म (71a), 26¹⁴, 141¹⁰; -रूप 真金 W, 金 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (203a), 358^a; -शुभ्यता 生空 WT, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (181b), 290^a.

५ जाति 生 SWT, ज्ञेय (87b), 37¹⁸, 38¹⁴, 10¹⁷, 18^a, 44¹², 63¹³, 174¹, 180^a, 203¹¹, 259^a, 258^a, 305¹⁷, 307^a, 339¹⁷; -परिवर्त 246², 252^a; -लक्षण 真相 ST, 智相識 W, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (75b), 37¹⁸, 38¹⁴, 10¹⁷, 18^a, 44¹².

जातीय (*belonging to any species*), 91^a.

जानिक 生 SW, 起 T, ११८-११९ (71a), 26^a.

१० जानु-माइल 膝 SWT, ज्ञेय-पद्म-पद्म (69b), 22^a.

जायत (being born), 95¹³, 265^a.

जाल 網 SWT, ३-४ (132b), 163⁷, 264², 301^a, 341¹⁴, 373¹³; -यन्त्र 置羅機網 W, 置羅網罟 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (170b), 253^a.

जिहा 觀 WT, ज्ञेय-पद्म-पद्म (177a), 275¹⁸.

१५ जिन 佛 SWT, 最勝 S, 最勝者 T, ज्ञेय (61b), 4¹, 7⁶, 8⁸, 23¹⁵, 45¹⁰, 13¹⁴, 17^a, 47¹³ (जन?), 56^a, 65^a, 160^a, 193², 274^a, 283⁴, 289^a, 349¹¹, 353¹⁰, 364¹⁴, 365^a; -क ग最勝子 S, 諸佛各申其手 W, 諸佛舒蓮花手 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (105a), 101^a; -काय

-ता 如來最勝之身 S, 如來法身 W, 如來之身 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (88b), 65^a; -धारु 佛舍利 SWT, 佛之舍利 T, 如來藏 W, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (164a), 236¹⁰, 239^a; -पुञ्जब 最勝 SW, 佛 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (70b), 24¹⁷, 250^a; -पुञ्ज 佛子 SWT, 最勝子 S, 菩薩 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (63b), 5³, 6¹⁷, 7⁶, 7¹², 12¹³, 81⁴, 10¹⁴, 12⁴, 16¹⁴, 24⁶, 27¹⁵, 28¹⁴, 29², 32¹², 48¹⁵, 70³, 142¹⁵, 191¹⁰, 291¹⁰, 306¹⁵, 316¹¹, 319², 326⁷, 349¹²; -सुन 最勝子 S, 勝子 W, 菩薩 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (23¹⁵, 50², 54⁸, 283¹⁰; -अभिसमय 佛證法 W, 諸佛證 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (200b), 349¹²; -आमज 佛子 SWT, 菩薩 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (62b), 6⁷, 73^a, 158^a, 276^a, 302¹³; -आधीन 353¹⁰; -इन्द्र 佛 WT, ज्ञेय-पद्म-पद्म (62a), 4¹³; -औरस 最勝子 S, 佛子 WT, ज्ञेय-पद्म-पद्म (73b), 31¹², 33⁷, 319^a; -औरस 最勝子 S, 佛子 WT, ज्ञेय-पद्म-पद्म (73a), 33¹², 34⁵, 306¹⁸, 333⁴, 348⁹.

१० जिहा 舌 SWT, ज्ञेय (98b), 86¹⁷, 154¹⁵, 226¹.

जीव 命 SWT, ज्ञेय (69a), 20⁴, 63¹⁵, 71¹⁷, 114¹⁴ (bis), 183¹², 334⁷.

जीवित (Life), 250^a, 323²; -भय 251¹³.

जीवितेर्दिय 命根 WT, ज्ञेय-पद्म-पद्म (192a), 323².

जुष 所食之味 W, ज्ञेय (168b), 247^a, 256^a.

१० ज 善解 S, 如實知 W, ज्ञेय-पद्म-पद्म (187a), 116¹⁸, 123⁵, 214⁴, 256¹, 308⁷, 323¹², 350¹², 359¹¹, 13.

जाति 眷屬 W, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (170a), 251².

जान 智 SWT, ज्ञेय-पद्म (72b), 20¹, 23², 26², 30⁸, 33⁷, 34³, 45¹⁰, 49¹⁴, 50¹, 51⁷, 56^a, 57¹¹, 63⁴, 69⁴ (bis), 7, 77¹⁰, 114⁷, 130⁷, 135⁷, 156¹¹, 12¹³, 15, 157¹, 4⁵ (bis), 8⁹, 11¹⁴, 16¹⁷ (bis), 158³, 163^a, 164³, 169⁵, 7⁹, 10¹², 13¹⁴, 16¹⁷, 170¹ (bis), 2⁴, 5⁸, 9¹¹, 12¹² (bis), 17, 171⁴, 5⁶, 8⁸, 180¹⁷, 183¹⁷, 189¹², 212¹¹, 214⁹, 218⁶, 7¹² (bis), 232¹³, 234², 239^a, 243⁸, 249⁷, 266^a, 279⁷, 284^a, 285^a, 291^a, 299⁹, 4⁶, 9, 302⁸, 10¹¹, 14, 312¹³, 345³, 355^a, 356⁷, 14, 357¹⁸, 358^a, 362², 368¹¹, 372¹², 373⁶, 374¹⁷; -जानि 智忍 ST, 忍 W, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (166b), 242¹¹; -गोचर 智境界 S, 慧境界 W, 智所行 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (76b), 39¹⁴, 299^a; -ज्ञेय 知可知 W, 智所知 T, 170¹², 171¹, 266³; -वधू (for वधू), 依智斷 W, 智…割斷 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (204a), 361⁴; -नो-मय 智意生 S, 意生身智身 W, 意生智身 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (157a), 222⁵; -मायोपम 如幻智 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (208a), 374¹⁷; -वारि 智水 W, 智慧水 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म (205b), 365¹⁰; -शरीर 智體 W, 智爲身 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म (69a), 20³; -संपद 智具足 S, 知成就 W, 圓滿智 T, ज्ञेय-पद्म-पद्म-पद्म-पद्म (165a), 289^a; -आ-

मृक 智身 W, 以智爲體 T, 翻
मेष्टुप्रदण्डि (69a), 20¹.

ज्ञेय 爾焰 S, 境界 W, 所知 T, 智
WT, 境 T, मेष्टुप्रदण्डि (71a), 23², 26¹,
30¹, 35¹, 97², 132², 134², 169¹² 13, 170¹²
12 17, 171¹ 8, 189¹², 234², 241¹⁰(bis), 242¹,
264¹¹, 266³ 13, 306¹, 371¹⁵, 373¹; -पद

爾焰句 S, 境界見 W, 所知句
T, मेष्टुप्रदण्डि (74b), 35¹⁰; -आ=
गरण 智障 SWT, मेष्टुप्रदण्डि
(166a), 134⁴, 241¹⁰(bis).

ज्योतिष 天文 WT, शशमापक (205b),
366¹⁴.

ज्योतिषा-दीप 月燈光 W, 燈月 T, अे=
मर्दप्रदण्डि (69a), 20¹⁶.

ज्ञाला 焰 W, 18².

उ

उमर (see डामर), 35¹⁰.

डाक 茶加 W, नष्टमेन्द्रिय (173a),
252⁴, 261¹¹, 262¹³.

डाकिनी 茶加女 W, नष्टमेन्द्रिय
(173a), 252⁴, 258², 261¹¹, 262¹³.

डामर (उमर in text), 荒亂 SWT, 30¹,
35¹⁶; -पद 荒亂句 ST, 亂見 W,
एषामूलाणीकैम (74b), 35¹⁶.

डोम्ब 譚婆種 S, 屠兒家 W, 屠兒
T, कैमेष्टुप्रदण्डि (172a), 246¹⁸, 258¹.

न

तत्र-तत्त्व-परिनिर्वापिन 彼生而般涅

槃 S, 一入涅槃 W, 此生而
入涅槃 T; कैदैत्रिन्द्रियाप्रदण्डि
त्तुप्रदण्डि (112b), 117¹².

तट 岸 WT, 4⁶.

तडाग 溶池 SW, द्विष्ट (100b), 91².

तत्त्व 真實義 S, 實 WT, 真實 S,
यदैन्द्रिय (72a), 29⁴, 43¹⁷, 47¹⁴, 48¹
2 12 (bis) 13 14, 77⁶ 10, 89⁴, 107³, 109¹¹ 12
(bis), 132⁴, 156⁸, 173¹⁴, 177¹⁵, 184¹⁰, 185
2 1, 186⁸, 196³ 4 6, 224², 228¹², 231¹(bis),
274², 275⁴, 281⁶ 9 10 (bis), 297¹⁵, 298⁴ 11
(bis), 295⁴ 5 7, 305⁹, 309¹⁸, 315¹³ 14 15
(bis), 316⁹ 10, 319¹², 254¹; -दर्शन 見

諦 S, 見真 W, 見真實 T, यदैन्द्रिय
मेष्टुप्रदण्डि (129b), 156⁴, 282¹²; -प्रत्यव=

स्थान-कथा 真實在於言說 S, 真
實在於言中 T, नैषिक्तंक्षम्यद्वा
मात्रम् धर्मेष्टुप्रदण्डि (94a), 77⁶; -अच्छे=

चिन 欲求義者 ST, 欲得義者 W,
नैषिक्तंक्षम्यद्वा (147a), 197⁶; -अर्थिन्

實見 W, 欲見真實 T, यदैन्द्रिय
नैषिक्तंक्षम्यद्वा (174b), 268⁷; -आर्य-हा=

न-वदस्थान-कथा 聖智證處真
實之法 T, 實聖智在於言說 SW,
नैषिक्तंक्षम्यद्वा एषामूलाणीकैम
धर्मेष्टुप्रदण्डि (94a), 77¹⁰.

तथत-गोचर (for तथता-), 真如(智)

境界 W, (智)契於真如 T, यदै
न्द्रियाप्रदण्डि (180b), 285⁶.

तथता 真如 WT, 如實 S, 如如 ST,
如是 S, 真理 T, यदैन्द्रिय (69a),
25¹⁷, 42¹⁸, 60¹, 67¹⁷, 68⁴, 72¹⁷, 98¹³, 108¹¹
12, 132⁵, 144⁶, 147⁶, 153¹⁷, 154¹, 192¹⁷,
224¹⁶, 226¹²(bis), 227⁸ 10, 228⁵ 12, 272⁶,
274¹¹, 284⁷ 11, 285⁶, 288¹ 6, 290⁶, 293¹²,
298¹ 16, 300¹², 305⁴ 10, 310¹¹, 311¹², 314¹,
322¹⁰, 325¹⁷ 18, 333⁴, 335⁶, 336¹³, 348² 3
16, 349⁷, 361¹⁰, 374¹⁴; -हान-बुद्ध 如

々…智慧佛 S, 如智佛 W, 真
如智慧佛 T, यदैन्द्रियाप्रदण्डि
त्तुप्रदण्डि (71b), 28⁶, 34²; -अरुण 隨順
入如(相) S, 入真如 W, 隨入
如如真實(相) T, यदैन्द्रिय द्विष्ट
नैषिक्तंक्षम्यद्वा (103b), 98¹³; -आर्य-हान-

गति-गमन 覺聖智趣所行境界 S,
聖智修行境界行處 W, 自證聖
智所行真如 T, नैषिक्तंक्षम्यद्वा
धर्मेष्टुप्रदण्डि (89b), 67¹⁷; -
आलम्बन 攀緣如 S, 念真如 W,
攀緣真如 T, नैषिक्तंक्षम्यद्वा
धर्मेष्टुप्रदण्डि (103a), 97⁶ 15 17, 98¹⁰.

तथत्व (see तथात्व), 245⁴.

तथागत 如來 SWT, नैषिक्तंक्षमेष्टु
प्रदण्डि (61a), 2⁶ 10¹, 4¹², 10⁴, 12⁸ 13 16 10, 14⁴
12 18, 16¹⁰ 17, 19¹⁴ 18, 20², 39¹⁵, 40¹ 3, 43¹ 3,
44¹, 45⁷, 50¹⁸, 51⁶ 8 8, 55¹⁰ 13 14, 56² 5, 60⁸,
62⁴ 1, 65¹⁴, 66¹⁴, 67⁸, 70⁵, 72¹⁸, 78⁰(bis)
1(bis) 10 14 18, 79⁸ 1, 89⁶, 96¹⁴ 17, 97¹, 100
2 14, 101¹⁵, 102⁷ 10 11 16 17, 103³, 105¹⁰, 114

10 13, 115⁴, 117¹, 123⁸, 134⁶, 139¹², 140¹⁷,
141⁷ 12 17, 142² 6 12 17, 143¹² 11 12, 144⁴ 8,
147¹⁷, 152⁷, 157¹³, 172⁶, 173², 187⁴ 6 9 12 15
16 (bis), 188¹⁷, 189⁷(bis) 8 9, 190³, 191⁶ 7
16, 192¹ 8 11 12, 193¹¹, 194³ 8 17, 198¹⁰(bis),
200⁷, 212¹⁵ 16, 214⁹, 217² 4 8 10 12 14 16, 218
4 5 7 8 (bis) 12 13 16 19, 219¹⁰, 222¹⁷(bis),
223⁶ 14, 224¹⁰ 16, 228³ 14, 229¹², 230¹ 3 4 8
11 12 15, 231³ 5 9 13 16, 232³ 5 7 9 10, 233¹ 3 5
7 8, 234⁶ 11, 240⁷ 8 8, 241¹⁵, 242⁶ 7 8 13,
244³, 245¹⁷, 254⁵, 255⁴ 14 15, 323¹¹, 352³,
357¹⁸, 361³, 376²; -काय 如來身
ST, 如來無上妙身 W, नैषिक्तं
क्षमेष्टुप्रदण्डि (78a), 42¹⁶, 43¹ 3, 51⁸;
-काये-दुष्ट-चित्त-रुधिरोत्ताद 惡心
出佛身血 SWT, नैषिक्तंक्षमेष्टु
प्रदण्डि (121b), 138⁹; -कुल-वंशोच्चेद 佛種則
應斷 S, 斷如來種滅如來家 W,
斷絕如來種性 T, नैषिक्तंक्षमेष्टु
प्रदण्डि (153a), 212¹⁸;
-गति-भूमि 如來智地 T, 如來行
處 W, नैषिक्तंक्षमेष्टुप्रदण्डि
स्थुप्रदण्डि (65b), 12⁷; -गम्भ इ
來藏 SWT, नैषिक्तंक्षमेष्टुप्रदण्डि
स्थुप्रदण्डि (64a), 10¹, 21³, 68¹, 77¹⁴, 78² 6 9
10 18, 79¹ 3 6, 220⁸, 221¹² 17, 222⁶ 9 10 14,
223² 6 11, 235⁷ 18, 236⁸, 242⁴; -गम्भ-हदय
如來藏心 SWT, नैषिक्तंक्षमेष्टु
प्रदण्डि (89b), 68¹; -त्व
佛道 ST, 240⁴; -दर्शन 見佛 WT,
नैषिक्तंक्षमेष्टुप्रदण्डि (64b),
11¹³ 14; -प्रत्यात्म-गति-गोचर-कथा

說於內身修行境界 W, 說自證智所行之法 T, निष्ठासंप्रीकरणं पद्मस्थित्युपर्याप्तिं पृष्ठाद्य (65a), 12¹⁸; -भूमि 如來地 SWT, 如來位 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं (66b), 15¹⁹, 89²⁰, 98²¹, 133²², 185²³, 212²⁴, 227²⁵; -भूम्याका=र-प्रवेश 入如來地 SW, 入佛地 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं क्षमा=पापं विषयं (103b), 98²⁶; -यान-अभिसमय-गोच ब如來乘無間種性 S, 如來乘性證法 W, 如來乘種性 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं प्रयत्नं विषयं (202b), 355²⁷. निष्ठात्मा निष्ठात्मा (109a), 29²⁸, 109¹¹²⁹, 281⁹¹⁰. निष्ठ-आत्म निष्ठ-आत्म-अभिसमय-गोचक ब如來乘無間種性 S, 如來乘性證法 W, 如來乘種性 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं प्रयत्नं विषयं (87a), 63¹¹; -यान-अभिसमय-गोचक ब如來乘無間種性 S, 如來乘性證法 W, 如來乘種性 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं प्रयत्नं विषयं (88b), 64¹², 17¹³; -वाद 198²⁰; -विषय 如來境界 SW, 佛境界 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं प्रयत्नं (157b), 223¹⁴¹⁵; -स्वप्नात्मभूमि 內身入如來地 W, 入如來自證地 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं प्रयत्नं विषयं (64a), 10¹⁶; -अचिन्य-गति-विषय-गोचर 諸如來不思議究竟境界 S, 如來不可思議境界 W, 如來不可思議智慧境界 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं विषयं मे भूमि भूमि विषयं (112a), 117¹⁷; -अधिष्ठान 如來化神力 S, 如來力住持 W, 如來…

神通力 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं विषयं (122a), 21¹⁸, 66¹⁹, 139²⁰. निष्ठा निष्ठा (for निष्ठात्मा), 228²¹, 308²²; -अर्थ-ज्ञ 308²³. निष्ठागती 佛地 WT, क्षमा=क्षमा (190b), 318²⁴. निष्ठात्म ब如來真如 ST, 真如 W, निष्ठिकं क्षमा (160b), 196¹³, 229². निष्ठात्म ब如來無色 W, 如…無色 T, निष्ठात्म-विषय (202b), 355²⁵. निष्ठ्य 實 WT, विषय (190b), 204²⁶, 319²⁷ (bis). निष्ठ-अन्तरे 中間 WT, निष्ठात्म-विषय (109a), 29²⁸, 109¹¹²⁹, 281⁹¹⁰. निष्ठ-आत्म निष्ठ-आत्म-अभिसमय-गोचक ब如來乘無間種性 S, 如來乘性證法 W, 如來乘種性 T, निष्ठिकं परिमाणं परिक्षणं प्रयत्नं विषयं (208b), 374²⁰. निष्ठ-धेतुक 依彼 W, 因彼 T, निष्ठिकु (208b), 374²¹. निष्ठ-धेतु-ज 是(意識)因 S, 共彼因 W, निष्ठिकु-तु-ज (79a), 44²². निष्ठ-धेतु-आलम्ब अ攀緣彼 S, 依彼念因 W, 若因及所緣 T, निष्ठिकु (156b), 221²³. निष्ठ-धेतु-आलम्बन 彼因攀緣 S, 依諸境界念觀 W, 因彼及所緣 T, निष्ठिकु-तु-धेतु-आलम्बन (156b), 221²⁴. निष्ठु 身 SWT, भूमि (70b), 3¹, 12¹, 17¹, 24¹, 33¹, 63¹, 64¹, 192¹, 309¹. निष्ठु 樓 SWT, भूमि (96b), 82¹. निष्ठु 緣 SWT, 他力 W, 因緣 W, 依他起 T, निष्ठिकं विषय (119a), 132¹, 312¹, 316¹, 335¹; -ज 從因生

W, 依他 T, निष्ठिकं विषय (191b), 322¹. निष्ठ र 热 S, 日光 W, 光 T, निष्ठिकु-सूर्य (93b), 76¹. निष्ठ स 苦行 ST, निष्ठिकं विषय (113a), 33¹, 119¹. निष्ठ रू 狼 WT, निष्ठिकु (170a), 252¹. निष्ठ रू 浪 SWT, 波 W, 波浪 SWT, निष्ठिकु (79a), 21², 11¹, 43¹, 44¹¹¹, 46¹⁶, 47²³⁶⁸¹⁰¹², 48¹, 94¹⁰, 106¹¹, 127⁴¹², 135¹, 136¹², 220¹⁵, 265¹⁶, 267¹, 271¹, 272², 277¹, 314⁶¹², 315¹²⁵⁷¹¹¹⁶, 319¹⁶, 321¹⁰, 374¹; -चिह्न-साधर्म्य 水波相對法 W, निष्ठिकं विषय-साधर्म्य-विषय (189a), 315¹; -विहान 水波識 W, निष्ठिकं विषय-विहान-विषय (176a), 272²; -वृत्ति-साधर्म्य 水波轉相對 W, निष्ठिकं विषय-विहान-विषय (189b), 315¹; -ओष 暴水 W, 諸波浪 T, निष्ठिकं विषय (177b), 277¹. निष्ठ रु 樹 SWT, निष्ठिकु (71a), 27², 33¹². निष्ठ 念 S, 諸覺 W, 計度 T, 覺想 ST, 知覺 W, 虛妄覺觀 W, 不正思覺 T, 虛妄覺想 S, निष्ठिकु (70a), 2⁷, 24², 33¹(bis), 36¹⁴, 41¹², 130⁷, 148¹², 149⁹, 158⁶, 223⁸, 226¹¹, 267¹, 302¹⁰, 323¹³, 329¹¹, 343⁴; -हृषि 邪覺 W, 妄垢惡見 T, 憶度邪解 T, 邪見覺知 W, निष्ठिकं विषय (206b), 2⁷, 91⁴, 369¹²; -पद 覺句 S, 覺見 W, 計度句 T, निष्ठिकं विषय (75a), 36¹⁴; -भूमि 覺想地 ST, 自覺觀地 W,

निष्ठिकं विषय (77b), 41¹²; -बश 隨妄覺 W, निष्ठिकं विषय (192a), 823¹³; -विभव 覺迷 W, निष्ठिकं विषय (176b), 274². निष्ठिक 84¹, 291¹⁴. निष्ठ-विझ (see also शत्य-विझ), 穿孔床 WT, निष्ठिक (186b), 307¹⁴. नाड-अवचर (a kind of musical instrument), 16¹. नायगत ब如來 SWT, निष्ठिकं परिमाणं विषय (103a), 97¹⁷, 98¹³⁴, 135¹, 158¹, 284², 302¹⁴, 318⁶⁷⁹¹¹, 322¹⁴, 358⁸. नायगती ब如來 SWT, निष्ठिकं परिमाणं विषय (130a), 158¹⁵, 244¹¹, 303¹¹. नाडग ब如是 SWT, निष्ठिक (105a), 100⁷. नापित (heated), 90⁶. नाम्र 銅 WT, निष्ठिक (186b), 307¹⁴. नार्किक 思量 S, 思量者 W, 憶度者 T, 妄想者 S, 虛妄見者 W, निष्ठिक (176b), 37⁶, 49¹, 54¹, 84⁷, 114¹, 148¹, 149⁶, 168¹, 170¹³, 171⁶, 185⁶, 258¹¹, 274², 275¹⁴, 286¹, 289¹, 320⁷, 323¹⁵, 333⁸, 354¹³¹⁶, 355¹³¹⁶, 356¹⁴, 357⁹¹¹¹²¹⁶, 360¹⁴, 361¹⁵, 366⁶⁸, 368¹⁰, 369¹⁵, 371⁸¹⁵, 372¹⁴. नाल 多羅樹 WT, निष्ठिक (67a), 16⁶. नालु 斷 SW, 齒 T, निष्ठिक (98b), 86¹⁷, 154¹⁵, 286⁴; -ओष-पुट-संयोग 薦齒脣和合 W, 脣脣等和合 T, निष्ठिकं विषय (180b), 286⁴. निष्ठिर 翳 SWT, 瞳 T, 瞳 W, निष्ठिक

९^१, ९५^१, १०७^१, १३१^१, २६५^१, २६८^१, २८१^१, ३०४^१, ३२७^१.
तिर्यक 畜生 W, 畜 T, तिर्यक (199b), ३४^१.
तिर्यक 畜生 SWT, तिर्यक (197a), १७४^१.
तिल 麻 WT, 胡麻 T, तिल (203b), ३६०^१, ३६६^१.
तीर्थ 外道 SWT, तीर्थ (64a), १०^१, ११^१, ५०^१, ९८^१, ११६^१, १५९^१, ३७४^१; -क
外道 SWT, २४^१, २५^१, ५३^१, १४७^१, २९०^१, ३२९^१; -कर 外道 SWT, तीर्थ (64b), ११^१, ३९^१२^१, ४०^१, ५१^१, ५३^१, ५७^१, ५९^११०^१, ६०^११२^१, ६१^१, ७८^१११^१, ७९^११^१, ९७^१, ९८^१, १०३^११३^१, १०४^१, १०९^१, १११^१, ११४^११३^१, १२४^१, १२६^१, १४४^१, १५०^११४^१, १५७^१, १५८^१, १५९^१११^१, १७१^१, १७२^१, १७५^११^१, १७६^१, १८१^१, १८५^१, १८६^११^१, २००^१, २०१^१, २०२^१, २०३^१, २०९^११२^१, २२०^१, २२१^१, २२२^१, २२६^१, २३५^१, २३८^१, २४२^१, २९४^१, ३१०^१, ३११^१, ३१३^१, ३१८^१, ३३१^१, ३३९^१, ३४६^१, ३४८^१, ३४९^१, ३५०^१, ३५५^१, ३५८^१, ३६३^१, ३६४^१, ३७०^१, ३७१^१, ३७३^१, ३७५^१; -कर 外道 SWT, तीर्थ (157a), २१^१, २२२^१; -दृष्टि 外道邪
見 W, 外道諸見 T, तीर्थ (207b), ५७^१, ३७३^१; -पद 外道句 ST,
外道見 W, तीर्थ (74b), ३५१^१; -माग 外道法 W, तीर्थ (नक्षत्रसंक्षेप) (187b), ३१०^१; -योग 外道行 WT,
तीर्थ (नक्षत्रसंक्षेप) (64b), ११^११०^१; -योगाश्रय 外道諸見行 तीर्थ
तमुक्तिकथाद्वये तीर्थनक्ष (64b), ११^१; -वाद 外道說 W, 外道事 W,
外道論 T, तीर्थ (180b), १३२^१, २८६^१, ३११^१, ३१३^१, ३५३^१; -आवक-
वक-प्रत्येक-बुद्ध (see also under आवक),
二乘及諸外道 T, 一切外道聲
聞緣覺 W, २^१, १८^१, २२३^१; -आव-
क-प्रत्येकबुद्ध-ब्रह्म 外道聲聞緣覺
梵天王 S, 外道聲聞辟支佛梵天
W, 外道二乘梵天王 T, तीर्थ
तन्त्र-निष्ठा तन्त्र-निष्ठा तन्त्र-
निष्ठा (119b), १३४^१.

तीर्थिक 外道 SWT, तीर्थ (61a), २५^१, ३२१^१, २४४^१, २९०^१.
तीर्थ (sec also under आवक), 外道

SWT, तीर्थ (61a), २^१, ७^१, ११^१,
११^११०^१, १४^११^१, १५^१, १८^१, २०^१, २१^११^१,
३५^१, ४२^१, ४५^१, ५१^१ (bis), ५७^१, ८०^१, ९०^१,
११^११^१, १२५^११५^१, ११५^१, १२५^१, १२७^१,
१२९^१, १३२^१, १३४^१, १४८^११^१, १६१^१, १६४^१,
१७५^१, १८१^१, १८५^१, १८६^११^१, २००^१, २०१^१,
२०२^१, २०३^१, २०९^११२^१, २२०^१, २२१^११^१,
२२२^१, २२३^१, २२६^१, २३५^१, २३८^१, २४१^१, २४२^१,
३१०^१, ३११^१, ३१३^१, ३१८^१, ३३१^१, ३३९^१, ३४६^१,
३४८^१, ३४९^१, ३५०^१, ३५५^१, ३५८^१, ३६३^१, ३६४^१,
३७०^१, ३७१^१, ३७३^१, ३७५^१; -कर 外道 SWT, तीर्थ (157a), २१^१, २२२^१; -दृष्टि 外道邪
見 W, 外道諸見 T, तीर्थ (207b), ५७^१, ३७३^१; -पद 外道句 ST,
外道見 W, तीर्थ (74b), ३५१^१; -माग 外道法 W, तीर्थ (नक्षत्रसंक्षेप) (187b), ३१०^१; -योग 外道行 WT,
तीर्थ (नक्षत्रसंक्षेप) (64b), ११^११०^१; -योगाश्रय 外道諸見行 तीर्थ
तमुक्तिकथाद्वये तीर्थनक्ष (64b), ११^१; -वाद 外道說 W, 外道事 W,
外道論 T, तीर्थ (180b), १३२^१, २८६^१, ३११^१, ३१३^१, ३५३^१; -आवक-
वक-प्रत्येक-बुद्ध (see also under आवक),
二乘及諸外道 T, 一切外道聲
聞緣覺 W, २^१, १८^१, २२३^१; -आव-
क-प्रत्येकबुद्ध-ब्रह्म 外道聲聞緣覺
梵天王 S, 外道聲聞辟支佛梵天
W, 外道二乘梵天王 T, तीर्थ
तन्त्र-निष्ठा तन्त्र-निष्ठा तन्त्र-
निष्ठा (119b), १३४^१.

तुला 榴 W, २५१^१.
तुत्य 同於 SWT, तुत्य (94b), ६१^१,
६२^१, ७८^११^१, ७९^१, ८८^१, ११^१, १८४^१, १९४^१,
२१४^१, २३०^१, २९४^१, ३४४^१, ३४९^१.
तुत्यमान (*being equal*), २३६^१.
तुषित 兜率 SW, 兜率陀 T, तुषित
द्वय (81b), ५१^१, ३०७^१.
तूर्प 樂器 WT, तूर्प (67a), १६^१४^१;
-ताडावचर (*playing stringed instruments*), 以種種妓樂 W, 作衆妓
樂 T, ३^१, १६^१७.
तूष्णी 默然 WT, तूष्णी (62b), ६१^१, १३^१;
-भाव 默然 SWT, तूष्णीभाव
द्वय (189b), १७९^१.
तृग (for मृत), ३०९^१.
तृण 草 SWT, तृण (८३b), ५५^१, ५६^१, १०२^१,
२१७^१, २६८^१.
तृणीय 第三 SWT, तृणीय (११४b),
१३१^१, २१६^१४, ३०४^१, ३१७^१.
तृष्ण-संभव (for तृष्ण), 愛生 T, तृष्ण-
संभव (१८६b), ३०७^१.
तृष्णा 愛 SWT, तृष्णा (७७a), ३४^१४०^१,
४५^१, ६८^१, ६९^१, ८३^१, १३८^१, १४०^१, १४९^१, १६२^१,
१७७^१, १७९^१ (तृष्णीयः in text), १८०^१,
१९७^१, २०३^१, २५३^१, २५५^१, २७१^१, ३०७^१ (०ण
metri causa), ३२३^१, ३२४^१, ३४१^१, ३६४^१, ३७५^१,
-पद 愛句 ST, 愛見 W, तृष्ण-
क्षणी (७४a), ३४^१.
तेजस 光明 WT, 火 SWT, तेजस
(६५b), १४^१, २३१^१, २४९^१.
तेजो-धातु 火大 ST, तेजो-धातु (११५b),
१२४^१, २३१^१.
तेज्य 利刺 S, 棘刺 W, तेज्य (११६b), १३४^१.
T, कैरमार्क्ष (१४१b), १८४^१.
तेमिर 罷者 T, तेमिर (१०२b),
१५१^१, १३१^१, १६८^१, २६५^१, २७४^१, ३०४^१.
तेमिरिक 罷目 ST, 目翳 W, तेमिरि-
क्ष (१०१a), ११२^१, २८१^१.
तैल 油 SWT, तैल (७७b), ४१^१, २३२
१^१ (bis), २५०^१, २५६^१.
तोटक 都咤迦 WT, तोटक (६२a), ४^१,
४८^१, ६४^१, ११७^१, १३२^१, १७६^१, १७७^१,
२२७^१, २२९^१, २४८^१, २८१^१, २८३^१, ३१३^१, ३८२
१^१, ३४८^१, ३७०^१, ३७१^१.
त्रय-सुख-विहार 三種樂住 S, 三種
樂行 W, 三種樂 T, त्रयसुखविहार
द्वय (१०३b), १११^१.
त्रासयत् (causing to fear), २४७^१.
त्रि (three), ३१७^१.
त्रि-कोटि 三種(肉) W, 三種 T, त्रिकौटि
मणि (१७१a), २५५^१, २५७^१; -शुद्ध-मांस
三淨肉 S, 三種名淨肉 W, 三
種名淨 T, त्रिमण्डुमांसद्विम
(१७२a), २५७^१.
त्रि-चित्र 三種心 WT, त्रिचित्र (त्रिम-
ण्डुम) (१९०a), ३१७^१.
त्रितीय 三地 W, त्रितीय (१८२a),
१३१^१, २०२^१.
त्रि-पञ्च-भव-परिनिर्वायिन 三五有
生而般涅槃 S, 三生五生入於涅
槃 W, 三生五生 T, त्रिपञ्चभव-
परिनिर्वायिन (११२b), ११७^१.
त्रि-भव 三有 SWT, त्रिभव (७०a),
२४^१, ३३^१, ४३^१, ८५^१, १०६^१, १६८^१, १७७^१

11, 186¹⁰, 207², 208¹⁰, 215¹⁰ 11, 218¹⁰, 270¹⁰,
274¹⁰, 275¹², 278¹⁴, 279¹, 281¹⁰, 291¹¹,
309¹¹, 327², 334¹, 337¹; -(रं)-चेष्ट(-शेष
in text), 三有 W, 作三有 T, शीद्-
पाणम् (191b), 323¹; -चिह्न-मात्र 三有
微心 S, 三界但是自心 W, 三
界唯心 T, शीद्-पाणम्-बोधस्तंभ
208¹²; -ईश्वर 世尊 T, 三界尊 W,
नृपत्य (71a), 6², 27².
त्रि-गण्डल-पद 三輪句 ST, 三輪
見 W, ग्रीष्म-पाणम्-क्षेपा (74a),
35⁵.
त्रि-यान 三乘 SWT, ब्रह्म-पाणम्
(88b), 65¹¹, 155¹⁴, 161¹⁷, 297².
त्रि-वस्त्र 三衣 WT, वेश-पाणम् (187a),
308¹¹.
त्रि-शरण (*the triple refuge*), 365¹⁶.
त्रिक्षुकम् 三(而) WT, 3⁴.
त्रि-संयोजन 三結 SWT, शुद्ध-पाणम्
(113b), 119¹⁰.
त्रि-संगति-प्रत्यय 三緣合生 ST, 三
法因緣 W, 三合爲緣 T, पाणम्
शीद्-पाणम्-तुक् (77b), 41¹⁰ 10, 220¹¹.
त्रि-संतति 三相續 ST, शुद्ध-पाणम् (64a),
9¹¹, 96¹, 265¹⁴, 296¹³.
त्रि-संधा 日夜六時中 W, 日夜三
時修 T, 五श-महामापाणम् (205b),
365¹⁰.
त्रैत् 三時 T, 三災 W, 364¹, 365⁹.
त्रैकाल्य 三世 WT, 五श-पाणम् (66a),
14¹.
त्रैधातुक 三界 SWT, अमश-पाणम् (68a),
18⁷, 42¹², 80⁷ 12, 123¹⁷, 186⁸, 212¹, 213¹²

14, 268¹² 16.
त्रैलोक्य 三界 WT, द्विष्ठ-के-नृपाणम्
(176a), 273⁴.
त्रैकुल 三寸 W, 三指 T, श्वस-
पाणम् (205b), 365¹².
त्रैष्वक 三世 SWT, 五श-पाणम् (161a),
229¹⁰.
त्रैष्वपतित 應墮三世 S, 墮三世
法 W, 墮於三世 T, 五श-पाणम्
नृपत्य (50b), 206¹⁷.

८

द
दश्चिंष 右 SWT, शृण्व-प (143b),
22³, 189⁴ 5.
दश्चिंण-पय 南大國 W, 南天竺國
T, शुद्ध-पाणम्-देव-द्विष्ठ-पुरुष (180b), 286¹².
दग्ध-बीज 焦種 S, 焙種 WT, क्षेपा-
प (77a), 41³.
दण 木 SW, 杖 T, 五श-प (150b),
3⁵, 78¹⁴, 82¹⁵, 206³, 367⁷, 340⁶; -काष
三岐杖 T, 三拒 W, 五श-मेष-
(205b), 367⁷.
दधन 酪 SWT, मूर (96b), 82¹⁸.
दधि 酪 SWT, मूर (103b), 159¹³ (bis),
205⁶, 360⁷.
दन द齒 SWT, श्व (98b), 86¹⁷, 154¹⁶, 286¹.
दरिद द貧人 W, 貧 T, 五श-प
(196b), 337².
दर्प 放逸 ST, द्विष्ठ-प (172a), 257²
(bis); -संभव 放逸生 ST, द्विष्ठ-

पाणम् (172a), 257².
दर्पण 明鏡 SWT, द्विष्ठ-प (69a), 20¹⁴,
37¹⁰, 48⁸, 55¹¹, 93¹⁸, 96¹⁰, 186¹⁰ 11, 289¹⁰,
315¹⁰, 327⁴, 353⁸, 369¹⁶; -अनर्जितम् 鏡
中 WT, द्विष्ठ-पी-नृप (69a), 20¹⁵.
दर्शन 見 SWT, द्विष्ठ-प (63b), 91⁶ 10, 11¹²,
12⁶, 22¹⁴, 25⁶, 41¹ 5, 42², 44¹⁰, 64¹ 7, 65⁶,
70⁶, 76⁴, 80¹⁶, 81², 92⁵, 94², 99¹⁵, 103⁶,
106¹², 109¹⁸, 110⁴, 111⁶, 112⁶ 6, 114⁶, 118
11, 121¹⁶, 125¹⁶, 129¹⁷ (bis), 131⁶, 132¹⁶,
140², 146¹⁶, 148¹⁶, 155¹⁷, 157¹², 159⁷ (bis),
160², 162⁶ 11, 164⁶ 11, 165¹⁶, 168¹³, 169⁷,
176¹⁸, 179¹, 180¹⁶, 181⁶, 183⁶ 10 16, 184¹
6 11 14 17, 185², 189⁸ (bis), 196¹⁷, 197⁶ 10,
199¹, 200¹ (bis) 8 (bis) 6, 206⁴, 207¹⁴ 16,
208⁴ 6, 21¹⁷, 222¹⁵, 238², 241¹¹ 12, 246¹⁷,
252¹⁸, 281⁶, 284¹⁴, 285², 291⁷, 292⁸, 298¹²,
300⁷ 9, 301² 17, 309¹⁴, 310¹⁴ 16, 313⁷ 13 16,
326¹⁰, 330², 331¹⁴, 335¹⁶, 344⁶ 16, 347³,
349⁶, 350¹⁶, 351¹, 352¹⁰, 355¹⁷, 358³, 369⁶,
370² 7 (bis); -अवतार 148¹⁶.
दर्शन (seeing), 156¹, 256¹.
दर्शयेत् (दश?), 修行於見道 W, 見
修 T, द्विष्ठ-प-मेष-प (203a), 358⁴.
दश-प्रीति 十首 T, 十頭 W, द्विष्ठ-
प (62a), 4¹⁴, 12¹⁰ 12, 14¹⁶.
दश-दिश 十方 SWT, द्विष्ठ-प
(104b), 100¹⁴, 101¹.
दश-निष्ठा-पद 十無盡句 S, 十無盡
W, 十無盡願 T, द्विष्ठ-प-मेष-
प-मृत्यु-प (115a), 123⁷, 160¹⁴.
दश-प्रकृति-मृत 或制十種 S, 遮十

種 T, द्विष्ठ-प-मृत-पाणम् (171a), 255¹.
दशभूमि 十地 WT, द्विष्ठ-प (174a),
266⁴, 312¹¹.
दश-भेद (*ten kinds*), 813¹¹.
दशम (*the tenth*), 103⁶, 322².
दशमी 十地 SWT, द्विष्ठ-प (154b),
216¹, 291¹⁷.
दश-वशिता (*the ten subduing powers*),
195¹⁷.
दश-विध (*ten kinds*), 132².
दष 所噬 ST, 邪見諸見 W, द्विष्ठ-
प (100b), 41¹⁴ 91⁶ (दृष्ट in text).
दहन 能燒 W, 燥然 T, 372¹.
दहमान (*to be given*), 208⁹, 231¹¹, 232²,
248⁶ 6.
दातय (*being burnt*), 254², 255¹.
दान 施 SWT, द्विष्ठ-प (84b), 57¹⁰,
237⁴ 10 14, 357² 4 (for उपादान?), 363⁶;
-पारमिता 237⁴ 14.
दानीम (for इदानीम्), (*now*), 336¹¹.
दायक 被燒 W, 施者 T, द्विष्ठ-प-देव-
प (205b), 366⁴.
दारक (*son*), 286¹³.
दालन 破 WT, 10¹³.
दास 奴婢等 W, 僮僕 T, द्विष्ठ-प-क्षम-
क (186b), 307¹³.
दाहक 能燒 W, 然 T, द्विष्ठ-प-देव-
(203a), 357¹, 360⁵.
दाय 可燒 W, 可然 T, द्विष्ठ-प
(203a), 357¹.
दिव 天 SWT, 炒 (法) T, 深 (法) W,
器 (204b), 5¹⁰ 12, 8¹, 164⁶, 267¹⁴, 269⁴,
362⁶, 363⁴, 364¹, 371⁴.

दिश 方 WT, दुष्काष (173a), 18¹⁴, 261¹⁶, 288^b (bis), 373¹⁶.
 दीक्षित् (consecrated), 257⁹.
 दीप 燈 S, 燈焰 WT, दृश्यम् (89b), 68¹⁴, 188¹, 238¹⁰, 274¹², 280¹, 366⁷, 371¹¹.
 दीप्यमान 燥然 WT, दृष्टिरुद्रित् (65b), 18⁵.
 दीर्घ 長 SWT, दैर्घ्य (83a), 17¹⁷, 33¹³, 54¹³, 76⁷, 113³, 189³, 207¹⁴, 245¹⁰, 350⁶; -तप्स 長苦倦 S, 長壽倦 W, 長苦行 T, दृष्टिरुद्रित् (71b), 27¹²; -रात्र लंग WT, 永 T, दृष्टिरुद्रित् (61b), 2¹⁶, 255¹⁰; -हस्त 長短 SWT, दैर्घ्य-दृष्टिरुद्रित् (68a), 17¹⁷, 54¹³, 76⁷, 207¹⁴, 320⁹, 350⁶.
 दुःख 苦 SWT, दुष्काष्यम् (77a), 40¹¹, 58⁹, 61¹¹, 97⁹, 119³¹², 120⁴⁹, 174²¹⁴, 180⁹, 186⁹ (bis), 221⁵⁸, 233¹, 236⁸⁹, 242⁸, 248⁹ (bis), 251⁹, 252⁹, 299⁶, 324¹²; -अथ 苦盡 SW, 罪苦 T, दुष्काष्यम्-दृष्टिरुद्रित् (156a), 220⁶; -जन्म 苦生 S, 生苦 WT, दुष्काष्यम्-दृष्टिरुद्रित् (137b), 174⁴, 183⁸; -जन्म-हेतुक 未來苦 S, 未來苦因 W, 生來苦 T, दृष्टिरुद्रित्-दुष्काष्यम् (118b), 119¹¹; -सत्त्व苦諦 WT, दुष्काष्यम्-दृष्टिरुद्रित् (184a), 299⁶.
 दुरात्म्यात्-धर्म 惡邪論法 S, 244¹².
 दुर्गच्छ ऋ氣 W, 仇穢 T, दृष्टिरुद्रित् (168b), 247⁹, 248⁹, 256⁹.
 दुर्गच्छ ऋ穢 SWT, दृष्टिरुद्रित् (172a), 249¹, 257¹⁶.

दुर्देशन 惡見 S, 邪心 W, 自他見 T, दृष्टिरुद्रित् (100b), 91¹⁶.
 दुर्देशि 邪見 SW, 惡見 T, दृष्टिरुद्रित् (125b), 147¹², 186⁹, 290¹⁰, 338¹⁰, 369¹².
 दुर्भेति 惡意 W, 惡慧 T, दृष्टिरुद्रित् (172a), 257⁹, 384¹³, 353¹⁶.
 दुर्भेति 愚 ST, 癡 W, दृष्टिरुद्रित् (111a), 113¹⁴.
 दुर्भेष्म 愚癡人 W, 憨鈍人 W, 無智者 T, दृष्टिरुद्रित् (195a), 322¹², 373⁹.
 दुर्दर्श 惡色 WT, दृष्टिरुद्रित् (207a), 371⁶.
 दुर्दिद्धध (wrongly taught), 114².
 दुष्ट 惡 (想) S, 惡 (心) T, दृष्टिरुद्रित् (121b), 189⁹; -चिह्न-हृधिरोत्पादन 惡心出佛身血 SWT, दृष्टिरुद्रित्-दुष्काष्यम् (121b), 189²; -त्व 167⁹.
 दुष्प्रतिवध (never frustrated), 222¹⁴.
 दुष्टिहिति 女 W, दृष्टि (167b), 245¹².
 दूर 遠 SWT, दैर्घ्य (135b), 171⁷; -तस् 91¹⁷, 246¹⁴; -(रं)-गम 遠行 WT, दृष्टिरुद्रित् (116a), 125¹⁷ (bis), 318¹².
 दूरात् (far), 246¹⁷.
 दूरीभूत (removed), 287¹.
 दूषक (spoiling), 331⁹, 333⁹.
 दृश 如 WT, दृष्टि (194b), 95⁷ (for दृश्य), 381¹⁴.
 दृश्य 見 S, 所見 W, 諸見 T, 諸覺 SW, दृष्टि (74b), 11³, 24¹³, 25¹, 30⁹¹⁸, 32¹⁰, 36⁹, 38⁹, 40¹², 41⁶, 42², 43¹⁰, 44⁴¹⁷

45¹¹¹³¹⁸, 46¹⁴, 48⁶, 49¹¹, 54⁵⁹, 55³⁴⁵⁷¹⁰¹⁴¹⁷, 56⁸⁷¹⁸, 58¹, 62⁶ (bis)⁹, 64¹³, 72⁹, 73⁴, 79¹⁴, 80⁶¹¹, 84¹⁰¹³, 89⁷, 90¹⁷, 91⁹, 93³¹⁷, 94³, 95⁷ (दृश in text), 100⁵, 114⁹, 136¹¹, 151¹⁷, 154⁴, 162⁴, 166¹, 167¹⁰, 168¹², 176³, 181¹⁵, 186¹⁵ (bis), 199², 203¹⁰, 202², 224³, 225¹⁶, 265¹², 272⁴¹², 273¹¹, 277¹⁵, 281⁴, 293⁹, 295¹⁴, 202², 305¹², 307¹, 311⁹, 314¹⁵, 316⁹, 319¹⁴, 320⁹¹⁷, 321¹, 326⁴, 328⁴, 332⁶, 336¹⁷, 337¹⁵, 338¹⁵, 342¹⁰, 343¹⁷, 345¹¹, 346¹⁵, 380¹⁶ (bis); -काल 見時 W, 所見 T, 342²; -पारा 流注 ST, 現流 SWT, 45¹³, 55³⁴⁵⁸¹¹¹⁴¹⁷, 56¹; -पद 現句 ST, 現見見 W, दृष्टिरुद्रित् (75a), 36⁹; -मान 293⁹.
 दृष्टि 見 SWT, 所見 WT, दृष्टि (63b), 81⁷ (bis), 9⁶, 10⁵, 16⁴, 18²⁷⁹¹², 19⁹, 36³, 81¹⁰, 91⁹ (for दृष्टि), 105¹⁴, 130³, 156⁴, (-ति in text)¹⁰, 174¹², 189¹¹, 190⁹⁹, 203⁴, 214¹⁵, 230¹²¹³, 231², 239⁷, 258¹⁰, 272¹⁵¹⁶, 300⁴, 312¹³, 331⁶, 368¹², 370⁴, 375⁷; -धर्म-विहारित 現見法行人 W, 現法樂者 T, दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित् (62b), 61³; -धर्म-सुख 現法樂 ST, केरुद्धिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित् (158b), 35⁴, 224¹⁷; -धर्म-सुख-पद 現法樂句 ST, 現法樂見 W, दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित् (74a), 35⁹; -धर्म-सुख-विहार 現法樂住 S, 現法樂行 W, 住現法樂 T, दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित् (163b), 222¹³, 235⁶; -धर्म-सुख-विहार

वारित 現法樂住 S, 真如樂行 W, 住現法樂 T, केरुद्धिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित् (166b), 242¹⁶; -धर्म-सुखसमा= पत्रि-सुखविहार 現法樂正受住現在前 S, 入三昧樂三摩跋提門 W, 得現法樂甚深三昧 T, केरुद्धिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित् (158b), 224¹⁷; -पद 見句 ST, 見見 W, दृष्टिरुद्रित् (74b), 36³; -मत 206⁴; -वत् 所見 W, दृष्टि (63b), 9⁹; -श्रुत-मत-ज्ञात 見聞生知 W, 見聞覺知 T, दृष्टिरुद्रित्-दृष्टिरुद्रित् (188b), 312¹³; -श्रुत-विशका 不教不求不想 S, 自己不殺不教人殺他不爲殺不從命來 W, 非是自殺亦非他殺心不疑殺 T, 258¹⁰; -अन्त ऐ S, 俗喻 WT, दृष्टि T, दृष्टि (72b), 30¹¹, 35², 47¹², 60⁹, 122¹⁸, 151⁹, 174⁹¹⁰, 175¹⁰, 178⁷, 229¹⁹, 230²¹⁰, 231¹³, 238¹⁰, 272¹⁷, 273², 280¹, 315¹¹, 326¹², 357¹¹, 360¹¹, 373⁴; -अन्त-पद 俗句 S, 俗喻見 W, 俗喻句 T, दृष्टिरुद्रित् (74a), 35²; अन्त-हेतु 俗因 S, 俗喻因 W, 因俗喻 T, 30¹¹.
 दृष्ट्य (for दृष्टि), 能見 WT, दृष्टि (63b), 9⁹.
 दृष्टि 見 SWT, 朋黨 W, दृष्टि (64a), 2⁷, 31¹, 10⁹, 11⁴, 28¹¹, 30⁹, 33⁹, 34⁷, 40⁷⁹, 41¹³, 51¹⁰¹⁶, 53⁷, 54³¹⁶, 57¹², 58¹, 59⁷, 62¹⁶, 70¹³, 71³⁶¹⁰¹⁷¹⁸, 72¹¹, 75⁹, 79⁴, 80¹¹⁴, 81²¹⁶, 82¹¹, 84¹⁴, 89⁹, 90⁸¹⁰, 91¹⁰¹⁸¹¹, 92¹⁵, 93¹¹, 94⁸⁹, 95¹², 98¹⁸, 109⁹, 114⁹¹², 118¹⁰¹⁶, 120²⁶, 121⁹, 125¹⁵, 129⁹, 133¹¹.

139¹⁴¹⁵, 145⁶, 146¹²¹⁸¹⁵, 149⁷, 150¹²¹⁸¹⁵
(bis), 151⁸¹²¹⁴, 152⁵⁸, 153¹⁴, 155¹⁵, 156
⁹, 158¹⁷, 159¹, 161², 162²⁸, 164¹⁵, 165⁹¹²
¹⁵, 166¹³, 167¹⁰¹⁸, 171², 172¹², 173¹⁵, 175
², 179¹, 181⁴⁸¹⁰, 183⁸, 185¹⁵¹⁷, 200¹⁷,
201⁷, 202⁸, 208⁹¹⁷, 209¹², 214¹¹⁰, 219⁸,
221¹¹, 224¹⁷, 225⁴, 226¹⁸, 236⁸¹, 242¹⁷,
243¹⁰¹³, 244¹², 264², 265⁸, 270¹, 287⁸, 294
³, 295¹¹, 301¹⁸, 303¹¹, 306¹⁰, 323¹⁷, 325¹⁴,
337¹⁶, 338⁴, 339², 343¹⁴, 345¹⁵, 346¹⁰¹²,
348¹³, 349⁹, 350⁹¹⁰¹⁸, 351⁸⁹¹⁷, 360⁴,
362²³, 369¹²(bis), 370¹¹, 371¹, 373¹, 374⁹
¹¹; -दोष 著邪見 W, 見過失 T,
भूत्प्रतिक्षेप (200b), 34⁷, 350⁴¹⁰; -इय
二見 SW, भूप्रतिक्षेप (77a), 30⁸, 39¹⁴
(bis), 40⁷, 62¹⁴, 149⁷, 323¹⁷; -इय-गोचर
二見境界 SW, 二見所行 T, भूप्र
प्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (76b), 39¹⁴; -इया=
तिकानगोचर 超二見境界 S, 過
二見境界 W, 超二見所行 T, भू
प्रप्रतिक्षेपवस्तुत्तुद्युम्य (76b),
39¹⁴; -वश 21⁹; -विकल्प 見妄想
S, 見分別 WT, भूप्रप्रतिक्षेप
क्षेप (117b), 54², 128⁸, 129⁹; -संकर
邪見 W, 雜諸見 T, भूप्रतिक्षेप
(201a), 351⁸; -सुखसंस्थान 現樂
行相 W, 苦樂好醜 T, भूप्र
तिक्षेप (68a), 18⁷; -हेतुक 是見
T, भूप्रतिक्षेप (201a), 351⁸.
देव 天 SWT, भू (67a), 3¹, 16¹, 26¹⁰, 29¹⁷,
36², 89¹⁸, 92¹², 150⁸, 174⁸¹¹, 175¹³, 251⁶,
261⁴, 262⁸, 347⁷, 364², 367¹¹, 370¹²; -ज्ञ=
नन् 生天 W, 上昇於天宮 T,

मोक्ष-क्षेपवस्तुत्तुद्युम्य (204b),
364²; -पद 天句 ST, 天見 W, क्षेपि
क्षेप (74b), 36²; -भवन 諸天宮 S,
諸宮殿 W, 諸天上 T, क्षेपित्यवस्तु
(92a), 73³; -यान 諸天…乘 S, 天
乘 WT, क्षेपित्यवस्तु (220a), 134¹⁶,
322¹⁸; -आधिपत्य 自在天王 W,
天王位 T, क्षेपित्यवस्तु (170a), 251⁶.
देवता 諸天 SWT, क्षेपित्यवस्तु (169a),
248¹⁰.
देवी 天女 W, क्षेपित्यवस्तु (173a), 222¹⁰,
223⁴, 261⁴, 262⁷.
देवेन्द्र 提桓因 WT, क्षेपित्यवस्तु
क्षेप (170a), 251⁶.
देश 國土 ST, 國 W, 處 WT, भूमि
प्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (76b), 39¹⁴; -इया=
तिकानगोचर 超二見境界 S, 過
二見境界 W, 超二見所行 T, भू
प्रप्रतिक्षेपवस्तुत्तुद्युम्य (76b),
39¹⁴; -वश 21⁹; -विकल्प 見妄想
S, 見分別 WT, भूप्रप्रतिक्षेप
क्षेप (117b), 54², 128⁸, 129⁹; -संकर
邪見 W, 雜諸見 T, भूप्रतिक्षेप
(201a), 351⁸; -सुखसंस्थान 現樂
行相 W, 苦樂好醜 T, भूप्र
तिक्षेप (68a), 18⁷; -हेतुक 是見
T, भूप्रतिक्षेप (201a), 351⁸.
देव 天 SWT, भू (67a), 3¹, 16¹, 26¹⁰, 29¹⁷,
36², 89¹⁸, 92¹², 150⁸, 174⁸¹¹, 175¹³, 251⁶,
261⁴, 262⁸, 347⁷, 364², 367¹¹, 370¹²; -ज्ञ=

नन् 生天 W, 上昇於天宮 T,
मोक्ष-क्षेपवस्तुत्तुद्युम्य (204b), 12¹⁷, 14², 16¹², 139⁹,
171¹³, 191⁵, 193¹⁰(रूत), 194⁷¹⁴¹⁸, 204
¹³, 222¹⁹, 223¹, 229¹¹, 230¹⁰, 255¹; -पाठ-
कथा 說名字章句 W, भूप्र
तिक्षेपुत्तुद्युम्य (65a), 12¹⁷,
-पाठ-नय 說通 S, 建立說法相
W, 言說法 T, भूप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य
(136a), 172²; -पाठ-अभिरत 樂於
名字說法 W, 樂着語言文字 T,
भूप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (65b), 14²,
-सिद्धान्त-नय 171⁸¹⁷,
-अवतार-पद 說句 S, 說見 W, 演
說句 T, भूप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (75
b), 37¹.
देशयत् (indicating), 103⁴.
देशान्तर-स्थान-गमन 從方至方 SW,
至方 T, भूप्रप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य
(141a), 183⁴.
देशित 所說 1⁴, 2⁸, 8¹⁶, 116¹⁰, 223⁵, 228¹⁴,
243⁶⁸, 254⁸, 287², 290⁷, 311¹⁶, 320¹³,
365¹.
देशमान (being shown), 63⁷, 64¹¹⁴¹⁵, 65².
देह 身 SWT, भूमि (70b), 24¹², 31¹, 36¹⁴,
42⁴, 47⁷, 51⁷, 54¹⁰, 56⁷, 62¹⁴, 64¹⁵, 68¹³,
69², 70¹⁸, 77¹⁶, 80⁹, 84¹¹, 140¹, 154⁶, 192⁸,
208¹⁴, 271¹⁰, 273¹⁴, 287², 301¹⁴, 302⁴, 303²⁷,
309¹⁸, 315⁸; -धारित 24¹²; -पद 身句
ST, 身見 W, भूप्रतिक्षेप (75a), 36¹⁴;
-प्रतिष्ठा-भोग 身安立受用 S, 自
身資生器世間等 W, 身及資生
國土 T, भूमि भूप्रप्रतिक्षेप
ुत्तुद्युम्य (84a), 56⁷; -भोग 84¹¹,

-भोग-प्रतिष्ठा 身資生住持 W, 受
用建立身 S, 身資及所住 T, 身
及物并所住處 T, 身資生器 W,
身財建立 S, 身資國土影 T, भूमि
भूप्रप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (189b), 42⁴, 51⁷,
62¹⁴, 64¹⁵(देह-आलय-), 70¹⁸, 80⁸, 140¹,
302⁴, 309¹⁵, 320⁶, 335¹³, 343¹²¹⁴; -भोग-
प्रतिष्ठान 身資生住持 W, भूमि
भूप्रप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (189a), 47⁷, 54¹⁰,
154⁶, 303²⁷, 315⁶, 320⁴.
देहिन 衆生 W, भूमि ठन (176a), 269¹²,
272¹, 291¹⁴, 343¹⁰, 347⁸, 369⁵, 371⁴.
दोष 過 SWT, भूमि (63a), 51⁴, 71⁶, 34⁷,
41¹³, 75⁸, 102⁸, 104¹⁰, 109⁸¹⁰, 111²⁸⁷,
120⁷, 134¹¹¹², 140³, 152⁶, 167⁵, 187¹⁴, 191
¹, 203², 204⁸⁷, 217⁴⁵, 218¹, 219¹, 220¹⁸,
234⁷, 240¹⁸, 243³⁶, 244³, 249¹²¹¹, 251⁸¹⁰,
252¹¹⁰¹¹ (Missing in text but to be
supplied with in accordance with the
context as well as the Chinese versions)
¹²¹³, 255¹⁰¹⁷, 256¹¹¹², 302², 206¹⁰, 311¹³,
327¹³, 330⁸, 339¹³, 340¹⁰¹⁷, 346⁴, 348¹⁴, 350
⁴¹⁰, 352³, 359²³, 360⁵, 362²³, 369¹⁴, 372¹⁸,
373¹⁰, 374⁸; -निधारण 過失 WT,
भूमि (206b), 369¹⁴; -प्रसङ्ग 有過
SWT, भूमि भूप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (154b), 217
⁴⁵, -भेद 痘差別 S, 痘殊 W,
病不同 T, भूमि भूप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य
(149b), 204⁶, 340¹⁸.
दौर्गम्य 臭氣不淨 W, 其氣臭穢
T, भूमि भूप्रतिक्षेपुत्तुद्युम्य (169a), 248⁶.
दौर्बल्य 無弟子 W, 惡時 T, भूमि
(205a), 365⁴.

दौर्भवस्य 苦惱 SWT, श्वेताषार्द्धन्
ष (137), 174², 180².

दौष्ट्य लुभ WT, 虛僞過 S, 虛
僞 S, 惡 T, 惡習 T, 過 S, 過失
T, 諸障 W, पश्चाद्यन्प्रिण् (98a),
38², 43², 44², 56², 71¹², 80², 82², 86¹¹, 94¹²,
108¹⁰, 109⁸, 130¹², 171¹¹, 177⁴, 212¹¹,
220¹³, 233¹⁴, 281², 284², 298², 308¹⁶,
318¹⁶; -मय 從煩惱起 W, 從惡習
起 T, पश्चाद्यन्प्रिण् (184a), 298¹⁶;
-विकल्पाभिनिवेश-वाच 過妄想
計著言說 S, 妄執言說 W, 計著
過惡言說 T, पश्चाद्यन्प्रिण्-प्रमाद्यन्
प्रिण्-प्रिण् (98a), 86¹¹.

द्रव 濁 SWT, प्रसूष (114b), 59²,
122¹¹, 128¹⁵, 204³, 270⁴, 340¹³.
द्रव 事 S, 實有物 W, 諸物 T, 陀
羅願 S, 實事 SW, 實 WT, 陀
羅願 (81a), 11², 18¹⁷, 40¹⁴, 51¹³, 153¹⁰, 11, 170
11, 203⁸, 305¹⁷, 316¹⁵, 319⁸, 320¹¹, 18, 324⁸,
325¹⁰, 11, 333¹², 12 (bis), 339¹⁷.

द्रष्टव्य 所見 WT, प्रकृति (63b), 9⁶, 10⁵,
83², 156¹, 156¹², 17.

द्रष्टव्य 能見 ST, 見 W, प्रकृति (79b),
45¹¹.

द्रुम 鬱樹 S, 林樹 W, 樹 T, मेद्योग
(75a), 36¹⁷; -गुल्म-लता-वितान-पद
鬱樹葛藤句 S, 林樹見 W, 樹藤
句 T, मेद्योग्योग्याद्युम्प्रिण्
गुल्मप्रिण् (75a), 36¹⁷.

द्रोण 獨龍那 S, 一斛 WT, श्वेत
(72b), 31⁴.

द्वय 二種 ST, 二法 W, क्षमाद्यप्रिण्
(201b), 62⁴, 72¹⁸, 76⁹, 81⁴, 85¹⁴, 98¹,
97², 99¹⁷, 100⁸, 101¹³, 102¹, 107⁸,
116¹⁷ (bis), 122¹⁶ (bis), 133¹, 140¹¹, 12 (bis)
18 (bis), 143⁴, 145⁴, 149⁷, 180¹⁵, 189¹,
202², 218¹⁷, 223¹⁵, 224⁸, 225², 228¹,
229⁸, 242¹ (bis), 267¹⁴, 269¹⁵, 271², 277⁸,
285⁸, 300¹⁶, 303⁸, 311⁶, 317¹⁶, 318²,
323¹⁰ (bis), 338¹⁶, 342⁸, 345⁴, 348³,
349⁸, 351¹⁷, 353¹⁸, 352⁸ (bis), 354⁸;
-ग्राह 二取相 W, 二見 W, 二
執 T, 二所執 T, द्वेद्यप्रिण्
(188a), 311⁸; -प्रभावित 皆相對
立獨則不成 T, प्रिण्-शुद्ध-द्वय-
प्रिण्-क्षमाद्यप्रिण्-प्रिण् (98b),
76⁸; -अर्थ (see also under धर्म-द्वय),
二法 W, 二義 T, द्वय (64b), 11¹¹.
द्वयान 二邊 SWT, प्रिण्-शुद्ध-
प्रिण् (180a), 193⁸, 288⁴, 331¹⁶, 351¹⁷, 353¹³;
-प्रतिगत चूड़ान्त二邊 SWT, 沒二邊 T,
शुद्ध-प्रिण् (194b), 193⁸, 288⁴, 331¹⁶.
द्वाचिंशत्त्व-लक्षण 三十二相 WT,
मक्तु-द्वय-शुद्ध-द्वय-प्रिण् (65b),
12¹⁴.
द्वाचिंशत्त्व-लक्षण 三十二相 SWT, मक्तु-
शुद्ध-द्वय-प्रिण् (94a), 77¹⁶.
द्वादशाङ्ग 十二支 WT, घन्य-प्राण-
प्रिण् (184b), 301¹².
द्वादशायतन (the twelve ayatanas), 327⁴.
द्वापर 二時 T, 二 W, प्रिण्-शुद्ध (205a),
364⁸, 365⁸.
द्वार 門 W, श्वेत (178a), 65¹³, 278⁴.

द्वि (two), 99¹⁷, 100¹, 122¹, 132¹¹, 12 (bis),
148⁸, 227¹¹, 229²⁷, 278¹⁰, 288⁸, 296³, 297⁸,
299⁷, 301¹, 327¹, 335¹⁴ (bis), 336¹, 344
8, 361¹⁴, 368¹⁷, 372¹³; -त्व 二 WT,
17⁴, 153⁴, 172⁴, 325⁴.

द्विचित्र 二心 WT, 二種心 WT,
क्षमाद्यप्रिण् (184b), 301¹, 335¹⁸; -ता
335¹⁴.

द्वितय 二種 SW, 二 T, क्षमाद्यप्रिण्
(88a), 54¹², 320⁸.

द्वितीय 二地 W, 第二 WT, प्रिण्-
शुद्ध-द्वय (182a), 16⁷, 66⁸, 216⁸, 292².

द्वितीया 第二 ST, 二地 T, प्रिण्-शुद्ध-
द्वय (154b), 135¹⁷, 176¹³, 216⁸, 292².

द्विधा 二(種) WT, क्षमाद्यप्रिण् (140
b), 20¹⁴, 176⁸, 181¹⁶, 186¹¹, 12, 194¹⁰, 207
8, 208¹⁶, 317², 346¹⁶, 349¹⁶, 359⁷; -द्वृष्टि-
निवारण 離二種二見 W, 遮二
見之理 T, 349⁸; -वृत्ति 二種生 W,
妄起二(分別) T, (分別)所起二 T,
क्षमाद्यप्रिण्-प्रिण् (200a), 349⁴,
353⁷; -वृत्तिन् 二邊 S, 二處 W, 二
取 T, क्षमाद्यप्रिण् (138a), 176⁸.

द्विप्रकार 二種 ST, क्षमाद्यप्रिण् (104
b), 99¹⁷.

द्विलक्षण 二相 WT, क्षमाद्यप्रिण्
(196a), 335¹⁴.

द्विविध 二種 SWT, क्षमाद्यप्रिण् (84
b), 58², 117¹⁷.

10 द्वीप 洲渚 ST, 洲 T, 天下 WT,
श्वेत (72a), 29¹⁶, 307⁸, 364⁸.

द्वीपित 豹豹 W, 豹…豹 T, प्रिण्
(170a), 252⁸.

द्वेष 忾 ST, 賊 W, श्वेत (94a), 77¹⁶,

90⁸, 119¹⁰, 145¹¹, 12, 14, 17, 149¹⁰, 162¹³, 324⁸.
द्वृकुल 二寸 W, 二指 T, श्वेतप्रिण्
(205b), 365¹³.

ध

धन 色 S, 珍寶 W, 物 T, 財 WT,
श्वेत (129a), 155⁹, 10 (bis), 257⁸, 307
12; -वत् 258⁸, 337⁸.

धनु 肘步 SW, 弓 T, श्वेत (72b),
31² (bis).

धनेश्वर 財富 ST, 致財富 SW, 富
饒大自在 T, 財自在 W, 財自
在王 T, श्वेत (73a), 27¹⁰, 32⁴.

धन्व �弓 SWT, 35⁸; -पद 弓句 ST,
弓見 W, 85⁹.

धधर (carrying), 77¹⁶.

धरण 賴提 S, 陀那羅 S, श्वेतप्रिण्
(72b), 31⁹.

धर्म 法 SWT, क्षमा (61a), 1⁴, 310¹³, 2⁸,
3¹⁶, 7¹, 81², 9⁴, 10⁵, 17 (bis), 172³
4, 10, 11, 18⁸, 10, 16, 17, 19¹, 5, 6, 7, 20¹⁰, 28², 30
5, 40⁸, 43¹⁵ (bis), 48¹, 18, 50⁷, 51³, 6⁷ (bis)
13, 56¹², 62⁷, 63¹⁷, 65⁸, 67¹¹, 68⁸, 69¹¹
12, 70⁸, 72¹⁵, 17, 18, 74¹⁶, 76⁹, 12, 77⁸, 79¹⁶, 80⁸,
81¹², 2⁴, 82⁸, 83⁴, 11, 85³, 88¹², 89⁷, 93¹²,
96⁸, 97¹⁴, 102¹⁶, 105⁸, 108¹¹, 109¹⁶, 17, 110
2, 9, 10 (bis), 112⁸, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17
(bis), 116¹, 2, 4, 17, 117³, 118¹⁴, 16, 119⁷,
122⁸, 9, 10, 12, 15, 16, 17 (bis), 132⁴, 133⁵, 134⁵,
135¹⁶, 137², 9, 189⁸, 140¹¹, 18, 142¹¹, 143⁴
6, 6, 12, 13 (bis), 144⁸ (bis), 149¹⁴, 152⁸,
156⁸, 157¹², 160¹, 9, 10, 14, 161³, 4 (bis), 10,

—(87)—

162⁷ 10¹⁸, 163¹⁶, 165⁹, 166^{9 11 12 16},
167⁷ (bis)¹¹, 168^{1 8}, 173¹⁴, 179¹⁷, 181¹⁰
(bis), 183^{11 16}, 188^{9 18 16}, 190¹³, 191^{9 10}
11¹⁷, 193¹⁸, 194^{8 9 11 18}, 195^{4 6}, 199¹⁴,
203⁹, 204^{8 4}, 205^{6 12}, 209^{2 6}, 211¹⁷, 212²,
213¹⁶, 214^{2 6}, 215^{1 2} (bis)^{2 6}, 218¹⁶, 222²,
224⁹ (ter), 225¹⁴, 226^{2 16 17}, 227^{4 5 9},
228² (bis)¹², 229², 236^{3 15}, 238¹², 232^{14 15},
234^{2 11 12 16} (bis), 241¹⁶, 244⁸, 245^{4 17},
247¹⁶, 264^{9 11}, 265⁹, 268^{1 10 11}, 269⁹, 270⁴,
271¹⁶, 280^{8 9}, 282¹², 283^{4 12}, 284⁸, 288¹⁰
12¹³, 291¹³, 295², 296^{3 12}, 299⁹, 300⁹, 301⁹,
304¹³, 308⁸, 313¹⁴, 315¹⁴, 316⁸, 318⁶, 319¹¹,
320⁹, 327¹⁵, 333¹, 335¹⁸, 336¹⁴, 339⁸, 340²
13¹⁴, 344¹⁶, 348^{2 4 11}, 351^{7 10 16}, 353⁸, 358²,
360¹³, 361^{2 9}, 363⁵, 364³, 365³ (bis), 367²,
368¹¹, 370², 375⁷, 376²; -क 240³; -काम
行善法者 W, 樂法人 T, क्षा॒ दृद्ध॑ ए॒ (168a), 246¹, 245¹³; -काय
法身 SWT, क्षा॒ ग्री॒ शु॒ (81b), 22²,
44¹, 51⁷, 70⁸, 134¹⁴, 142⁷, 192¹, 232³, 255
14; -गति 法趣 S, 趣法 S, 法相 T,
所行之法 T, वृष्ण॑ वृष्ण॑ क्षा॒ (159b),
226^{8 17}, 373¹²; -ग्राह 法相 W, 法
執 T, क्षा॒ दृद्ध॑ ए॒ (190b), 317⁸;
-गा॒ 法 SWT, 諸法 SWT, क्षा॒
कृमश (63b), 9⁴, 19¹⁷, 143^{7 8 10 12}, 144
4, 156³, 158⁸, 190¹³, 203¹⁰, 218⁸, 277¹¹,
288¹, 298^{8 9}, 300¹², 301⁸, 302¹³, 310¹, 327
1⁵, 340³, 352²; -ना॒-निष्ठन्त-बुद्ध 法依
佛 S, 法佛報佛 W, 法性所流佛
T, तु॒ दृ॒ ए॒ कृ॒ मृ॒ तु॒ श (84a), 56¹⁴;
-ना॒-बुद्ध 法佛 SW, 法性佛 T, क्षा॒
त्र॒ ए॒ कृ॒ मृ॒ तु॒ श (84b), 56¹⁰, 57^{8 13}, 93¹⁰,

241⁷; -दृष्टक 謗法人 W, 謗謗正法
T, क्षा॒ शृ॒ दृ॒ ए॒ (194b), 331⁸; -देश=
ना॒ 說法 SWT, क्षा॒ ए॒ न्॒ ए॒ (103a),
72¹⁶, 93¹⁶, 96^{14 17}, 97¹, 194¹⁶, 233⁵; -इय
(see इयार्थ), 二法 W, 二義 T, 16
14 17 19, 17³, 143^{4 6 9}, 348⁸; -धातु॒ 法界
SWT, क्षा॒ ग्री॒ दृ॒ ए॒ (123b), 143¹¹,
193¹, 233¹, 290⁶; -धातु॒ 法界 SWT,
क्षा॒ ग्री॒ दृ॒ ए॒ (128b), 154¹, 325¹⁸, 336
18; -नय॒ 法通 S, 所說法 W, 法
T, 諸行 W, क्षा॒ ल॒ ए॒ (61b), 31¹⁸, 172⁶;
-नियामता॒ 法位 T, क्षा॒ मै॒ दृ॒ ग्र॒
दृ॒ ए॒ (124a), 143¹¹, 144⁸, 218⁹; -नैरा॒=
त्य॒ 法無我 SWT, क्षा॒ व॒ ए॒ ए॒ मै॒ दृ॒
ए॒ (66b), 15⁸, 59⁶, 63¹⁷, 65⁶, 69^{5 13} (bis),
70⁸ (bis), 78¹⁶, 97¹⁴, 125¹⁶, 134^{9 12}, 135⁶,
180¹⁴, 221⁷, 223³, 241¹¹, 321⁸, 322⁸, 344¹⁶;
-नैरात्य॒-कोविद॒ 解於法無我 W,
法無我解脫 T, ए॒ ए॒ क्षा॒ ए॒
मै॒ ए॒ (191b), 322⁹; -पचक॒ 法有五
S, 五法 W, 五種法 WT, क्षा॒ अ॒
(72b), 30⁸, 54¹¹, 320⁶; -पर्याय॒ 法門
WT, 經 S, क्षा॒ ग्री॒ शु॒ (78b), 43¹⁶, 50
16 17, 68⁶, 85¹²; -पुज्ञल॒ 我法 W, 人
法 T, ए॒ ए॒ क्षा॒ (175b), 180¹⁶, 270
1, 274¹¹; -पुज्ञल॒-नैरात्य॒ 人法無我
ST, 二無我 W, क्षा॒ ए॒ ए॒ ए॒ ए॒
ए॒ मै॒ ए॒ (69b), 23², 180¹⁶, 122¹⁶, 264
11; -बुद्ध 法佛 WT, क्षा॒ ए॒ ए॒ ए॒
(188b), 313¹⁶; -भाणक॒ 法師 W,
क्षा॒ ए॒ ए॒ (172b), 260⁴; -मेष॒ 法雲

地 SWT, 法雲 WT, क्षा॒ ग्री॒ शु॒ (105a), 101⁴, 123⁶; -मेषा॒ 法雲地
SWT, 法雲 WT, क्षा॒ ग्री॒ शु॒ (66b),
15³, 227¹ (bis), 318¹²; -रसाहर॒ 法味
T, क्षा॒ ग्री॒ ए॒ (167a), 244⁷; -राज॑ 14;
-लक्षण॒ 一無相(?) W, 56¹², 351¹⁶;
-वर॒ (最勝法), ए॒ (61b), 4³;
-वर्तन॒ (-वर्त in text), 本行路平坦
W, 法本性 ल॒ ग्री॒ शु॒ ए॒ क्षा॒ ए॒ ए॒ (123b), 143¹⁰; -वशवर्तिन॒ 於法自在
T, 於一切法而得自在 W 13¹¹, 16¹⁷;
-विधि॒ 法藏 (-निधि?), WT, क्षा॒
ग्री॒ ए॒ (61b), 31¹⁰; -विभाग॒ 道品
法 S, 菩提分法 WT, ए॒ ए॒ ए॒ ए॒
ए॒ ए॒ (153b), 213⁷; -विरज॒
कूप॒ मै॒ क्षा॒ (62a), 5³; -शासन॒ 法
W, 法教 T, 364³; -संकेत॒ 法緣
W, 諸緣 T, 289⁸; -संग्रह॒ 攝受法
S, 攝法食 W, 攝法味 W, 法利
T, 得法味 W, 法義句 W, क्षा॒
शु॒ ए॒ (136b), 173^{8 9}, 179¹⁶, 180^{12 14};
-समता॒ 法等 S, 法平等 WT, क्षा॒
मै॒ ए॒ ए॒ (123a), 141¹¹, 142⁹, 215²;
-संभव॒ 從法生 W, 從於法所生
T, क्षा॒ ए॒ ए॒ ए॒ (185b), 304¹³;
-सुधर्मता॒ 此說 T, 所說 W, क्षा॒
त्र॒ ए॒ ए॒ ए॒ (168a), 245¹⁷; -स्य॒ 法
W, 法興 T, क्षा॒ ग्री॒ कृ॒ मृ॒ श (204b),
363⁴; -स्थिति॒ 法畢定住 S, 法體
W, 法住 T, क्षा॒ ए॒ ए॒ (155b),

218¹¹; -स्थितिना॒ 法住 S, 法性
W, 本住法 T, क्षा॒ ग्री॒ मृ॒ श (123b),
143¹³, 144^{6 12}, 218¹⁰; -स्वामावबोध-
मनोमय॒ 覺法自性性意生身 S,
如實覺知諸法相 ए॒ ए॒ ए॒ ए॒
क्षा॒ ग्री॒ ए॒ ए॒ ए॒ ए॒ (120b),
136⁸, 137¹; -अधर्म॒ 有法非法 W,
法與非法 T, क्षा॒ ए॒ क्षा॒ ए॒ ए॒ (67b),
17¹¹, 18^{1 12 14}, 19^{11 12}, 21¹ (bis),
301⁸; -आवरण॒ 法障 SWT, क्षा॒
ग्री॒ ए॒ (166a), 24 11¹; -आहर॒ 255¹⁵;
-आहर॒-स्थिति॒ 食於法食 W, 唯
法食 T, क्षा॒ ग्री॒ ए॒ (171b), 255¹⁶.
धर्मन॒ (�र्माणः nom. pl. of धर्म), 123⁷.
धर्मिन॒ 法 SWT, क्षा॒ शु॒ ए॒ (115a),
54¹, 138¹⁴, 204¹⁴.
धातु॒ 界 SWT, ए॒ ए॒ (68a), 18⁶, 33¹⁶,
40¹⁵, 41⁴, 43⁴, 51¹⁷, 57¹¹, 58⁸, 63⁸, 68¹⁰, 69
8 7, 71^{10 16}, 77¹⁷, 83⁸, 121⁸, 134^{13 14}, 135¹¹,
148¹¹, 161⁴, 182¹⁶, 218¹⁴, 220⁸, 221¹⁶,
232¹, 266¹³, 268², 295², 301⁸, 306¹⁴, 321¹⁶;
-ईरिन॒ 中蘭蔭人 W, 著陀都藥
T, ए॒ ए॒ ए॒ (177a), 275² (पुश्लिक
in text); -संक्षेप॒ 四大不調 T, 四
大種 W, 268².
धान्य॒ 米穀 W, 穀 T, ए॒ (186b),
307¹², 366¹⁰.
धार॒ (स्त्र.), (for धारा), 335¹⁶.
धारणी॒ 陀羅尼 WT, 總 W, 偎頌 T,
經 S (173b), 160¹⁶, 263³.
धारा॒ 流注 ST, 見 W, 現流 SWT,
क्षु॒ (83a), 45¹³, 55^{3 4 5 8 11 14 17}, 56¹,
335⁴.

धारिन 持…形象 S, 現作 T, धैर्ण
द (137a), 2¹, 57², 69², 72¹⁴, 174⁴, 251⁷.

धिगम (for अधिगम metri causa), 成道
SW, 成正覺 T, 證法 W, स्तुपाश्च
कुर्वन्द (124a), 144¹⁰, 324⁴.

धूप 散香 W, 末香 T, धूपाद
(66b), 15¹⁹.

धूम 烟 WT, 煙焰 T, ५८ (68b),
9², 309⁴.

धैवत (a musical note), ३⁷.

धौत-पात्र 空鉢 SWT, खोड़े-पात्र
(165b), 240¹³.

धातु 禪者 ST, 能思 W, 能思惟
W, पश्चम-पात्र द (114a), 121²-¹⁰,
265⁷.

धान 禪 ST, 思惟 W, 禪定 SWT,
禪那 T, पश्चम-पात्र (72a), 30¹-², 36⁴,
51⁸, 57¹⁰, 58², 65¹⁵, 97⁸ (bis) ७ (bis) ८-¹⁵
(bis), 99¹-² (bis) ९ (bis), 102¹⁴, 120²-¹¹
121²-¹²-¹⁶, 221², 237², 265⁷, 279¹¹, 284⁸
(bis) १ (bis), 306¹⁴, 307²; -पद 禪句
ST, 禪見 T, पश्चम-पात्र द्विक्षा (75a),
36⁹; -पारमिता 禪波羅蜜 SW, 禪
那波羅蜜 T, पश्चम-पात्र द्विधर्मिता
द्विक्षा (164b), 238⁴.

धायिन 禪定 W, 定 T, 禪 SWT,
पश्चम-पात्र (64a), 10¹¹, 24⁷, 32¹⁵, 293¹¹.

धेय 諸禪 ST, 思惟 W, 所思惟
W, 可思 W, 禪所緣 T, पश्चम-
पात्र (114a), 120⁹, 121²-¹⁰, 265⁷.

धूव 不變 SW, 無有變易 T, धेव
द्वृष्टि (94a), 78¹.

धज 寶幢 W, �幢旛 T, 表相 S, 教
W, 幢 W, 相 W, 幢相 T, त्रूप
अक्षर (66b), 15¹⁴, 259², 340⁹ (खज in
text), 363¹², 367¹⁰.

धस्त 滅 W, 失壞 T, 247¹⁴, 330¹³-¹⁴.

न

नक्र (crocodile), 281⁷.

नक्षत्र 星宿 SWT, 星 W, नक्षत्रक्षण
(71a), 26¹¹, 29¹⁷, 36⁴, 305¹¹, 307⁸, 317⁹.

नल-दन्त-रोम-संक्षत्र諸毛甲徧覆 W,
爪甲齒毛具 T, नल-दन्त-संक्षत्र-क्षण
क्षण्णक्षण (180b), 286¹.

नगर 城 WT, 城邑 W, नगर-स्त्रे
(68b), 8¹⁷, 9¹, 90¹⁸ (bis) १४ (bis) १५, 91³,
102⁸, 143¹⁴ (bis) १६ (bis), 144² (bis);
-क्रिया 143¹⁶; -संक्षत्र 城想 ST, 實城
想 W, नगर-स्त्रे-नगर-स्त्रे (100a),
90¹¹.

नम 保形 W, 露形 T, नम-पद-ठन
(198b), 342¹⁶, 354¹⁶.

नट 伎兒 SWT, नट-मापद (156a),
220¹⁰, 224², 319¹⁷.

न-नास्ति 非有非無 SWT, न-पद
पद-मध्येकमेद-पद-पद-मध्येक (100a),
89², 90³.

नदी 河流 SWT, नदी (89b), 68¹³, 81⁹,
91³, 94⁶, 230⁴, 231¹⁷, 232²-¹¹-¹⁸, 233⁴,
238¹⁰, 280¹, 317¹¹; -दीपादि-दृष्टान्

河種子譬喻 W, 280¹.

नन्द 難陀 T, नन्द-स्त्रे (204b), 362¹².
नन्दी 喜 SWT, नन्दी (121b), 138¹²,
162¹⁵.

नपुंसक 不男 SWT, 27⁴, 32¹¹, 36¹³.
नभ 虛空 SW, 空中 T, नभ-स्त्रे (102b),
96²-¹², 168¹¹, 268⁸, 291³, 289¹².

नभस 虛空 WT, नभ-मापद (73b),
33¹¹.

नभूतभौतिकत्र 四大及造色 S, 非大
及塵 W, 非能造所造 T, नभूत-
पद-नभूत-पद-पद-पद-पद (152b),
208¹⁵.

नमस 歸命 नम-पद-ठन (60b), 1² (bis).

नय 正法 SWT, 通 S, 如實 W,
真實理 T, २¹, ३०¹⁰-¹³, ५⁶-¹⁰-¹⁶, ७⁵, २८¹⁰,
३०¹², ५८², १०६¹, ११६^३-¹⁴-¹⁵, १२४¹, १२७^४-^{१५}
१७, १३०^१, १३६^२, १४९^२, १५२^{१४}, १६१^१, १७१^५-^{११}
१४ (bis), १७२^६ (bis) ७-९-१५-१७, १७३^{१४}, १७५^५-^६,
१८२^२, १८६^४, १९३^{१२}, २०४^१, २०४^२, २५०^१, २८३^१,
२९७^१, ३०६^१, ३२३^{१२}, ३२९^१, ३३५^१-¹⁰, ३४१^१, ३५७
७-१२-१७, ३६५^१, ३६६^१, ३७३^१, ३७५^१; -धर्म
法 WT, धर्म-पद-ठन (61b), ३¹⁰,
३¹³ (धर्मनय).

नर 人 SWT, मी (71a), 27⁴-⁵, 29³, 33¹⁵,
113⁷, 258³; -इन्द्र 人中尊 S, 世尊
T, मी-पद-नर-स्त्रे (106a), 103³, 251¹²,
322³; -इन्द्र-भूत 王 W, 一王 T,
नर-स्त्रे (170a), 251¹²; -क 地獄 ST,
惡道 W, नर-स्त्रे (100b), 92¹, 156⁴,
257¹⁰; -नारी-वन 男女林 SWT,
नर-स्त्रे-वन कूट-पद-ठन (72a), 29⁵, 32⁷
(नर-नारिवन).

नव 九物 ST, 九種因緣 W, 九 S, नव-
स्त्रे (147b), 69¹⁶, 197¹⁰, 285¹⁴; -द्रव्य 九
物 ST, 九種物 W, 九種因緣 W,
九種實物 T, नव-स्त्रे-वन-स्त्रे (195a),
197¹⁰, 333¹²; -धा 265¹⁶, 306¹²; -नीत
酪 SWT, मूद (96a), 82¹⁸; -परिणाम-
दृष्टि 九種轉變論 S, 九種轉變
見 WT, नव-स्त्रे-वन-स्त्रे-वन-स्त्रे (130b),
159³; अङ्ग-शासन-विचित्र-
उपदेश 九部種種教法 SWT, नव-स्त्रे-
वन-स्त्रे-वन-स्त्रे (126a), 148¹⁶.

नवमी 第九 ST, 九地 W, नव-स्त्रे
(154b), 216², 292¹.

नवाङ्ग-शासन 九部種々教法 SWT,
नव-स्त्रे-वन-स्त्रे-वन-स्त्रे (126a), 148¹⁶.

नश्यमान (perishing), 346⁷.

नष इ滅 W, 速滅 T, निष-स्त्रे (206b),
91¹⁴, 190¹⁷, 205⁴, 370⁴.

नाग 龍 SWT, न (67a), 16², 174²,
261¹, 262²; -कन्या (龍女) २४-११; -राज

龍王 W, २³, 179⁷; -वेश-धारिन 持
龍形像 S, शूष्म-पञ्चाश-नद-क-नद-
नेत्र-स्त्रे (187a), 174¹; -वेश-रूप-धा-
रिन 174¹; -आहय 龍樹 ST, शूष्म-
पञ्चाश-स्त्रे (180b), (龍叫), 286¹³.

नार्गी 龍女 W, नर्म (173a), 162²,
261¹.

नाटक 所迴轉 S, 幻化之身 W,
所幻惑 T, नर्म-ठन (136a), 171¹¹.

नाड 蒼 WT, 18⁴.

नाय 佛 WT, 救世 ST, 如來 W,

諸佛如來 W, ମହାର୍ଥ (88a), 4¹, 8¹¹, 26², 49³, 55¹, 68¹⁶, 227⁴, 286⁸, 320⁸, 349⁹.
�ାନୟ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ W, 不異 T, ନାନ୍ୟ
ମୁଦ୍ରାମାଣିକ (104a), 99¹².
ନାନା ଅକ୍ଷର SWT, 1¹, 4¹⁰, 28⁸, 29⁷, 30¹¹, 214¹¹, 227¹²; -ଦେଶସଂନିପତିତ ଅକ୍ଷର
ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ W, 十方…集 W,
十方…而來集會 T, ଅଣାଶାଧାର୍ଣ୍ଣାଶ
ଶାର୍କରାଶାଧାର୍ଣ୍ଣାଶ (137b), 175¹²;
-ରତ୍ନ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର T, ଅକ୍ଷର W, ରତ୍ନକର୍ମ
ଶାର୍କରାଶ (62a), 51²; -ରତ୍ନ-ଚିତ୍ତ ଅକ୍ଷର
ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକ୍ଷର W, ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକ୍ଷର (61a), 21.
ନାମ(ନ) 名 SWT, ମେଦ (61b), 4¹³,
20¹⁰, 23⁸, 27¹⁴, 67⁹(bis) 10, 68³, 96⁴, 112¹⁰
11 14(bis) 16, 113^{1 2 4 6 8 10 11}(bis) 13, 132⁴,
141¹⁴, 192^{10 12}, 193^{4 11}, 197³, 201¹¹(bis),
221^{4 6}, 224¹⁰, 225^{6 10}, 226^{1 6 8 11}, 227¹¹,
228^{6 9}(bis) 11, 229⁴, 267¹, 283^{1 2}, 286¹³,
287⁹, 297¹², 299^{12 14}(bis), 305³, 312¹⁴,
329¹⁴, 338^{1 2}(bis), 344¹(bis) 3(bis) 4,
349¹⁴, 356¹¹, 364^{14 16}, 365⁷, 367⁹, 370¹⁰;
-ନିମିତ୍ତ-ସଂକଳ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର W,
ମେଦ-ମରନ୍ତମାନୁନ୍ତର୍ଣ୍ଣ (180b),
285⁸; -ପର୍ଯ୍ୟା ଅକ୍ଷର SWT, ମେଦ-ପର୍ଯ୍ୟା
କର୍ମ ଶାର୍କରାଶ (145a), 192¹²; -ବିକଳ୍ୟ
ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର W, ଅକ୍ଷର…ଅକ୍ଷର T,
ମେଦ…କର୍ମନ୍ତର୍ଣ୍ଣ (180a), 287¹¹; -ସଂସା=
ନ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର W, ଅକ୍ଷର T, ମେଦ-
ମୁଦ୍ରାମାଣିକ (206b), 870¹⁰.
ନାୟକ 大導師 S, ଅକ୍ଷର W, 導師
者 ST, 爲導者 W, 佛 WT, ମହାର୍ଥ-

ଶ (62a), 3¹, 4¹¹, 5¹¹, 6¹⁰, 9⁴, 191², 192
1⁸, 283¹⁶, 362¹, 365⁷.
ନାରକ 地狱 WT, ନାରକ (188a),
312⁸(bis), 370¹².
ନାରୀ 女 SWT, କୁନ୍ତା (72a), 29⁶.
ନାର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର W, 不
隨義 T, ନାନ୍ୟ-ମେଦ-ଅକ୍ଷର (145b),
194².
ନାର୍ଥ-ଜନ 非聖人 W, ନାର୍ଥ-ଜନ
ମେଦ-ଅକ୍ଷର (169b), 249¹¹.
ନାଶ 壞 ST, 死 W, ମୁଦ୍ରା (104a),
99¹⁰, 169³, 232¹⁶, 233¹⁶, 290³, 292⁸, 375⁹.
ନାସା 鼻 SWT, ମୁଦ୍ରା (98a), 86¹⁴.
ନାସିନ୍ ଅକ୍ଷର SWT, ମେଦ (82b), 53¹⁴,
54¹⁴, 73¹⁶, 77¹, 96¹⁵, 122⁶, 131², 147^{3 12 14},
190^{14 16}, 214¹⁶, 276¹, 287^{3 4}, 288^{5 7}, 290¹¹
13 16, 294⁹, 300⁸, 320^{10 14}, 327^{15 17}, 330⁹,
331⁴, 337¹, 341⁶(bis) 7, 351^{2 16}, 354¹¹,
369⁹; -କ ଅକ୍ଷର ST, ମେଦ-ଅକ୍ଷର (100b), 91¹⁵;
-ତା ଅକ୍ଷର SWT, ମେଦ (125b), 147¹¹,
290¹²; -ତ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର S, 空無所有
W, 無 SWT, ମେଦ (61b), 51¹¹, 52
12 18, 53^{4 5 18}, 90¹⁶, 165⁹, 190¹⁴, 327¹⁴,
341⁴, 345¹³; -ତ-ନିଶ୍ଚିତ ଅକ୍ଷର…及無
S, 見無 W, 無見 T, ମେଦ-ଅକ୍ଷର
ଶାର୍କରାଶ (124b), 145¹¹; -ତ-ସାଧକ ଅକ୍ଷର
成於無 W, ମେଦ-ଅକ୍ଷର-ଶାର୍କରାଶ (191a),
320¹⁰; -ହେତୁକ ଅକ୍ଷର SWT, ଶେତୁକ
(118b), 181²; -ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର W,
待無 T, ମେଦ-ଅକ୍ଷର (198a), 341⁷;
-ଅନ୍ତିମ ଅକ୍ଷର SWT, ମେଦ-ଅକ୍ଷର
(81a), 52^{1 2}, 73¹⁶, 77¹, 94¹³, 95³, 96¹³,

147¹², 157², 214¹⁶, 287^{3 4}, 294⁹, 330⁹, 331
4, 336¹⁶, 349¹⁰, 361¹; -ଅତ୍ମି-କଳ୍ୟନା
有無但分別 W, 妄計於有無 T,
ମେଦ-ମେଦ-ଅକ୍ଷର (191a), 320¹⁴;
-ଅତ୍ମିତ ଅକ୍ଷର SWT, ମେଦ-ଅକ୍ଷର
ମେଦ (82b), 53^{8 7}, 89¹, 90^{2 11}, 91^{10 18},
93¹⁶, 94⁴, 129⁴, 130⁸, 144^{15 17}, 146^{11 13},
165⁷, 166⁵, 167¹³, 172¹⁸; -ଅତ୍ମିତ-ଵା=
ଦିନ 有無論者 T, 有無 S, 有無
義 W, ମେଦ-ଅକ୍ଷର-ମେଦ-ଶାର୍କରାଶ (82
b), 53⁷; -ଅତ୍ମି-ଦର୍ଶନ 見於有無 W,
有無見 T, ମେଦ-ଅକ୍ଷର-ମୁଦ୍ରା (194
b), 331¹⁴; -ଅତ୍ମି-ଦୋଷ 無過失 W,
有無過失 T, ମେଦ-ଅକ୍ଷର-ମୁଦ୍ରା
ଶାର୍କରାଶ (194a), 330⁹; -ଆତମନ ଅକ୍ଷର
SWT, ମୁଦ୍ରା-ମେଦ (138b), 176²⁰.
ନିଶ୍ଚିମ-ଭାର (-ଭୁର in text), (laying
down one's burden), 139¹⁴.
ନିଶ୍ଚିପ ଅକ୍ଷର SWT, ଶାର୍କରାଶ (88b), 66⁸.
ନିଶିଲ ଅକ୍ଷର SW, ମାସୁକାଶ (114b)
8¹³, 121¹³, 279¹²; -ମ 65¹⁶.
5 ନିଗମ 邑 SWT, ଶାର୍କରାଶ (100b), 91².
ନିଗ୍ରହିତ (caught), 179¹¹.
ନିତ୍ୟ 常 SWT, ଶାର୍କରାଶ (85b), 29⁸, 34¹⁴,
59^{11 13 14 15 16}, 60¹(bis) 2(bis) 8(bis) 7
(bis) 9 10 11 13 14 (bis) 15, 61^{2 5 7 8 9 10}
(bis) 11 (bis), 78^{1 8}, 89², 90³, 96⁸, 106⁸,
116^{2 9 4}, 122⁶, 176¹⁴, 182², 183⁷, 189¹³
193¹, 205¹¹, 206^{7 14 15}(bis), 208¹², 209¹⁴
(ୟା in text), 217^{3 4 6}(bis) 7 8 14 15 16
(bis), 218^{1 4 5 6 7 20}, 219^{1 2 4}(bis) 6 7 10,
220¹⁵, 230⁸, 234⁸, 274¹⁶, 295¹⁶, 297¹⁶, 300
14, 330⁷, 333¹², 346⁸, 347⁸, 348⁸; -ତା
常 SWT, ଶାର୍କରାଶ (150a), 205^{16 17}, 209
8 12, 218¹⁷; -ତ 217⁴, 218^{8 4 6}; -ଦର୍ଶନ

體無相 W, 無性性 T, ମେଦ-ଶାର୍କରାଶ
ମୁଦ୍ରା (178b), 280⁹.
ନିକାୟ 種類身 SW, 81¹³, 292^{18 16};
-ଗତି-ଗୋଚ 取種類身得 W, 諸
趣種類等 ଶାର୍କରାଶ-କମଶ
(182a), 292¹⁶; -ଗତି-ସଂଭବ 隨種類
身得 W, 諸趣種類生 T, 292¹⁵;
-ସହ-ସଂକାର-କ୍ରିୟ-ମନୋମୟ 種
類俱生無行作意生身 S, 種類生
無作行意生身 W, 種類俱生無
作行意成身 T, ଶାର୍କରାଶ-କର୍ମ-
କ୍ରିୟ-ମୁଦ୍ରା-ଶାର୍କରାଶ-ପର୍ଯ୍ୟା-ମୁଦ୍ରା
(130b), 136⁹, 137^{8 10}.
ନିଶିମ୍-ଭାର (-ଭୁର in text), (laying
down one's burden), 139¹⁴.
ନିଶ୍ଚିପ ଅକ୍ଷର SWT, ଶାର୍କରାଶ (88b), 66⁸.
ନିଶିଲ ଅକ୍ଷର SW, ମାସୁକାଶ (114b)
8¹³, 121¹³, 279¹²; -ମ 65¹⁶.
5 ନିଗମ 邑 SWT, ଶାର୍କରାଶ (100b), 91².
ନିଗ୍ରହିତ (caught), 179¹¹.
ନିତ୍ୟ 常 SWT, ଶାର୍କରାଶ (85b), 29⁸, 34¹⁴,
59^{11 13 14 15 16}, 60¹(bis) 2(bis) 8(bis) 7
(bis) 9 10 11 13 14 (bis) 15, 61^{2 5 7 8 9 10}
(bis) 11 (bis), 78^{1 8}, 89², 90³, 96⁸, 106⁸,
116^{2 9 4}, 122⁶, 176¹⁴, 182², 183⁷, 189¹³
193¹, 205¹¹, 206^{7 14 15}(bis), 208¹², 209¹⁴
(ୟା in text), 217^{3 4 6}(bis) 7 8 14 15 16
(bis), 218^{1 4 5 6 7 20}, 219^{1 2 4}(bis) 6 7 10,
220¹⁵, 230⁸, 234⁸, 274¹⁶, 295¹⁶, 297¹⁶, 300
14, 330⁷, 333¹², 346⁸, 347⁸, 348⁸; -ତା
常 SWT, ଶାର୍କରାଶ (150a), 205^{16 17}, 209
8 12, 218¹⁷; -ତ 217⁴, 218^{8 4 6}; -ଦର୍ଶନ

(अनिय-दर्शन?) 見…無常 ST,
146¹⁰; -दोष 常過 WT, त्रैषाद्यि-त्रैषाद्य
(199b), 346¹; -नाश 斷常 SWT,
त्रैषाद्य-त्रैषाद्य (72a), 29³; -पद 常句
ST, 常見 W त्रैषाद्यि-त्रैषा (73b),
34¹⁴; -म् 常住 ST, त्रैषाद्य (172b),
256¹⁰, 259¹, 265¹⁷, 272^{1 12}, 278³, 808¹¹,
317¹⁰, 365¹⁴, 372¹³, 460¹; -म्-अचिन्त्य 常
不思議 ST, 常不可思議 W, त्रैषाद्यि-त्रैषाद्य
मी-त्रैषाद्य (85b), 59¹¹, 60¹;
-वैधमार्दर्शन 見法無常 ST, 見…
諸法無常 W, 182¹⁸; -शब्द 常聲
ST, 常法 W, त्रैषाद्यि-त्रैषा (107b),
106³; -अचिन्त्य 常不思議 ST, 常
不可思議 W, त्रैषाद्य-त्रैषाद्य
मी-त्रैषाद्य (85b), 59^{13 14 16 18}, 60^{2 3 7 10},
61¹¹; -अचिन्त्यता 常不思議 SWT,
常不可思議 W, त्रैषाद्य-त्रैषाद्य
मी-त्रैषा�द्य (85b), 60^{4 11 14}, 61^{8 5 9 12};
-अचिन्त्य-वाद 常不思議論 ST, 常
不可思議論 W, त्रैषाद्य-त्रैषाद्य
मी-त्रैषाद्य (86a), 60⁷; -अ=
चिन्त्य-वादिन 常不思議 ST, 常不
可思議 W, त्रैषाद्य-त्रैषाद्य
मी-त्रैषाद्य (85b), 59¹³; -अनिय 常無
常 SWT, त्रैषाद्य-त्रैषा (156a),
61¹⁰, 89², 90³, 96¹, 219⁷, 300¹⁴, 306¹⁴,
321⁴, 330⁷; -अनिय-ग्राह 常無常見
S, 分別常與無常 W, 二分別 T,
त्रैषाद्य-त्रैषा-त्रैषाद्य-त्रैषा (155b),
219²; -अनियता 常無常 WT, त्रैषा-

ବ୍ୟାକ୍ (188a), 295¹⁰; -**ଅନିତ୍ୱ**
 常無常 SWT, କଣ୍ଠାଦ୍ୟବ୍ୟାକ୍ (155a), 218¹, 219¹⁰; -**ଅନୁବଜ୍ଞ** 常隨
 侍衛 SW, 常隨衛護 T, କଣ୍ଠାଦ୍ୟ
 ...
ବସନ୍ତ (165b), 240¹⁰.
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା (*nirdeśanā* in text), 観 W. 觀
 察 T, ଶପାମ୍ବଦ (68b), 19².
ନିଦାନ 疾病 W, 因 W, ବ୍ୟାଧି (169b),
 249⁹, 251², 252¹⁸, 254².
ନିଧନ (*end*), 288¹⁵.
ନିଦ୍ରା 睡眠 SWT, ଷତ୍ରୁଗ୍ରହ (80b), 49⁷
 (missing in text, supplied from the
 Chinese versions).
ନିଧି 藏 WT, ଷତ୍ରୁଗ୍ରହ (61b), 3¹⁰ (*vibhuti*
 in text), 359⁹.
ନିନ୍ଦା 毁 T, ବ୍ୟାଧି (69b), 23¹.
ନିପୁଣ 妙 T, 利 S, ବ୍ୟାଧି (157b),
 223¹⁷.
ନିବଙ୍କ (*bound*), 269¹⁵.
ନିବୋଧ୍ୟ (*to be learnt*), 188⁸.
ନିମିତ୍ତ (*like*), 335², 344¹².
ନିମନ୍ତ୍ର (*submerged*), 190¹⁷, 209¹².
ନିମିତ୍ତ 相 SWT, ମହାନ୍ତମ (89b),
 35⁸, 674^{5 6 7 9 10 11 12}, 68⁹, 85⁶, 86⁹, 98^{9 12},
 106^{16 17}, 109¹³, 120², 130^{12 13}, 131¹⁵, 132⁸
 7, 157^{2 8}, 168⁹, 176⁴, 183^{8 9}, 200⁹ (bis),
 221^{4 6}, 224¹⁶, 225^{18 17 18}, 226^{2 3 6 10 11}, 227
 11¹⁹, 228^{6 8 7 9 11}, 229⁸, 276¹⁵, 277¹⁰, 281
 11, 282¹⁵, 283^{1 2}, 285⁸, 303^{18 16}, 305³, 310⁷
 11, 312^{14 15}, 313¹⁷, 314¹, 325⁷; -**ପଦ** 相
 句 S, 相見 W, 標相句 T, ମହାନ୍ତମ
 ମହିକୀଣ (74a), 35⁶.
ନିମ୍ବ 下 SWT, ନିମ୍ବ (100b), 91¹²;

-उत्तर 高下 ST, 有高有下 W,
मध्य-द्वितीय (176a), 91ⁱⁱ, 12, 272^a.

नियम 決定義 ST, 決定之義 W,
決定 S, देशादि (77b), 41^a, 119^a,
348¹⁴.

नियमता (*determination*), 218^a.

नियुत 那由他 ST, 萬 W, एषात्रिष्ठ
(92a), 73¹.

निरक्षर 離字 S, 無字 W, 離文
字 T, मेदादि (70b), 25ⁱⁱ; -त्र 離
文字 ST, 無名字 W, प्रिमोमेदादि
(70b), 194^a, 196^a.

निरज्जन 淨 S, 離垢 W, 離著 T,
शूद्धि (174a), 23⁷, 265², 268⁷, 373¹⁴.

निरन्तर 次第 SW, 無間 T, निम्न-
प्रणादि (97a), 84^a; -अन्तर-च्छेद 無
間次第斷 S, 無間斷相續 W,
斷彼餘無間 T, 斷彼名無間 W,
140^a, 323^a.

निरपराधिन (*blameless*), 253¹.

निरभिलाप्य 離言說 S, 無言 W,
不可說 T, निर्वद्यन्तमेदादि (93a), 75^a.

निरभिलाप्य-शून्य (unpredicable emp-
tiness), 75^b.

निरभिलाप्य-शून्यता 離言說空 S,
無言空 W, 不可說空 T, निर्वद्य-
न्तमेदादिनिर्वद्यन्तमेदादि (98a), 75^a, (see
सर्व-धर्म-निरभिलाप्यशून्यता).

निरर्थ 無義 SWT, निर्वद्यन्तमेदादि (149a),
201^a, 338^a; -क 無義 ST, निर्वद्यन्तमेदादि
(144b), 191ⁱⁱ, 201ⁱⁱ, 338^a.

निरवद्य 無罪 SWT, शैणमेद् (172b),
258¹⁵.
निरात्म(न) 無我 SWT, एद्वामेद् ध
(143a), 188^a * 14; -भाव 無我性 S,
無我之義 W, 無有我性 T, एद्वा-
मेद् धर्मी दृट्टसंधि (143a), 188^a.
निराल्पिक अ無我 W, 無真我 T, एद्वा-
मेद् (204a), 361¹⁶.
निराभास 無受 S, 寂靜 W, 無影 T,
無所受 S, 真如無次第 W, 無相
T, 絶衆影像 T, शुद्धमेद् (70a),
24^a, 25¹⁶, 28¹², 30¹⁴, 35^a, 42^a 14, 43^a, 49¹⁸,
50^a, 56^a, 62^a, 65¹⁴, 69¹⁶, 78¹⁰, 97^a, 98¹¹,
123¹, 130^a, 137^a 14, 157¹¹, 158^a 6, 162⁹,
168¹⁴ 16, 194¹⁹, 215^a 11, 216⁴, 226¹⁸, 278
* 7 * 279^a, 284^a, 289¹⁶, 291^a, 292^a 4, 296^a,
298¹⁷, 299¹³, 302^a 11, 310^a, 335¹¹, 345²;
-गत (शत?), 百無受 S, 百寂靜
W, शुद्धप्रमेद् ध (72a), 281^a; -गति
無所受 S, 無次第 W, 無影 T,
शुद्धमेद् कृषि (70b), 25¹⁶; -पद 所
有句 S, 寂靜見 W, 無影像句
T, शुद्धप्रमेद् धर्मीकृषि (74a), 35^a;
-प्रविचय 無所有觀地相 S, 觀察
真如修寂靜行 W, शुद्धप्रमेद्
धर्मीकृषि (90a), 69¹⁶; -भूमि
無所有地 S, 寂靜之地 W, 無
影像地 T, शुद्धप्रमेद् ध (88a),
65^a; -लक्षण 無所有相 SW, 無
影像相 T, शुद्धप्रमेद् धर्मीकृषि (80a), 49¹⁸, 50^a.
निरालम्ब 離攀緣 SW, 非所攀緣

T, निरालम्ब निरालम्ब (84b), 57¹⁴.
निरालम्ब 無攀緣 S, 不可觀察 W, 遠離攀緣 T, निरालम्ब (144a), 190².
निरात्रय 無所著 T, 無因 W, निरात्रय (199a), 345¹⁷.
निरीक्षण 資視 WT, निरीक्षण (66b), 18⁷, 15⁹.
निरीह 無動搖 S, 無我無作者 W, 無能作者 T, 69⁹, 80⁷.
निरीहिक 不動 SWT, निरीहिक (70b), 25⁹.
निरुक्त 辭句 SW, निरुक्ति (142b), 187¹¹¹⁸.
निरुक्ति 言說 S, 名字 WT, 文辭 WT, 章句 S, क्षेत्र (145b), 193⁹, 195¹¹.
निरुद्ध 滅 SWT, 淨除 ST, 離 WT, निरुद्ध (125a), 40⁴, 45⁴, 127¹³, 147⁴, 267¹⁰, 345⁴.
निरुध्यमान 滅 SWT, निरुध्यमान (76b), 39¹ (निरुप्त in text).
निरुप (for निरुपित्तेष-निर्वाण), 無餘涅槃 SWT, निरुप (167a), 243⁹.
निरुपित्तेष 無餘涅槃 SWT, निरुपित्तेष (165b), 241².
निरुपादान 不取 S, 無染取 W, 無所取 T, निरुपादान (70a), 23⁷, 355⁹, 356¹², 369⁹.
निरुप्तमाण (see निरुध्यमान), 39¹.
निरोध 滅 SWT, निरोध (72a), 24¹⁰.

30²⁴, 36⁹(bis), 37⁹¹⁰(bis), 38³⁴⁵¹⁵¹⁶
 17¹⁸¹⁹, 41⁹, 45⁹, 58¹⁴, 60⁹, 72⁴, 76¹⁷, 96¹⁶,
 121⁹¹⁸, 147⁹, 157⁹¹², 161¹⁸, 177⁹¹⁶, 182¹⁴,
 193⁹, 196¹⁴, 197¹⁰¹², 199¹⁴, 201¹⁴, 211⁹⁸
 11, 221⁷¹⁸, 235¹⁸, 242¹⁶, 279¹², 285⁹, 288⁷,
 290⁹, 300⁹, 348⁹, 376⁹; -गामिन 滅
 WT, निरोधमान (200a), 348⁹; -न 遮 W, 遠離 T, निरोध (149a),
 201¹⁴; -पद 滅見 W, 滅句 T, निरोधक्षेत्र (85a), 36⁹; -बुद्धान-
 पद 滅起句 ST, 起滅盡定見 W, निरोध-प्रश्न-विवरण (75a), 36⁹;
 -समाधि-सुख-मुख 滅三昧門樂 S, 寂靜三昧樂門 W, 寂滅三昧樂門
 T, निरोध-निर्देश-निर्देश-निर्देश (153b), 214²; -समापति 滅正受
 S, 滅盡定 W, 滅定 T, निरोधमान-
 निरोध (152b), 211¹⁴, 213¹⁷; -सुख
 滅門樂 S, 寂滅空門樂 W, 寂滅...樂 T, निरोध-निर्देश-निर्देश (85a),
 58¹⁴; -सुख-समापति 滟正受樂門
 S, 三摩跋提滅盡定樂 W, 滟盡
 三昧樂 T, 211⁹; -अनिरोध 滟不
 滟 SW, 滟非滅 T, निरोध-निर्देश-
 निरोधमेद्य (131b), 161¹³.
निर्गच्छत् (going out), 199⁹.
निर्गत (gone out), 199⁹¹⁰.
निर्गम 生 WT, 371¹¹.
निर्गुण 離於求那 ST, 不依諸緣自
 然而有 W, निर्गुणमेद्य (94a),
 78⁹.
निर्जात (come forth), 360¹⁴.

निर्णय 差別相 T, 181⁷.
निर्दिशमान (showing), 64⁷, 230¹⁰.
निर्दिष्ट 說 WT, निर्दिष्ट (62b), 6¹¹,
 241⁹.
निर्देश 說 SWT, निर्देश (116a), 111¹⁶,
 125⁹, 165¹²,
 5/ **निर्धारण** (defining), 369¹⁴.
निर्निमित्त 離...相 ST, 無相 W,
 निर्निमित्त (133b), 165¹⁴, 166².
निर्माण 化 ST, 化相 W, 變化 ST,
 涅槃 S, (निर्वाण instead of), 化
 身 SW, 隨宜現身 T, 所作依
 佛 S, 有應化佛 W, 化佛 T,
 निर्माण (61b), 3¹⁵, 24⁴, 32¹⁶, 42¹⁶, 43¹⁰,
 56¹¹, 57¹⁰, 123⁹, 160¹⁴, 227⁹, 240⁹, 269⁹,
 270¹¹, 274⁹, 288⁶¹³, 313⁹, 320²; -काय
 化佛 S, 應化佛 W, 變化佛 T,
 निर्माण (166a), 241⁹; -निर्मित 變
 化自在者 T, 化身示化身 W, 3¹⁵;
 -विग्रह 化身 SW, 隨宜現身 T,
 निर्माण-निर्माण-निर्माण-निर्माण (78
 b), 43¹⁰.
निर्माणिक (तुड) 化佛 SW, 變化佛
 T, निर्माण (71b), 28⁹.
निर्मित 如幻 W, 變化 T, 化 S, 所
 化 W, 應化 W, निर्माण (69a),
 3¹⁵, 20¹¹, 57¹⁰, 120¹⁴¹⁷, 139¹¹, 215¹⁷, 241⁷,
 242⁶, 269⁷¹⁶, 279¹, 282¹, 304¹², 313¹⁶,
 314², 320¹; -निर्माण 應化化佛 W,
 變化如來 T, निर्माण (67a), 16¹³, 57¹⁰; -निर्माण-तुड 化佛

ST, 應化佛所作應佛 W, निर्माण-
 निर्माण-तुड-निर्माण-तुड (81b), 57¹⁰;
 -नैर्माणिक 化化 S, 化應化 W,
 所變化 T, 120¹⁴¹⁷, 242⁸; -तुड 化
 佛 ST, 應化佛 W, निर्माण-तुड-
 तुड (166b), 242¹²; -अधिष्ठान-आवक
 住持應化聲聞 W, 聲聞化神力
 S, निर्माण-तुड-तुड-तुड-तुड-तुड
 (182a), 139¹¹; -अधिष्ठानाभिसमय
 化神力 S, 住持應化 W, 神通
 力 T, निर्माण-तुड-तुड-तुड-तुड-तुड-तुड
 (122a), 139¹¹¹⁸.
निर्मुक्त 離 WT, 解脫 SWT, निर्मुक्त
 (141a), 5⁴, 193¹, 186², 190⁶, 202¹, 269¹⁰,
 291⁹, 298¹¹, 309⁹, 313⁹, 318⁴, 325¹⁷, 330⁹,
 338¹⁴, 342¹⁵, 345⁴, 349⁹, 370⁹, 371⁵, 375⁹.
निर्मृष्ट 捨 S, निर्मृष्ट (140a), 180⁷.
निर्याण 出 S, 離想 W, 出離想 T,
 能取 W, 出離 T, निर्याण-निर्याण-
 निर्याण (87b), 64², 306¹⁵.
निर्यात 為緣 T, 18⁶.
6/ **निर्हृत** 去 ST, 捨 W, 持去 S, 捨相
 W, निर्हृत (111b), 80⁹, 115¹⁴.
निर्यूक्तमान (being taken away), 115¹³.
निर्वाण 涅槃 SWT, निर्वाण (69
 b), 23⁴, 29¹³, 35¹⁶, 40¹⁷, 42⁷, 60⁹, 61¹⁵¹⁶,
 62¹, 63¹⁴¹⁶¹⁷, 72⁴, 76⁹¹⁰¹¹¹⁷, 74¹⁴, 78⁷,
 88⁹, 98¹⁵(bis) 18¹⁸¹⁹, 99¹¹²¹⁴¹⁶, 111¹⁴,
 112², 114⁵, 119¹⁷, 126⁹⁷⁸(bis) 9¹⁰¹²,
 149⁹, 154¹, 155¹, 177⁴¹⁶, 182⁹(bis) 9¹¹¹²,
 183²¹⁰¹³¹⁴¹⁶, 184¹⁴⁵⁷⁹¹¹¹²¹⁴(bis),
 185⁹¹⁰¹¹¹⁴¹⁵¹⁷, 193¹, 197¹¹², 200⁸⁹,
 212¹³, 214¹, 215⁴, 220⁵, 233⁴, 237⁹, 238⁹.

241¹, 242⁴, 243¹¹, 258⁴, 264¹³ (bis),
290⁶, 294¹, 299⁴, 301¹¹¹¹, 306⁸, 313¹⁰,
324¹, 325¹¹, 336¹¹, 361², 370⁴, 372¹¹;
-धारु 涅槃界 SW, 涅槃 T, त्
द्वन्द्वपश्चाद्वद्वयीद्व (147a),
197¹², 241²; -पद 涅槃句 ST, 涅
槃見 W, त्-द्वन्द्वपश्चाद्वद्वयीक्षण
(74b), 351¹⁵; -पुर 涅槃城 S, 涅槃
道 WT, त्-द्वन्द्वपश्चाद्वद्वयीक्षण
सिद्ध (128b), 155¹, 361¹²; -पुरगमिन्
趣於涅槃城 W, 令入涅槃城 T,
155¹, 361¹²; -हेतु 涅槃因 ST, 名爲
涅槃 W, त्-द्वन्द्वपश्चाद्वद्वयीक्षण
(147a), 197¹.
निवैस्तुक 無事 WT, द्वद्वयीक्षण (178b),
280¹³.
निविकल्प 離妄想 S, 無分別 W, 離
分別 T, क्षमाद्वद्वयीक्षण-क्षमाद्वयीक्षण (48b),
19¹⁴, 25¹⁴, 56¹², 78¹⁰, 110⁷, 168¹⁰, 231⁹,
268⁷, 269⁶, 274¹¹, 275⁹, 277¹, 279¹, 284¹,
288², 352¹⁴; -आचार 無分別 W,
離諸分別 T, क्षमाद्वद्वयीक्षण-क्षमाद्वयीक्षण
(65a), 12⁷.
निविष्टि 無有差別 S, 等無異無別
W, 無別 T, क्षमाद्वद्वयीक्षण (123a), 141¹⁰,
142⁴, 197¹⁴, 231¹¹, 348⁶, 350¹⁰.
निर्वृत 滅 WT, 涅槃 T, त्-द्वन्द्वपश्चाद्व
(180b), 28⁹, 127⁶ (bis), 267⁷, 286¹⁰, 362
9¹⁰, 364⁹, 322¹².
निर्वृति 入般涅槃 W, 般涅槃 T, 廉
滅 S, 涅槃 WT, 解脫 W, त्
द्वन्द्वपश्चाद्वद्वयीक्षण (238³, 240¹¹, 243⁴, 252

10, 297¹, 307⁴, 330¹³, 342⁵, 351⁸, 352¹⁵.
निर्वृत 離 W, 轉 WT, त्-द्वन्द्वपश्चाद्व (185b),
272¹¹, 303¹⁴, 375¹.
निर्वृति 滅 ST, 轉 W, त्-द्वन्द्वपश्चाद्व (154b),
160⁹, 182³; 生 SWT, 213³, 220³ (bis),
222¹¹, 229¹⁰, 238⁹, 41¹³, 677, 311¹³,
330¹³, 344⁹, 351¹⁴, 352⁴.
निर्बोपार 無分別 W, 不生 W, 息
煩亂 S, क्षमाद्वद्वयीक्षण (178), 238¹¹, 280².
निर्वृतु 無因 T, क्षमाद्वद्वयीक्षण (201b), 352¹⁷;
-क 無因 W, 離…因 T, क्षमाद्वद्वयीक्षण
(181b), 291⁴, 299¹³.
निलय 住此處 W, 所住處 T, 61³.
निविष्ट (intent upon), 5¹⁴.
निशाकर 月 SWT, त्-द्व (158a), 223¹⁴.
निश्चय 決定 SWT, त्-द्व-क्षमाद्वयीक्षण (110b),
112¹⁷, 213⁸, 228¹³.
निश्चित 不思想 T, (如服藥 W), विषय
प्रमेयद्व (167b), 309¹⁶ (निश्चित in text).
निश्चित 無心 S, (見 W,), 決定 T,
क्षमाद्वयीक्षण (180b), 153⁷, 286⁸, 309¹⁶.
निश्चेष्ट 無有覺知 T, 20⁹.
निश्चित 依 S, 見 WT, क्षमाद्वयीक्षण (124b),
145⁴ (bis) 7¹¹.
निष्ठस (sitting), 13⁸, 70².
निष्ठाद (a musical note), 3⁷.
निषेधन 遮 W, क्षमाद्वयीक्षण (197a), 338¹¹.
निषेद्वान (attending), 252¹¹.
निष्काळ 出 W, 超 T, त्-द्वन्द्वपश्चाद्व (208a),
375⁹.
निष्क्रिय 永息 ST, क्षमाद्वयीक्षण (248a),
199⁵.

निष्ठ 究竟 S, क्षमाद्वयीक्षण (163a),
234⁶; -पद 無盡句 ST, 無盡 W,
क्षमाद्वयीक्षण-प्रवृत्तिमनस (153b), 214⁹; -प=
द-गति-विभाग-स 知分別十無
盡句 S, 知十無盡如實行者 W,
具足修行十無盡句 T, क्षमाद्वयीक्षण-
प्रवृत्तिमनस-त्-द्वन्द्व-प्रवृत्तिमनस
मेषाद्व (153b), 24².
निष्ठा 究竟 SWT, क्षमाद्वयीक्षण (110b), 112¹⁷,
113³, 135², 228¹³, 322¹⁵; -गति 究竟
趣 SWT, क्षमाद्वयीक्षण-त्-द्वन्द्व (120b),
135¹², 321¹²; -पद 無盡句 SW, 無
盡 W, 無盡願 T, क्षमाद्वयीक्षण-
प्रवृत्तिमनस-प्रवृत्तिमनस (115a), 123⁷; -पाद 無
盡句 S, 蓼句 W, 無盡願 T,
क्षमाद्वयीक्षण-प्रवृत्तिमनस (131a), 160¹⁶;
-भाव 性究竟 S, 究竟有 W, 究
竟…事 T, क्षमाद्वयीक्षण-त्-द्वन्द्व (128
a), 153⁹, 325⁹.
निष्पत्ति-स्वभाव 成性自性 SW, 成
自性 T, क्षमाद्वयीक्षण-त्-द्वन्द्व-
प्रवृत्तिमनस (76b), 39¹¹.
निष्पत्ति 第一義 W, 眞實 T, 圓成
T, 成 S, 眞實法 WT, क्षमाद्वयीक्षण (119
a), 132⁹, 130⁸ (स in text), 133¹ (स in
text), 151¹³, 270³, 288², 296¹⁴, 312¹⁷, 313
1⁸, 322¹⁰; -लक्षण 成就彼法相 W, 圓
成 T, क्षमाद्वयीक्षण-त्-द्वन्द्व (180a), 288².
निष्पत्ति-आमान (being pressed), 232¹⁴, 233¹.
निष्पत्ति-भाव (put to silence), 179¹¹.
निष्पत्ति 報 WT, 依 S, 所緣 T, 56⁹

11¹⁴, 57⁸, 320¹ (bis); -कुञ्ज 諸依佛 S,
報佛 WT, 所緣佛 T, त्-द्वन्द्व-प्रवृत्ति-
मेषाद्व (84a), 56⁸, 57⁸.
निस्तृण-गुत्त-लता 無草木處 ST, 無
諸草木 W, त्-द्वन्द्व-प्रवृत्ति-मेषाद्व
(102a), 94⁹.
निस्पत्ति 報 T, त्-द्व (179a), 283³.
नीच 下賤家 W, 非處 T, त्-द्व (204b), 363¹⁴.
नील 青 SWT, क्षमाद्वयीक्षण (80a), 46⁷,
47¹, 59², 314¹⁶, 354¹⁰ (bis), 363¹⁰, 307
18; -रक्त 青赤 WT, क्षमाद्वयीक्षण-प्रवृत्तिमनस
(196b), 307¹⁰, 314¹⁶, 315²; -रक्त-प्रकार
青赤白種々 W, क्षमाद्वयीक्षण-प्रवृत्तिमनस
(189a), 47¹, 314¹⁶, 315².
衆生 SWT, क्षमाद्वयीक्षण-त्-द्वन्द्व (291b), 47¹,
54¹⁰, 86¹⁷, 88⁷, 96⁷, 150¹¹, 154⁴, 259¹,
270¹⁰, 281⁴, 283¹⁶, 284⁹, 286⁸, 291¹, 296¹,
298⁴, 299¹¹, 302², 303², 305¹², 314¹⁴,
315⁶, 320¹⁷, 321³, 326², 327¹, 330¹², 335²,
341¹³, 343⁷, 372⁹; -प 諸王 WT, त्-द्व
ष (186b), 307¹, 252¹, 362¹²; -पत्र श
WT, क्षमाद्वयीक्षण (190b), 319²; -पुत्र श
W, 諸子 T, क्षमाद्वयीक्षण (170a), 252¹;
-पादम श無道王 W, क्षमाद्वयीक्षण
(204b), 362¹²; -पत्र श國王 W, 諸
王 T, क्षमाद्वयीक्षण-त्-द्वन्द्व (204b), 363¹.
नृत्य श迴轉時 S, 171¹.
नृत्यमान 腾躍 SWT, 洪波鼓冥擊
SW, 洪波鼓冥擊 T, त्-द्वन्द्व-प्रवृत्ति-
मेषाद्व (79b), 46¹, 47⁹, 271¹⁰, 272⁹, 315⁸.
नेत्र 淨眼 ST, 眼 W, 瞻視 S, 目

W, 瞳視 T, मैण मैदृहम्पाद (107a),
96^a, 105^a 10, 289^a, 369^a, 243^a; -संचार
動目睛 T, 動眼相 W, 動睛 S, 105^a.
नेत्री 正法 SWT, 法流 S, 我法
WT, 法眼 T, 法輪 W, दृष्टिकूप (196b), 70^a, 201^a, 286^a, 331^a 10, 337^a;
-विनाशक 滅我法輪 W, 滅壞
我法眼 T, दृष्टिकूप-कृम-दृष्टि-
ष्टि (194b), 331^a.
नेत्रिन 尼彌 W, 192^a.
नैत्यभाव 寂靜 W, 無自性 T, 無
自體 W, दृष्टिकूप (174b), 266
12, 274^a, 280^a, 295^a, 311^a, 336^a.
नैकार्य 二乘 WT, दृष्टिकृप्ति
(182b), 294^a.
नैकार्य 非一義 SW, दृष्टिकृप्ति
विकृ (104a), 99^a.
नैयार्थिक 諸異部 SWT, 種々異身
S, 餘支分 T, शुश्रूषा-टे (73a), 25^a,
33^a.
नैरन्य 次弟生 S, 相續 WT, 相續
無間 S, दृष्टिकृप्ति-दृष्टिकृप्ति
(132b), 41^a, 163^a, 205^a, 238^a, 356^a;
-प्रवच्य 無間 S, 相續 W, 相續
不斷 T, दृष्टिकृप्ति-दृष्टिकृप्ति (150
a), 205^a.
नैरात्म इ無我 WT, दृष्टिकृप्ति (207b),
372^a.
नैरात्म 非我 ST, 無我 SWT, दृष्टि-
कृप्ति (61a), 1^a, 2^a, 3^a, 23^a, 25^a, 26^a,
30^a, 33^a, 51^a, 54^a, 63^a, 65^a, 68^a 10, 69^a
12 (bis), 70^a (bis), 72^a, 78^a 10 10, 79^a, 81^a,

97^a 10 14 16, 110^a, 118^a, 122^a, 125^a, 134^a
12, 135^a, 140^a 16, 153^a 13, 157^a, 180^a 15,
185^a, 188^a, 190^a, 213^a 18, 221^a 17, 223^a,
224^a 7 14, 225^a, 227^a, 228^a, 229^a 7, 238^a,
264^a, 290^a, 300^a, 306^a, 307^a, 309^a, 317^a,
318^a, 320^a, 321^a, 322^a, 323^a, 325^a 13, 344
6 10, 355^a 10, 360^a; -इय 二無我 SWT,
दृष्टिकृप्ति-दृष्टिकृप्ति (96a), 2^a, 81^a, 183^a,
224^a 7 14, 225^a, 228^a; -वादिन 無我
W, (無色論 T), 說無真如我 W,
說無真我者 T, दृष्टिकृप्ति (203
b), 355^a, 360^a; -समता 無我等 S,
無我 WT, दृष्टिकृप्ति (128a), 153^a.
नैर्माणिक 化佛 S, 化…佛 WT, 所
應作事 WT, इय (173b), 11^a, 34^a,
73^a, 93^a, 120^a 17, 242^a, 243^a, 283^a 8 11;
-कृप 化佛 SWT, 93^a.
नैर्मित 應佛 W, 諸應化 T, 11^a;
-नैर्माणिक 所作應事 W, 所作應
事 T, इप्प-दृष्टिकृप्ति (64b),
11^a.
नैर्लक्ष्य 無慚愧 SWT, दृष्टिकृप्ति (172
b), 258^a.
नैर्वाणिक (for नैर्माणिक?), 種類(身)
W, 276^a.
नैवास्ति 有無 SWT, मैक्षिक-दृष्टि-
कृप्ति (99a), 89^a, 90^a.
नैष्कर्यम (for नैष्कर्यम), 32^a.
नैष्कर्य 出家 WT, दृष्टि (186b), 307^a.
नोत्पाद 不生 SWT, मैक्षिक-दृष्टि (72a),
29^a.
नोभय 不俱 SWT, मैक्षिक-दृष्टि

ए (99a), 89^a, 90^a, 96^a, 122^a, 321^a, 369^a,
375^a.

प

पञ्च 觀 S, 法 W, 執 T, 對治 SW,
治 T, 相 ST, 取相 W, दृष्टिकृप्ति
(199b), 23^a, 72^a, 73^a, 91^a 17, 92^a, 96^a,
101^a, 111^a, 118^a, 148^a, 150^a 18, 151^a 11,
157^a 12, 159^a, 161^a 17, 172^a, 186^a, 191^a,
198^a (bis), 202^a, 228^a (bis), 242^a, 264^a,
309^a, 329^a, 330^a, 334^a 10 12 17 18, 338^a,
346^a, 353^a, 354^a, 355^a, 360^a, 370^a, 375^a;
-परपञ्च 惡見朋黨 W, 228^a.
पञ्चा 觀待 T, 348^a.
पञ्चिन 鳥 T, ए (167b), 245^a, 253^a.
पञ्च 深泥 SWT, दृष्टि (111a), 113^a,
322^a 12; -पञ्च 深泥 W, 濡深
泥 T, दृष्टिकृप्ति (191b), 322^a.
पञ्च 五 SWT, 五法 WT, दृष्टि (80a),
46^a, 48^a, 140^a, 155^a (for पञ्च-धर्म), 224^a,
235^a 4 8, 236^a, 294^a, 300^a, 306^a (bis) 3,
314^a, 316^a; -क 30^a, 54^a, 72^a, 319^a,
354^a; -चूडक 五角 W, 五髻者 T,
दृष्टिकृप्ति (205b), 367^a; -तेयावबोधक
覺悟於五法 T, 爲人說五法 W,
मैक्षिक-दृष्टिकृप्ति (205a), 365^a;
-धर्म 五法 SWT, दृष्टि (61a), 2^a,
43^a, 51^a, 68^a, 69^a, 72^a, 81^a, 132^a, 152^a,
221^a, 224^a 14, 225^a, 228^a, 229^a 6, 300^a,
305^a, 309^a, 317^a, 318^a, 335^a, 344^a; -धर्म-
स्वभाव-लक्षण-प्रविचय 觀察五

法自性相(經) S, 觀察五法自相
(法門) W, 觀察自性相(法門)
T, 68^a; -धा कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण-
कृष्ण (204a), 360^a; -निर्भित (化) 復
作諸化 W, (化身) 復現化 T,
दृष्टिकृप्ति (189a), 314^a; -पञ्चक-पञ्च 五
五於五五 W, 五與五及五 T,
दृष्टिकृप्ति (180b), 285^a;
-पञ्च 第五 WT, कृष्ण-कृप्ति (207a), 63^a,
95^a, 306^a, 353^a, 371^a; -मी 第五 ST,
五地 W, दृष्टि (154b), 216^a, 292^a,
319^a; -यान 五乘 WT, दृष्टिकृप्ति
(186a), 306^a; -विंशतितत्त्व 二十五
真實 S, 二十五諦 T, दृष्टिकृप्ति-
कृप्ति (141b), 184^a; -विज्ञान-काय 五
識身 SWT, कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण-
कृप्ति (99a), 44^a 14, 235^a, 236^a; -शती
प्रवाशती in text, 五十年 S, 末
世 WT, 175^a; -स्कन्ध 124^a 18; -स्कन्ध-
कदम्बक 五陰集聚 S, 五陰聚落
W, 五蘊聚集 T, दृष्टिकृप्ति-
कृप्ति (115b), 124^a; -सम्बिन्द 312^a; -अ-
भिसमय-गोच 五無間種性 S, 五
種乘性 W, 五種種性 T, दृष्टिकृप्ति
(67a), 63^a; -आनन्दय 五無間業
SWT, 138^a 3 8, 139^a; -उपादान-स्कन्ध
五受陰因 S, 五陰法 W, 五取
蘊法 T, दृष्टिकृप्ति-कृष्ण-कृप्ति
(168b), 235^a.
पञ्च ST, 雪 W, दृष्टि (96b), 82^a,
217^a, 296^a, 328^a, 334^a (bis), 341^a, 363^a;

● **शुक** 扁 W, 白色衣 T, शुक्ला
 द्वारा (183a), 296^a.
पटल 翳膜 W, 翳 T, लिप्तस्थ (64b),
 11^a.
पट (keen), 240^a.
परम 細腰鼓 ST, 鼓 W, 腰鼓 ST,
 等 (71b), 28^a, 34^a.
परिजन 聰慧 T, 黯慧 ST, 聖者 W,
 智者 SW, 智人 T, 有智者 S,
 माध्यस्थाकृत्य (66a), 4^a, 7^a 13, 14^a,
 9^a, 92^a, 108^a, 326^a, 329^a, 338^a, 342^a,
 352^a, 356^a.
पतन 墮 WT, 11^a.
पताक 檻旗 T, 寶幢 W, अङ्गिष्ठदर्श (66b), 16^a.
पताका 旗 WT, मुख्यमंडक्न (66b), 15^a.
पतित 墮 SWT, त्रुट्टि-ष (180a), 10^a 11,
 11^a, 13^a, 14^a, 17^a 14, 40^a, 51^a, 62^a, 79^a
 (bis), 91^a, 92^a 10, 93^a, 99^a, 103^a, 112^a,
 121^a, 145^a, 146^a, 150^a 12, 151^a 14, 155^a,
 157^a 10, 162^a, 164^a, 167^a, 172^a, 173^a,
 177^a, 177^a, 185^a, 188^a, 194^a 3 4, 195^a,
 198^a, 199^a, 200^a 14 17, 208^a 1, 209^a, 211
 1^a, 212^a, 214^a 16, 225^a, 232^a, 237^a, 288^a,
 330^a, 331^a, 336^a, 343^a, 351^a, 353^a,
 354^a.
पत्र 樹葉 WT, वैष्णव (178b), 281^a.
पत्त 葉 WT, वैष्णव (68a), 18^a, 310^a.
पथ 道 SWT, वैष्णव (124a), 144^a 2.
पथ 道 SWT, वैष्णव (123b), 143^a 15, 301^a.
पट 句 ST, 見 W, 句義 SWT, कैण
 (73b), 34^a 13, 45^a, 74^a, 78^a 9 17, 108^a,
 112^a 11 12 16(bis) 18, 113^a (bis) 9(bis) 7 11
 (bis) 11, 114^a, 124^a, 173^a, 174^a 11 17,

175^a 13, 178^a 4, 179^a, 180^a, 187^a 13, 193
 11, 195^a 6, 202^a, 255^a; -काय 句…身
 W, कैण (191b), 322^a; -आति 步
 SWT, कौटुम्ब (159a), 91^a, 226^a; -अर्थ
 句義 ST, 句 W, कैणशीर्दक (64a),
 10^a, 78^a, 179^a, 180^a, 188^a, 193^a.
पथ 蓮華 SWT, वैष्णव (66b), 15^a
 (bis) 16, 27^a, 70^a (bis), 98^a, 101^a 8, 9,
 310^a; -पत्तांशु-संप्रभ 莲海相 W,
 वैष्णव-वैष्णव 310^a; -विमानासन
 大蓮華微妙宮殿坐 ST, 大寶蓮
 華王宮殿師子座上 W, वैष्णव
 केन्द्रिय-वैष्णव वैष्णव-वैष्णव
 वैष्णव (105a), 101^a; -संकाश 蓮華
 宮殿 W, 蓮華宮 T, वैष्णव-वैष्णव
 वैष्णव-वैष्णव (174a), 266^a.
पथ 短句 SW, 句 T, कैण-वैष्णव-वैष्णव
 73a), 26^a, 32^a.
पर 他 SWT, वैष्णव (92b), 74^a, 80^a,
 87^a, 91^a, 92^a, 97^a, 109^a, 112^a, 118^a, 131
 1^a, 153^a, 162^a, 177^a 2, 179^a 10, 182^a, 187^a,
 188^a, 195^a 8, 197^a, 203^a, 215^a, 231^a, 248
 1^a, 251^a, 300^a, 305^a, 322^a, 325^a, 335^a,
 340^a, 347^a, 358^a, 373^a 12, 374^a; -^(८)-
गत 到於…彼岸 T, 離於去來 W,
 वैष्णव-वैष्णव (194a), 330^a; -तत्त्व 緣起
 ST, 緣起性 T, 因緣法體 W, 因
 緣法 W, वैष्णव-वैष्णव (89b), 67^a
 1^a, 72^a, 117^a, 118^a, 128^a, 129^a, 130^a 14 15,
 131^a 7 10 12 14, 132^a 6 14, 227^a, 282^a, 284^a
 1^a, 291^a, 302^a 17, 304^a 2 3 8 16, 305^a 3 7,
 312^a, 313^a, 317^a, 331^a 5; -तत्त्व-वैष्णव
 -तत्त्व-स्वभाव 緣起自性 ST, 因緣

法體自相相 W, वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव
 वैष्णव-वैष्णव (84b), 56^a, 57^a, 67^a; -तत्त्व 203
 1^a; -पत्त 朋黨 W, वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव (160
 b), 228^a; -पुरुष 他 ST, 人功 W,
 [८] वैष्णव-वैष्णव (109a), 109^a; -प्रणय 隨
 於他 S, 隨他教 W, 隨他轉 T,
 (9^a, 13^a 11, 14^a, with अ-), 229^a; -प्र=
 वाद 他論 T, 邪論 W, वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव
 वैष्णव-वैष्णव (64a), 10^a; -प्र=
 वादिन 一切惱亂 S, 瞠恚心 W,
 競來擾亂 T, वैष्णव-वैष्णव (161b),
 231^a; -भवत 他處 W, 依他 T,
 वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव (191b), 322^a; -रात्र
 中後夜 SWT, कैण-वैष्णव-वैष्णव
 कैण-वैष्णव (164b), 238^a; -लोक
 (the other world), 179^a; -वाद 他說
 法 W, 外道論 T, वैष्णव-वैष्णव (195
 b), 334^a; -स्थान 究竟處 W, वैष्णव-
 वैष्णव-वैष्णव (178a), 278^a; -स्पर 展轉
 ST, 遂共 W, वैष्णव-वैष्णव (92b), 53^a,
 74^a, 87^a 15, 154^a, 165^a, 189^a, 207^a;
 -स्पर-जत्प 彼我言說 S, 彼言語
 W, 稍々…相對談說 T, वैष्णव-वैष्णव-
 वैष्णव (128b), 154^a; -स्परम 92^a, 244^a;
 -स्पर-विकल्पa 造共相分別 W, 展
 轉共分 T, वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव
 (180a), 287^a; -स्पर-विलक्षण 各各
 異相 W, 彼此不同相 W, 此各
 異相 T, वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव
 मृष्टि (116a), 125^a; -स्पर-हेतु 展轉

因 ST, 彼彼因不同 W, वैष्णव-वैष्णव-
 वैष्णव (134a), 167^a; -स्पर-हेतु-विलक्षण-
 त 展轉相因相 S, 彼此因緣和
 合 W, 互相因 T, वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-
 वैष्णव-वैष्णव (118a), 118^a; -हित 安衆
 生 S, 安隱衆生 W, 爲衆生 T,
 72^a; -अपर 彼此 W, वैष्णव-वैष्णव-
 वैष्णव (199b), 347^a; -अर्थ 195^a; -आत्मन्
 [९] 188^a.
परम 最勝 T, 21^a, 249^a, 251^a, 257^a, 272^a;
 -दुर्गम्य (口氣) 臭 ST, 249^a; -योग-
 योगिन् 237^a; -अण 微塵 SWT, 微
 細微塵 W, 極微 T, वैष्णव-वैष्णव-
 वैष्णव (82b), 44^a, 52^a, 53^a, 78^a, 205^a, 207^a;
 -अर्थ 第一義 SWT, वैष्णव-वैष्णव-
 वैष्णव (76b), 39^a, 40^a, 60^a 3 4, 63^a, 87^a 1 10
 (bis) 11 (bis) 12 13 16, 84^a, 89^a, 131^a, 151
 6^a, 195^a, 196^a, 215^a, 278^a, 280^a, 294
 1^a, 304^a, 319^a, 353^a; -अर्थ-गोचर 第
 一義境界 ST, 第一義法 W, वैष्णव-
 वैष्णव (85a), 59^a; -अर्थ-हान 第一
 義智 SWT, वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव (86
 a), 60^a; -अर्थ-आर्थ-हान-महा-शू-
 च्यता 第一義聖智大空 SWT, वैष्णव-
 वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-वैष्णव-
 वैष्णव-वैष्णव (92b), 74^a, 75^a; -अर्थिक 第
 一義 SWT, वैष्णव-वैष्णव (119a), 132^a;
 -आलय-विशान 阿梨耶本識 W,
 阿賴耶殊勝之藏識 T, गुण-वैष्णव-
 वैष्णव-वैष्णव (176a), 272^a.

परम्परा 展轉 SWT, पठिण् त्रृष्णपठेण्
कुरुते ए (168b), 285¹⁰, 240⁹, 847¹⁴.
परा-सूचि 取 SWT, शुभेषाद् (118a),
119⁹, 179², 180⁹; -यण 究竟道 T, 當
墮 ST, 入於 W, कुरुते (100b), 6²,
92¹, 308¹¹, 309¹; -वृत्तात्रय 轉依(不)
住於分別心 W, 離諸雜染 T,
कुरुते कुरुते मी नृण (63b), 91¹;
-वृत्त 斷 W, 離 T, 轉滅 T, 滅盡
SW, 轉 WT, 轉變 S, 轉依 T,
कुरुते (176a), 15¹, 48¹, 135³, 187³, 152
9, 266⁴, 270², 274¹¹, 275¹, 284⁴, 312¹¹, 322
14, 364¹⁰; -वृत्ति 變易 S, 轉所依 T,
變 SW, 漸次轉身 S, 轉依次
第 T, 身轉勝 S, 轉身 W, 轉淨
所依 T, नृण (27a), 10¹⁴, 28¹⁸, 30
14, 43¹ (for -वृत्त), 62¹, 81⁸, 98², 98¹⁴, 108¹¹,
155², 200⁷, 202³, 221¹⁴, 233¹⁴, 238⁴, 338¹⁴,
345¹⁷, 375⁹; -वृत्ति-गत 百變易 SW,
轉所依 T, नृण (72a), 28¹²; -वृत्त
(-वृत्त?), 轉彼 W, 轉依 T, 284¹¹.
परिकर्म 陶冶人 S, 陶冶 T, कुरुते
कुरुते (203a), 65⁸, 358⁹; -भूति 初治
地 ST, 發起修行地 W, घट्टा
शुभेषाद् (86a), 65⁹.
परिकर्षण 引導 SW, 摄 T, नृण
(191a), 185⁸, 321⁷.

5 परिकल्पना 虛妄 S, 虚妄分別 WT, 妄
想 S, शुभेषाद् (76a), 38⁴, 57⁹ (bis),
69¹⁰, 77¹¹, 118³, 122¹², 149¹⁴ (ter) 17

(bis), 150⁹ 17, 159¹², 163⁶, 164¹⁸, 350⁶
7.
परिकल्पित 妄想 S, 分別虛妄 W,
妄計 T, 分別 W, शुभेषाद्
(68b), 19¹, 42³, 51¹ 2, 56¹⁸ 14, 57⁴ 7, 62¹¹,
67³ 4 7 14, 69¹, 72¹⁴, 75⁶, 84⁹, 89⁹ 9, 97¹⁶,
117¹⁸, 118¹, 127¹⁴ 15, 128², 129¹² (bis) 16,
130⁹ 14, 131¹⁴ 15, 132² 7 12, 163¹² (bis) 14 17,
164¹⁴ 17, 227¹¹ 19, 228¹², 284⁹ 14, 302¹⁶, 304
1, 305⁸ 17, 312¹⁵, 313⁹; -निमित्त 分別
是諸相 W, 彼諸妄計相 T, 彼
諸妄想相 SW, शुभेषाद् नृण
कुरुते (188b), 132⁷, 312¹⁵; -स्वभाव
妄想自性 S, 虚妄分別名字相
W, 妄計自性 T, घट्टा शुभेषाद्
द्विकुरुते (84a), 56¹⁸ 11, 57⁴ 7, 62
11, 67³ 4 7 14, 74² 3, 75⁶, 132¹², 163¹⁴, 164¹⁴
17, 302¹⁶; -स्वभाव-प्रभेद-नय-लक्षण
妄想自性分別通相 S, 虚妄分
別法體差別之相 W, 妄計自性
差別相 T, 127¹⁴ 15, 128³ 7, 129¹² (bis).
परिकल्पिता 妄想 S, 虚妄分別 W,
शुभेषाद् द्विकुरुते द्विकुरुते नृण
नृण (117a), 117¹⁹.
परिकल्पयमान (*being falsely discriminated*), 165⁴.
परिक्षय 盡 SWT, घट्टा शुभेषाद् (141a),
183¹⁷, 221⁷.
5 परिग्रहीत 所得 T, 摄受 W, 摄取
T, घट्टा शुभेषाद् (66b), 10¹⁷, 15⁴.
परिग्रहमाण (*being grasped*), 195⁹.
परिग्रह 摄受 ST, 摄取 W, घट्टा शुभेषाद्
द्विकुरुते (66b), 15¹², 111¹⁸ 16 (bis) 18, 180

17, 191⁴, 195¹⁰ 11 (bis) 12 18, 198¹¹, 202⁴,
221¹⁶, 229⁷, 260⁶, 339⁹, 344⁶.
परिचय 修習 ST, 慣習 T, 觀 W,
修 SW, शुभेषाद् (90a), 50⁹,
63⁹ 14, 70², 113¹², 213⁴ 6, 226¹⁷.
परिक्षेद 分段 S, 分齊 SWT, शेषण
नृण (115b), 44¹⁴, 45¹, 53⁹, 124⁷,
126¹⁹.
परिक्षा 知 SWT, 見 W, 計著 T, 忍
知 ST, घट्टा शुभेषाद् (164b), 184¹³,
238¹; -न 知 S, 見 W, 了知 T,
घट्टा शुभेषाद् (61a), 2¹, 17⁸, 58⁷, 63⁷,
67¹⁸, 136⁹ 14, 140¹¹, 152¹¹, 163⁷, 180¹⁸,
182⁴, 186¹³, 208¹⁶, 223¹² 15, 233¹⁵, 295¹⁵,
311¹⁰ 11, 343¹⁷, 345⁴ 16, 347⁴, 350¹⁴, 352¹⁰.
परिक्षातुकाम 欲知 SW, 欲了知 T,
घट्टा शुभेषाद् नृण (80b), 49⁷.
5 परिणत (*transformed*), 159⁹.
परिणति 變易 SWT, नृण (85a), 58⁹.
परिणाम 變 SWT, 異 SWT, 動 WT,
घट्टा शुभेषाद् नृण (80a), 37¹⁹,
46¹¹ 16, 158¹⁶ 17 (bis), 159¹ (quar) 2 (ter)
8 (bis) 4 8 8 10 12 14 (bis), 160⁴, 183¹⁶,
205⁸, 289⁴, 314¹⁰, 369³, 370⁹ 11, 374²;
-काल 轉時 W, 時轉變 ST,
घट्टा शुभेषाद् नृण (181a), 160⁴,
289⁴; -वादित 轉變論 S, 轉變見
WT, नृण द्विकुरुते (130a), 158¹⁸,
159⁴.
परिणामा 轉變 W, 轉 SWT, घट्टा
शुभेषाद् (189a), 205⁵, 249⁴, 314⁹.
परिणामिक 轉變 W, 變異 T, नृण
ष (206a), 368¹⁷.
परिणामिनी 變 W, (死 ST,), 323¹¹.
परिणाम्यमान (*being transformed*), 159⁹.
परिणामक 一切導者 S, नृण (145
a), 192¹³.
5 परिण्यक (*abandoned*), 251².
परिण्याग (謀反) 斷(其俸祿) S, 拾
離 W, 離叛 T, घट्टा शुभेषाद्
(199a), 25¹⁸, 344¹³.
परिण्देव 悲 SWT, शुभेषाद् नृण
(140a), 174¹, 180⁹.
परिणिवर्णण 混槃 SWT, 般涅槃 T,
घट्टा शुभेषाद् भव नृण (165b),
76¹², 213², 240³.
परिणिर्वृत 混槃 SWT, 入滅 W, घट्टा
शुभेषाद् नृण (129a), 144¹⁰,
155¹³, 214⁴, 324⁶.
10 परिणिर्वृत 般涅槃 SWT, घट्टा शुभेषाद्
नृण नृण (165b), 240³.
परिणिष्वत 成 S, 第一義 W, 圓成
T, घट्टा शुभेषाद् (89b), 67¹⁵, 68¹⁴,
227¹⁶, 229⁹, 283³, 285⁹; -स्वभाव 成自
性 S, 第一義諦法體相 W, 圓
成自性 T, घट्टा शुभेषाद् नृण
द्विकुरुते (99b), 67¹⁵, 68¹; -पक्षेन्द्रिय 根
…熟 ST, 根熟 W, नृण द्विप्रेषण
शुभेषाद् (111b), 115⁹.
परिपाक 成熟 S, 教化 W, 成就
T, घट्टा शुभेषाद् (115a), 81¹⁵, 123⁴,
232⁸ 18.

परिपाचन 成熟 S, 教化 W, **पूर्णसंकेत** (159b), 227^a.
परिपूर्ण 令滿足 W, 安 S, 普安 T, **पूर्णसंकेत** (161b), 134¹⁴, 231¹².
परिपूरी 滿足 SWT, **पूर्णसंकेत** (164a), 237¹.
परिपूर्ण 193^a, 308²; -**कुञ्ज** 滿腹遊行 T, **पूर्ण** (168b), 247¹².
परिपूर्नन् 反詰問 S, 質答 W, 反問 T, **दीप्ति** (66a), 14¹⁰, 116^b, 280^a.
परिष्वच्छितम् 所問 ST, 問 W, 29¹².
परिभूक्त (*eaten*), 254^a, 255⁹; -**वत्** (*ate*), 256⁹.
परिभोक्तुम् (*to eat*), 196¹², 256⁹.
परिमोचन 解脫 S, 解 T, **पूर्णसंकेत** (131a), 160^a.
परिवर्जयित्य 當遠離 ST, 當應離 W, **पूर्णसंकेत** (137b), 75¹⁰, 174¹⁴.
परिवर्जित 遠離詞責 W, 所棄 T, **पूर्णसंकेत** (141a), 185⁷, 214¹⁷.
परिवर्ज्य 當遠離去 S, 當遠離 W, 宜速遠離 T, **पूर्णसंकेत** (100b), 91⁷.
परिवर्त्त (*a chapter*), 21⁶, 135¹⁷, 210², 216³, 219¹⁰, 239¹⁰, 243¹⁴, 259⁶, 263³.
परिवृत्त 圍繞 ST, 圍邊 W, **पूर्णसंकेत** (90b), 2¹², 70⁸.
परिवृत्त 展轉因緣 S, 輪廻 T, 輪廻六道 W, **पूर्णसंकेत** (167b), 245¹³.
परिवेष्टित 所纏 SWT, **पूर्णसंकेत**

(158b), 77¹⁷, 225¹¹, 290⁶.
परिषद् 一切衆 S, 諸衆生 W, 衆會 T, **पूर्णसंकेत** (70a), 23¹⁴.
परिष्वक्त 抱 W, **पूर्णम्** (113b), 119¹⁴.
परिसमाप्त 具足 W, **पूर्णसंकेत** (150b), 206¹³.
परिहार 令…不生 T, 247¹, 248¹.
परीक्षा 觀察 SW, 觀 T, **क्रमसंकेत** (114b), 122⁸, 207¹³.
परीक्ष्यमाण (*being looked round*), 185¹², 234¹.
परीकृत (*metri causa*, see **परिकृत**), 5³.
पर्ण 色 W, (**वर्ण**?), 葉 T, **पूर्णम्** (198a), 341¹² 14; -**काष्ठ** 色木 W, 木葉 T, **पूर्णम्** (198a), 341¹².
पर्यटत् (*wandering about*), 247¹⁴.
पर्यटमान (*wandering about*), 251¹⁰.
पर्यन्त (*limit*), 209¹⁷.
पर्याप्त 入 S, 過…所有者 WT, 16⁸, 134¹⁴.
पर्याय 言說 SWT, 43¹⁶, 78¹⁷, 103¹², 161⁵, 191⁸ 11, 192⁷ 12, 193¹¹, 195⁶, 218⁵, 233¹⁴, 290⁷, 323¹ (**पर्यय** *metri causa*), 349¹⁴, 354⁷; -**वचन** 異名 SW, 別異之名 T, **क्रमसंकेत** (144b), 192⁴.
पर्युक्तान् 起 ST, 離 W, **पूर्ण** (120a), 63¹¹, 135¹⁰, 221⁶, 321¹⁴.
पर्युपासित्व (*to be reverenced*), 173⁵, 174¹⁵.
पर्वत 枝 (?) WT, 山 SWT, **संग** (105b), 18⁴, 102⁶.
पर्वद् 大衆 W, 衆會 T, 衆 W, **पूर्ण**

(63a), 8⁶, 132⁹, 14¹, 50¹⁴, 141² 8 13, 160¹⁵; -**चारिन्** 遊行…無量大衆 S, 遊化…大衆之中 W, **पूर्णसंकेत** (131a), 160¹⁵; -**मण्डल** 大衆集會 S, 大衆中 W, 佛會 T, **पूर्णसंकेत** (162a), 72¹⁵, 121¹ (bis), 125¹⁵, 137⁸, 232⁷; -**मध्य-गत** 於大衆中 SWT, **पूर्णसंकेत** (122b), 141² 8 13, 142¹².
पल 波羅 S, 斤 WT, **क्षण** (72b), 31⁹ 10.
पलाञ्छु 葱 SWT, 葱 W, **क्षणाञ्छु** (171b), 256⁷ 15, 369⁶.
पलाल 草中 W, 艸窟 T, **क्षण** (187a), 308¹⁰.
पलाश 華 W, 花 T, **मेंकुण** (68a) 18⁴.
पवन 風 SWT, **कुण्ड** (61b), 2¹³, 27¹, 32², 44¹⁰ 11, 46³ 5, 94⁶, 127⁶, 169¹¹, 170⁹, 183⁵, 271¹⁵, 272¹, 372⁵; -**विषय** 境界風 T, 諸境界猛風 W, **पूर्णसंकेत** (61b), 2¹³; -**आहन** 猛風吹 SWT, **कुण्ड** (79a), 44¹⁰.
पशु 獸 S, 諸獸 W, 畜 T, **क्षणश** (110b), 113⁷, 245¹⁴.
पश्चात् 後 SWT, **क्षेत्रम्** (81a), 49⁶, 72¹, 286⁹ 10, 362⁹ 11, 364¹², 365⁷ (**ततः पश्चात्**), 367⁸.
पश्चिम 後 S, 後世末世 W, 後末世 T, **पूर्णम्** (137b), 175¹ (bis).
पश्यक 可見 W, 見 T, **पूर्ण** (204a), 360¹⁶.
पश्यत् 見 WT, 20¹⁴, 147¹⁴, 265¹⁴, 290¹⁵, 297⁶, 324¹², 329⁶, 335¹ 4 5, 347², 375¹.

पांशु (for **पांसु**), **कुण्ड** 塵 S, 地 T, (111a), 114⁶.
पांक 熟 SWT, **क्षेत्रम्** (130b), 159¹³.
पाठ 章句 S, 句義 WT, **क्षेत्रम्** (145b), 77¹⁴, 193¹¹ 12.
पाणि 手 S, 申手 W, 舒其手 T, **क्षण** (90b), 1¹¹, 70², 100⁶, 101¹¹ 12, 192⁵; -**अभिषेकाधिष्ठान** 手灌頂神力 S, 手摩苦薩頂住持力 W, **क्षणम्** (विष्वास्त्रम् विष्वास्त्रम्) (105a), 101¹².
पाणिनि 波尼 W, 名手 T, 366¹¹.
पाण्डव 槩茶婆 W, 半擇婆 T, **क्षण** (204b), 362¹¹.
पाण्डु (*yellowish white*), 3⁶.
पानाल 深險 ST, 海 W, 98⁷.
पानुकाम (*wishing to drink*), 90⁶.
पात्र 鉢孟 W, 鉢 T, **क्षेत्रम्** (186b), 307¹⁵, 308², 367¹¹, 373⁹; -**संप्रित-**
मात्रक 鉢依量 W, 持鉢歸 T, **क्षेत्र-**
मत्तेद्यूषक्षम्य (207b), 373⁹; -**अर्थ** 鉢廳畜 W, 隨鉢故聽畜 T, **क्षेत्रम्** (187a), 308².
पान 飲 SWT, **क्षेत्रम्** (73a), 32⁷, 33¹¹.
पानीय 水 SWT, **क्षण** (102b), 95¹¹, 265⁴.
पाप 諸惡行處 W, 諸過失處 T, **क्षेत्रम्** (175a), 269⁶; -**कृ** 惡 W, **क्षेत्रम्** (169a), 249⁴; -**कर्म (न)** 惡業 ST, **क्षेत्रम्** (172a), 257⁷; -**कर्मिन्** 惡業 SWT, 257¹⁰.

पारत 水銀 WT, ८५८४ (206b), 369^a.
पारतन्त्र्य 緣起 ST, 因緣 W, (依)
 他方法 W, परिकृष्टदण्ड (119a^a,
 132^a, 271^a, 312^a).
पारमार्थिक 第一義 SWT, ८५८५
 ए (118b), 132^a, 305^a, 336^a.
पारमिता 波羅蜜 S, 岸 W, 諸度 T,
 婆羅蜜 S, परिवर्त्तना द्वय (70b),
 25^a, 29^a, 36^a, 236^a १७, 237^a ८ ६ ७ १४ १६,
 238^a ३ ४ ७ ८ (bis); -पद 波羅蜜句 ST,
 波羅蜜見 W, परिवर्त्तना द्वय
 क्षमा (74b), 36^a.
पार्श्व 臍 WT, केषभिष्मण (68b), ३^a, 13^a,
 242^a; -अनुगत 所護 ST, 隨應 W,
 ८५८५ (106b), 242^a; -अवलः
 मित (hung at one side), ३^a.
पाश 繩 WT, समाधि (118a), 129^a.
पाशुपत 自在天 W, 自在 T, शुणा
 दण्ड (198b), 342^a.
पाषण्ड 異學 SWT, अमर्कर्त्तुर (17a),
 26^a.
पिटक 藏 SWT, ईश्वर (88b), 66^a, 285^a.
पिण्ड 團 SWT, 乞食 WT, 行乞 T,
 ईश्वर (172b), 38^a १० १२, 82^a १७,
 259^a, 308^a १४, 309^a १६; -भक्त-परायण
 安詳而直進 W, 攝念而行乞 T,
 ईश्वरमध्ये ईश्वर विषय दण्ड (187a),
 308^a; -लक्षण 積聚相 S, 次第數
 W, ईश्वरमध्ये ईश्वर (72b), 31^a.
पितामह 祖父 W, 先祖父 T, ईश्वर
 (205a), 364^a.
पितृ 父 SWT, ई (121b), 84^a, 138^a १३ १५,

140^a, 245^a, 285^a, 823^a, 364^a १५; -व ई
 SWT, ई (112b), 138^a.
पिशाच 比舍闍鬼 S, 比舍闍 WT,
 मृत्यु (102a), 94^a, 261^a, 262^a.
पिशाची 比舍闍女 W, मृत्यु (173
 a), 261^a, 262^a.
पिशिताशन 食肉衆生 W, मृत्यु
 (170a), 252^a.
पिशिताशन (flesh eating), 246^a.
पीडना 逼惱 W, 苦逼體 T, परिवर्त्तना
 ए (206b), 370^a.
पीत 黃 SWT, शेष-दृष्टि (85a), 59^a, 249^a.
पुंस 男 SWT, शुश्राद (71a), 27^a, 32^a,
 36^a.
पुञ्जस 獵師 SWT, शेष-दृष्टि-प्रिया (172
 a), 258^a.
पुज्जव (a hero), 256^a.
पुञ्ज 法 W, केष (187b), 310^a.
पुट 154^a, 286^a.
पुण्य 福 ST, 福德 W, ईश्वर-कृपा (141
 a), 183^a, 367^a; -अपुण्य 福非福 ST,
 罪…福德 W, ईश्वर-कृपा-प्रिया
 (141a), 183^a; -कृत 世福 W, 福力
 T, ईश्वर-कृपा-प्रिया (205b), 367^a.
पुश्लिक (धात्रीरित) 中蕩蘭人 W,
 著陀都藥 T, ईश्वर-कृपा (177a), 275^a.
पुच 子 SWT, ई (175b), 4^a, 31^a, 84^a,
 88^a ११, 105^a, 160^a, 168^a, 245^a, 249^a,
 252^a, 256^a, 270^a, 271^a, 277^a, 328^a
 १^a, 330^a; -मांस-भैषज्य-वत् 凡所
 飲食作食子肉想作服藥想 S,
 如子肉想 W, 凡所食噉作子肉

想 T, मृत्यु-कृषि-मृत्यु-शैवन्-परिवर्त्तना (169b), 249^a; -मांसोपम 如食子肉
 S, 猶如食子肉 W, 猶如子肉想 T, मृत्यु-मृत्यु-मत्तुदण्ड (172b),
 259^a.
पुज्जल 人 SWT, 士夫 T, परिवर्त्तना (62b),
 20^a, 23^a, 51^a, 63^a १५, 69^a, 71^a, 79^a, 93^a,
 97^a १२, 118^a, 122^a, 140^a, 149^a, 183^a, 213
 १^a, 221^a, 241^a, 264^a, 266^a, 272^a, 282^a,
 294^a, 295^a, 324^a, 333^a, 358^a, 359^a १३ १५,
 370^a; -प्राह 取…人 SW, 著…人 T, मृत्यु-प्राह-परिवर्तना (101b), १३;
 -हृषि 人見 S, 我見 W, 相見 T, मृत्यु-प्राह-परिवर्तना (125a), 146^a; -नैरात्य-
 人無我 SW T, मृत्यु-मृत्यु (85b),
 59^a, 63^a १५, 69^a, 97^a, 221^a, 241^a.
पुनः-स्कन्ध 復生苦陰 S, 生陰 W,
 शुद्धियाद्युपुन्ध (140a), 180^a.
पुर 城 WT, शुद्धि (204a), 361^a; -(र)-दर
 不蘭陀羅 SW, शुद्धि-प्रिया (200b),
 192^a, 193^a, 350^a; -मध्य (城中) शुद्धि-
 द्युपुन्ध (62a), ५^a; -वासिन् 住 (楞伽)城中 T, शुद्धि-द्युपुन्ध (62b), ४^a, ६^a.
पुरानस (佛)前 WT, १२^a.
पुरस्कृत (accompanied by), २^a, ५^a, ४५^a.
पुरी 城 WT, शुद्धि (62b), ७^a; -(र)-गत 到彼城 W, 往詣彼城 T, शुद्धि-प्रिया (62b), ७^a.
पुरुष 人 W, 士夫 S, 丈夫 T, शुश्राद (76b), ३९^a, ५६^a, ५७^a २, ६२^a, ६३^a, ७१^a,

८२^a १४, ९१^a २ ६, ९३^a, ९४^a १५, १०३^a, १०६^a,
 १०७^a, १२५^a, १२९^a, १३५^a, १४३^a, १४४^a, १५१
 १२, १५५^a, १८३^a १६, १९९^a १३, २०३^a, २१४^a,
 २२६^a, ३२१^a, ३५३^a; -प्राह 取我 S, 取…我 W, 著…我 T, मृत्यु-प्राह-परिवर्तना (101b), ९३^a.
पुरोग (at the head), 等 WT, ७^a.
पुष्कल (many), ३५२^a.
पुष्कलता 妙(色) S, मृत्यु-प्रिया (158
 b), २२५^a.
पुष्ट 長養 S, 增長 WT, शुश्राद (163b),
 ११^a, २३५^a, ३३६^a.
पुष्टि 生長 W, शुश्राद-प्रिया (196a), २४९
 १, ३३६^a, ३३७^a.
पुष्प 華 SWT, 花 T, शुश्राद (61a), १^a,
 १५^a, १८^a, २८^a, ३४^a, ४६^a, १३७^a, २९०^a; -क
 花 WT, शुश्राद (62b), ६^a.
पूजा 供養 SWT, मृत्यु-प्रिया (92a), ७२^a,
 ७३^a; -मेष 供養雲 T, मृत्यु-प्रिया-प्रिया
 (67b), १६^a.
पूजित (受供養), मृत्यु-प्रिया-प्रिया-
 एक्षुश्राद (62b), ७^a.
पूज्यमान (being honoured), 供養 WT,
 मृत्यु-प्रिया (62b), ७^a.
पूत (filtered through), ३६३^a.
पूर्व 本 WT, शुद्धि (184b), ५८^a, ८१^a, १२९^a,
 २३०^a, २३३^a, २४०^a, ३०१^a, ३३३^a, ३३६^a; -क
 本 (願) SWT, 先 SW, 待 T, शुश्राद-प्रिया
 (144a), ५^a, १३^a, १८^a, ६२^a, ६६^a, ७२^a,
 ९६^a, ९७^a, १२०^a, १४८^a, १५२^a, १५५^a,
 १९०^a (bis), २००^a, २१४^a, २२६^a, २३८^a, २४१^a,
 ३२७^a (bis); -कर्म 先 S, शुद्धि (प्रिया)
 (164b), २३८^a; -कुशलमूल 過去世

善根力 w, 往昔所種善根力 t, शैक्षिक्ये द्वये द्वये द्वये द्वये (63b), 9¹²; -कृत-कर्म 先所作業 t, 先…所作業 s, 本所聞所作業 w, द्वये द्वये द्वये (98a), 86¹; -कोटि 本際 SWT, द्वये द्वये द्वये (166b), 248¹; -जन्म 過去 WT, द्वये द्वये (170a), 251¹, 252¹; -जिन 過去佛 WT, द्वये द्वये द्वये (61b), 4¹, 250¹; -जिन-कृता=धिकार 過去供養諸佛 w, द्वये द्वये द्वये द्वये (169b), 250¹; -धर्म-स्थितिता (see also पौराणस्थिति-धर्मता), 本住法 ST, 本法體而住 w, द्वये द्वये द्वये (166a), 241¹; -निर्मित 先時代 ST, 在先化 w, द्वये द्वये द्वये (154b), 215¹; -पश्च 因緣法 w, 先所說宗 t, द्वये द्वये द्वये द्वये (194b), 334¹; -पश्च 領於他法 w, 先觀待 t, द्वये द्वये द्वये (200a), 348¹²; -प्रणिधान 本願 SWT, 本…願 t, द्वये द्वये द्वये द्वये (96a), 81¹, 89¹, 214¹; -प्रणिहित 本願 SWT, द्वये द्वये द्वये द्वये (160b), 231¹; -प्रहीण 本願 s, 異前佛 t, 本 w, द्वये द्वये द्वये (166a), 241¹; -तुड़ 先佛 s, 昔佛 t, द्वये द्वये द्वये द्वये (81a), 5¹, 37¹, 50¹; -(के)-गम 爲上首 WT, 1¹; -रात्रि…夜 SWT, कृष्ण-कृष्ण-द्वये द्वये (164b), 238²; -कृषि 過去…聖人 w, 諸仙聖人 t, द्वये द्वये

द्वये (169b), 247¹¹, 249¹⁵; -कृषि-भोजन (food enjoyed by ancient Rishis), 247¹¹; -अनुभूत अनुभूत ST, 本受用 w, द्वये द्वये द्वये (98a), 86¹; -अन्त इति ST, द्वये (115a), 123¹; -उत्तर=वचनवाचात्-दोष 前後所說自相違 SW, 所說前後相違 t, द्वये द्वये द्वये द्वये (109b), 111¹⁴; -उत्तर-विरोध 前後自相違 WT, द्वये द्वये द्वये द्वये (132a), 130¹², 131¹²; -उत्तरोत्तर 次第上上 w, 前後轉進 s, 漸次增勝 t, द्वये द्वये द्वये द्वये (163a), 83¹, 97¹¹.
पूछत् (questioning), 114¹.
पृथक् 離 SWT, द्वये (149b), 76¹(bis), 202¹⁰, 203¹⁴, 313¹¹(bis), 339⁷, 35¹⁴; -त् 異 SW, 異性 t, 別體 w, 異體 w, द्वये द्वये द्वये (181b), 202¹², 290², 339¹; -प्रत्यय-संकल 339¹².
पृथग्-जन 愚癡凡夫 SWT, 凡夫 ST, 愚夫 s, 凡夫人 w, द्वये (77a), 40¹, 41¹⁴, 62¹¹, 102¹, 162¹, 167¹², 348¹¹; -भूत 202¹⁰, 203¹, 289¹, 339¹, 340².
पृथिवी 地 SWT, 大地 SWT, द्वये (115b), 22⁴, 55¹², 124¹², 126², 176¹, 192¹, 231¹⁷, 359¹; -धारु 地界 SWT, द्वये द्वये (115b), 124¹; -प्रदेश 處 SWT, द्वये द्वये (138a), 176¹.
पृष्ठ 已問 WT, द्वये (68b), 114², 179¹.

पैय (to be drunk), 363¹³.
पैशी-घनार्वृद्ध 蔽尸厚胞瘡 w, 閉尸及胞胎 t, द्वये द्वये (180b), 285¹².
पोष (nourishing), 63¹⁵, 71¹⁷, 93⁷, 183¹¹; -आह 取長養 s, द्वये द्वये द्वये (101b), 93⁷.
पौनस्-भविकी 更受生 s, 更受後生 w, 引身 t, 未來有 s, 愛來生 t, द्वये द्वये द्वये (132a), 138¹², 162¹⁵, 180¹⁰.
पौर 根本 WT, द्वये (191a), 251¹, 320²; -जनपद 國土聚落 w, द्वये द्वये द्वये (170a), 251¹.
पौराण 古先聖 s, 本行 w, 本 t, द्वये द्वये द्वये (123b), 143¹⁰, 14; -नगर-पथ 古城平坦正道 s, 本城平坦正道 w, 古城平坦舊道 t, द्वये द्वये द्वये द्वये (123b), 143¹³; -स्थिति-धर्मता (see also पूर्व-धर्म-स्थितिता), 本住法 SWT, द्वये द्वये द्वये (123b), 143¹, 8.
पौराणिक 過去 w, 本住 t, द्वये (204a), 361¹.
पौष्टि 華 WT, 3², 4¹².
प्रकल्पित 起妄想 s, 分別彼法 w, 妄計 t, द्वये द्वये (119a), 182¹.
प्रकार 諸雜 SW, 諸色像 t, 種 ST, 法 w, द्वये द्वये (80a), 15¹, 47¹, 67¹¹, 82¹², 99¹⁷, 100¹, 106¹, 107¹⁰, 119¹¹, 122¹, 130¹², 156¹¹, 172¹, 204¹³, 208¹, 247¹³, 314¹⁶, 315², 352².

प्रकाश 顯 t, 虛空 w, (आकाश?). 116¹, 349¹⁶, 361¹⁶.
प्रकाशित 顯示 ST, 說 w, 演說 t, द्वये द्वये (71a), 5¹, 26¹, 144¹¹, 280¹, 324⁸.
प्रकोरित (praised), 359², 369².
प्रकुर्वत् (honouring), 12¹⁴.
प्रकृति 性 s, 自性 w, 本性 t, द्वये द्वये द्वये (78b), 44¹, 77¹⁵, 96¹⁴, 103⁹, 146¹, 155¹³, 183¹⁵, 203⁸, 221¹, 228¹³, 255¹, 287¹², 340¹, 353¹³, 372¹⁵; -परि=निरूप 自性涅槃 ST, 自性本來入於涅槃 w, द्वये द्वये द्वये द्वये द्वये (129a), 155¹³; -परिशुद्ध 自性清淨 s, 清淨相 w, 本性清淨 t, द्वये द्वये द्वये द्वये द्वये (157b), 222¹⁹; -परिशुद्धि 自性…清淨 s, 自性清淨 w, 本性清淨 t, द्वये द्वये द्वये द्वये द्वये (156b), 221¹; -प्रभास्तर 自性清淨 w, 本性清淨 t, द्वये द्वये द्वये द्वये द्वये (203a), 77¹⁶, 358¹¹, 13¹; -वि=मुक 自性解脫 s, 不見法 w, 本性解脫 t, द्वये द्वये द्वये द्वये द्वये (125a), 146¹.
प्रकोप (anger), 138¹⁵.
प्रक्रिया 事業在前 s, 先心 w, पश्च द्वये द्वये (152², 327³).
प्रसिद्ध 投 t, द्वये (162a), 232¹².
प्रत्य 如…者 SW, 同於…者 t, द्वये द्वये (109a), 72¹, 82², 95¹, 137¹, 138¹⁵, 281¹⁵.

प्रगति 受 WT, 爲^{कृ}शिष्ट (62b), 7^o.
 प्रचरित 行 SWT, 74^o, 75^{1 2}; -शून्यता
 行空 SWT, शैद्यधीर्ण्डधार्त्रिद (93
 a), 74^o, 75^{1 2}.
 प्रचलित-मौलिन् (*one with an agitated*
 head?), 疑心 (?) W, 14^{1 2}.
 प्रचार 行 SW, 相行 T, 積[॒]न्दिध (69b),
 9^{1 2}, 13^{1 2}, 20^o, 45^o, 50^o, 51^o (*चर* in text)
 (bis), 57^{1 2}, 89^{1 2}.
 प्रचारित 遊行 S, 得 W, 常行 T, 修
 行 W, 168^{1 2}, 291^o.
 प्रचुर 多 W, मृद्धि (169b), 249^o, 252^o;
 -तर 多 W, मृद्धि (170a), 252^o.
 प्रचोदित 興請問 T, 問 W, 8^{1 2}.
 प्रजात-मात 生 W, 初生 T, मुक्तिमृष्टि
 (180b), 286².
 प्रजा-पति 梵天王 W, 世間主 T,
 衆生主 ST, 梵天 W, मुक्तिमृष्टि
 मृष्टि (147b), 197^{1 2}, 364^{1 2}; -पाल
 王守護國 S, 守護衆生 T, मुक्तिमृष्टि
 (141b), 184^{1 2}; -भाग्य 諸衆
 生 T, 世人依福德 W, 367¹.
 10) प्रज (the wise), 255^{1 2}.
 प्रजम (prescribed), 228^{1 2}.
 प्रजमि 施設 S, 假名 W, 施設假名
 T, 心 W, 假施設 T, 假名 W,
 मृष्टिमृष्टि (110b), 261², 33^{1 2}, 35^{1 2}, 113²,
 153^{1 2}; 168¹, 267¹, 273^{1 2}, 275^{1 2}; -पद
 施設句 S, 假名見 W, 假立句 T,
 मृष्टिमृष्टि (74b), 35^{1 2}; -मात

施設量 S, 施假名 W, 唯假設 T,
 मृष्टिमृष्टि (71a), 26^{1 2}, 168¹, 275^{1 2};
 -मातक 施設 ST, 施 W, 唯假名
 W, मृष्टिमृष्टि (73b), 33^{1 2}; -वस्तु
 假 W, मृष्टिमृष्टि (177a), 275^{1 2}.
 प्रजा 智慧 SWT, 智 W, 慧 T, मेष्टिमृष्टि
 (69a), 20², 22^{1 2}; 23¹, 40¹, 45^{1 2}, 49
 1², 50¹, 57^{1 2}, 79^{1 2}, 130¹, 155¹, 158^{1 2}
 11^{1 2}; 164^{1 2}, 168¹, 181^{1 2}, 218^{1 2}, 237¹,
 264^{1 2}; 272^{1 2}, 274¹, 276^{1 2}, 288^{1 2}, 295
 1², 299^{1 2}, 302¹, 303^{1 2}; 346^{1 2}, 371¹; -गो=
 चर 慧境界 SW, 智所行 T,
 मेष्टिमृष्टिमृष्टि (616b), 39^{1 2}; -च=
 शुम 慧眼 ST, 智慧眼 W, मेष्टिमृष्टि
 मृष्टिमृष्टि (77a), 40¹, 164^{1 2}; -हान 智
 慧 ST, मेष्टिमृष्टि (84b), 51¹, 57^{1 2}; -पा=
 रमिता 般若波羅蜜 SWT, मेष्टिमृष्टि
 मृष्टिमृष्टि (78a), 42^{1 2}, 238¹
 1²; -युक 修智慧者 W, 智者 T,
 मेष्टिमृष्टि (175a), 269¹; -वत्
 (the wise), 258¹.
 प्रजाप्य 施設 S, 假名 W, मृष्टिमृष्टि
 (138b), 177^{1 2}.
 प्रणिधान 願 SWT, शैद्यधि (81a), 35¹,
 49^{1 2}, 50¹, 58^{1 2}, 66^{1 2}; 103¹, 120^{1 2}; 123¹,
 222¹, 233¹, 299¹, 304^{1 2}, 322¹, 351¹; -पद
 願句 ST, 願見 W, शैद्यधि (74
 a), 35¹.
 प्रणीत (instituted), 41^{1 2} (bis), 175², 185¹,
 244^{1 2}, 249^{1 2}, 250^{1 2}, 254^{1 2}, 329^{1 2}; -भोजन
 254^{1 2}.
 11) प्रणेत 造 SWT, 妄說 T, मृष्टिमृष्टि (205
 b), 174¹, 366^{1 2}.

प्रतिकूल 248¹, 249^{1 2}, 259¹; -संहा 延離
 कृमाधर्ममृष्टिमृष्टि (169b), 249^{1 2}.
 प्रतिघ 懒亂 S, 愛身 W, 愛憎 T, मृष्टि
 मृष्टि (161b), 231^{1 2}, 373^{1 2}.
 प्रतिज्ञानान (acknowledging), 253^{1 2}.
 12) प्रतिकृत (assertion), 352^{1 2}.
 प्रतिज्ञा 宗 ST, 所立 W, मृष्टिमृष्टि
 (77b), 41¹, 122^{1 2}, 166^{1 2} (bis) 11 (bis)
 12 13 14 15 (bis) 17, 167¹ (ter) 2 3 4 5 6, 174¹,
 219¹, 272^{1 2}.
 प्रतिदर्शन 可見 W, 見 T, 171².
 प्रतिपक्ष 各各 W, 一一 T, (प्रति-
 प्रति?) 324^{1 2}.
 प्रतिपद 道 WT, मृष्टि (188a), 311¹, 348¹.
 प्रतिपत्ति (obtained), 89^{1 2}, 150^{1 2}.
 13) प्रतिपश्यत (seeing), 149¹, 323^{1 2}.
 प्रतिप्रसम्भण 棉捨 S, कृद्यमृष्टिमृष्टि
 (153a), 212^{1 2}.
 प्रतिवद 俱生 S, 相續體 W, 俱時生
 T, 232¹.
 प्रतिविद्ध (विद् in text), 鏡中像 WT,
 影 ST, 像 SW, 色像 T, 鏡像 मृष्टिमृष्टि
 मृष्टिमृष्टि (131a), 160^{1 2}; -ना 妄想
 SW, 虛妄分別 T, कृद्यमृष्टिमृष्टि
 (131a), 161^{1 2}; 14 15 17, 165²; -ना 妄想
 分別 W, 分別 WT, कृद्यमृष्टिमृष्टि
 (135b), 171^{1 2}; -पुष (to nourish the
 views), 150^{1 2}; -अभिनिवेश-संधि 妄
 想計著相續 S, 分別…執著相
 續 W, कृद्यमृष्टिमृष्टि कृद्यमृष्टि
 कृद्यमृष्टिमृष्टि (131b), 161
 15; -संधि 妄想計著相續 S, 執著
 相續 W, कृद्यमृष्टि कृद्यमृष्टि
 कृद्यमृष्टि (131b), 161^{1 2}.
 प्रतिविकल्प विकल्प (discriminating), 147¹, 149
 1², 155^{1 2}.
 14) प्रतिविकल्पयमाण (causing to discrimi-
 nate), 162¹, 164^{1 2}.

प्रतिविकल्पयित्य 生分別 WT, 空
 धर्म-क्षमा-प्रश्न-पूर्ण (68a), 18¹⁴.
प्रतिविचिन्त (*investigating*), 238⁵.
प्रतिविपश्यत् 龍鉢舍那 T, 智觀 W,
 空-पूर्ण (68b), 19², 123¹¹.
प्रतिविजुइ 開悟 T, 覺已 ST, 夢覺
 已 W, 空-पूर्ण (100b), 9¹¹, 86¹, 91⁴.
प्रतिविभाग 差別之相 WT, 空-पूर्ण
 (68a), 17¹⁰ 12¹⁶, 18¹ 2¹⁰ 14.
प्रतिविभावयान 了達 T, 分別觀察
 S, 信 W(?), 空-पूर्ण-पूर्ण-क्षमा-पूर्ण
 (78a), 42¹³.
प्रतिशारण 依於義 S, 依義 W, 隨於
 義 T, 空-पूर्ण-पूर्ण (146a), 194²⁰,
 195¹.
प्रतिस्फृत्ति 空中響聲 W, 於山谷中
 自聞其響 T, 空-क (69a), 20¹⁷.
प्रतिशुक्ता 出聲 S, 諸響 W, 谷響 T,
 響 WT, 空-क (69a), 94¹, 287¹⁵.
प्रतिषिद्ध (*kept off*), 255¹ (bis)⁵.
प्रतिषेध 遮 W, 斷 T, 空-पूर्ण (171a),
 254¹² 16, 346¹.
प्रतिषेवमान 食 SW, 就著 T, 空-पूर्ण
 (169b), 250¹⁴.
प्रतिषेवित्य (*to be attached to*), 254⁶.
प्रतिषेवितुम् (*to cling*), 254⁹.
प्रतिष्ठा 建立 ST, 持用法 W, 所住處
 T, 安立 S, 器世間 W, 國土 T, 住
 處 W, 所住 T, 空-क (77b), 42⁴, 47¹,
 51¹⁷, 54¹⁰, 56⁷, 62¹⁴, 64¹⁶, 70¹¹, 80⁸, 140¹,
 154⁶, 273¹⁴, 302⁴, 309¹⁶; -न 建立 S,
 住持 W, 安住 T, 空-क (80a), 47⁷,

54¹⁰, 154⁶, 301¹⁷, 303² 7, 815⁶, 320⁴; -पन
 建立 S, 置…中 W, 安住 T, 空-क
 (80a), 195¹⁷.
प्रतिष्ठापयित्य 建立 S, 入 W, 住 T,
 空-पूर्ण-पूर्ण (85b), 59⁷.
प्रतिष्ठापिका (*establishing*), 122¹⁰ 14.
प्रतिष्ठित 建立 S, 安立 T, 有 W, 空
 空-पूर्ण-पूर्ण (79a), 45⁷, 69¹⁷, 132¹², 192²,
 221¹⁶, 266⁹, 313³, 327², 343⁶.
प्रतिसंशिक्षित (*taught*), 123¹¹.
प्रतिसरण 依 S, 隨順 T, 194²⁰, 195¹,
 223⁶.
प्रतिसेवमान (for °षे), 250¹⁴.
प्रतिसेवितुम् (for °षे), 254⁹.
प्रतिस्पर्धित् 相對 W, 如 T, 空-पूर्ण (65b),
 8⁹, 13⁸.
प्रतिहत-चेतस् 心斷 W, 不令生於如
 是之心 T, 247¹⁶.
प्रतीय 緣起 S, 緣 SWT, 因緣 W,
 空-क्षेत्र-पूर्ण-पूर्ण-पूर्ण (106b),
 104¹¹, 155¹⁶, 190⁶, 272¹⁶; -समुत्तन ष
 起 ST, 因緣 W, 空-क्षेत्र-पूर्ण-
 पूर्ण (181a), 160⁶, 289⁶; -समुत्ताद
 緣起 ST, 因緣 T, 空-क्षेत्र-पूर्ण-
 पूर्ण-पूर्ण (87b), 63¹, 82¹³ 16, 83¹ 34
 6, 96¹⁶, 103¹, 109¹, 177¹³.
प्रत्यक्ष 現前 S, 現法 WT, 空-क्षम
 (77a), 41¹, 166⁴, 222¹⁴, 289³; -गोचर
 現前境界 S, 分明現見 T, 222¹⁴; -विहारित् 見法 WT, 空-पूर्ण-पूर्ण
 (133b), 166⁴.
प्रत्यय 因緣 SW, 緣 ST, 緣起 T, 11⁴,

13¹⁰, 24⁸, 34¹⁷, 40¹² 15, 41⁷ 11, 42³ 10, 43⁴,
 46⁹, 64⁶, 69¹, 79¹¹, 80¹⁷ (bis), 82⁹ 10 16,
 84⁸ 14 16 17, 85¹ 2 3 5 8, 87¹⁵ (bis), 92¹⁷, 103
 11 12 14 15, 104⁴ 6, 105¹⁰, 111¹¹, 112², 129²,
 8, 145⁷ 6, 147⁸ 10 11, 152⁸ 13 16, 153² 3 8, 159
 2, 160⁷, 161¹², 163² 3, 168², 191¹⁷, 193²,
 197¹⁴ 15 16 17, 201¹⁴, 202⁹, 203¹⁴, 204¹²,
 220¹⁰, 248¹⁵, 266¹¹, 267¹, 268¹¹, 270⁶, 271
 7 4 9 15, 272¹⁷, 273⁹, 275¹¹ 12, 276³ 56, 277
 11, 282⁵, 283³, 285¹, 287¹⁴ 11, 288¹⁴, 289⁷,
 290² 11 12, 295² 13, 296³, 298³, 301⁴, 303¹²,
 307³, 309¹¹, 323¹⁷, 324¹³ 18 (bis), 325² 3 8,
 329² 4 5 7 9, 333² 7, 334⁹ 15 (bis) 16 17 19,
 335¹, 336¹⁵, 338¹¹, 339¹², 340⁹ 11 12 (bis),
 342¹⁴, 346⁴ 5, 347¹⁷, 348² (b's) 4 (bis)⁵,
 353⁴, 361¹³, 372³, 373¹³ 15, 374²; -पद
 緣句 ST, 緣見 W, 空-क्षेत्र-क्षम (74a),
 34¹⁷; -लक्षण 待因緣 W, (वीक्षण?),
 338⁷; -वस्तु-संकेत (प्रत्ययावलु in
 text), 283⁷; -विहल 迷因緣 W, 於
 緣起驚怖 T, 空-क्षेत्र-क्षम-पूर्ण-पूर्ण
 (207b), 373¹⁵; -वीक्षण 顧諸緣 S,
 待因緣 W, 待緣 T, 空-क्षेत्र-क्षम-
 पूर्ण (149a), 201⁴ 10; -संकल 緣鉤鎌
 SWT, 空-क्षम-पूर्ण (149b), 203¹,
 339¹²; -संबद्ध 因緣縛 S, 諸緣縛 T,
 空-क्षम-पूर्ण-क्षेत्र-पूर्ण (175b), 271⁷; -
 स्वभाव 緣性自性 SW, 緣自性
 T, 空-क्षेत्र-क्षम-पूर्ण (76b), 39¹¹; -अ=
 भियक्ति 緣分明 S, 緣別 W, 緣
 明了 T, 空-क्षेत्र-पूर्ण-पूर्ण (130a),
 159²; -उत्तम 從緣生 W, 緣生 T,
 空-क्षम-क्षेत्र-पूर्ण (200a), 348² 4; -उत्तम
 因緣生 W, 緣起…生 T, 285¹.

प्रत्यवगत्य (*to be known*), 188¹⁸.
प्रत्यवस्थान 建立 SW, 立 T, 處 S, 成
 立 T, 空-क्षेत्र-क्षम-पूर्ण (136a), 77¹, 92¹,
 93¹¹, 172⁶, 193¹², 194¹⁸.
प्रत्याम (न) 自覺 S, 內身證 S, 空-क्ष
 म-पूर्ण (83a), 65⁵, 99⁵, 132¹, 323¹²; -ग=
 ति 自悟處 S, 自證處 T, 內身所
 證法 W, (眞實)處…內身(知) W,
 內心行 W, 自證智境 T, 自
 覺境界 T, 空-क्षेत्र-क्षम-पूर्ण-पूर्ण-
 क्षम-पूर्ण (128b), 5¹⁴, 6², 8¹², 18¹², 48¹⁴,
 49⁵, 123⁸, 148¹² 13, 149², 152⁷, 155² 12, 305
 1, 323¹²; -गति-क 内身實智 W, 空-
 क्षेत्र-क्षम-पूर्ण-पूर्ण-पूर्ण (189b), 316¹⁰
-गति-गम्य 內身修實行 W, 內證
 智所行 T, 空-क्षेत्र-क्षम-पूर्ण (203
 a), 48¹⁴, 357¹⁴; -गति-गोचर 自到
 境界 S, 內身智境界 W, 內行境
 界 W, 自證法 T, 自證聖智所行
 T, 自覺境界 S, 內身聖智修行
 境界 W, 自證聖智所行境界 T,
 空-क्षेत्र-क्षम-पूर्ण-पूर्ण-
 क्षम-पूर्ण (128b), 4¹⁸, 5⁴, 7⁸ 11, 11¹⁶, 12¹⁴, 23¹⁴, 39¹⁶, 49⁵,
 55¹, 57⁹, 59¹¹, 62¹², 99¹, 155², 320⁸; -ग=
 ति-विज्ञक 證智常明了 T, 內心
 善思惟 W, 空-क्षेत्र-क्षम-पूर्ण-
 क्षम-पूर्ण (128b), 5¹⁴; -गति-लक्षण 自
 智所行相 T, 自證行 W, 18¹²; -ग=
 ति-विज्ञान 自覺聖智趣 S, 內身
 證修行法 W, 證自智境界 T, 空-
 क्षेत्र-क्षम-पूर्ण-पूर्ण-पूर्ण-पूर्ण-
 क्षम-पूर्ण (128b), 5¹⁴; -गति-लक्षण

भूत (164a), 62¹; -त्वान्-गति 自覺聖智 S, 聖智境界 w, 自證聖智 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेभ्येष्टेष्ट (96b), 82¹; -तयता 內身真如淨 w, 內證淨真如 T, श्वास्त्रियेभ्येष्टेष्ट (195a), 333⁴; -तयता-शेय 自覺知爾候 S, 內身證境界 w, 自證真如境 T, 132²; -हृष्ट-धर्म 內身見諸法 w, 自內現證法 T, श्वास्त्रियेभ्येष्टेष्ट (208a), 375²; -हृष्ट-धिगतिक 內身是智見 w, 諸見自內證行 T, श्वास्त्रियेभ्येष्टेष्ट (204b), 362³; -धर्म 內身證法 w, 自證法 T, 內身證於法 w, श्वास्त्रियेभ्येष्टेष्ट (192a), 61¹, 324²; -धर्मता 緣自得法 S, 自身內證法 w, 自證法 T, 內法 w, श्वास्त्रियेभ्येष्टेष्ट (123b), 8¹, 143⁴, 310¹; -धर्म-स्थितिगति 緣自得法住 S, 內身證法性 w, 自證本住法 T, श्वास्त्रियेभ्येष्टेष्ट (124a), 144², 324²; -न-य-लक्षण 內身如實之相 w, 證真實義 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (66b), 15²; -भूमि 自覺地 S, 自身內證智地 w, 自證之位 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (115a), 123², 224²; -वेद्य 自覺聖智 S, 明實際 w, 自證實際法 T, 自覺智 S, 內心證 w, 自證 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (175b), 88¹, 215¹, 271¹, 278¹, 295¹

, 306¹, 318¹; -वेद्य-गति 內心所知法 w, 證智之所知 T, 31²; -वेद्य-गति-धर्म 內身所證法 w, 證智 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (61b), 31⁴; -वेद्य-यान 我乘內證智 w, 自內所證乘 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (180b), 286²; -शासन 緣自與教法 S, 內證法 w, 自證及教法 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (126a), 146²; -अ-धिगति 得緣自覺觀察 S, 自身內證智慧觀察 w, 了聖境界 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (134a), 166⁴; -अधिगम 緣自得 S, 自身內證 w, 了達…自證法 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (121a), 60¹, 61², 119¹, 137¹, 148¹; -अ-धिगमन 得…自覺(地) S, 內證 w, 為令速入 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (106a), 102¹; -अधिगमार्थ-शान-गोचर 自覺聖智境界 S, 內身聖智證境界 w, 自證聖智所行 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (86b), 61²; -आर्य-गति 自覺聖趣 S, 內身聖行 w, 自證聖境 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (84a), 56¹, 57¹, 58¹, 11¹, 16¹, 17¹, 155¹, 222¹, 224¹, 238¹; -आर्य-गति-गम्य 向自覺聖趣 S, 已入自內身證智證法 w, 獲自證智 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (157a), 222¹,

-आर्य-गति-गोचर 自覺聖智所行 T, 內證聖行境界 w, 自覺聖所緣境界 S, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (84b), 57¹, 59¹, 242¹; -आर्य-शान 自覺聖智 S, 內身聖智 w, 自證聖智 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (103b), 98², 228¹; -आर्य-शान-गति 自覺聖智修行者 S, 自身進趣證聖智 w, 自證聖法 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (101b), 93⁴; -आर्य-शान-गति 自覺聖智相 S, 自身內證聖智修行相 w, 自證聖智行相 T, 82¹, 133²; -आर्य-शान-गति-गोचर 自覺聖智趣所行境界 S, 聖智修行境界行處 w, 自證聖智所行 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (89b), 62¹, 67¹, 68¹, 157¹; -आर्य-शान-गति-लक्षण 自覺聖智究竟之相 S, 內身聖智自覺知相 w, 自覺聖智所趣相 T, धर्मणश्चप्रियेष्टेष्ट (81a), 49¹, 50¹; -आर्य-शान-गति-विषय 82⁴; -आर्य-शान-गोचर 231¹; -आर्य-शान-गम्य 自覺聖智所得 S, 聖智內身證得 w, 自證聖智所行 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (86a), 60¹, 61¹, 194¹, 200²; -आर्य-शानैक्यान 自覺聖智

相及一乘 S, 自身內證聖智修行相及一乘法 w, 自證聖智行相及一乘行相 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (119a), 133⁴; -आर्य-धर्म 自覺聖趣 S, 內身聖行 w, 自證聖法 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (78b), 43¹; -आर्य-धर्म-गति 自覺聖智法趣 S, 自證法 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (90b), 43¹, 70¹, 226¹; -आर्य-स्व-गति 自覺聖 S, 自身內修行法 w, 證聖智境 T, श्वास्त्रियेष्टेष्ट (117a), 127¹; -आर्याधिगम 自覺聖差別相 S, 內身證得聖相 w, 自證聖智殊勝相 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (85a), 58¹, 60¹, 61¹; -एक्यान-गति 自覺聖智相及一乘 S, 自身內證聖智修行相及一乘法 w, 自證聖智行相及一乘行相 T, धर्मणश्चाद्यश्चस्त्रियेष्टेष्ट (119a), 133⁴. प्रत्युक्त (Answered), 59¹, 86¹. प्रत्युत्तम 現在 SWT, न्यूड (76b), 40¹, 41¹, 62¹, 78¹, 119¹, 120¹, 244¹; -सुख 現在樂 SW, 現樂 T, न्यूड-पद्म (113b), 119¹. प्रत्युम 間錯 WT, 3¹. प्रत्येक (see also under आवक), 緣覺 SWT, 辟支佛 SWT, 獨覺 T, न्यूम (72a), 28¹, 31¹, 64¹, 135¹ (for य-

प्रेक्ष-बुद्ध), 291¹⁴(do), 294¹⁴(do), 306¹⁴, 319^a (for प्रत्येक-बुद्ध), 322¹⁴, 326¹⁴, 366², 375²; -जिन 緣覺 S, 哲支佛 WT, वृत्त-कृपा (103b), 7¹⁰, 99¹⁰, 310¹⁰, 312¹⁰; -जिन-गोचर 緣覺境界 W, 98²⁰, 310¹⁰; -जिन-पुत्र 緣覺及佛子 W, 哲支諸佛子 T, वृत्त-कृपा-कृपा-शक्ति (72a), 28¹⁴, 291¹⁴, 306¹⁴; -बुद्ध 緣覺 ST, 哲支佛 WT, 二乘 T, वृत्त-कृपा-शक्ति (64b), 2⁷, 10¹, 11¹, 14⁹ 14, 15⁴ 14, 18¹⁶, 45⁴, 49¹⁰, 50⁴, 51⁴, 57¹⁵, 72¹⁴, 97⁴, 99¹⁴, 107¹¹, 134¹ 11¹, 140¹⁴, 145¹⁴, 146¹, 148⁹, 157¹⁰, 171¹⁴, 172¹³, 192¹, 194¹², 195¹⁰ 11, 201¹², 211¹ 11¹, 212¹ 11, 213¹ 11, 218¹⁰, 221¹⁵, 222¹⁵, 223¹ 11, 226², 228³ 17, 237⁹, 242⁹, 244¹⁰, 255¹², 282⁴; -बुद्ध-यान-गोचर 聖種性…緣覺乘 S, 聖人性…哲支佛 W, 聖種性…緣覺…乘 T, वृत्त-कृपा-शक्ति-पूर्ण-प्रेषण-पूर्ण-प्रेषण (108a), 107¹⁶, 108¹; -बुद्ध-यानाभिसमय 緣覺乘無間種性 S, 緣覺乘性證法 W, 緣覺乘種性 T, 64¹ 7⁹; -बुद्ध-यानाभिसमय-गोचर 緣覺乘無間種性 S, 緣覺乘性證法 W, 緣覺乘種性 T, वृत्त-कृपा-शक्ति-पूर्ण-प्रेषण-पूर्ण-प्रेषण (87a), 63²; -बुद्ध-यानाभिसमय-गोचर 緣覺乘無間種性 S, 緣覺乘性證法 W, 緣覺乘種性 T, वृत्त-कृपा-शक्ति-पूर्ण-प्रेषण-पूर्ण-प्रेषण (87b), 64¹ 7⁹; -यानिक 哲

支佛 WT, वृत्त-कृपा (176b), 274¹; -आवकीय 二乘地 W, 二乘行 T, वृत्त-कृपा (208a), 375².
प्रत्येतय 分別當知 S, 應如是知 T.
प्रथम 初 SWT, शब्द (80b), 21¹, 49¹, 69¹⁴, 100¹⁰, 101², 103⁴, 123¹, 136¹, 176¹², 215¹, 322¹; -प्रथम-पञ्चाह-रात्र 初中後夜 ST, 初夜後夜 W, शब्द-द्वय-वृत्त-कृपा-शक्ति-पूर्ण-प्रेषण (80b), 49¹; -स= समी-भूमि 從初地轉進至第七地 S, 初地七地 W, 從初地而至七地 T, वृत्त-पूर्ण-प्रेषण-पूर्ण-प्रेषण। वृत्त-पूर्ण-प्रेषण-पूर्ण-प्रेषण (154b), 215¹.
प्रथमा 初 ST, 初地 W, वृत्त-प्रेषण (154b), 216¹.
प्रथमी 初地 W, वृत्त-प्रेषण (182a), 291¹⁷.
प्रथमोहर-भूमि-लक्षण 初地上上增進相 S, 於初地…得上上地…之相 W, 入初地已漸次證得 T, 136⁹.
प्रदर्शणी-कृपा 右邊(三帀)T, 達佛(三帀)W, 3⁴.
प्रदर्शन 見 ST, 示 W, वृत्त-प्रेषण (161a), 223⁴, 230¹; -क (indicating), 3¹⁵.
प्रदीप 燈光 WT, 燈 ST, 燃燈 W, मे-प्रदीप-प्रेषण (69a), 20¹⁰, 83¹⁶, 155⁹ 11, 203⁴, 339¹⁷.
प्रदेश 此處 W, 如是處 T, वृत्त-कृपा-शक्ति (129a), 91¹¹, 155¹⁰, 176¹.
प्रधान 勝妙 S, 勝 SWT, 勝性 T, 自

性 W, मौर्त्त्यु (76b), 39⁷, 79¹¹, 103¹⁰, 192¹⁴, 197¹⁹, 225¹⁶, 282⁹, 295¹¹, 309¹⁰, 334¹³, 368¹⁷, 369¹².
प्रधंस 滅 SW, 滅壞 T, वृत्त-प्रेषण (200b), 87¹⁴, 157¹(bis), 330¹⁰, 349⁸.
प्रधंस 滅體 W, 滅壞 T, वृत्त-प्रेषण (194b), 330¹⁷, 349².
प्रधंसिन 滅 SWT, वृत्त-प्रेषण (98b), 87¹⁴, 194¹(bis).
प्रधंस 滅 SWT, वृत्त-प्रेषण (194b), 238¹⁷, 330¹, 353¹¹, 368¹.
प्रपञ्च 戲論 WT, 虛偽 ST, 虛偽過 S, वृत्त-प्रेषण (69a), 19¹⁴, 38² 7, 42², 43¹ 7, 44¹, 45¹¹, 69¹, 71¹, 80¹, 82², 86¹¹, 90⁹ 18, 94¹², 100³, 170¹⁴, 171¹⁰, 177¹, 178¹², 181¹, 186¹, 190² 4, 196⁴, 212¹², 220¹³, 233¹⁴, 284², 295⁴, 300⁶, 312¹², 352⁴.
प्रपञ्चन 墮 SWT, वृत्त-प्रेषण (105), 102¹⁵.
प्रपतित (fallen), 225¹².
प्रवच्य 流注 S, 相續 WT, वृत्त-कृपा (176a), 37¹⁰ 11 12, 38¹, 39¹⁴(bis), 76¹, 81¹⁰, 83¹⁷, 99¹, 146¹⁷, 205⁴; -क 相續流注 S, 相續 WT, वृत्त-कृपा (163b), 235¹¹; -निरोध流注滅 S, 相續滅 WT, वृत्त-कृपा-प्रेषण (75b), 37¹⁰, 38⁵; -स्थिति 流注住 S, 相續住 WT, वृत्त-कृपा-प्रेषण (75b), 37¹²; -उत्पाद 流注生 S, 相續生 WT, वृत्त-कृपा (75b), 37¹¹.
प्रभव 所生 S, 生 ST, वृत्त-प्रेषण (159a), 68¹¹, 218¹⁵ 16, 225¹⁶(bis), 275¹, 376².
/0 प्रभा 光明 S, 光 T, वृत्त-प्रेषण (67b), 15¹⁶, 16¹, 17¹⁷; -मण्डल (猛焰之相 W?), 18¹.
प्रभाव 自在力 S, 妙莊嚴境 W, 自在爲光 T, 大妙法體 W, 158¹, 302⁹; -क 究竟 WT, वृत्त-प्रेषण (63a), 81¹.
प्रभावित 教授 ST, 親 W, 力 ST, वृत्त-प्रेषण (71b), 27¹², 60¹³, 69¹⁰, 76¹, 158¹¹, 218¹³ 14, 219¹.
प्रभाषित 所說 SWT, वृत्त-प्रेषण (85b), 59¹², 146², 362¹.
प्रभास 照明 S, 光明 WT, वृत्त-प्रेषण (105), 100¹¹ 12.
प्रभासर 清淨 WT, वृत्त-प्रेषण (94a), 77¹⁵, 358¹¹ 18 16.
प्रभृति 等 W, वृत्त-प्रेषण (170a), 19¹, 197¹⁹, 221², 252¹.
प्रभेद 分別 S, 差別法 W, 差別義門 T, 差別 WT, वृत्त-प्रेषण (84b), 14¹⁴, 45¹⁰, 50¹⁴, 51² 8, 57¹², 58², 107¹¹, 116¹³(bis), 117¹, 127¹⁴ 15, 136², 224⁶ 15; -क 223¹; -गति-लक्षण 分別相 S, 差別行相 W, 差別之相 T, वृत्त-प्रेषण-प्रेषण-प्रेषण (158a), 224⁶ 15.
प्रभाण 量 ST, 形量 W, वृत्त-प्रेषण (72b), 30¹⁴ 17, 57¹⁴, 59¹, 92¹⁴, 133⁹, 151⁶, 185², 189¹⁶, (bis)¹⁷, 190⁴ 6, 229¹⁷, 242¹, 274¹³.
प्रभुक 解脫 S, 離 W, 出離 T, 1¹ 3¹⁵.
/0 प्रभुदिना 歡喜 WT, वृत्त-प्रेषण (90a), 69¹⁶, 226¹⁸ 18.
प्रयत्न 人工 ST, 人功 W, वृत्त-प्रेषण (94b), 78¹⁴, 82¹⁶ 18, 178¹⁶ 18, 365¹⁶.
प्रयोक्त्य (to be used), 122¹.
प्रयोग 方便 SWT, वृत्त-प्रेषण (78a), 42¹, 215⁴, 242¹³.
प्रयोजन 所爲 T, 350¹¹ 13.

प्रोहधभिन् 所生 W, शुष्टिक्षेप (68 a), 18¹.
 प्रलय 壞 ST, 竄 S, 滅 WT, देशा॒
 अमृत-शुष्टि (160), 207¹²(bis), 228¹¹, 337¹⁰.
 प्रलाप 言說 ST, 言 WT, विद्युत्-प (108 a), 107⁷(bis), 173¹¹, 371¹.
 प्रवचन 所說 S, 我佛法 W, 我教 T,
 我法 W, विश्वासा॒ (111a), 43⁷, 114¹⁶
 (bis), 126¹⁰ 11, 259⁹.
 प्रवर्तक 生 W, 起 T, विद्युत्-प्रेरणा॒
 (204a), 354², 361¹¹.
 प्रवर्तन (प्रवर्तते in text), 生 W, 起 T,
 विद्युत्-प (179a), 282¹.
 प्रवर्तमान (being set in motion), 45¹, 53¹³,
 62¹⁰, 69¹², 69³, 75², 86¹⁰, 94⁶, 126¹⁰,
 15¹⁷, 151³, 235¹¹.
 प्रवर्तित 生 S, 作 W, 出 T, विद्युत्-
 प्रेरणा॒ (71a), 26³, 300⁴, 370¹³, 372¹⁰.
 प्रवाद 說言 S, 彼計 T, 論 T, विद्या॒
 (76b), 10¹¹, 39⁸.
 १६ प्रवादित 放逸 WT, (प्रवादित?), विद्या॒
 (204b), 231¹², 362⁷.
 प्रवाहृत (producing sounds), 3⁵.
 प्रवाह 水 SWT, विद्युत् (162b), 233¹⁴.
 प्रविचय 周偏觀察 S, 觀察 SWT, 分
 析推求 S, 分析…求 T, विद्युत्-
 प्रेरणा॒ (89b), 15², 50¹⁵ 17, 52⁶, 53¹, 68¹⁰,
 69¹⁰, 71¹, 74¹⁰, 97¹⁴, 110¹³, 122¹⁵, 123¹,
 137² 11, 157¹², 171², 205¹², 207¹⁸, 238³, 284
 ; -उद्दिः 觀察如實智慧 W, 以智
 慧思惟觀察 T, 觀察覺 S, 觀察
 智 WT, विद्युत्-क्षमा॒-प्रेरणा॒-प्रविचय

(114b), 15², 122¹ 2⁵.
 प्रविचारयत् 觀 S, 觀察 WT, विद्युत्-
 प्रेरणा॒-शुष्टि॒ (129a), 155³.
 प्रविचीयमान 覺 S, 觀察 W, 觀 T
 विद्युत्-प्रेरणा॒ (114b), 122⁴.
 प्रविभाग 分齊 SWT, 知法 W, 辨了
 T, विद्युत्-प्रेरणा॒ (203a), 53¹², 358³.
 प्रविशत् (entering), 199⁴.
 प्रविष्ट (entered), 199⁹ 10.
 प्रविष्टान् (entering), 52¹⁴ 15, 84¹¹.
 प्रवृत्त 生 SWT, 起 T, विद्युत्-प (130b),
 18¹⁸, 44¹⁷, 45² 6, 59⁸, 93¹¹, 160², 180²,
 184², 194¹⁸, 221¹⁴, 227¹³, 286⁷.
 प्रवृत्ति 生 SWT, 起 ST, 轉 WT, विद्युत्-
 प्रेरणा॒ (61b), 21³, 14⁶, 37¹³, 38¹³ 15, 39⁸, 41⁶,
 44¹ 9, 52¹⁸, 87¹¹, 96¹⁷, 120⁶, 126¹⁸, 136¹²,
 151¹², 152³, 159¹⁷, 160², 163³, 166⁶, 180²
 10, 184¹², 208¹, 213⁵, 220¹ (bis), 221¹³,
 222¹¹ 12, 223³, 232¹⁰ 11, 235¹⁷, 311¹³, 348¹⁶,
 350¹⁶, 351⁸, 352⁶; -इयं 348¹⁶; -लक्षण
 轉相 SWT, विद्युत्-प्रेरणा॒-कर्त्रित॒
 (75b), 87¹³; -विज्ञान 轉識 SWT,
 विद्युत्-प्रेरणा॒-कर्त्रित॒-प्रेरणा॒ (76b), 21³,
 38¹³ 15, 44⁶, 221¹³, 285¹⁷.
 प्रवेश 入 SWT, विद्युत्-विद्युत्-प्रेरणा॒ (64b),
 10¹⁸, 11⁹, 21⁴, 98², 102⁷, 125¹⁷, 143¹⁶, 173
 14, 180², 224¹⁰ 17, 227⁶, 228⁴, 374¹⁶; -न
 入 SWT, विद्युत्-विद्युत्-प्रेरणा॒ (119b),
 133¹².
 १७ प्रव्याहृत (spoken), 240⁶.
 प्रव्रजित 出家 WT, 出家人 T, विद्या॒
 -प्रेरणा॒ (205b), 255⁷, 365¹.
 प्रव्रजिका 外道女 T, मर्त्त्वामृत्तु॒

क्षु॒ (165b), 240¹³.
 प्रशंसा 讚 T, विद्युत् (69b), 23¹.
 प्रशम 寂滅 WT, विद्युत्-प्रेरणा॒ (69b), 21².
 प्रश 問 SWT, विद्या॒ (66a), 14¹⁰ 14¹⁹, 23¹²
 1⁹, 34⁶, 100⁷, 115²; -इयं 二種之義 T,
 二法 W, 14¹³ 14¹, 16¹⁰.
 प्रङ् (an asker), 71¹.
 १८ प्रसङ्ग (संग in text), 過 SWT, 失 T,
 विद्या॒ (143a), 153⁶, 187¹⁴, 198⁴, 217¹⁰
 11 16, 218⁴, 219¹⁰, 325⁵; -त 過 T, 法
 W, 121⁶.
 प्रसङ्गेन 有…過故 S, 有…失故 T, 若
 爾有(二)果 W, विद्युत्-प्रेरणा॒-
 प्रेरणा॒ (128a), 153⁵, 325⁴.
 प्रसर 實大力用 T, 215³.
 प्रसाद (favour), 292¹⁵.
 प्रसादवत् 能信 W, 淨信 T, विद्युत्-
 प्रेरणा॒ (207b), 373¹¹.
 १९ प्रसाधक 建立 SW, 成立 T, विद्युत्-
 प्रेरणा॒ (207a), 200⁹, 372⁶.
 प्रसाधन (accomplishing), 337⁶.
 प्रसाधित 成 W, विद्युत्-प्रेरणा॒ (181b), 147¹¹,
 290¹², 354¹³, 369¹.
 प्रसिद्ध 建立 W, 宗說 S, 許 T, 有 S, 皆
 有 T, विद्युत्-प्रेरणा॒ (165a), 105⁴, 178⁶ 8
 9, 239⁹, 368⁴.
 प्रसिद्धि 宗 W, 成 W, 所成立 T,
 विद्युत्-प्रेरणा॒ (134b), 168¹.
 २० प्रसूत 生 WT, 18¹; -जन्मन् 現於生 W,
 現生 T, विद्युत्-प्रेरणा॒ (188a), 311¹⁷.
 प्रस्तर 放 WT, विद्युत्-प्रेरणा॒ (205b), 366¹.

प्रस्त 鉢他 S, 一升 WT, विद्युत् (72b), 31⁵,
 248⁴.
 प्रहाण 拾 WT, 斷知 S, 遠離 W, 斷
 惑 T, 斷 ST, विद्युत् (67b), 17³ 4⁷,
 19⁸ 11, 21¹, 121¹⁶, 140¹², 202⁶, 241⁹ 10, 242
 1² 18, 243² 8, 244⁶, 265⁷, 301¹³, 311¹⁰, 339².
 प्रहातय 應捨 WT, 17², 18¹⁷.
 प्रहीण 斷 S, 遠離 W, 拾 T, विद्युत्-
 प्रेरणा॒ (118b), 19², 63¹¹, 93⁴, 99³ 11, 105⁸, 119¹⁰
 12¹ 18, 120⁷, 128¹, 134⁴, 242¹.
 २१ प्रहेय 應捨離 T, 可拾 W, 19¹⁰ 11 12.
 प्राकार 壁 SWT, 169¹¹, 170².
 प्राकृत (natural), 255¹¹.
 प्राकृ-पश्चात् 先後 WT, विद्युत् (204a),
 361¹⁵.
 प्रागेव 何況 SWT, 17².
 २३ प्राग्भार (山頂), 5¹².
 प्राग्-विज्ञान 初識 SWT, विद्युत्-
 प्रेरणा॒ (91a), 71¹⁹.
 प्राणिन 衆生 SWT, विद्युत्-ठन् (149b),
 204⁶, 233¹³, 245¹⁰ 16, 248⁶, 253¹ 3 6¹.
 प्राणि-संता 肉想 T, 食味心 W, मौर्त्री-
 संता (170b), 253⁹.
 प्रातिहार्य 變化 SWT, विद्युत्-प्रेरणा॒ (88a),
 6¹⁷.
 २५ प्रादुर्-भाव 出世 SW, विद्युत्-प्रेरणा॒ (161a),
 180⁴, 230¹¹ 14.
 प्रान्त (extremity), 248⁹.
 प्रापक 證 S, 成 T, 成就 T, 滿足 WT,
 विद्युत्-प्रेरणा॒ (126a), 11⁴, 12⁴, 148¹².
 प्राप्त 得 SW, 所證 T, 處 T, विद्युत् (113
 a), 42⁶, 102¹⁶, 118¹⁴ (प्राप्ति in text),

134¹, 158⁴, 198^{10 15}, 240¹⁴, 251⁴, 269⁶, 302¹⁵; -पूर्व所能得 ST, 未曾得知 W, द्वृक्षुभूष्माद् (119b), 134¹.
प्राप्ति 得 SWT, द्वृष्टि (72b), 30⁸, 121⁴, 134¹⁰, 189¹⁰, 203¹⁰, 211¹⁷, 236^{10 11}, 239⁷, 299⁶, 307⁷, 340³, 368^{11 12}; -धर्म正法得 S, 證法實 W, द्वृष्टिक्षेत्र (165a), 102¹⁰, 239⁶, 368¹¹; -धर्मता所得法 W, द्वृष्टिक्षेत्र (197b), 203¹⁰, 340³; -विशेष得奇特性 S, 是奇特性 T, द्वृष्टिधर्मानुदर्शन (164a), 236¹⁰.
प्रायस (for the most part), 252¹⁶, 253⁴.
प्रायेण 多 SW, 181².
प्रारम्भ 作已 S, 發起所作 W, 始起 T, द्वृक्षुद्वृक्षमाद् (150a), 205¹ (bis), 207⁷, 209⁶; -विनिरुद्धि 作已而捨 S, 發起所作而不作 W, 始起即捨 T, 離始造 S, 始造即便捨 T, 遠離於始造 SW, द्वृक्षुद्वृक्षमाद्यक्षमाद्यक्षमाद् (150b), 205¹, 207⁷, 209⁶.
प्रार्थना 求戀 T, 樂 S, 求 W, मर्त्त्यधर्मानुषादविवेद (139b), 179¹.
प्रावृत्त (covered), 308¹¹.
प्रासाद 舍 S, 殿堂 W, 堂 T, द्वृष्टि (93a), 17¹⁰, 75^{11 14} (bis).
प्रियकृ (yellowish white creeper), 3⁶.
प्रीति (joy), 309².
प्रेषक (looking at), 196⁴.
प्रेषण 瞻視 S, 觀察 W, 瞻視 T, द्वृक्षुभूष्माद् (107b), 105¹.

प्रेत 餓鬼 SWT, द्वृष्टिक्षमा (107b), 106¹², 347⁷.
प्रेरण (driving out), 372⁵.
प्रेरित 吹動 W, 動 T, 21⁸, 307⁸.
प्रोत्साहना 勸發 ST, 誘進 SWT, 勸令 T, द्वृक्षुद्वृक्षमाद्येद्याद् (122a), 139¹⁵, 241^{3 6}, 243⁷.
प्रति 高下 SWT, 113⁶.
प्रोति (connection), 240¹².

फ

फणा 頭 SWT, द्वृष्टि (137a), 174⁷.
फल 果 WT, द्वृष्टिसु (68a), 18¹, 28³, 36^{8 16}, 40^{14 17}, 41¹¹, 46⁶, 55⁶, 58⁹, 65^{9 10}, 91¹⁶, 121^{3 4}, 159^{13 15}, 168¹⁰, 279⁴, 285¹³, 291¹³, 292⁶, 299⁶, 301^{10 14}, 306¹⁷, 307⁷, 314⁶, 328^{15 16 17}, 351¹⁶; -पत्र 果葉 WT, द्वृष्टिसुप्त्याम (186b), 307¹¹; -पद 果句 ST, 果見 W, द्वृष्टिसुप्त्याम (75a), 36⁶; -पुष्पाद् 果諸華等 W, द्वृष्टिसुप्त्याम (189a), 46⁶, 314⁶; -प्राप्ति 得果 WT, द्वृष्टिसुप्त्याम (184a), 299⁶; -हेतु 因果 WT, द्वृष्टिसुप्त्याम (201a), 351¹⁵.
फालित 甘蔗汁 W, द्वृष्टि (169b), 250².

ब

बधि 聲 WT, द्वृक्षुभूष (204b), 362⁴; -त

聲 SWT, 102⁸ (वधिर in text), 362⁴, 374⁶.
बड़ 紡 SWT, द्वृतेष्याद् (73a), 24⁶, 32¹⁴, 154³, 326².
बध (for बध), 361⁴.
बन्ध 紡 SWT, द्वृतेष्याद्युपाद् (118a), 129¹¹, 146⁹ (bis) 10, 162¹², 296², 361⁷ (bis); -न 紡 SWT, द्वृष्टिय (118b), 130¹³, 186², 268⁶, 301⁷, 303¹⁶; -वत् 紡 WT, द्वृक्षम् (179a), 282²; -हेतु 紡因 WT, द्वृतेष्याद्युपाद् (125a), 129¹¹, 146¹⁰, 361⁷; -अबन्ध-विकल्प 紡不縛妄想 S, 紡不縛分別 W, 紡解分別 T, द्वृतेष्याद्युपाद्युपाद्युपाद् द्वृतेष्याद् (117a), 128⁷, 129¹⁰.
बन्धु 六親 S, 六親眷屬 W, 眷屬 T, द्वृतेष्याद्युपाद् (170a), 245¹⁴, 251²; -हेतु 紡及因 W, 紡因 T, द्वृतेष्याद्युपाद् (शु) (179a), 282².
बन्धू-भूत 親屬 T, 常爲眷屬 W, द्वृतेष्याद्युपाद् द्वृतेष्याद् (167b), 245^{13 14}.
बन्ध 所縛 WT, द्वृतेष्याद् (118a), 129¹¹, 146⁹ (bis), 186², 268⁶; -बन्ध-हेतु 能縛所縛因 W, 與縛縛因 S, 能縛及縛因 T, द्वृतेष्याद्युपाद् द्वृतेष्याद्युपाद् (125a), 146⁶.
बन्धा (see under बन्धा).

बल 力 SWT, द्वृष्टि (61a), 1¹¹, 29¹⁰, 30¹, 42¹⁶, 45^{9 13}, 48¹⁶, 73¹⁰, 81¹³, 120⁹, 126², 160¹⁵, 204⁸, 227², 231¹¹, 269⁹, 273⁷, 276¹¹, 341¹, 353¹⁰, 372⁸; -आधान 增長力

W, 力 T, द्वृक्षुद्वृक्षमाद् (207a), 372⁹; -वशिता-अभिज्ञान 自在神通 S, 自在神力 W, 力通自在 T, द्वृष्टि द्वृष्टि द्वृष्टि द्वृष्टि द्वृष्टि द्वृष्टि (96a), 81¹³.
बलि 力者 W, 大力者 T, 192¹⁶.
बलिन् 婆梨 W, 婆離 W, 福力 T, द्वृक्षुद्वृक्षमाद् (205b), 367^{1 2}.
बली-वर्द 牛 W, द्वृष्टि (168a), 246⁶.
बहिर् 外 WT, द्वृतेष्याद् (128b), 154⁴, 273⁴, 302², 326⁸.
बहिर्द्वा 外 SWT, द्वृतेष्याद् (125a), 61¹³, 146^{4 6}, 179¹², 234¹, 273¹⁰, 277¹⁶, 281⁴, 298¹, 326^{3 8}, 352⁹, 367¹¹, 374⁹.
बहु 多 64⁶, 119¹¹, 167⁸, 198¹⁰; -जन 衆生 W, 多 SWT, द्वृतेष्याद् (99b), 89^{13 14}, 150^{2 8}, 247^{8 16}; -त्र 多性 S, 多體 WT, द्वृतेष्याद् (145a), 192⁴ (bis), 198¹⁰; -त्वता 344¹²; -धा 312², 329¹⁶, 366^{5 7 8}, 10¹⁰; -रूप-धर (possessing many forms), 4^{2 4}; -रूप-विकारता 隨形應物 T, द्वृतेष्याद् (66b), 15¹³; -ल 249⁹, 250⁸; -श्रुत 多聞者 S, 多聞人 W, 多聞 T, द्वृतेष्याद् (147a), 197².
बाधक 破壞 W, द्वृतेष्याद् (103b), 360⁴.
बाल 愚癡凡夫 SWT, 愚 ST, 凡夫 SWT, 愚者 SW, 愚夫 T, 毛道凡夫 W, द्वृतेष्याद् (63b), 9⁵, 11², 14⁴ (बल in text), 17^{10 12 14}, 18¹⁶, 19¹, 20¹², 40⁹, 41¹⁴, 47¹¹, 48¹⁶, 57¹⁵, 62^{11 14 16}, 65¹², 69¹⁰, 72⁸, 73^{8 10}, 77^{1 9}, 78⁹, 83⁷, 85², 88⁹, 91¹²,

92¹³, 93¹¹, 94^{12 16 17}, 95^{15 16}, 96⁹, 102³, 105⁸, 106¹¹, 107^{7 11}, 108⁶, 109⁹, 110¹¹, 113¹⁴, 118³, 125⁶, 129¹⁷, 135⁶, 149⁴, 152², 16¹, 156¹, 162¹⁴, 163⁶, 167¹²(bis) 17, 168¹², 169¹², 170¹, 171¹, 172¹⁴, 173^{10 11 15 15}, 174³, 181³, 186^{15 17}, 192¹⁰, 193⁸, 196¹², 199^{12 15}, 200¹⁰, 203³, 204³, 212¹⁰, 213¹⁵, 219², 220⁴, 222¹², 223¹¹, 225^{3 5 7 17}, 231¹¹, 236^{7 14}, 237¹⁰, 238⁹, 242⁹, 265⁸, 266^{11 15} 17, 267^{2 8}, 269⁹, 270^{4 7 8}, 271², 272⁴, 273¹¹, 274¹⁵, 275⁴, 276^{8 9}, 277⁴, 279^{9 16}, 281¹⁴, 282¹¹, 284⁶, 285⁴, 287¹⁰, 288^{8 11}, 291⁹, 292¹⁰, 293², 296², 297⁴, 300⁹, 312¹³, 315¹⁰, 316¹¹, 319¹², 320¹¹, 321^{5 7}, 322¹², 323¹⁴, 324¹⁶, 326⁶, 328^{11 12 14}, 332^{7 8 12 15 16}, 333⁹, 336¹⁵, 337⁷, 339¹⁴, 340¹³, 342^{1 10 14}, 353^{4 12 18 16}, 356¹¹, 361^{10 12}, 362², 370^{3 6}, 372⁴, 373⁷; -जातिक 愚癡種 W, 愚癡 T, 繼^{श्री} द्वय-द्वय-विनाशक्ति (195b), 333⁹; -जातीय 愚夫 S, 愚癡凡夫 WT, 小兒 T, 繼^{श्री} द्वय (148b), 196⁹, 199⁷; -पृथग्-जन 愚夫 ST, 凡夫 W, 凡愚 ST, 愚癡凡夫 W, 無智之人 T, 繼^{श्री} द्वय-संदर्भ-क्षेत्र (97a), 40⁹, 41⁴, 62^{11 14}, 84², 90^{2 6}, 91⁶, 94¹⁷, 102¹, 111⁷, 112⁴, 119⁴, 129¹⁴, 152⁴, 157⁹, 159⁹, 161¹⁴, 162¹, 163¹⁶, 164^{7 9}, 165⁴, 171¹⁰, 188¹⁴, 196⁹, 206⁴, 207⁷, 218¹¹, 230^{6 17}, 232¹, 233¹¹, 235³, 236¹, 242^{6 16}, 252¹²; -पृथग्-जन-गोच 愚夫種性 S, 能生凡夫性 W, 凡夫種性 T, 繼^{श्री} द्वय-संदर्भ-क्षेत्र-क्षेत्र (108a), 107³; -प्रलाप 愚夫戲論 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता-क्षमता (108a), 107³; -आवक-प्रवेक-बुद्ध-नीर्य 242⁸; -उपचारिक 愚夫所行 ST, 愚癡凡夫所行 T, 凡夫所行 S,

凡夫等行 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (108a), 97^{7 11}, 98⁴, 284⁹.
बालिश 凡夫 SWT, 愚夫 S, 凡愚 T, 繼^{श्री} द्वय (80a), 27³, 47^{4 14}, 186¹¹, 190¹⁷, 238¹³, 269², 311⁷, 315^{9 10}, 318¹⁴, 327^{7 10}, 328⁹, 329^{8 11}, 332³, 341¹, 346⁶, 357¹, 365¹⁴.
बालुका (see under बालुका).
बाहिर 外 WT, 203¹⁵, 294⁴, 327¹¹, 340⁴.
बाहु-श्रव्य 多聞者 SWT, 繼^{श्री} द्वय-श्रव्य (174a), 197^{3 6}.
बास 外 SWT, 繼^{श्री} (68a), 18¹ (बास in text), 42^{2 10}, 58⁷, 61^{9 11}, 62⁵, 67^{11 12}, 73⁶, 81¹, 82^{14 15}, 83^{1 10 12}, 90^{2 11}, 97¹³, 104⁶, 108⁴, 124^{6 7 9}, 139¹⁴, 139⁶, 150¹⁴, 151¹⁷, 154⁶, 159¹⁶, 162⁴, 166¹, 169², 171¹, 176², 177¹⁰, 178^{11 13}, 180⁷, 183¹¹, 186¹⁶, 188³, 197¹⁷(bis), 233¹⁵, 236¹⁴ (बास in text), 285^{2 4}, 291¹⁸, 292⁷, 293¹¹, 296³, 298¹⁵, 316⁷, 317^{1 5}, 326^{4 10}, 327⁹, 342¹⁰, 355¹², 375⁴; -द्रव्य 外事 S, 外境界 W, 外法 T, 170¹⁴; -बुद्ध-क्षेत्र-दार्याभिसमय-गोच 外刹殊勝無間種性 S, 外諸國土勝妙莊嚴證法性 W, 外諸佛刹廣大法 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता-क्षमता-क्षमता-क्षमता-क्षमता-क्षमता-क्षमता (101b), 94⁸; -पद 像句 S, 像見 W, 影像句 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (74b), 36¹.
बीज (बीज in text), 種子 SWT, 種 WT, 繼^{श्री} (68a), 18³, 45⁴, 68¹⁴, 82¹¹, 83¹², 86¹¹, 90¹³, 95¹², 183¹, 203¹⁵, 238¹⁰, 265⁵, 271¹, 275^{6 8 10}(bis), 294¹², 295¹⁴, 313¹⁶, 316¹⁷, 317⁶, 327⁴, 340¹, 366⁷, 369⁷, 371¹¹; -क 子 W, 種 T, 繼^{श्री} (177a), 275^{4 7 9}.
बाधाव 外性非性 S, 外境無物有物 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (158b), 73¹, 80^{1 18}, 81¹⁷, 84¹¹, 88², 108⁴, 111⁸, 123¹⁴, 171¹, 225³; -मध्यात्मिक 內外 ST, 內

外法 W, 內及外…法 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (135a), 169², 292⁷; -विचिचार्य 外種種義 ST, 外種種境界 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता-क्षमता (127a), 150¹⁴, 151¹.
बात्यार्थ 外種種義 ST, 外種種境界 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता-क्षमता (127a), 151¹, 178², 284¹⁴; -दर्शन 見外…境 W, 見外境 T, 見外義 W, 見諸外境 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (180a), 284¹⁴, 285²; -हृषि 外義邪見之相 W, 外見 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता-क्षमता (64a), 10⁷.
विकृ (विकृ in text), 色像 SWT, 像 ST, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (79a), 36¹, 42¹⁵, 44¹⁰, 94^{1 2 3}, 96¹¹(bis), 97⁸, 125¹¹, 137⁵, 223¹⁶, 287¹⁴, 289¹¹(bis), 294¹², 304¹⁵, 327⁶, 342¹¹, 353¹, 369¹⁶; -आकृति 像想 ST, 見像有無 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (101b), 94⁸; -पद 像句 S, 像見 W, 影像句 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (74b), 36¹.
बीज (बीज in text), 種子 SWT, 種 WT, 繼^{श्री} (68a), 18³, 45⁴, 68¹⁴, 82¹¹, 83¹², 86¹¹, 90¹³, 95¹², 183¹, 203¹⁵, 238¹⁰, 265⁵, 271¹, 275^{6 8 10}(bis), 294¹², 295¹⁴, 313¹⁶, 316¹⁷, 317⁶, 327⁴, 340¹, 366⁷, 369⁷, 371¹¹; -क 子 W, 種 T, 繼^{श्री} (177a), 275^{4 7 9}.
बुद्ध 佛 S, 如來 WT, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (63b), 5^{6 8}, 63⁷, 7⁵, 8¹⁷, 9^{9 10}, 10², 161², 23^{5 13}, 26¹⁴, 28³, 29^{9 10 14}, 31¹², 34^{2 3 10}, 37⁴, 43¹⁵, 49³, 50^{4 15}, 70¹(bis) 4¹⁴, 73^{2 3}, 77⁴, 98¹⁸, 100¹¹, 107¹¹, 121¹, 140⁶, 141^{14 15}, 144¹³, 145¹⁴, 146³, 147⁸, 160³, 161³, 192¹⁴, 194^{7 12}, 195¹.

10¹¹, 198⁸, 213¹⁴, 215¹⁰, 219⁵, 222², 228², 229¹⁴, 232⁷, 233⁸, 234⁶, 239⁹, 243⁴, 257¹⁴, 258^{6 15}, 260¹, 266⁷, 269², 274¹³, 278⁸, 282⁴, 283⁴, 289⁶, 290¹⁰, 293¹³, 294⁵, 296¹², 301¹⁰, 304^{14 11}, 306^{6 7}(bis) 1⁸, 309¹⁷, 311¹⁵, 313^{9 11 16 18}, 314³(bis), 316¹⁵, 317¹⁶, 318^{13 16}, 320², 323⁷, 324⁸, 326⁶, 331¹⁶, 338⁹, 343^{3 6}, 344⁴, 348⁷, 352³, 358⁹, 361^{15 17}, 362², 363¹², 369¹¹, 271¹¹; -कर 佛手 T, 如來身手 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (207b), 373¹⁴; -करादित्य 佛妙光明 W, 諸佛(以不思議)手 S, 諸佛(真如)手 W, 無量佛光明手 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (103b), 98¹², 310¹⁰; -क्षेत्र 諸佛刹 S, 佛土 W, 佛國土 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (69b), 1⁹, 16⁴, 22², 70¹, 72¹⁵, 105^{4 6 10}, 137⁶, 241⁵; -गण 佛衆 W, 佛德 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (189a), 314³; -ज्ञान 佛智 W, 佛…智 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (184a), 299⁸; -हा 佛之知覺 S, 如來如實知覺 W, 佛體性 T, 佛正覺 S, 佛體 T, 法身 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (163a), 30¹, 140^{10 13}, 234⁴, 274¹³; -त 正覺 ST, 阿耨多羅三藐三菩提 W, 佛地 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (164a), 236¹⁷, 243⁶, 294⁵, 311¹⁵; -दर्शन 見諸佛 W, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता (182b), 294⁸, 313¹⁶; -धर्म 覺法 S, 真法(身) W, 佛法 SWT, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता (63b), 9⁷, 133⁸, 135¹¹, 137⁸, 213¹⁴, 214⁸, 215³, 222¹, 224⁹, 228², 229², 233⁸, 313¹⁴, 321¹⁷, 360⁴; -धर्म-काम 樂法人 T, 繼^{श्री} द्वय-क्षमता-क्षमता-क्षमता

(167b), 245¹⁰; -धर्म-आकृति-स्थिति 佛法真實體 w, 見佛聞法 T, 9⁷; -धर्म-आलय 213¹⁴; -प्रत्येक-बुद्ध-आवक-बोधिसत्त्व 194¹²; -नेत्री 正法 ST, 諸佛正法 w, 70¹⁴; -प्रभापि=ष्ट 諸佛得名 w, 名如來 T, 362¹; -प्रमाणता 佛量 S, कृत्तुश्चार्हुङ्ग (161a), 229¹⁰; -प्रसङ्ग 198¹; -प्रसाद 諸佛因 w, 佛威力 T, कृत्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्ड (182a), 292¹⁵; -विभूति (विभूति in text), 佛像 WT, कृत्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्ड (176b), 273¹², 304¹⁵; -कु=इता 佛陀佛陀 S, 法身之相 w, 正等覺體 T, यद्यपि नामाद्युपास्य एवं कृत्तुश्चार्हुङ्ग (144a), 190¹; -बोधय 覺所覺 SWT, यद्यपि नामाद्युपास्य एवं (70a), 23¹; -बोधिसत्त्व 157¹¹, 194⁷; -भूमि 佛地 SWT, 如來地 w, कृत्तुश्चार्हुङ्ग (63a), 8¹, 10¹, 43⁴, 215⁹, 278⁷, 295¹, 296¹⁶, 299¹, 310¹, 318¹¹, 375²; -भेद 佛…差別 w, कृत्तुश्चार्हुङ्ग (188b), 313¹¹; -माहात्म्य 如來…無量功德 S, 如來…諸境界 w, 如來…諸大功德 T, 212¹⁷, 293¹³; -यान-गोच 佛乘種性 ST, 能生佛乘性 w, 佛 w, कृत्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्डमार्हुण्ड (108a), 108²⁴; -रूप 佛身 SWT, कृत्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्ड (92a), 73²; -वंश 佛種 SWT, कृत्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्ड (14b), 195^{13 14}; -वचन 佛說 ST, 佛言 w, कृत्तुश्चार्हुङ्गमा

(128b), 143^{2 3}; -आवक-प्रत्येक-बुद्ध-佛聲聞緣覺 S, 如來…聲聞緣覺 w, 聲聞緣覺及以如來 T, तिर्त्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्डमार्हुण्डमार्हुण्ड (125a), 145¹⁴; -आवक-प्रत्येक-बुद्ध-बोधिसत्त्व 195¹¹; -आवक-प्रत्येक-बुद्ध-वैनाशिक 佛聲聞緣覺是壞者 S, 滅聲聞辟支佛法 w, 壞如來聲聞緣覺 T, तिर्त्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्डमार्हुण्डमार्हुण्ड (125a), 146⁷; -सुत �佛子 WT, 5⁹; -सुतभूमि 佛子地 SWT, तुथ्यमार्हुण्डमार्हुण्ड (90b), 70¹; -हेतूपदेश 教導者 T, 佛體者…因者 w, कृत्तुश्चार्हुङ्गमार्हुण्डमार्हुण्डमार्हुण्ड (145a), 193²; -अधिष्ठान 197⁹; -अनुवर्णित 諸佛所說 SW, 先佛所說 T, 34¹⁰.

तुडि 覺 SWT, 覺知 S, 智 W, 解 T, विज्ञ (111b), 9¹³, 10^{1 2}, 11¹⁷, 13¹, 35¹⁵, 47^{10 11}, 51¹¹, 60¹⁵, 63^{14 17}, 64², 87¹¹, 99¹¹, 107^{4 5}, 114^{1 10}, 115¹⁰, 116⁹, 122¹ (bis) ³ (bis) ^{6 10} 14¹⁵ (bis), 123¹, 128¹, 129¹⁷, 132¹⁸, 145⁶, 155², 160¹¹, 161¹, 162¹² (तुडि in text), 166⁴, 167¹⁰, 168⁴, 170⁶, 174^{4 16}, 178¹¹, 183^{2 8 10 15}, 184⁷, 185¹², 187¹⁰, 189⁴, 190⁷, 193¹⁷, 200¹⁴, 204¹, 207¹⁰, 213³ (तुडि in text), 214^{1 2}, 219^{1 3 7}, 221¹⁰, 223^{1 7}, 228¹¹, 234², 264¹⁴, 265¹⁷, 272¹⁴, 287¹, 312^{16 17}, 315¹⁰, 328¹⁰, 340¹¹, 344^{2 3 7}, 3 5¹⁷, 349⁷; -पद慧句 S, 智見 w, 覺句 T, विद्येष्ठेष्ण (74b), 35¹⁴.

तुडक 泡 SWT, वृक्ष (101a), 92^{12 14}.

तुध 明智 ST, 智 W, मौष्मान्तिक (131a), 160⁵, 266¹⁷, 289⁶, 299¹³, 304⁹, 349¹⁴.
तुभुत्सु (wishing to know), 欲得 W, 5¹⁷.
तृहस्ति (तृ० in text), (name of a philosopher), 366¹¹.
त्रोधक 他覺 w, 無覺(自)他 T, मृत्युं त्रोधकम् (198b), 344⁴.
५ बोधव 所覺 ST, 所見 w, 可見 w, विद्याद्युपास्य (141a), 23⁴, 183⁴, 187¹⁰, 189¹⁴, 190⁷, 264¹⁴, 272¹⁴, 344^{2 7}.
बोधि 菩薩 w, 菩提 T, विद्युत्तम (114a), 120¹³, 294⁶ (for बोधिसत्त्व) ⁶; -पद्म 菩提分 SWT, 覺分 T, विद्युत्तमार्हुण्ड (70b), 25¹²; -पद्म 142¹¹; -पाश्चिक 道品 S, 菩提分 w, विद्युत्तमार्हुण्ड (153a), 213⁷; -पाश्चिक-धर्म-विभाग 入道品法 S, 入…菩提分法 w, 具菩提分法 T, विद्युत्तमार्हुण्ड (153b), 213⁷; -सत्त्व (see also म=हासत्त्व) 菩薩 SWT, विद्युत्तमार्हुण्ड (92a), 12^{8 9 10}, 13⁹, 16⁸, 43^{15 18}, 49¹¹, 50¹⁴, 66⁵, 73⁴, 100⁶, 139¹², 148⁹, 194¹², 195¹¹, 212^{13 14}, 214², 228³, 255¹³, 258⁶, 283³, 304¹⁴, 309¹⁷; -सत्त्व-चर्या 菩薩行 SWT, विद्युत्तमार्हुण्ड (165b), 241^{3 4}; -सत्त्व-पर्षद 菩薩衆 W, 13⁹; -सत्त्व-महासत्त्व 菩薩摩訶薩 SWT, 13¹⁶; -सत्त्व-पिटक 菩薩藏 SWT, विद्युत्तमार्हुण्ड (83b), 66³; -सत्त्व-भूमि 69¹⁴, 101⁵, 213¹⁶, 214¹⁸, 221¹⁸, 226^{14 18}, 244⁹; -सत्त्व-आवक-प्रत्येक-

तुड 211²; -सत्त्वाधिष्ठान 菩薩化神力 S, 菩薩…神力 w, 菩薩…神通力 T, विद्युत्तमार्हुण्ड (122b), 139¹²; -सत्त्वेच्छनिक 菩薩一闍提 SWT, विद्युत्तमार्हुण्ड (89a), 66^{11 17}; -अङ्ग उभ支 SW, 菩提分 T, विद्युत्तमार्हुण्ड (70b), 25¹², 30².
बोध 344³.
ब्रह्म (न) 梵天王 ST, 梵天 w, 妙淨 ST, 真淨 w, 梵王 T, विद्युत्तम (61a), 24¹¹, 137⁹, 134^{11 16}, 153⁹, 209¹⁷, 210¹, 325⁹, 329¹⁸, 366¹², 367^{8 11} (bis); -काय 梵天 w, 梵 T, विद्युत्तमार्हुण्ड (194a), 329¹⁸; -चर्ये 梵行 SWT, विद्युत्तमार्हुण्ड (87b), 63¹³, 362⁵; -त्र 梵天 SW, 梵世 T, विद्युत्तम (164b), 237⁸; -यान 梵乘 SWT, विद्युत्तमार्हुण्ड (120b), 134¹⁶, 322¹³; -शत 梵衆 WT, 367¹¹; -स्त्र 梵音 S, 梵聲 w, 梵音聲 T, 142^{1 4 5}; -स्त्र-रूत-योष 梵音聲性 ST, 梵聲美妙 w, विद्युत्तमार्हुण्ड (128a), 142⁶; -आदिस्थान-पर्खन 梵天為樹根 S, 三界上下法 w, 梵天等諸佛 T, विद्युत्तम विद्युत्तमार्हुण्ड (152a), 209¹⁷; -इन्द्र 帝釋梵王 w, 梵釋天 T, विद्युत्तमार्हुण्ड (66b), 15¹⁴.
ब्राह्मण 婆羅門 SWT, विद्युत्तम (77a), 40¹³, 41¹⁶, 176^{13 15 16}, 177⁶ (bis) ⁷ (bis) ^{9 12 17} 19, 178^{1 2 4 7 10 17 18}, 179^{3 5 7 10}, 192¹⁴ (ब्र=

सर्व in text), 258^a; -रूप 婆羅門 SWT, श्रुतिरूपमृश (139b), 179^a.
त्राय ज्ञात्...婆羅門 W, 實...婆羅門 W, 清淨行 T, कृष्णदर्शन् दर्शन (168b), 247^{11 14}.
त्रुवत् (speaking), 145^a, 146^a, 151^{11 12}, 163^a.

भ

भ (likeness), 366^a.
भक्त 食 WT, 因果 (207b), 309¹⁰, 373^{9 10}.
भक्त्य (to be eaten), 173^a.
भक्ति 尊重 W, 尊敬 T, कृष्णदर्शन (63a), 71^a.
भक्त (food), 308¹².
भक्तण 食 W, 三身 (171a), 254¹², 256¹², 257¹³, 259^a.
भक्तयत् (eating), 253^a.
भक्त्यमाण (भक्त्यमाण in text), 食 WT, 三身 (169b), 244¹⁴, 245^a, 256¹¹.
भक्तिवत् (ate), 251^a.
भक्ष्य (to be eaten), 245¹⁰, 246^a.
भगवत् 世尊 SWT, 諸佛 WT, 一
分 W, एतमाहर्वदर्शन (69b), *passim*.
भगिनी 姊妹 W, शशी (167b), 245¹².
भज्ज 滅 SWT, भूषण (69b), 22^a, 40¹⁰, 42^a, 43^a, 62¹⁰, 72¹⁰, 79¹⁰, 80¹⁰, 81¹⁰, 85^a, 90¹⁰, 94¹⁰, 95^a, 149^a, 161^a, 168¹⁰, 181^a, 198¹⁰, 199¹⁰, 205^a, 225¹⁰, 234¹⁰, 238¹⁰, 264^a, 274¹⁰, 276^a, 291^a, 294¹⁰, 309^a, 323¹⁰, 334¹⁰, 338^a, 356^a; -उत्पाद 276^a; -उत्पाद-

वादिन 生滅論者 ST, 生滅見 W,
कृष्णदर्शन (149a), 201^a; -उत्पाद-
स्थिति 225¹⁰; -उत्पादानुवादिनी प्रा-
विक्षण W, कृष्णदर्शन-कृष्णदर्शन (197a),
338^a.

भजित्य (to be shared), 174¹⁵.

भज्मान 分別 SW, 分析 T, 54¹⁵.

भय 恐怖 S, 生驚怖 W, 咸驚怖 T,
कृष्णदर्शन (149a), 61¹⁰, 183^a, 201^a, 246¹⁰,
257^a, 338^a.

भव 生 SWT, दर्शन (97b), 11^a, 30^a,
33^a, 40¹⁰, 45¹⁰, 64^a, 66^a, 69^a, 88^a, 119^a,
153^a, 163^a, 184¹⁰ (bis) 14, 184¹⁴, 230¹⁰,
232¹¹, 237^a, 255¹⁰, 266¹⁰, 270¹¹, 273^a, 296¹⁴,
300^a, 309¹⁰, 310^a, 319^a, 322^a, 325^a, 330¹⁰,
335^a, 336¹⁰, 346^a, 349^a, 355¹⁴; -चय

三有 ST, 三種 W, श्रीदर्शन-मण्डल
(77a), 40¹⁰; -हृषि 有見 SW, 見諸
有 T, दर्शन-दर्शन (70b), 251^a; -न
天宮 S, 天 W, 宮 T, दर्शन (81b),
23¹¹, 4^a, 17¹⁰, 51^a, 56^a, 102^a; -अभव 有
無有 SWT, श्रीदर्शन-दर्शन-श्रीदर्शन-मण्डल
(141b), 184¹⁰; -आलय 三有 W, 諸
有 T, 有 W, श्रीदर्शन-मण्डल (190b),
319^a, 330¹⁰.

भवित्य (should be), 67^a, 68^a, 77¹⁰, 79^a,
84¹⁰, 88^a, 123¹⁰, 194¹⁴, 195^a, 196^{10 14}, 223¹², 229⁴.

भविष्यत्-धेतु 當有因 ST, 當因 T,
83¹⁰.

भाग्य (welfare), 367^a.

भाजन 素 ST, 器 SW, 器世間 T, दर्शन
(80b), 48¹⁰, 68¹², 313¹² (अभाजन in

text), 816^a, 325¹².

भार ध器 SWT, दर्शन (83b), 55^a, 78¹³, 96¹⁰,
102^a, 203¹⁰, 289¹⁰.

भारत 婆羅多 T, दर्शन-दर्शन (204b),
362¹⁰.

भाव 性 S, 有 SWT, 分 S, दर्शन-दर्शन
(86a), 17¹⁴, 19¹¹, 22¹³, 28¹², 39^a, 40^a, 41²
(आभाव in text) 4, 47^a, 52⁷, 53^{8 12},
56¹², 58^a, 60^{4 6 12 14}, 61^{14 9 10 11}, 62^a, 64^a,
71^a, 72^{4 6 9 10 14}, 74^a, 75¹³ (bis) 14, 76^{4 6}
(bis) 11, 77^a, 80¹⁰, 81¹⁷, 82², 88¹⁶, 88², 90²
8¹¹, 91^a, 92^{5 9 11 11}, 93^{8 9}, 94^{7 11}, 95¹⁴, 96¹²,
97^a, 99², 103^{11 12 14}, 104^{10 12 13} (bis) 14
(bis) 15, 105^{8 13} (bis) 16, 106^{9 10 13}, 108⁶
(भावन in text) 11, 109^a, 110^{7 12 15}, 111^{1 2 4 9 10 13 15 16 17}, 112^{3 4}, 115¹⁴, 116¹, 120⁴,
122⁸, 124¹³, 125⁷, 127^a, 128^{10 11}, 129^{7 4},
130¹⁵, 131^{10 13} (ter), 132^{9 10} (bis) 11 (bis),
136¹⁴, 145^{8 9 12 13 15}, 146¹⁰, 149^a, 151⁹ (bis)
8^{14 17}, 152³, 153^{2 5 6} (bis) 12 16 (bis), 156⁷,
158^{12 13} (अभाव in text), 159^{2 9 10 18},
160^a, 162^{4 8}, 163^{11 12 17}, 164^{12 23 8} (bis)
9 11 13 (bis) 15 16 17 (bis) 16, 165¹⁴ (bis) 15 16,
166^{1 4 16 17}, 167^{2 9 11}, 168^{2 7 9 16 18}, 169^{1 8}
10 17, 170^{11 13 15}, 171^{2 12}, 174^a, 176², 177¹⁰
13, 178^{1 11}, 181^{2 16}, 183¹², 184^a, 188^{9 10 11},
189^a, 190¹², 192⁶ (bis) 8 (bis), 194², 195⁷,
197¹⁷, 198^{1 14 17}, 199^{1 2} (bis) 11 14 17 18, 200^{11 12 14},
201^{8 11 15}, 202^{4 11 13}, 203^{8 7 16}, 204¹,
205^{8 7} (bis) 9 10 17, 206^{2 3 5 7} (ter) 10 12 (bis)
13 14 15, 206^{2 3 5 7} (ter) 10 12 13 (bis) 14 15 17,
208^{3 7 11}, 209^{2 10 11 14}, 211¹³ (bis), 212¹⁰,
235^a, 238¹⁴, 243¹⁰, 245¹⁴, 266¹⁴, 267^{6 12},
269¹⁰, 270¹⁰, 272^{8 10}, 273^a, 274³, 275^{1 5 14}
15, 276¹, 277⁸ (bis) 4, 280^{11 13}, 282¹¹, 287⁴
8 10, 289^{2 8 12}, 290², 292^{4 8 10}, 293^{1 3}, 294⁴,
295¹⁰, 296¹⁰, 297⁴, 300², 301¹⁴, 302⁵,
304^{2 10}, 305² (bis), 310^{12 14}, 311^{14 7}, 312¹⁷,
313¹ (bis) 2 13, 315⁴, 319^{8 13 14}, 322⁹, 323¹⁴,

324¹⁰, 325^{2 4 10} (bis), 327¹⁴, 328^{4 7}, 329^{2 6}
14, 330^{5 17}, 331¹⁷, 332^{1 6 7 8 10 12 14} (bis)
16 17, 333^{7 9 14}, 335¹¹, 336¹, 337^{8 9 11}, 338^{7 7}
8 18, 339^{7 9 15 18}, 340^{9 11}, 342^{12 14}, 345¹⁵,
346¹⁰, 349^{8 4 7} (bis) 11 16, 350^{2 14}, 351⁹ (bis),
352⁴ (bis) 12, 353⁹, 354², 356⁹, 358⁴, 359¹⁴,
361¹⁰, 369^{2 10}, 370^{8 9}, 374¹²; -क 有法
WT, दर्शन (190b), 319^a; -ज (भाजन
in text), 生 W, 所生 T, दर्शन (192b),
158¹², 325¹²; -ना 法體 W, 自性 T,
दर्शन-त्रिद (195a), 328^{8 7}, 332⁶, 333¹⁴; -त
所有 T, 如是相 W, दर्शन-त्रिद (176
a), 272¹⁰; -न 246⁹, 254¹²; -ना 修 WT,
82¹¹, 140¹, 155¹, 159¹⁷, 254^{12 16}; -लिङ्ग-
लक्षण-यश-स्वान-क्रिया-योग-
वत् 性形相處所作方便和合 S,
依形相大小上下容貌而生諸法
W, 有法有形相 T, दर्शन-दर्शन-
मक्तु-म-दर्शन-मक्तु-त्रिद-दर्शन-
दर्शन-प्रवृत्त-प्रणाली-त्रिद-दर्शन-
(115b), 124¹²; -विकल्प-स्वभाव-अ-
भिनिवेश 性妄想自性計著 S, 分
別執著自性相 T, 執著虛妄相
分別有物 W, दर्शन-दर्शन-कृष्णदर्शन-
कृष्णदर्शन-विकल्प-अ-मक्तु-दर्शन-
(85a), 58^a, 59¹, 59²; -स्वभाव 性自
性 SWT, दर्शन-त्रिद-स्वभाव (76b),
39^{9 10}, 40², 275^{10 16}; -स्वभावभाव-
निर्वाण 性自性非性涅槃 S, 自
體相涅槃 W, 諸法自性無性涅
槃 T, दर्शन-दर्शन-विकल्प-अ-
कृष्णदर्शन-त्रिद-प्रश्ना-प्रश्ना-
(116b), 126⁷;

-स्वभाव-परमार्थ-हृदय 性自性第
一義心 SW, 法自性第一義心 T,
दर्शक यदि-दर्शन विना-दर्शन दर्शन
दर्शन-विना-दर्शन (77a), 40^a; -स्वभाव-शू-
न्यता 性自性空 S, 自性空 T, 自
體相有物無物空 W, 一切法有
物無物空 W, दर्शक यदि-दर्शन विना-
दर्शन-विना-दर्शन (92b), 74^a 14^a 15^a 16^a; -स्वभाव-
बोपदेश 性自性相 S, 法體有無 W,
दर्शक यदि-दर्शन विना-दर्शन दर्शन (138b),
165^a; -अन्तर अ異物 W, 351^a; -अभाव
性非性 S, 有非有 T, 有無 W,
दर्शक दर्शन-दर्शन मेद (194a), 40^a, 53^a,
56^a, 60^a 61^a, 61^a 62^a, 62^a, 72^a, 81^a, 84^a,
105^a 10, 146^a, 146^a, 161^a, 168^a, 330^a, 370
11, 373^a; -अभाव-समन्वय 性非性
平等 S, 有無法平等 W, 有無悉
平等 T, दर्शक दर्शन-दर्शन मेद मुक्तिमय
(135a), 168^a, 292^a.
भावित 非性 S, 無實體 W, दर्शक यदि-
मेद दर्शन (133b), 2^a, 163^a, 223^a, 284^a, 293^a,
363^a.
भावित्व (see भावित), 166^a.
भाविनाम 法性 T, 法 W, 17^a.
भाव 可觀 W, दर्शक यदि (175b), 370^a.
5 भाषत् (describing), 256^a.
भाषित 我說竟 W, 說 T, एवं दर्शन
(200a), 16^a 14, 75^a, 141^a, 215^a, 278^a,
283^a.
भाष ऋ說法 W, एवं दर्शन (179a), 283^a
(bis) 11.

भाष्य 說 ST, एवं दर्शन (164a), 43^a, 286^a,
351^a.
भासुर (for भास्त्र), 清淨 WT, दर्शक यदि
(207b), 372^a.
भास्त्र 日 SWT, दर्शक (71a), 26^a, 27^a,
29^a, 36^a, 46^a, 47^a, 98^a, 192^a, 273^a, 274^a,
305^a, 314^a, 315^a, 330^a.
भास्त्र 清淨 WT, दर्शक यदि (203a),
357^a, 372^a.
भिषुसु 比丘 SWT, दर्शक (71b), 1^a,
28^a, 37^a, 75^a 14 (bis), 286^a, 309^a, 331^a;
-कर्मन् 比丘業 W, 比丘應羯磨
T, दर्शक यदि (203b), 360^a; -कार्य
比丘法 W, 比丘事 T, दर्शक यदि
(194b), 331^a; -त्र 比丘 SWT,
दर्शक (72b), 34^a, 239^a, 368^a; -पद 比
丘句 ST, 比丘見 W, दर्शक यदि क्षण
(75b), 37^a; -भाव 比丘分 S, 28^a;
-भिषुणि-संसृष्टि 比丘雜等衆 W,
僧尼和雜處 T, दर्शक यदि दर्शन
दर्शन दर्शन (187a), 309^a; -वर्ग 比丘衆
W, 諸比丘 T, दर्शक यदि (199b),
347^a.
भिषुणी 比丘尼 WT, दर्शक यदि 308^a,
309^a (परि metri causa).
भिति 壁 WT, दर्शक (69a), 20^a.
भित्र 各別 SWT, दर्शक यदि दर्शन
(82b), 53^a, 68^a, 138^a, 146^a, 186^a, 235^a
330^a, 342^a; -संहिता 破壞結集 S, 分
爲多部各各異名 W, 崩散分成
多部 T, दर्शक यदि दर्शन (137
b), 175^a 24.

भिषज 良醫 SWT, दर्शक (80b), 49^a,
316^a; -द्रव्य 處方 S, 處藥 W, 投
藥 T, 49^a, 316^a.
भीत 怖畏 SW, 畏怖 T, दर्शक (141a),
61^a, 183^a, 356^a.
भुट्टक 浮稠迦 W, 鶴鵠 T, दर्शक (205
b), 366^a.
भू-地 SWT, दर्शक (71a), 26^a, 169^a, 170^a,
246^a, 266^a, 302^a, 305^a; -चर (水) 陸
衆生 S, (水) 陸有命 W, 水陸飛
行 T, दर्शक यदि (170b), 253^a; -तल
地中 W, 大地 T, 343^a; -दृश्य 見
地 W, 現於大地 T, दर्शक (185a),
302^a, 343^a.
6 भूग्रा 實種 S, 四大 W, 大種 T, 四大
種 SW, 造 ST, 作者 W, दर्शक (151a),
11^a, 19^a, 35^a, 39^a, 51^a, 53^a 13^a,
95^a, 114^a, 118^a, 123^a 14, 124^a, 125^a, 137
15, 160^a, 163^a, 196^a, 198^a (bis) 14, 203^a,
205^a 11, 207^a (bis) 3 (bis) 45^a 14 (bis) 15,
208^a (bis) 5 6 9 11 14 15, 209^a (bis) 14 (bis),
228^a, 232^a, 239^a (bis), 245^a, 246^a, 248
16, 250^a, 251^a 12, 252^a, 256^a, 261^a, 262^a,
266^a, 273^a, 274^a, 288^a, 289^a, 305^a
(bis) 14 (bis) 15 (bis), 329^a, 334^a, 339^a,
340^a, 344^a 13, 352^a 13, 354^a 8 (bis) 5,
355^a 2, 368^a (bis), 375^a; -कोटि 實際
SWT, दर्शक यदि दर्शन (94b), 78^a,
88^a, 192^a, 222^a, 271^a, 288^a, 349^a; -ल-
जण 真實相 T, 如是相 W, 288^a;
-त त 法性 T, 實性者 T, क्षेत्र (124a),
144^a, 192^a, 250^a; -पद 實句
S, 四大見 W, 大種句 T, दर्शक यदि
दर्शन (74a), 35^a; -पूर्वम् 250^a;

-भौतिक 諸塵等法 W, 造色 ST,
दर्शक यदि दर्शन (151a), 124^a, 207^a
4 11 13, 208^a 15; -मय 生諸大 W,
所造生 T, दर्शक यदि (186a),
305^a; -अन्त 浮單陀 W, 步多 T,
真實邊者 S, 知究竟者 W, यदि-
दर्शक यदि (205b), 192^a, 367^a; -अभूत
實法非實法 W, 若有若無 T, 19^a;
-आकार 觀大 W, 大種 T, दर्शक
यदि यदि यदि (201b), 352^a; -आ
त्मन् 大自性 S, 自性 WT, दर्शक
यदि यदि (152a), 209^a 14, 250^a.
भूतिक 四塵 W, 色 T, दर्शक (202b),
355^a, 234^a, 368^a 14.
भूती 浮多女 W, दर्शक यदि (173a),
261^a, 262^a.
भूमि 地 SWT, दर्शक (64a), 9^a, 10^a 15, 12^a,
15^a 6, 24^a, 25^a, 28^a, 30^a, 34^a, 35^a, 39^a,
41^a, 42^a, 43^a 11, 45^a 9, 48^a, 50^a, 51^a, 63
11, 65^a 4, 69^a (bis) 18, 81^a, 89^a 6, 97^a 14,
98^a, 100^a, 101^a 4, 102^a 13 15 (bis), 117^a
(bis), 123^a (bis) 6, 125^a 18, 136^a 11, 137^a,
148^a, 152^a, 155^a, 157^a, 161^a 3, 180^a, 185
4, 192^a 6, 195^a 8, 211^a 10 12 14, 212^a 5 7 15, 213
4 7 17, 214^a 11, 215^a 9 11 12 (bis) 13 18, 220^a,
221^a 19 (bis), 224^a, 226^a 14 15, 227^a, 228^a,
241^a, 244^a 11, 247^a, 266^a, 275^a, 278^a 9 10
(bis) 11, 279^a, 282^a, 286^a, 296^a 10, 299^a,
307^a, 310^a, 318^a 11, 319^a, 333^a, 338^a, 351
16, 359^a, 367^a 14, 374^a, 375^a (bis);
-क्रम 漸次諸地相續建立 S, 次第
入諸地 W, 漸住諸地 T, क्षेत्र यदि
दर्शन (85b), 25^a, 59^a, 213^a, 221^a, 361^a;
-क्रम-यवस्था 立地次第 S, 次第說

諸地相 W, श्रीमाद्भूमिका तुमा एवं पात्राद्याद्य (153b), 213¹⁰; -क्रमानुसंधि 地次第相續 S, 諸地次第相 W, 諸地次第 T, श्रीमाद्भूमिका तुमा एवं पात्राद्याद्य (153b), 59⁷, 213¹⁰ 12¹³, 224¹, 351¹⁰; -ज ग...生...地 S, 生於...地 T, श्रीमाद्भूमिका (156b), 220¹⁰; -पद 地句 ST, 地見 W, 35¹⁰; -अभ्युग्मि 地地 SWT, श्रीमाद्भूमिका (181b), 161¹⁰; -उत्तरोहर 善知諸地 T, 諸地上上智故 W, अकृमशमन्त्र तुमा एवं पात्राद्याद्य (140a), 180¹⁰, 185⁴.
भूयस (more), 10¹⁰.
भूषण 莊嚴具 SWT, तुमा (151b), 88¹⁰, 159⁷, 208¹⁰.
भेद 壞 S, 破 WT, 各別 SWT, 差別 W, 別異 T, तुमा (72a), 28¹⁷, 58¹⁴, 68¹⁴, 107⁷, 113⁴, 135⁴, 146¹⁰, 159¹², 186⁴, 204¹⁰ (bis), 205⁴, 234¹¹, 235¹⁰, 237², 240⁷, 306¹⁴, 318¹⁴, 340¹⁰ (bis), 341², 345¹, 354¹, 369⁷, 374¹⁰; -क 206⁴; -नालक 無常 WT, 17⁷; -भिन्न 變壞 S, 差別 WT, तुमा एवं पात्राद्य (163b), 58¹⁴, 68¹⁴, 146¹⁰, 186⁴; -लक्षण 壢相 S, 差別 W, 變壞 T, तुमा एवं पात्राद्य (165b), 240⁷.
भेद्य (to be broken), 206⁴.
भेरी 珂鼓 W, 螺鼓 T, तुमा (207b), 359⁴, 373².
भैष्य 乞食 WT, तुमा एवं पात्राद्य (204b), 368¹⁴; -पात्र 乞食鉢 WT, तुमा एवं पात्राद्य (205a), 367¹³.

भैष्य藥 SWT, तुमा (169b), 249¹⁰, 258¹⁰.
भोग 受用 S, 資生 WT, 資財 T, 物 T, 資 W, 財 S, तुमा एवं पात्राद्य (80a), 42⁴, 47⁷, 51¹⁷, 54¹⁰, 56⁷, 62¹⁴, 64¹⁵, 70¹⁰, 80⁸, 84¹¹, 119⁶, 140⁷, 154⁶, 250⁶, 268¹⁴, 273¹⁴, 302⁴, 303², 309¹⁰, 315⁶, 320⁴.
भोजन 食 WT, तुमा एवं पात्राद्य (169b), 247⁸, 249¹², 250¹³, 254⁴, 255⁶, 256¹⁰.
भोज्य 應食熟食 ST, 炊熟方得成食 W, तुमा एवं पात्राद्य (147a), 196¹².
भौतिक 有大 W, 實 T, 所造 ST, 色香味觸 W, 色 ST, 四塵 W, 造色 ST, 四塵相 W, तुमा एवं पात्राद्य (115b), 17⁷, 114⁶, 118⁷, 123¹⁰, 124³ 10 12 13¹⁰, 125³, 187⁴, 205¹⁰, 207¹ 8 4 11 13¹⁰, 208¹¹, 303³, 305¹⁴, 344¹³, 354⁸, 355¹.
भूम (गत in text), (roaming about), 25¹⁰.
भूमणीकृत (made to turn), 842¹¹.
भूमर 蜂 WT, तुमा एवं पात्राद्य (187a), 30⁸, 308¹⁴.
भात 兄弟 WT, तुमा (167b), 245¹².
भान 迷惑 WT, तुमा एवं पात्राद्य (175a), 195⁴, 269¹², 270⁷, 291², 295⁴.
भानि 惑亂 S, 迷惑法 W, 妄法 T, तुमा एवं पात्राद्य (70a), 24³, 30¹², 36⁹, 85⁴, 90⁶, 106⁴ (bis) 8 9 11 13 14 16 17, 107¹ 3 4 6 8 12 14 16 17, 108² 8 9 11 13 14 15, 109³ (bis) 4 11 12 13 14, 130¹⁰, 165¹⁴, 166², 267⁴, 269¹⁸ (bis), 271⁸, 273⁸, 275¹⁸, 276¹¹, 277⁴, 281⁸ 10 11 12, 282¹⁸, 284¹³, 287¹¹, 293¹⁰, 295⁹, 297³ 4 11, 298⁹ 10 11, 302¹⁷, 313¹⁷, 317², 319¹⁰, 328⁸, 33².
-पद 迷句 ST, 迷見 W, तुमा एवं पात्राद्य (75a), 36⁹.
भानि 迷惑 WT, तुमा (181b), 291².

भावित 迷 W, 迷惑 T, तुमा (193b), 328⁸.
भू眉毛 眉 W, 眉 WT, तुमा एवं पात्राद्य (73a), 32³, 105⁹.

म

मकरालय 惡獸中 W, 摩竭(海)中 T, तुमा (62a), 4².

मत्तिका 飛蠅 ST, 蠅 W, तुमा एवं पात्राद्य (89b), 68¹⁵, 105¹⁴, 218².

मध्य (plunged), 322¹.

मणि 摩尼 SWT, 车尼 T, 珠 T, तुमा एवं पात्राद्य (71a), 26³, 30⁷, 48¹⁰, 92¹⁴, 96¹⁰, 161¹, 266⁹, 274¹², 289¹⁰, 359⁴, 375³, 38.

मण्डल 道場 T, 三世 W, 三世法 W, 35³, 54⁵, 56⁷, 85¹⁷, 352².

मण्डलिन 小王 SWT, अभिष्टुपद्माध (71a), 26⁹.

मणिङ्ग �莊嚴 SWT, 32¹³, 42⁷, 137¹⁰, 290¹, 318⁹.

मणूक (a frog), 218².

मत 所說義 S, 說 W, 所說 T, तुमा एवं पात्राद्य (203a), 46⁹, 158¹⁵, 175¹⁸, 206⁴, 214¹⁶, 312¹³, 341¹, 358¹.

मति 能知 S, 覺知 W, 智 ST, 智慧 W, 摩帝 ST, (大)慧 W, तुमा (153b), 22², 41¹⁴, 51¹⁸, 70¹², 72⁴, 90¹⁷, 91⁸, 93¹², 114², 115², 150¹², 170¹⁴, 185¹², 186⁴, 214¹², 221¹, 223⁷, 225¹², 229¹, 236⁴, 242⁸, 243¹³, 334⁹, 342⁸, 365³, 37.

मन 認識 W, 心意 T, 意 T, तुमा (126b), 149⁴, 350⁹, 355⁶, 357³, 358¹¹, 372¹¹, 374²; -वजित 離意識 W, 離於識 W, 離心意 T, 無罪 S, तुमा एवं पात्राद्य (126b), 149⁴, 324¹; -विज्ञान 意識 WT, तुमा एवं पात्राद्य (192a), 323³, 350⁹.

मनः-सहित 意俱生 S, 共意 W, 所與意等...俱 T, तुमा एवं पात्राद्य (163b), 235¹⁷.

135¹¹, 213¹⁷, 268¹, 321¹⁶, 34; -पुरुष 昏醉人 S, 惕醉人 WT, तुमा एवं पात्राद्य (120b), 135¹⁴.

मत्तपणिका 末千提 W, तुमा एवं पात्राद्य (169b), 250².
मथन 能降 W, 能摧 T, तुमा एवं पात्राद्य (64a), 10¹².

मद 放逸 W, 自在 T, 樂味著 S, 醉 W, 所醉 T, तुमा एवं पात्राद्य (120b), 10¹¹, 134¹³, 135¹¹, 213¹⁷, 321¹⁵; -मद 322²; -मत्त 135¹¹, 213¹⁷, 321¹⁵.
मदीय (my own), 293¹¹.

मद्य 酒 SWT, तुमा (130b), 135¹⁴, 159¹³, 256⁷, 258¹³, 321¹⁶.

मह-यान 我乘 W, तुमा एवं पात्राद्य (180b), 286¹⁴.

मधु 蜜 W, 石蜜 WT, तुमा एवं पात्राद्य (169b), 250², 360².

मध्य (middle), 117¹⁰, 169², 266¹⁶, 292⁷, 347⁹; -गत 141², 13.

मध्यम (a musical note), 中 SWT, तुमा एवं पात्राद्य (72b), 3⁷, 18⁹, 31¹, 34¹⁸, 49¹, 117⁹, 310¹³, 311²; -पद 中句 ST, 中見 W, तुमा एवं पात्राद्य (74a), 34¹⁰.

मन ि識 W, 心意 T, 意 T, तुमा (126b), 149⁴, 350⁹, 355⁶, 357³, 358¹¹, 372¹¹, 374²; -वजित 離意識 W, 離於識 W, 離心意 T, 無罪 S, तुमा एवं पात्राद्य (126b), 149⁴, 324¹; -विज्ञान 意識 WT, तुमा एवं पात्राद्य (192a), 323³, 350⁹.

मनस् 意 SWT, घिन् (69a), 20¹, 30¹, 46¹⁰, 17, 48¹, 54¹¹, 69¹¹, 72¹², 81¹ 11¹⁴, 90¹, 127¹, 136¹³ 14, 158¹, 185¹³, 224², 235¹ 11, 243¹¹ (bis), 273¹¹, 276¹⁵, 278¹ 1, 285¹⁰, 293¹ 10, 294¹³, 299¹⁰, 300¹⁰ 11¹⁴, 302¹², 314¹⁰ 14, 316², 317¹⁴ 15, 318² 16, 319¹⁷, 320¹, 322¹⁷, 323³ (bis)⁴, 345³, 350⁷, 354¹⁴, 374³ (bis)⁷, 375¹⁴ (bis).

मनीषिन् 智慧者 W, 智者 T, मौष्णिक (181a), 288¹⁰.

मनुष्य 人 SWT, 世人 S, मै (67a), 9¹, 16², 89¹⁵, 150⁵, 175¹³, 248⁴, 252², 255¹¹, 262¹⁴, 347¹, 371⁹; -आहार 凡夫段食 T, 食飲食 W, 四種身品目 (171b), 255¹¹; -इन्द्र-भूत 人王 W, 王 T, मै १८८¹ १८८² (170a), 252².

मनो-गति 意趣 SW, 意境界 T, घिन् गृहणपद्विषयक (181a), 127¹⁰, 292¹¹.

मनो-चक्षु (for मनश्च-चक्षु), 373¹.

मनो-जव 迅疾如意 SW, 速疾如意 T, घिन् गृहणविषयक (121a), 187¹.

मनो-भव (मनोज्ञव?), 從於意生 W, 依末那起 T, 374³.

मनो-मनो-विज्ञान 意意識 SWT, घिन् १८८¹ १८८² घिन् गृहणविषयक (104a), 98¹⁷, 215¹, 221², 242².

मनो-मय 意生(身) SWT, 如意意(身) W, 意成(身) T, घिन् गृहण (96a), 81¹ 6⁷ 12¹², 125¹¹, 136¹ 11 (bis)¹¹, 137¹ 16, 154², 192¹, 193¹, 273¹, 290¹, 295¹, 312¹⁰, 318⁹, 326¹; -काय 意生身 SWT, 意成身 T, 如意意身 W, घिन् गृहण (96a), 81¹ 6¹², 125¹¹, 130²;

-धर्म-काय 意生法身 ST, 意生身 W, घिन् गृहण-सूक्ष्मिक्यक्षम्यास्त्रैश्च (144b), 192¹.

मनो-विज्ञि 意所作 S, 心意意識 W, 心意識 T, घिन् १८८¹ १८८² गृहण विषय (159b), 227¹.

मनो-विज्ञान 意識 SWT, घिन् गृहण गृहणविषय (69a), 20¹, 24¹, 44¹⁵, 69¹¹, 72¹², 81⁴, 126¹¹ 16¹⁴, 127⁶, 214¹⁷, 226¹, 255¹⁰ 14, 241¹², 243¹¹ 12, 296⁷ 11, 373².

मनो-विस्तित 意亂極震掉 S, 心意所受用 W, 心識流動 T, 動亂於心識 T, घिन् गृहण गृहणविषय (134b), 168⁹, 178², 276¹⁵.

मनो-हर 心可樂 W, घिन् १८८² (178a), 278¹⁴, 215¹⁶.

५ मन्त्र 詛 WT, शृणा (136b), 173⁴ ७ ९ १२ १५, 179¹⁵; -पद 詛文句 W, 詛 T, 陀羅尼 T, शृणा गृहण (173a), 260², 261¹ ३ 10, 262¹⁶, 263¹.

मन्त्रग्रहण (in text), (stirring round), 82¹⁴.

मन्त्र-वुचि 少智慧 S, 少智 T, बृहद्याद्वैत (188b), 65¹², 297¹.

मन्त्रय 我通 S, 我法 W, 此法 T, इ घिन् कृत्य (200b), 152¹⁴, 179¹², 191¹, 324¹⁴, 350¹²; -कोविद 知我所通 S, 知我說 W, 知我法 T, इ घिन् कृत्य विवेच (192b), 152¹⁴, 335¹⁰, 324¹⁴; -दृष्टि 取於我法 W, 我法中起見 T, 350⁹; -विहिषि 出於通外 S, 外於我法 W, 無可尊重 T, 179¹².

मन्यना 思惟 SW, 思量 T, 意 W, 妄

取 W, इ शेषमै (177b), 127², 265⁹ 10, 278¹, 300⁴.

ममामिक 我 SWT, इ (154b), 215¹² १३ १४, 278¹⁰ 11, 279².

मय 所成 T, 28², 155¹, 264¹.

मयूर 光明 SWT, घिन् गृहण (105a), 101¹.

मयूर 孔雀 ST, शृणा (141b), 184¹; -वैचित्र 孔雀文彩種々 S, 孔雀文彩…種々 T, शृणा गृहणविषय (141b), 184¹.

५ मरण 死 SWT, 滅 WT, इ कृष्ण (104a), 99⁶ ७ १० (bis), 103¹⁵, 174¹, 180⁹, 247¹, 347¹¹; -प्राप्त 我今定死 W, 我等定死 W, मै य वृष्ण गृहण गृहण (168a), 246¹⁵; -संदेह 驚怖 SWT, गृहण गृहण (168b), 247¹.

मरीचि 蕃 S, 陽餾 WT, शैणाशुष्णु (70b), 25¹¹, 35¹⁷, 42¹, 82¹, 95⁶, 96², 225¹², 268⁹, 273¹, 275⁴, 281¹⁶, 287¹⁴, 301¹⁸, 331¹⁴, 349¹⁶, 374¹³; -पद 煙句 S, 蕃見 W, 陽餾句 T, शैणाशुष्णु गृहण (74b), 35¹⁷; -का 陽餾 WT, शैणाशुष्णु (177b), 277²; -उदक-चन्द्र-आभ 如…熟時蕃 S, 如…陽餾水中月 W, 如…陽餾乃至水中月 T, शैणाशुष्णु गृहण (70b), 25¹¹.

मल 塃 WT, द्विकृष्ण (183a), 296⁷, 302⁶ (bis), 359²; -मलिन 塃勞所汚 S, 塃之所污染 T, 塃染 W, 77¹⁶; -अपेत 無諸塃汚 S, 離諸塃 W, 無塃 T, 231⁹; 離諸塃 W, 無所塃汚 S, 無塃 T, द्विकृष्ण (161b), 231⁹.

मलय 摩羅耶 SWT, मै य य (78b), १¹, 2¹⁰, 43¹⁴.

मलिन 所汚 S, 所汙染 T, बृहद्याद्वैत (94a), 77¹⁷; -वस्तु (for -वस्तु), 塃衣 SWT, शृणा गृहण (94a), 77¹⁷.

मली-कृत 塃染 W, 妄塃 T, 所雜染 T, 邪見塃 W, द्विकृष्ण (207b), 369¹², 373¹.

मषि-समितक 墨圖 W, 墨塗 T, शृणा गृहण (176b), 274¹.

५ मसुराक्ष 摩脩羅 W, 赤豆 T, मै य य (78b), 367¹.

मसूर 豆 WT, गृहण (169b), 250¹.

महत् 大 WT, १¹ (bis), 251⁴, 257¹, 267¹.

महा 大 W, कृष्ण (78a), *passim*; -कर्त्ता 大悲 SWT, शृणा है कृष्ण (78a), 42⁸, 233²; -कारुणिक 大慈悲 W, 大悲前行 S, शृणा है कृष्ण (167b), 245², 256¹; -गज 象 W, शृणा कृष्ण (191b), 322¹²; -धर्म-मेष 法雲地 SW, कृष्ण (90b), 69¹⁷; -पद 大蓮華 W, 蓮華 T, 70¹, 310²; -पश्चराज 大寶蓮華王 ST, 大蓮華王 W, 70¹; -पद-विमानासन-स्थ 住大蓮華微妙宮殿 S, 住大寶蓮華王宮殿 W, 處大蓮花微妙宮殿 T, गृहण कृष्ण कृष्ण गृहण गृहण (105a), 101¹; -परिनिर्वाण 大般涅槃 T, 般涅槃 W, 涅槃 SWT, घिन् गृहण गृहण गृहण (104a), 99

१०१; -पूजा 大供養 W, 16^a; -ृथि=वी 大地 SWT, 1126^a; -प्रहा 29¹¹; -भाग 367^a; -भूत 大種 ST, 四大 W, भूद्वंके (72b), 80^a, 59^a, 122¹², 128^{10 12}, 12¹⁷, 124^{14 15 16}, 161¹, 285¹⁰, 305^{15 16}; -भूत-भौतिक 四大造色 S, 四大及四塵相 W, 大種造色 T, भूद्वंष्ट् न्द्रं भूत्वंष्ट् न्द्रं भूषण (115a), 123¹⁰, 12¹⁷, 124¹⁶; -भूत-स्वभाव 大種性自性 S, 大性自性 W, 大種自性 T, भूद्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् न्द्रं भूषण (76b), 89¹⁰; -भूमि 125¹¹; -भौतिक 125¹¹; -मति 大慧 SWT, भूत्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (205a), *passim*; -मुनि 大牟尼 SWT, 世尊 W, 大摩尼 T, 牟尼 WT, भूमि के (201a), 6¹¹, 29², 28¹⁵, 256¹⁰, 315¹, 348⁷, 350¹⁵, 351¹²; -मैत्री 大慈 W, 慈心 S, 大慈心 T, भूमि (167a), 244¹, 247²; -मैत्री-विहारिन् 慐心 SW, 慐惑 T, भूमि (108b), 247²; -मेय 大雲 SWT, भूमि के (172a), 258⁴; -यशस् 286¹²; -यान मैत्र衍 WT, 大乘 SWT, भूमि के द्वंष्ट् (62b), 5^{10 17}, 6², 11¹⁰, 28¹¹, 29¹⁰, 100¹¹, 137^{12 16}, 167¹⁴, 195^{10 11}, 229⁷, 241⁸, 248¹¹, 264⁷, 286^{8 14}, 289^{16 18}, 299¹¹, 306¹¹, 329¹⁰, 344⁶, 375⁹; -यान-गति 進行大乘 S, 進修大行 T, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं भूत्वंष्ट् (166a), 241⁶; -यान-चरित 修大乘行 W, 能修菩薩大乘之道 T, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं भूत्वंष्ट् (64a), 10¹⁴; -यान-नय 大

乘 WT, 5¹⁰, 29¹⁰ (note); -यान-प्रभास 大乘照明 S, 大乘光明 WT, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं भूत्वंष्ट् (104b), 100^{11 13}; -यान-मय 29¹⁰; -यान-योग 大乘行 WT, 11²; -यान-संप्रस्थित 趣大乘 T, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं भूत्वंष्ट् (169a), 248¹¹, 254¹⁰; -यान-सूत्र 210², 261¹, 375¹⁰; -योग 修行者 S, 大修行 T, 大如實修行 W, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (95b), 9¹⁵, 79^{15 17}, 80⁴, 82⁹; -योग-योगिन 住大修行爲修行 T, 師善能修行如實行法 W, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (68b), 9¹⁵, 10¹², 79^{15 17}, 80³, 82⁸, 367⁹; -रत्न-पथ 大寶蓮華 WT, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (67a), 16²; -रत्न-विमान 寶宮殿 T, 大寶宮殿 SW, भूमि के द्वंष्ट् (90a), 70¹; -वादिन 大士說法勝 W, 言論中最勝 T, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (68a), 7¹⁴; -विश्वरूप-धारिन् 於自身中能現一切種々色像 W, 現種種身 T, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (68b), 9¹⁵; -वीर 大勇猛 T, 成正覺(?) W, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (205a), 20⁹, 365⁹; -अमण 376⁹; -सत्त (see also बोधिसत्त) 摩訶薩 SWT, भूमि के द्वंष्ट् (81a), *passim*; -हास (呵呵) 大笑 W, (欣然) 大笑 T, भूमि के (65b), 13^{3 8 11}; -अर्च-मूल्य-रत्न 大價寶 S, 無價

寶 WT, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (94a), 77¹¹; -उदधि 220⁹, 265¹⁰; -ओघ 大流 S, 大瀑流 T, भूत्वंष्ट् (117a), 127¹²; महिष (a buffalo), 91², 113⁷, 231⁷; मही-पति 王 T, भूत्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (205b), 367²; महेश्वर 摩醯首羅 W, 大自在 T, 自在 W, भूत्वंष्ट् (205a), 215¹⁴, 364^{7 11}, 367⁹; महोदधि-ताङ्ग 大海波 W, 大海而有波浪 T, 海浪 S, भूत्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (156b), 220¹⁴; ५ महोरग 摩睺羅伽 W, भूत्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (67b), 16², 261⁷, 262⁹; महोरगी 摩睺羅伽女 W, भूत्वंष्ट् न्द्रं के (173a), 261⁷, 262⁹; महायै 大海水 W, 水 S, 河 T, 水大流 S, 水流 W, 大瀑流 T, भूत्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (154a), 127¹², 214¹²; मांस 肉 SWT, भूमि (71b), 27^{15 19}, 164⁶, 244^{3 13 16}, 245^{3 6 10}, 246^{3 4 5 6 7 9 11 12 17}, 247^{3 5 7 9}, 248^{1 3 5} (bis), 8⁷ 14 16 17, 249^{2 10 13}, 250¹⁴, 251^{1 4 9}, 252^{1 2 3 4 8 7 10 18 15}, 253^{2 3 4 10 15}, 254^{3 12 16}, 255^{3 5 7 12}, 256^{3 7 10 12 14 15}, 257^{8 9 13 14}, 258^{3 5 9 10 13 14 15 16} (bis), 259^{4 6}, 371⁴; -सादक 257¹¹; -चक्षुर 肉眼 SWT, भूमि के (65b), 13⁸, 2164⁶; -भक्षण 食肉 SWT, भूमि (167a), 244³, 245³, 253¹⁵, 256¹², 259⁹; -भक्षण-विनिरूप 斷肉 T, 捨肉不食 W, भूमि के द्वंष्ट् न्द्रं के द्वंष्ट् (168a), 245¹⁰; -भोज-गृग्र 244³, 373⁹; -ता 140¹.

-भोजन 食肉 W, मृत्यु-वश-षट्ठ (171a), 254⁸, 255^{9 7}; -भोजनाहाराति=प्रसङ्ग 食種種肉 SWT, 250¹⁴; -रस-साधवसान 食肉熏 W, मृत्यु-वश-वश-षट्ठ (170a), 252⁸; -स्फुरिर=हार 血肉 T, 食血肉不淨 W, 食血肉不淨之食 T, भूमि के द्वंष्ट् (168b), 247⁶, 255¹²; -आद 食肉 WT, मृत्यु (170a), 251⁶, 252^{1 2}; -आद-दोष 食肉者…過失 T, 食肉之人…諸過 W, मृत्यु-वश-वश-षट्ठ (170b), 252^{1 10}; -आदवासन-दोष 252²; -आद-योनि 252⁷; -आशिन 食肉之人 WT, मृत्यु (168a), 246¹⁷; मागथ 摩陀 W, 摩竭 T, मृत्यु (187a), 308²; मारडत्य 圓 WT, भूमि (200b), 350⁶; मातृ 母 SWT, मृत्यु (121b), 138^{9 11 13 14}, 140⁵, 245¹¹, 285¹⁰, 323⁸, 328¹⁶, 364¹³; -त्रै-मृत्यु SWT, मृत्यु (121b), 138¹²; -पितृ-वध 殺父母 WT, 害父母 S, मृत्यु-वश-षट्ठ (121b), 138¹⁴; -पितृ-अहंह-वध 殺父母及害羅漢 S, 殺母殺父殺阿羅漢 T, 殺母…殺父…殺阿羅漢 W, मृत्यु-वश-षट्ठ-विनिरूप-वश-षट्ठ (121b), 138⁹; मात्र 量 S, 但是 W, 唯 SWT, ठम (91b), 42¹⁴, 52¹, 61³, 69⁴, 72⁴, 73⁴, 96⁴, 109⁴, 121^{11 17}, 123^{15 18}, 174¹⁴, 186^{1 19}, 190¹⁴, 202¹⁴, 203^{3 13 17}, 212⁴, 230³, 237¹², 249⁷, 265⁴, 267¹, 277⁴, 298^{11 16 18 17}, 300⁴; -क 33¹¹, 373⁹; -ता 140¹.

माता 心量 ST, 量 W, ठम् (128a), 158
 "", 325¹⁰, 259¹.
मात्स्य 嫉妬 W, 憤怒 T, रुद्धिष्ठि (194a), 329¹².
माधुर्य 美妙 ST, 妙 S, 128¹⁰; -स्वर 美妙音聲 W, 美妙音詞 T, 妙音 S, शूष्णन् (203b), 359⁴.
माध्य 中 WT, रुद्धि (68a), 18⁴.
मानव 人 WT, मी (179⁹-10), 286².
मानविका (woman), 240¹².
मानुष 人 SWT, मी (137b), 174¹³, 246⁶, 247¹, 253², 324¹¹, 364¹; -मांसाद 食人肉 W, मी-मृत्यु (170a), 252⁴; -उज्ज्व生於…人中 W, 生於人中 T, मी-प्रश्नाद (205a), 364¹.
मानुष्य 人 SWT, मी (170a), 251¹, 253², 248⁴, 252⁴; -गति 人道 W, 世所知 T, मी-प्रियुष (207a), 371²; -योनि 人身 WT, शैर्व-क्षेपणक्ष? (170b), 252⁴.
मांचार 曼陀 S, 頂生 WT, रुद्धिन् (122b), 141⁵.
१० मामक 我 W, मी (201b), 135¹⁴, 224¹, 321¹⁷, 354¹.
माया 幻 SWT, शूष्ण (63b), 9¹, 22⁸-12, 25¹⁰, 32⁹, 35¹², 40¹², 42¹, 48¹⁰, 51⁷, 56¹⁰, 57¹², 69², 70², 72¹, 76¹⁰, 80¹⁴, 81², 95⁷, 96⁹, 103⁶, 108¹⁷, 109², 4-6, 18-19, 17 (bis), 110² (bis), 5-6, 7, 8, 9, 10, 15-16, 11, 111³, 18, 112³, 125¹⁰, 129¹, 17, 130¹, 2-3, 6, 11, 137², 149⁸, 151¹², 155¹⁷, 156¹ (bis), 160¹, 161¹⁴, 167⁹, 185⁵, 198¹⁷, 199⁶, 13, 200¹², 202¹, 215², 225¹³, 226¹⁷, 230³, 239⁸, 264⁹, 265¹⁵, 268³⁴, 269¹⁸ (bis), 273³, 275⁶, 276¹, 277², 279⁹, 281¹⁶, 283¹⁸, 287¹⁴, 294⁸, 295⁴, 296¹¹, 298⁶, 303⁴, 307¹, 309¹⁰, 316¹², 317¹¹, 321², 324², 329⁶, 331¹⁰, 334¹⁸, 337⁹, 13, 341¹², 342¹ (bis), 349¹⁵ (माय in text), 352¹⁶, 353⁵, 361¹, 368¹³, 374¹², 16; -कार幻師 WT, शूष्ण-क्षेपण (198a), 342¹; -गोचर-संभव 幻境界相 W, 幻境之所起 T, शूष्ण-क्षेपण-शूष्ण-क्षेपण (174a), 266⁷; -चित्र 心幻 T, शूष्ण-क्षेपण (182b), 294⁴; -जाति-कृत 幻生作 W, 幻所起色 T, शूष्ण-क्षेपण-प्रश्न (186a), 305¹⁷; -धर्म 幻法 W, 幻等法 T, शूष्ण-क्षेपण (186b), 307¹; -नाऽस्यस्तिदेशना 說有幻無幻 W, 說幻有無 T, शूष्ण-क्षेपण-शूष्ण-क्षेपण-प्रश्न (182b), 294⁴; -पद 幻句 ST, 幻見 W, शूष्ण-क्षेपण (81a), 351⁷; -पुरुष 人見於幻 W, 幻人 T, शूष्ण-क्षेपण (183a), 199¹³, 206¹; -शूरंगम 正智幻 W, 幻首楞嚴 T, शूष्ण-क्षेपण-प्रश्न-प्रश्न (208a), 374¹⁸; -स्वप्नोपम �如見幻夢 W, शूष्ण-क्षेपण-क्षेपण-प्रश्न (174a), 25¹⁰, 95⁷, 265¹²; -स्वभाव-गोचर 幻性法門 T, 幻自性境界 S, 幻境界 W, शूष्ण-क्षेपण-प्रश्न-शूष्ण-क्षेपण-प्रश्न (90a), 70²; -हस्तिन् 幻像 W, 幻象 T, शूष्ण-क्षेपण-प्रश्न (178b), 281⁷; -उपन्यस्त 230³; -उपम 如幻 SWT, शूष्ण-क्षेपण (177a), 22⁸, 81¹², 110³, 7, 9, 10, 15-16, 126¹, 137³, 266⁴, 267¹¹, 273⁶, 276², 312¹⁰, 343², 374¹⁷; -उपमत्त्व 如幻 SWT, 109¹⁶, 110², 111²; -उपम-समाधि 如幻三昧 SWT, 如幻諸三昧 T, 如幻定 T, शूष्ण-क्षेपण

११ शैर्व-क्षेपण (81a), 42¹³, 50⁴, 137³, 273⁴.
मार 魔 S, 摩羅 W, 衆魔 T, रुद्धि (71a), 26¹⁵, 33¹¹, 102¹⁴, 103¹, 148¹³ (bis), 240¹¹ (bis); -क (for -आकार), 271³; -कर्म 魔業 ST, 諸魔 W, रुद्धि-प्रश्न (165b), 240¹¹, 102¹⁴.
मार्ग 道 SWT, व्यम् (72b), 10¹⁷, 30², 40¹⁷, 58⁹, 96¹⁷, 98⁹, 133¹⁴, 15, 155¹, 184⁵, 204¹⁰, 221¹⁷, 222¹⁴ (bis), 243⁸, 297¹², 14, 299⁸, 341³, 370²; -सत्य 道者 SW, 道路者 T, व्यम् (145a), 193².
मार्चार 猫 W, 猫 S, विष्णु (170a), 252⁸, 258¹.
मार्घ 汝等 S, 汝 W, शैर्व-क्षेपण (101a), 92⁴.
मात्य (華髮), 15¹⁷.
माश 摩沙 S, 豆 T, व्यम्-शैर्व (169b), 31⁴, 250¹; -क 摩沙 S, 31⁴.
माहात्य 大事 W, 威力 T, के-प्रश्न (182b), 212¹⁷, 293¹³.
माहेश्वर 自在 SW, 摩醯 T, रुद्धि-क्षेपण (154b), 215¹⁴, 278¹².
मित्र 251², 309²; -प्रीति-समन्वित 親友所愛家 T, 親家所愛家 W, रुद्धि-क्षेपण-क्षेपण-प्रश्न (187a), 309².
१० मिथ्या 妄 S, 虛妄 W, 妄想 T, व्यम् (134b), 124⁹, 168⁸, 204¹⁵, 214¹⁴ (bis), 271⁶, 284³, 285², 288¹, 300⁷, 319⁴, 328¹²; -शान 邪智 ST, 妄智 W, व्यम्-प्रश्न-प्रश्न (135b), 171⁷, 9; -भान्ति-विकल्पित 迷惑邪分別 W, 迷妄計 T, व्यम्-प्रश्न-क्षेपण-क्षेपण-प्रश्न (175b), 271⁶; -वित्तक 妄說 T, प्रश्न-क्षेपण? (171a), 253¹⁴; -सत्या 300⁷; -सत्य 邪諦 ST, 邪見 W, व्यम्-प्रश्न-क्षेपण (115b), 124⁶; -आभास 無物而見物 W, 虛妄相 T, व्यम्-प्रश्न-क्षेपण (199b), 284³; -मित्र 昏滯 T, रुद्धि-क्षेपण (80b), 49⁷.
मीन 魚 WT, मी (155a), 218³, 231⁶, 11. **मीमांसा** 思惟諮詢 S, 諮問 W, 思惟 T, व्यम्-क्षेपण (139b), 180².
मुकुट 冠 WT, रुद्धि-क्षेपण (67a), 15¹⁸, 334⁴, 341⁴.
मुक्त 解脫 SWT, व्यम्-क्षेपण (70a), 24⁶, 176⁶, 266³, 295⁵, 296¹⁴, 330⁴, 371⁶, 375¹⁰.
५ मुक्ता 真珠 W, 26³ (मुक्त metri causa), 32¹⁴, 70¹, 143¹¹.
मुक्ति 珠 W, 真珠 T, 30⁷.
मुख 門 SWT, शैर्व (94b), 15⁹, 72¹⁰, 78¹⁰, 94¹⁴, 100⁹, 15 (bis), 101¹¹, 15, 137¹, 175⁷, 222¹, 235⁴, 249¹, 352⁷, 373¹⁰.
मुदिता 歡喜地 WT, 初歡喜地 T, 歡地 W, रुद्धि-क्षेपण-प्रश्न (180b), 286¹⁵, 375².
मुन 豆 WT, व्यम्-शैर्व (169b), 250¹, 366⁹; -क 植 T, व्यम्-क्षेपण (150b), 206³.
मुद्रा 印 SWT, शैर्व-क्षेपण (131a), 160¹⁸, 166³, 330⁴.
मुनि 牛尼 SWT, 佛 W, शैर्व-क्षेपण (69b), 31⁷, 23¹, 257⁶, 265¹, 328⁶, 337³, 367⁹, 10. **मुसार** (碼碭 W?), 3⁶.
मूक 嘴 W, 嘴癌 T, व्यम्-क्षेपण (204b), 102⁴, 362⁴.

मूर्द 愚 S, 愚癡 SWT, 愚 WT, 疾^{३५} (141a), 135^a, 186^b, 257^b, 266¹¹, 321¹¹, 334¹², 356¹⁰, 357¹², 373¹⁶.
मूर्छन (*a tone in the musical scale*), 3^a.
मूर्तिमत 妙身體 W, 衆生身 T, 犀^{३६} (207a), 371¹⁶.
मूर्धन 頂 SWT, 犀^{३७} (105a), 101¹⁰.
मूल 根本 ST, 能生根本 W, 犀^{३८} (121b), 138¹⁴¹⁷, 265¹⁷.
मूल्य 價 SWT, 利 S, 財利 W, 價直 T, 犀^{३९} (82¹⁰-के^{४८}) (94a), 77¹⁷, 246^b, 252¹¹, 253¹⁶.
मूषिक 鼠 W, 犀^{४०} (121b), 138¹⁵, 285¹¹; -विष 鼠毒 SWT, 犀^{४१} (21b), 138¹⁵.
मूग 獸 SWT, 犀^{४२} (157b), 27^a, 30¹⁰, 77^b (bis), 88¹⁰¹¹, 90^b (bis), 95¹¹, 113⁷, 118⁴, 245¹⁴, 253², 265⁴, 271¹¹¹², 291²; -तृष्णा
 諸禽獸愛水 W, 野鹿渴愛 SW, 渴愛 T, 鹿渴 S, 春時焰 S, 陽焰 WT, 渴獸 T, 獸愛水 W, 渴獸取爲水 T, 熱時焰 ST, 禽趣水 W, 獸愛空水 W, 空中焰 T, 犀^{४३} (174a), 9², 32⁹, 95¹⁰, 96⁷¹², 106⁶, 128¹³, 168¹¹, 265³, 289¹², 291²⁵, 303⁴, 306¹, 317¹¹, 321³, 335²; -तृष्णाभास 禽獸愛水 W, 焰水 T, 317¹¹; -तृष्णिका 陽焰 WT, 鹿渴 S, 犀^{४४} (94a), 77⁷, 94¹⁰¹⁴, 118⁴, 200¹¹, 202⁵, 272¹¹, 337¹³; -तृष्णोदक 見春時焰而作水想 S, 依熱陽焰…而作水想 W, 於熱時焰而生水想 T, 90⁵; -सादृश 種々禽獸 W, 犀^{४५}.

मृगाश.....^{३५} क्षेत्रश (175b), 271¹¹.
मृगार-मानुशगाल- in text, 鹿子母舍 S, 鹿子母堂 T, 我昔曾爲鹿母說殿堂 W, 犀^{४६} (मृगाश वैद्यन श्री मन्दिर) (93a), 75¹¹.
मृत 死 SWT, 犀^{४७} (130b), 160³, 248³, 255³, 296¹; -शर 死屍 W, 犀^{४८} (168b), 248²; -मृत-कुल (तृग-मृत in text), 死家 WT, 309².
मृत-परमाणु 泥團微塵 SW, 泥團與微塵 T, 犀^{४९} (मृत-परमाणु-परमाणु-कुण्डल-स्त्र) (76a), 38⁹¹⁰¹¹; -पिण्ड 泥團 SWT, 犀^{५०} (परमाणु-परमाणु-स्त्र) (76a), 38⁹¹⁰¹², 82¹⁵¹⁷, 334⁴.
मृद 泥 ST, 泥團 SW, 犀^{५१} (94a), 38⁹, 78¹³, 82¹⁵¹⁷, 203¹⁵, 340¹.
मृद्ग 下 SW, 犀^{५२} (112b), 117¹³.
मृन-भय 泥作 W, 泥 WT, 88¹⁰, 308¹.
मृषा 虛妄 SWT, 181¹¹, 346¹¹.
मेलल 彌佉梨 WT, 犀^{५३} (205a), 365³⁴.
मेलला 彌佉羅 W, 脣縕 T, 犀^{५४} (205b), 367⁷.
मेघ 雲 SW, 浮雲 T, 犀^{५५} (90a), 16⁴, 68¹⁴, 305¹¹, 349¹⁵.
मेदिनी 地 S, 土地 WT, 犀^{५६} (72a), 29¹⁸, 94¹⁰.
मेधा 聰明 SWT, 點慧 W, 犀^{५७} (मेधा in text), 33¹¹.
मेधाविन् 點慧 W, 聰慧 T, 犀^{५८} (मेधा in text), 367⁸.
मेह 須彌 SWT, 犀^{५९} (71b), 27¹, 29¹³, 30¹⁶, 31¹⁰.

मेची 慈 W, 犀^{६०} (मेची in text), 246¹²; -वि= हारिन 安住慈心者 SWT, 犀^{६१} पापामृक्षाद (169a), 248¹⁰, 254⁹¹⁴, 259².
मैथुन 愛欲 SWT, 犀^{६२} (73a), 26⁸, 32⁸, 36³, 251¹²; -पद 姪欲句 ST, 姪欲見 W, 犀^{६३} (परिषाद्यन्ते) (74b), 36³.
मोक्ष 解脫 SWT, 犀^{६४} (71a), 26¹², 32⁵, 64¹, 65¹⁷, 66¹, 149⁵, 162¹², 177², 183⁴⁶⁷, 186¹⁸ (bis), 189¹⁹, 233¹³¹⁴, 243², 248¹¹, 258¹², 259⁸, 282², 296², 301¹, 302¹, 310¹⁶, 311⁷, 323¹⁵, 332¹⁵, 342⁸, 347¹⁰, 353¹⁴, 355¹⁵, 367¹⁰; -धर्म-विरुद्धत्व 永背正解脫 S, 離涅槃解脫 W, 犀^{६५} (परिषद्यन्ते) (75a), 259⁹; -हेतु 解脫因 W, 因此六解脫 T, 犀^{६६} परिषुक (179a), 282²; -उपाय 解脫因 WT, 犀^{६७} (परिषद्यन्ते) (201b), 353¹⁴.
मोर-चन्द्र 孔雀尾月 T, 孔雀畫色 W, 365¹².
मोह 癡 SWT, 犀^{६८} (मेही-क्षण) (94a), 62², 77¹⁸, 90⁸, 109⁸, 111⁸, 119¹⁰, 145¹¹¹²¹⁴¹⁷, 149¹⁰, 162¹⁵, 175⁴, 184⁴, 225¹³, 269²¹⁴, 296², 324³, 355⁴, 373¹³; -न 迷惑 W, 過 S, 惑亂相 T, 犀^{६९} (134b), 167¹⁰, 370⁸; -पुरुष 愚 S, 愚癡人 WT, 犀^{७०} (86b), 62², 114⁸, 193¹⁴, 250⁴, 253⁶¹³, 255⁸; -वादिन् 愚癡說 SWT, 犀^{७१} (मेही-क्षण) (172b), 258¹⁴.
मोहित 愚 S, 妄 WT, 迷惑 T, 犀^{७२} (मेही-क्षण) (152a), 9⁸, 96⁸, 209¹⁰.
मोहिनी 迷亂 ST, 迷惑 W, 犀^{७३} (102b), 95¹⁰.

मौन (मौल?) -तथा गत 16¹⁴ (bis).
मौनीन्द्र 佛 W, 諸佛 T, 犀^{७४} (मौनीन्द्र) (188a), 312⁸.
मौरी 毛釐 W, 胃狸 T, 犀^{७५} (204b), 362¹¹.
मौर्य 毛釐 W, 犀^{७६} (204b), 362¹².
मौल 根本 WT, 真 S, 真實 T, 犀^{७७} (67a), 16¹⁴ (मौल in text), 242⁷.
मञ्चण (smearing), 256¹⁷.
मेत्ता 無道王 W, 篓利車王 T, 犀^{७८} (कुपाद्धि) (204b), 362¹²¹³.

y

यज्ञ 夜叉 WT, यज्ञ-क्षेत्र (62a), 4⁴¹⁰, 51¹¹⁷, 7²¹²¹³, 8⁵¹²¹⁶, 12¹⁷, 16², 261⁸, 262⁷, 307⁹; -कन्या 夜叉女 WT, 7⁴; -पुत्र 夜叉 WT, 5⁷, 7⁴; -वर्ग (夜叉眷屬 or 衆), 7³⁹; -अधिपति 夜叉王 WT, यज्ञ-क्षेत्र-क्षुपी-पद्माद्य (61a), 2⁸; -इन्द्र 夜叉王 T, 6¹⁰¹⁴.
यज्ञणी (夜叉女), 7³.
यक्षी 夜叉 (女), 5¹⁷, 261⁸, 262⁷.
यत् 供養 W, 神 T, यज्ञ-क्षेत्र (204b), यज्ञवल्क्य 夜婆迦 W, 樹皮仙說祀 T, यज्ञ-क्षेत्र-पथा (205b), 366¹³.
यत्र (affort), 1⁸.
यथा (如), -चिक्षाधिमुक्तिकां 隨衆生心之所應 S, 隨衆生信心 W, 隨衆生心 T, यज्ञ-क्षेत्र-क्षुपी-पद्माद्य-क्षेत्र-क्षुपी-पद्माद्य-क्षुपी-पद्माद्य (136b), 172⁸.
यथा 如實 WT, यज्ञ-क्षेत्र-क्षुपी-पद्माद्य-क्षुपी-पद्माद्य-क्षुपी-पद्माद्य (66b), 15⁴.
यथा-दर्शन 如實能見 W, 得如實

見 T, द्वैषिकैद्वैषिकैष एविन् ५
मैस्त्रैष (63b), 9¹²; -हृषि 如見 W,
如是見 W, 見如是 W, यद्यना
मैस्त्रैष (179a), 9¹, 282¹²¹⁴; -प्रत्यय 隨
緣 SW, 隨順衆緣 तुरु (101b), 94¹;
-प्रत्यय-संभव 隨因緣而生 W, 隨
緣而生起 T, 374¹; -भूत 如實 SWT,
यद्यना यद्वैषिकैष एविन् ५ प्रत्यय (103b), 58⁷, 97¹⁰, 112⁹, 124¹, 133¹⁰, 152¹¹,
184¹⁷, 200⁶, 330², 352¹⁰, 353², 373²; -भूत
तम् 如實 SWT, यद्यना यद्वैषिन् (158a), 223¹⁷, 373²; -रूत 如言說 ST,
如名義 W, 隨言說 ST, यद्वैषिन्
प्रैष (145b), 156³, 160¹⁰, 193¹⁴, 196¹¹,
223⁸; -रूत-देशना-पाठाभिनिविष
依義菩薩智慧境界 S, 隨順義者
所行之處 T, 223⁸; -रूतार्थ 如言取
義 T, 同言語聲義 W, 如緣言說
義 S, यद्वैषिन् तुरु (128b), 155¹⁴,
193¹²; रूतार्थ-ग्रहण 依語而取其義
T, 著音聲言語之義 W, यद्वैषिन्
प्रैष तुरु यद्यना प्रैष (128b), 154¹,
229¹³¹⁸; -रूतार्थ-ग्रहित 著言語之
義 W, 依語取義 T, यद्वैषिन्
तुरु यद्यना प्रैष (128b), 154¹⁰; -रूता-
र्थाभिनिविष 如說而取著 W, 隨
言取義 T, यद्वैषिन् तुरु यद्यना
प्रैष तुरु यद्यना (147a), 14⁹, 197⁸;
-रूतार्थाभिनिवेश 如(隨)言取義
T, 如說而取著 W, 如所說義計

著 S, यद्वैषिन् तुरु यद्यना क्षणक्षण (121a), 160¹³, 196³; -रूतार्थाभिनिवेश-संधि 如言取義執著深密
T, 如所說義計著相續 S, 如聲聞執着義相續 W, यद्वैषिन् ५
मैत्रैष यद्यना क्षणक्षण (70a), 24⁷, 35⁴, 65¹⁴, 134⁹¹⁰, 274⁸, 278⁹; -रूत-पद 三乘句 ST, 乘見
W, स्मैष यद्यना यद्वैषिन् (70a), 35⁴;
-रूत-वादिन 三乘說 S, 三乘法
W, 三乘…說 T, स्मैष यद्यना यद्वैषिन्
तुरु (86b), 62²; -रूत 三乘 T, स्मैष यद्यना
प्रैष (158¹³, 303⁹, 318¹³, -भेद 乘建
立 ST, 乘差別 W, यद्यना ५५ (120a), 135⁴, 321⁷; -यात्रा 說三乘 W,
321⁸; -अयान 乘非乘 SWT, स्मैष
यद्यना स्मैष भिन् (131b), 161¹⁴; -आ=
कर 乘 S, 種種乘 W, 諸乘 T, 30².
यानिक (belonging to Yāna), 171¹⁴, 172¹³.
यानिन 乘 SWT, स्मैष (220a), 135³,
322¹⁸, 356¹ (यथिन् in the text)⁸.

युक्त 相和成 S, 理 T, 勘 W, यद्यना (141a), 3⁸, 30¹¹, 33¹⁰, 34⁷, 59¹⁰¹⁷, 60⁴, 152¹⁴,
173¹⁶, 185⁷, 189⁹¹⁰, 230⁸¹⁰, 269⁶, 324¹⁴.
युक्ति 成 S, 法 W, 道理 T, 善解 T,
स्मैष यद्यना (73b), 26⁷, 33¹⁴, 35², 41¹²,
43¹⁸, 59³, 75², 94¹⁴, 114¹, 129⁶, 159¹, 172¹²,
173¹⁰, 195⁷, 203¹⁷, 285², 295⁶⁷, 297¹⁰, 309¹⁸,
340¹⁰, 347¹⁷, 349⁹, 350¹², 369¹², 370¹⁴,
373¹¹, 375¹¹ (bis) १२ (bis); -ज्ञ 能解
我說法 W, 解我法 T, स्मैष यद्यना (200b), 350¹²; -देशना 相應法 W,
說成就 T, स्मैष यद्यना २९७¹⁰; -पद

72¹⁸, 97⁴, 134²⁴⁶⁹¹⁸ (bis), 135¹²³⁴ (bis)
४, 137¹³ (bis) १४ (bis), 158¹⁸, 161¹⁴, 204¹⁰,
215¹⁴, 243⁴, 279², 286⁴, 289¹⁴ (bis) १४, 297⁷ (ter), 299¹, 303⁹, 306³, 307⁷, 313⁹, 321⁶⁷,
322¹¹ (bis), १४ १५ (bis), 329¹⁰ (bis), 341³, 356¹; -चय 三乘 SWT, स्मैष यद्यना
प्रैष (70a), 24⁷, 35⁴, 65¹⁴, 134⁹¹⁰, 274⁸, 278⁹; -चय-पद 三乘句 ST, 乘見
W, स्मैष यद्यना यद्वैषिन् (70a), 35⁴;
-चय-वादिन 三乘說 S, 三乘法
W, 三乘…說 T, स्मैष यद्यना यद्वैषिन्
तुरु (86b), 62²; -चय 三乘 T, स्मैष यद्यना
प्रैष (158¹³, 303⁹, 318¹³, -भेद 乘建
立 ST, 乘差別 W, यद्यना ५५ (120a), 135⁴, 321⁷; -यात्रा 說三乘 W,
321⁸; -अयान 乘非乘 SWT, स्मैष
यद्यना स्मैष भिन् (131b), 161¹⁴; -आ=
कर 乘 S, 種種乘 W, 諸乘 T, 30².
यानिक (belonging to Yāna), 171¹⁴, 172¹³.
यानिन 乘 SWT, स्मैष (220a), 135³,
322¹⁸, 356¹ (यथिन् in the text)⁸.

成句 S, 相應見 W, 相應句 T, यद्यना
प्रैष (74a), 35²; -विकल्प 理分
別 T, 建立分別 W, 我妄想 T, यद्यना
प्रैष तुरु यद्यना (117b), 128⁸, 129⁹;
-आगम 理教 T, 成事相承 S, 賦
喻及阿含 W, 量阿含 W, 量及阿
含 W, 聖教正理 T, यद्यना (149b), 41¹¹,
59³, 203¹⁷, 340¹⁰, 369¹², 370¹⁴.
युग 世 W, 時 T, ५४ (105a), 362¹⁸, 364⁶⁸ (bis), 365⁷⁹¹⁰, 308¹³, 360⁴, 366¹⁴;
-पत्-काल 俱時 ST, 一時 W, 48⁴,
227¹³; -पत् 頓 ST, 一時 W, यद्वैषिन्
क (४३b), 44⁹, 55⁴, ६७ ८ ९ ११ १३ १४ १८ १७, 56¹ २
३८⁸ (bis), १० १२, ८२¹², ८४^३ ४ १० १२ १४, 108¹⁶, 312¹,
315¹⁷, 357⁸, 361¹⁶; -मात्रानुसारिन्
視前六尺地 W, 前視一尋地 T,
३३९ यद्यना ५५ यद्यना (289a), 308¹³;
-अनागम 劫盡時大火 W, 劫火
T, 劫盡火燄 W, ५४ यद्यना (65b), 13⁵, 360⁸.
युत (fastened), 223¹⁴.
योग 修行SWT, 修學 T, कृपाप्रदेश (64b),
10¹⁶, 11² १२ १८, 12¹², 13¹⁴, 18¹¹, 27⁷⁹, 33¹⁶,
41⁷¹¹, 42¹⁵, 43⁴, 45⁸ १२ १¹, 46¹, 49¹¹⁶, 50²¹²,
54⁸, 56⁹, 57¹⁷, 60¹¹, 63¹, 64³, 75², 76¹¹, 78¹¹¹⁸,
79¹⁵, 80⁴, 82⁷¹, 84⁷¹⁴, 94¹⁶, 97⁴,
124¹⁴, 134⁷, 137¹¹, 149¹, 153¹³, 157¹⁴, 163²²,
169¹², 170²⁴, 171¹, 172¹⁶, 207⁶, 220¹²,
222⁴, 223¹², 225¹, 232¹⁴, 238², 248¹², 254¹⁵,
255², 268⁸, 300¹⁵, 308⁴⁵, 309¹, 310⁴, 325¹³,
343⁸, 373¹¹; -पर ३७३¹¹; -परायण 如
實修行人 W, 修行者 T, कृपाप्रदेश
ए (187a), 308⁴, 309¹; -मार्ग 觀行 T,

如實道 W, 所修行道 S, 修行所觀境界 W, कृप्य-पूर्व-शुभम् (157a), 18¹, 222⁴; -योगिन् 修行者 WT, 修修者 S, कृप्य-पूर्व-ठक् (64b), 11¹, 14¹, 45¹², 153¹², 221¹², 225¹, 325¹; -वाहक 修行者 T, 修行亦最勝 W, कृप्य-पूर्व-ठक् (63a), 7¹; -वाहिन् 如實修行者 W, कृप्य-पूर्व-ठक् (187b), 308¹; -विद् 如實修行者 W, कृप्य-पूर्व-मेष्टम् (187b), 309¹; -आचार 寂靜修行 T, 修觀行者 T, 如實行者 W, 248¹, 254¹²; -अभिमन्य-काल 如實修行者證於法時 W, कृप्य-पूर्व-वाक्-तात्-परं-कृष्ण-वद् तुक् (64a), 12¹.

योगिन् 修行者 SWT, 行者 W, 修行師 T, 定者 T, कृप्य-पूर्व-शुभम् (61b), 6¹², 7¹, 10¹, 11¹, 12¹², 18¹, 20¹, 26¹, 45²³⁴⁵⁶⁷, 48¹, 50¹, 56¹, 79¹², 80¹, 82¹, 93¹², 97¹, 98¹, 99¹, 114¹, 131¹, 132¹, 136¹, 153¹, 168¹, 172¹², 189¹ (bis), 221¹, 222¹, 225¹, 239¹, 246¹, 247¹, 248¹², 254¹², 256¹⁴⁵, 257¹, 258¹, 259¹, 274¹, 276¹, 292¹, 296¹, 299¹, 300¹²³, 304¹, 305¹, 307¹, 308¹²³⁴⁵⁶⁷, 309¹²³⁴⁵⁶⁷, 310¹², 316¹, 325¹, 331¹, 332¹, 343¹, 360¹, 363¹, 365¹, 367¹, 368¹, 375¹.

योग्य 技術 SWT, 55¹, 244¹.

योजक (one who disciplines oneself), 5¹².

योजन् 由延 S, 四十(里) W, 由旬 T, कृष्ण-कृद् (72b), 31¹, 81¹.

योजित (yoked), 326¹.

योनि 本 SWT, 種子 W, कृष्ण-कृद् (141a), 186¹, 252¹², 258¹³, 268¹; -ज ग W, 入胎 T, कृप्य (186b), 307¹; -शस् (thoroughly, decidedly), 114¹; -अन्तर-भूत 受…身 T, कृप्य-पूर्व-शुभम् कृमि ध (167b), 245¹.

र
रक् 赤 SWT, कृप्य-कृद् (79b), 46¹, 47¹², 314¹, 815².

रक्ष (guarding), 245¹.

रक्षक 能護 W, 守護 T, 367¹.

रक्षिका 賴提 S, 草子 WT, कृप्य-कृद् (72b), 31¹.

रक्षिका 賴提 S, 草子 WT, 31¹.

रक्ष 26¹⁰ (for राज्य), 32¹, 36¹⁰; -पद 護句 ST, 護見 W, कृप्य-कृद् कृमि (75a), 36¹⁰.

रक्ष 彩圖衆形 S, 彩圖衆像 WT, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् कृमि-कृद् (80b), 48¹¹⁰, 56¹, 224¹, 316¹², 318¹, 319¹.

रज (स) 霧 ST, 微霧 W, कृप्य (72b), 31¹².

रजत 銀 SW, 55¹ (123b), 143¹.

रच् 繩 WT, 129¹², 327¹²³⁴; -त्र繩 體 W, 繩自體 T, कृप्य (193b), 327¹².

रज 樂 WT, कृप्य (64a), 3¹, 9¹, 10¹, 277¹.

रज 珍寶 S, 寶 WT, कृप्य-कृद् (61b), 1¹, 6¹, 28¹, 29¹, 36¹, 70¹, 77¹, 101¹, 128¹, 184¹, 264¹, 364²; -कोटि 無量寶 T, कृप्य-कृद् कृमि (63a), 8¹; -संचित 寶嚴

T, 5¹, 12¹; कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (62a), -जाल 寶羅網 WT, कृप्य-कृद् कृमि (61b), 5¹, 7¹, 12¹, 16¹; -त्रय 三寶 SWT, 1², 73¹; -पद 寶句 ST, 寶見 W, कृप्य-कृद् कृमि (75a), 36¹⁰; -पद 寶蓮華 W, 蓮華寶(山) T, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (67a), 15¹⁰, 16¹; -पद-विभान 寶蓮華王座 W, 寶蓮華宮 T, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (66b), 15¹; -पद-विभान 寶山 WT, कृप्य-कृद् कृमि (62b), 6¹, -भूषित 寶嚴 T, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (51¹⁰, 8²; -संहित (寶嚴), कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (62b), 5²; -लक्षण 寶相 WT, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (62b), 364²; -विभूषित 寶(嚴) WT, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (62b), 6¹, 7¹; -शिखर 衆寶莊嚴山上 W, 寶山頂上 T, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (66b), 15¹⁰, 16¹; -शोभ 衆寶 T, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (63b), 8¹⁷; -आकर種々雜寶 S, 種々寶 WT, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् कृमि-कृद् (141b), 184¹.
रथ 車 SWT, कृप्य-कृद् (100a), 91¹, 174¹², 226¹.

रम्य (delightful), 可樂 W, 可愛 T, 5¹², 6¹, 7¹.

रश्मि 光明 SWT, कृप्य-कृद् (65b), 13¹¹¹, 15¹¹², 215¹, 227¹, 232¹, 278¹.

रस 飲食 SWT, कृप्य-कृद् (78a), 32¹, 36¹, 205¹, 226¹, 249¹, 250¹, 253¹; -त्र飲食 SWT, कृप्य-कृद् (73a), 32¹; -त्रष्णा 愛著肉味 W, 貪著肉味 T, कृप्य-कृद्

वा व्य-कृष्ण-वा (167a), 244¹⁷, 250¹¹⁴, 253²⁴; -त्रष्णाध्यवसान-परमता 250¹⁴; -त्रष्णाध्यसित 253¹⁵; -त्रष्णां वृ गृ 貪著肉味 T, 愛著肉味 W, कृप्य-कृद् (170b), 253⁴; -पद 味句 ST, 味見 W, कृप्य-कृद् कृमि (75a), 36¹⁰.

रहित 離 SWT, 22¹, 23¹, 42¹⁴, 43¹, 68¹, 69¹², 72¹, 75¹, 80¹, 88¹, 95¹, 115¹, 122¹⁴⁴, 123¹, 124¹, 125¹, 127¹, 143¹, 147¹, 148¹, 161¹, 184¹, 190¹, 220¹, 222¹, 225¹, 227¹, 242¹, 264¹¹⁴, 272¹, 334¹, 344², 354¹, 370¹⁸.

रहो-गत 獨一靜處 S, 在寂靜處 W, 獨處閑靜 T, 於空閑處 W, 住獨一靜處 T, कृष्ण-कृद्-विभूषित (119b), 133¹⁰, 155¹, 249¹.

राघव 羅刹 WT, कृप्य-कृद् (62b), 6¹, 16², 245¹⁷, 247¹, 252¹, 253¹, 261¹⁰, 252¹², 263¹; -अधिपति 夜叉王 WT, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् (61a), 21¹⁰, 3²; -इन्द्र 羅刹王 T, 夜叉王 WT, कृप्य-कृद्-विभूषित (62a), 4¹⁴, 8⁴, 16¹⁰.

राजसी 羅刹女 W, कृप्य-कृद् (172b), 258¹, 261¹⁰, 262¹³.

राग 貪欲 S, 貪 WT, कृप्य-कृद् (94a), 5¹, 77¹, 90¹, 118¹², 119¹⁰¹¹¹²¹³¹⁵, 138¹², 145¹¹¹²¹³¹⁷, 149¹⁰, 162¹⁵¹⁶, 221¹, 225¹⁰, 257¹⁴ (bis), 258¹², 301¹, 304¹³, 324¹, 365¹³, 373¹⁴; -इष 304¹³; -इष-मोह 貪恚 S, 貪嗔恚 WT, कृप्य-कृद् कृमि-कृद् कृमि-कृद् (124b), 77¹, 90¹, 119¹⁰, 145¹¹¹²¹⁴¹⁷, 146²⁵⁷, 225¹⁰; -इष-मोह-ज ग 貪恚所生 S, 起貪嗔

भूमि T, 貪瞋癡(業) W, भूमि क्षमा
द्वैष-क्षमा-द्वैष-प्रति-शण(158b), 225¹⁰;
-द्वैष-विसंयुक्त 離貪瞋等 T, 離諸
貪(癡垢) W, भूमि क्षमा द्वैष-
क्षमा-शण(185b), 304¹³; -अग्नि 贪欲
火 WT, भूमि क्षमा अग्नि(205b), 365¹⁵.
राजन 銀 WT, राजन(186b), 307¹⁵.
राज(न) 王 SWT, राज(71a), 26^a, 32^a,
 88¹⁰, 141^a, 250¹², 251^a, 271¹¹, 308¹⁷ (bis),
 367²; -पुत्र 王子 WT, 308¹⁷; -आ=
धिपन्न 王位 WT, 10¹⁰.
राज्य(स्त्र-) 國 S, 國土 W, 王 T, राज्य
शीर्ष(71a), 26¹⁰ (राज्य), 32^a, 36¹¹, 251¹²;
-पद 王句 ST, 王見 W, राज्य-शीर्ष-
शीर्ष-क्षमा(75a), 36¹¹; -विषय 國土
聚落 W, 國位 T, राज्य-शीर्ष-द्वैष-
 (170a), 251¹².
रात 夜 SWT, रात(80b), 49^a.
रात्रि 夜 SWT, रात्रि(123b), 142¹⁷ (bis),
 144^{8 7 10}, 240^{4 5}, 324⁵.
राम 羅 W, राम T, 王者 T, राम(71a), 192¹⁵, 362¹¹.
रामण 羅婆那 WT, रामण-प्रश्नाश(64b), 2¹⁰, 3², 4^{5 9 14}, 6^{10 17}, 7^{3 5 8}, 8^{3 15}, 11¹⁵,
 13^{14 17}, 14¹¹, 21⁵.
राशि 聚 SWT, राशि(94b), 78¹³, 80¹⁷,
 175¹⁷.
रक्ष-चतुर्स 惡心堅固 W, 心無惑惑
 T, रक्ष-चतुर्स(170b), 253⁷.
रुचक 瑞珞 WT, रुचक(130b), 159^a.
रुचि 彼取 W, 是心 T, 241^a.

रु 語 SWT, रुष्ट(123a), 142^{4 5}, 154¹¹
 14¹⁰, 155^{6 7} (bis) 11¹⁴, 161^a, 163^a, 193¹⁰
 13¹⁴ (bis) 15¹⁶ (bis) 17, 194¹⁴, 196^a, 197²;
-कौशल्य 善言說 ST, 聲巧方便
 W, रुष्ट-व्यष्टि-शण(147a), 197⁴.
रुधिर 血 WT, रुधि(168b), 247^a, 249¹³,
 255¹².
रुट-बीज (सूट-बीज in text), 堅種子
 W, 種子堅 T, 294^a.
रुप 色像 SWT, 色 SWT, रुप-शण-
 शक्ति-शण(699a), 2¹, 20^a, 37¹⁰, 39^a, 44⁵
 12, 53^{8 10} (bis) 11¹², 54¹⁵, 55¹⁸, 56⁴, 57¹,
 68¹¹, 69^a, 72^{14 15}, 80^{8 14}, 83¹⁸, 86^a, 90⁹,
 93¹⁸, 96¹³, 110^{4 5 13}, 114^a, 118^{8 9}, 120^{2 6 7},
 124^{7 18}, 125^{2 10}, 131^{8 7}, 137⁶, 142^{7 8}, 151¹³,
 160², 174^a, 179⁷, 186¹⁰, 189⁰ (bis), 195¹⁷,
 198¹⁷, 199¹, 205^{3 4}, 206^{14 10} (bis), 207¹⁷,
 208^a, 209¹⁰, 214¹⁵, 221⁴, 226¹, 228⁷, 237^{6 13},
 238¹⁰, 239¹⁴, 243¹⁰, 248¹⁴, 251^{8 7}, 268¹³, 270⁷,
 274¹, 276^{12 13}, 279³, 281⁴, 286³, 289¹³,
 299¹⁰, 303³ (bis), 304^{8 9}, 305^{14 17}, 306¹⁴,
 312^{5 6 7 8 9}, 320^{11 15}, 326⁸, 328³ (bis), 330^{8 9}
 10 11 15 16, 331^{2 4}, 334¹³, 344¹² (bis) 14, 347¹³,
 (bis) 15 (bis), 349¹⁸, 350³, 352⁹, 353⁸, 354²
 4 5 6 9 (bis), 355^{7 11 17}, 356^{4 6}, 368^{4 6 13}; -ग्रह
取色相 W, 取著色 T, रुप-शण-
 शक्ति-शण(200a), 348¹; -ग्रहण 持諸色
像 S, 見諸色像 W, 現諸色像 T,
 37¹⁶; -दर्शन 種々色 W, रुप-शण-
 शक्ति-शण(185b), 304⁵; -धारु 色界 WT,
रुप-शण-शक्ति-शण(204a), 361¹; -बहुत्व=
ता 色多種 W, 共生色 T, रुप-शण-
 शक्ति-शण(199a), 344¹²; -लक्षण 色
相 SWT, रुप-शण-शक्ति-शण(143b),
 189⁰ (bis); -विज्ञान 色識 WT,

रुप-शण-शक्ति-शण(194a), 330⁶; -वेश-
 पारित 現衆色像 ST, 隨諸衆生
形色 W, 195¹⁷; -स्त्रभाव 色形相 W,
色相 T, रुप-शण-शक्ति-शण(69a),
 20¹; -आत्मन् 色體 W, 色性 T,
रुप-शण-शक्ति-शण(193b), 328³;
-अन्तर 色色 W, 色色中 T, 347¹⁹.
रुपिन 外種種相 W, 外色 T, रुप-शण-
 शक्ति-शण-ठक(176b), 273¹⁰, 297¹.
रुप 無色 (?) SWT, 銀 SWT, रुप-शण-
 शक्ति-शण(84b), 57¹², 128¹⁷.
रोचन 樂於和合 W, 欲樂 T, भूमि-
 शक्ति-शण(182a), 162³.
रोम(न) 身毛 SWT, रुप-शण(87b), 32³,
 41^a, 63⁷, 64⁵, 249⁴, 286¹, 375¹⁰; -कूप毛
孔 SWT, रुप-शण(79a), 13⁵, 32³,
 44⁵; -हृषण 毛堅 W, रुप-शण(169a),
 249⁴; -अचिन्त-ननु 舉身毛堅 SWT,
舉身毛孔 舉身毛堅欣悅 SW, रुप-शण-
 शक्ति-शण(87b), 63⁷, 64⁵.
रौद्र (terrific), 257¹¹.
रौरव 叫呼獄 S, 叫喚獄 WT, भूमि-
 शक्ति-शण(172a), 257¹¹.

ल

लक्ष 勒叉 S, 百萬 W, 十萬 T, 31^a.
लक्षण 相 SWT, 色相 T, रुप-शण-
 शक्ति-शण(64b), 11^{3 5}, 12⁵, 14¹⁶, 17¹⁴, 18^{8 12 14}, 19^{4 8}, 20

, 24⁴, 25^{3 6}, 27⁶, 29¹³, 31¹⁰, 33⁸, 34^{7 13}, 36², 37^{10 11 12 13} (ter) 14¹⁸, 38^{10 17}, 40⁴, 41¹²,
 42⁴, 43^{16 17}, 44^{8 11 12 15 17 18}, 45⁹, 46^{13 14}, 47⁴, 49^{10 11 14} (bis) 15^{18 17} (bis), 50^{15 6} (bis)⁷
 (bis) 9¹¹, 51¹, 52¹⁰, 53^{13 17}, 56^{12 15 18}, 57^{3 4},
 7^{9 12 13 14 15 17} (bis), 58^{2 3 4 5 7 10 12 14 17}, 59¹³,
 10¹⁷, 60^{2 4 5 13}, 61^{3 4 7 9 12 13}, 62^{13 15 18}, 63⁷,
 8¹², 64¹⁰, 65¹, 66⁸, 67^{3 6 7 9 10} (bis) 12^{13 14 15},
 68^{3 4 5 8 10}, 69^{3 8 9 10 15}, 70^{7 10}, 71^{3 8 9} (bis) 19
 11¹² (bis) 14¹⁵, 72¹³, 73^{13 14}, 74¹², 76^{7 13}, 77^{4 18}, 78¹⁵, 81¹², 82^{9 10 14}, 83^{13 14}, 84^{5 6 10 14},
 87^{3 18 17}, 88^{2 12}, 89¹ (bis) 6⁷, 96⁴, 97^{4 10 14},
 98², 99¹⁷, 100¹⁷, 101⁴, 106¹⁶, 108^{17 18}, 109¹⁷,
 110^{1 2 4 5 6 8 12 13}, 111^{10 17}, 112^{1 2 3 4 9 10},
 113^{2 10 11}, 114^{2 3 8 7}, 115¹⁰, 116^{3 13 14 15 16 17},
 117¹, 118^{3 4 9 10 13 14 15 17}, 119^{7 8 9}, 120^{1 2 3 6},
 121^{4 9}, 122^{9 11 12 14} (bis) 18 (bis) 19, 123⁵,
 124^{1 2 14 16 17}, 125^{3 7 13}, 127^{2 8 14}, 128^{2 13 14}
 10, 129^{4 6}, 131⁵, 133^{3 4 13} (bis), 135⁹, 136²,
 9 12, 137^{4 11}, 138¹⁷, 142⁷, 144¹⁵, 145^{13 15},
 146^{11 15}, 148¹ (bis) 3 4 11 12 14 18, 149¹⁴, 151^{4 5 6 9 13}, 152³, 153¹², 155⁹, 156^{11 12 13}, 157³
 (bis) 4 5 8 10 14 15 10 (bis) 17, 158^{12 17}, 160¹¹
 (bis), 161^{2 11}, 162^{4 5 8 10}, 163^{1 6 13}, 164^{11 11},
 14 17 18, 165² (bis) 3 14 15, 166^{8 13 10}, 167^{2 3 10},
 170^{1 16}, 171^{6 12 18}, 172^{12 15}, 179^{2 13} (bis),
 180¹⁵, 186¹⁴, 187¹⁰, 188¹² (bis) 13, 189^{10 15},
 190⁷, 195^{4 6}, 196^{1 7}, 198^{2 15}, 199², 201¹³, 202⁶,
 203^{10 14}, 206^{12 14 16}, 207⁸, 208^{14 17} (अ-
 लक्षण in text), 209⁹, 211^{3 4 13 15 17}, 212^{1 2},
 2¹³, 214⁷, 217⁶, 218¹⁴, 221⁵, 224^{6 7 13},
 225^{8 15}, 226^{17 14}, 227^{9 14 19}, 228¹³, 229^{9 9},
 231^{2 17}, 234¹², 235¹⁰, 237¹³, 240⁹, 242¹⁴, 266^{14 15}, 267^{1 8 2 10}, 271¹³, 272¹⁴, 282¹⁵, 283^{1 3},
 285^{5 6 9}, 287¹³, 288², 290³, 294¹⁰, 295⁵,
 296⁶, 297^{8 9 13}, 298¹³, 299⁵, 300¹⁴, 301^{16 14},
 303⁸, 304^{7 14}, 305¹³, 309⁷, 314^{10 11} (bis),
 315³, 317^{14 17}, 318^{4 10 14}, 319⁷, 321¹¹, 324⁹,
 325¹², 326¹⁴, 329¹⁴, 331¹, 335¹⁴, 336¹, 338³,
 7¹⁰, 339², 344^{12 13 14 15}, 345^{2 10}, 349¹³, 350^{5 4},

351¹⁴, 352¹⁷, 353⁴⁵, 354¹², 355⁶, 357¹⁴¹⁷
361¹⁹(bis), 362²⁴, 364², 370⁹, 374⁷; -चय
三相 SWT, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि (81a),
49¹⁴¹⁵, 50²⁹¹⁰¹¹, 67²; -त्र相 SWT, 167²;
-निरोध 相滅 SWT, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि (76a),
97¹⁰, 38⁶; -पद 相句
ST, 相見 T, मक्तुं त्रिदृष्टुर्क्षेप (73b),
34¹³, 36⁷; -वाच 相言說 SWT, मक्तुं
त्रिदृष्टुर्क्षेप (98a), 86⁹¹⁰; -वत् 有相 ST,
有彼相 W, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि (86a), 60⁶; -विकल्प 相妄想 S, 相分別 WT, 妄想分別 W, 分別 T, गुरुं
विमुक्षादि (117a), 19⁴, 128⁴¹³; -विचित्र-
च-भावाभाव-निर्वाण 種種相性非
性涅槃 S, 種種相有無涅槃 W, 種
種相性無性涅槃 T, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि
क्षेप (116b), 126¹; -जून्यता 相空
SWT, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि (92b), 74⁸⁹;
-स्थिति 相住 SWT, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि
दि (75b), 37¹²; -स्वामव 相性自性
SW, 相自性 T, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि
(76b), 39¹⁰; -हेतु 相因 SWT, मक्तुं
त्रिदृष्टुर्क्षु (97a), 83¹²; -आत्म-ग्राह-
दृश्य-लक्षण 若我見有我相 W,
執我見有我相 T, एवम् हुत्येन
दृश्यं एवं मक्तुं त्रिदृष्टवाणि
क्षेप (64b); 11³; -उत्पाद 相生
SWT, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि (75b), 37¹¹;
-उपेत 衆相具足 T, 異真實相 W,
相 S, मक्तुं त्रिदृष्टवाणि (166b), 242¹⁴.

लक्षण 有相 W, 365¹¹.
लक्ष 所觀 S, 所相 ST, 所見相 W, 可
見 W, 所見 W, मक्तुं त्रिदृष्टुर्क्षेप (142b),
11³, 42⁴, 46⁴, 120², 186⁴, 187¹⁰, 189¹⁴,
190⁹, 217⁹, 255¹¹, 266¹¹, 270⁹, 272¹⁴, 294¹⁰,
298¹³, 305¹³, 309⁹, 314¹¹, 334¹⁰, 545¹⁰, 350⁹,
354¹², 370⁹; -लक्षण 相可相 W, 能
見所見 W, 能所相 T, मक्तुं त्रिदृष्टुर्क्षेप (77b), 11⁴, 42⁴, 350⁹.
लक्षा 楞伽 SWT, व्याप्ति (61a), 2¹⁴, 3¹⁷,
4¹¹⁵, 6¹, 8⁹, 43¹⁷; -निवासिन् 楞伽衆
W, 住楞伽衆 T, व्याप्ति वाचादि (63a), 5⁴, 8⁹;
-पुर ल楞伽城 WT, 1⁴;
-पुरि 楞伽國 S, 楞伽城 S, 43¹⁷;
-पुरी 楞伽城 WT, व्याप्ति वाचादि (61a, 62a), 2⁸, 5¹²;
-पुरी-मलय-शिखर म羅耶山頂上楞伽城 W,
व्याप्ति वाचादि वाचादि (61a), 2⁸; -मलय-
म羅耶山 摧羅耶山楞伽城 W,
摩羅耶山楞伽大城 T, व्याप्ति वाचादि
पर्वत 摧羅耶山 W, 楞伽城 T,
वाचादि (61a), वाचादि (62b), 5¹⁸; -अधिपति 楞伽王 WT, व्याप्ति वाचादि (62a, 64a), 4⁵, 9¹², 10⁹(bis)
11¹⁷, 11⁶⁹¹⁰¹², 12⁹¹², 14¹²¹⁷¹⁸, 15¹³, 16¹⁴,
17¹³, 18³¹⁰¹⁴¹⁵, 19¹²¹⁴¹⁹, 20⁴⁹¹¹¹³; -अ-
वतार 楞伽阿跋多羅寶經 S, 入
楞伽經 W, 大乘入楞伽經 T, व्याप्ति वाचादि (173a), 11⁵, 210²,
259⁶, 260², 261¹, 263³, 375¹⁴; -अवतार-
सूत्र 此修多羅 W, 此入楞伽典

T, 此楞伽經 ST, 入楞伽經 W,
व्याप्ति वाचादि वाचादि (62a), 5⁶,
258⁴, 262¹⁰, 264¹.
लक्ष 草 SWT, वृक्ष (84a), 36¹⁷, 37¹, 57¹,
94¹.
लवण 鹽 T, 味 W, 淡味 S, वात्कृष्ट (79b),
46⁷, 314⁴, 369⁷.
लशुन 蒜 SWT, शैशव (171b), 256¹⁰.
लाभ 得 W, 利 SWT, विषय (192a), 140
17, 257⁶, 323¹¹.
६ लाभिन 得 SWT, विषय (113b), 119¹⁶.
लावण 鹽中味 W, 鹽味 T, वात्कृष्ट
..... (206b), 369⁷.
लास 歌舞 W, विषय (83b), 7¹, 55¹⁵.
लिङ्गा 蟻 SWT, शैशव (72a), 31⁴.
लिङ्ग 相 SW, 形 T, मक्तुं वाणि (71b), 27⁸,
113², 124¹⁴, 363¹¹.
१० लिङ्गित (marked), 119¹⁴.
लीन 下劣 S, 怯衆生 W, 怯劣人 T,
243⁷.
लुडित (agitated), 285⁴.
लेख 書畫 SWT, विषय (83b), 55¹⁵.
लोक 世 SWT, 世間 SWT, 諸衆生
T, विषय के (66a), 14⁸⁹, 20⁹¹¹, 22⁸¹⁰,
25¹¹¹⁵, 73⁸, 89¹⁴, 104⁵, 105¹⁴, 106⁷, 120³,
145⁷(bis)¹⁰, 149⁹, 152¹³¹⁵¹⁷, 160⁸⁷, 173⁵,
174⁹¹¹, 175¹, 177¹(ter)²(bis), 179¹⁰,
184¹², 188³, 199⁴, 203¹², 208²(bis), 230
1¹³, 246⁹, 247¹⁰¹⁴, 264⁵⁷, 266¹⁷, 268²¹³, 269
1(bis), 270¹², 276⁹, 286¹⁴, 287⁴, 289¹⁶⁷,
295⁴⁷, 298³, 307⁸, 308¹, 309¹¹¹², 322⁷, 324
2¹³¹⁶¹⁷, 332², 333¹⁶, 334¹⁰, 340⁶, 342⁹, 343
6, 345⁹, 348⁹(bis), 350¹, 351¹⁷, 363¹⁴⁸, 367
1; -कारण 世間法 W, विषय के (सूत्र
वाचादि) (151b), 204²(bis); -अतिशयाति-
काल 過世間望 S, 過世間 W, 超
諸世間 T, विषय के वाचादि (सूत्र
वाचादि) (161a), 229¹⁷, 230²¹⁶; -अनु-
कम्पा 哀感世間 ST, 哀感一切世

(165a), 239⁵, 368¹⁰; -गुरु 世間尊者
W, 世所尊 T, विषय के क्षमता (175a),
268¹⁴; -इय 257⁹; -धातु 世界 SWT,
विषय के निष्ठा वाचादि (145a), 100¹⁴, 101¹,
105⁹, 192⁹, 193⁹, 198⁹; -नाय 世間救
護 S, 世所依怙 T, 世尊 W, विषय
के क्षमता वाचादि (167b), 244¹⁵, 365¹⁰;
-पाल 四天王等 S, 諸天衆 T,
विषय के क्षमता (65b), 13⁷; -प्रदोत 照
世間 S, 出世間 W, 世間燈 T,
विषय के क्षमता वाचादि (80a), 47¹⁴, 315¹³;
-विचित्रता 世間種種事 S, 世間
事 W, 世事 T, विषय के क्षमता वाचादि
(148b), 201¹, 337¹⁴, 342⁹; -विद्व द
世間解之士 S, 世間解 WT, विषय के
मुक्तिय (70a), 23¹⁸; -विदांवर 無
上世間解 S, 大天佛 W, विषय
के क्षमता वाचादि (70a), 23¹³, 29⁹;
-विश्रुत 32⁸; -बवहार 世間言說
SW, 隨世間而有言說 T, विषय
के क्षमता वाचादि (143a), 188⁹; -संनिः
वेश 一切衆生 W, 世間衆生 T,
विषय के वाचादि (69a), 20¹¹; -सं-
बवहार 世事 T, 論世事 W, 世俗
言說 S, 俗數言說 S, विषय के क्षमता
वाचादि (151b), 204²(bis); -अतिशयाति-
काल 過世間望 S, 過世間 W, 超
諸世間 T, विषय के वाचादि (सूत्र
वाचादि) (161a), 229¹⁷, 230²¹⁶; -अनु-
कम्पा 哀感世間 ST, 哀感一切世

間 W, 89¹, 150²; -आमिष-संग्रह 摄受貪欲 S, 摄受貪欲食 W, 摄取世間財利 T, वैष्णवे कुरुते यदि वैद्युते उन् पश्च (136b), 173³; -उत्तर 出世間 S, 出世 WT, वैष्णवे कुरुते यदि (72a), 28¹, 40², 134¹, 156¹, 157², 226¹, 234², 237³, 348¹; -उत्तर-तम 出世間上上 S, 出世間上上智 WT, वैष्णवे कुरुते यदि यक्ष यदि मक्ष (129b), 40², 156¹, 157¹, 209², 237³.

लोकायत 世論 ST, 盧伽耶陀 W, 路伽耶 T, वैष्णवे कुरुते यक्ष (137b), 174¹, 175², 176³, 177⁴, 178⁵, 179⁶, 180⁷, 181⁸, 182⁹, 244¹⁰, 346¹¹, 347¹², 366¹³; -टुष्टि 盧伽耶陀隨俗之論 W, 路伽耶等諸外道輩 T, वैष्णवे कुरुते यक्ष यक्ष यक्ष (167a), 244¹; -न 世俗法 W, वैष्णवे कुरुते यक्ष यक्ष (199b), 347⁶; -नय 世論通 S, 世俗論 W, 世論法 T, वैष्णवे कुरुते यक्ष यक्ष (140b), 182¹.

लोकायतिक 世間論 W, 世見 T, वैष्णवे कुरुते यक्ष यक्ष (186b), 151¹, 173², 174³, 175⁴, 176⁵, 177⁶, 178⁷, 179⁸, 180⁹, 208¹⁰.

लोकिक 世間 W, 世俗 S, 世 T, वैष्णवे कुरुते (72a), 28¹.

लोक्य 世間 W, 世 T, 348¹.

लोप (violation), 194¹ (bis).

लोभनीय (to be longed for), 365¹⁴.

लोभ्य 貪 S, 歡喜 W, 倒想 T, 94¹.

लोह (iron), 308¹.

लौकिक 世間 SWT, वैष्णवे कुरुते (129b), 28¹, 34², 40³, 154⁴, 156⁵, 157⁶, 209⁷, 234⁸, 237⁹, 336¹⁰, 335¹¹; -लोकोक्त्वा-लोकोक्त्वा (in text लोकोक्त्वा sometimes left out after लौकिक), 世間出世間上上 S, 世間出世間上上智 W, 世間出世間最上 T, वैष्णवे कुरुते यक्ष यक्ष (77a), 40², 209³, 237².

लौत्य 樂 W, 252³.

लौकिकी (terrestrial), 237³.

व

वंश 種 SWT, 族姓 S, 好族姓 T, 積善 (75a), 27¹, 33², 36³, 21⁴; -पद 族句 S, 族姓見 W, 種族句 T, 積善 (75a), 36¹⁰.

वक्तव्य (to be said), 169¹, 198², 360².

वक्तृ 說者 W, 釋義 (168b), 247¹, 301².

वक्त्र-मुख-निरीक्षण 賞視 WT, 15².

वक्त्र (नभस?), 294¹.

वचन 語 T, 言說 S, 言語 WT, क्षमा (62b), 6², 23³, 87⁴ (bis) 11⁵, 88⁶, 111⁷, 143⁸, 270⁹, 300¹⁰.

वज्र 金剛 SWT, वैष्णवे (78a), 42¹, 236², 237³;

-गम 金剛藏 SWT, वैष्णवे वैष्णवे (105a), 100¹; -पाणि 金剛力士 ST,

金剛密迹 W, 金剛神 T, वैष्णवे वैष्णवे

वे (165b), 240¹⁰, 242¹¹; -संहनन 金剛堅固山 SW, 金剛等諸山 SWT, 金剛山 T, वैष्णवे वैष्णवे (72a), 29², 32⁴; -सूत्र 17¹.

वदां-वर 尊中上 ST, 無上尊 W, मक्षण (70a), 7², 23¹², 26¹⁷, 358¹²; -वरिष्ठ 147¹⁷.

वच्छा 梨大 S, 石女 WT, वैष्णवे (97b), 85², 105¹⁷, 160², 266¹¹, 267⁴, 322²; -पुत्र

梨大子 S, 石女兒 WT, वैष्णवे (68b), 19², 104¹⁶, 188¹ (bis), 371²; -प्र=

सूयत 石女生 W, 石女生子 T, वैष्णवे (63b), 9²; -सूत्र 85⁶; -ओरस

96¹⁴, 289¹⁸.

वन 林 SWT, क्षमा (72a), 29², 45¹¹, 91², 94²,

248², 271¹², 360², 367⁸; -गहन 山林

ST, 稠林 W, क्षमा क्षमा (79b), 45¹¹;

-भूमि 阿蘭若 W, 閑處 W, 林樹

間 T, 林野 T, क्षमा गृष्णक्षमा (205b),

367⁸ 14.

वन्म (for वर्त्म), 143¹⁰.

वनस-पति 樹林 WT, वैष्णवे वैष्णवे (83b),

55¹², 80⁷.

वपु 山巖 SWT, 169¹¹, 170².

वर 上 ST, मक्षण (72a), 8², 23¹², 29¹⁰ (बल

in text), 146¹².

वराक 可憐愍 W, 無可尊重 T, 179¹.

वरुण 婆樓那 W, वैष्णवे (145a), 192¹.

(०) वर्ग 聚 S, 群聚 WT, 諸 WT, क्षमा (70a), 6², 7², 111², 181¹⁴, 196², 251², 347¹².

वर्ज 遠離 SWT, वैष्णवे (178b), 22¹⁰, 264².

वर्जन 離 WT, 330¹⁷.

वर्जनीय (to be abandoned), 197², 349¹⁴.

वर्जित 離 WT, वैष्णवे (69b), 22², 23⁶,

47², 48¹², 61², 65¹⁸, 70¹², 73⁹, 76¹⁸, 77¹,

89², 106¹⁸, 125¹, 131², 144¹⁷, 148¹³, 149¹,

153¹⁴, 158¹⁰, 161², 181¹³, 186¹⁴,

190², 199¹⁵, 201¹⁶, 202², 220¹¹, 238¹¹, 264¹⁴,

265², 266², 267¹³, 272¹⁴, 276¹⁰, 278²,

280², 284¹¹, 294¹⁰, 296¹¹, 302¹², 303²,

304¹⁰, 309¹⁴, 310¹², 311¹², 313¹⁰, 315⁴, 316¹,

318⁴, 319¹², 325¹⁴, 327¹⁷, 329¹,

332¹⁵, 334¹⁷, 345¹⁸, 346¹⁹, 347¹¹, 350¹, 351¹⁸, 353³,

356¹⁴, 357¹², 363¹⁴, 369¹⁰, 370¹⁰, 372¹⁸.

वर्ज्य 離 SW, 無 T, वैष्णवे वैष्णवे (77b), 42².

वर्ण 色 SWT, वैष्णवे (158b), 189², 225²,

352², 363²; -पुष्कलता 225²; -पुष्क-

ल-संयोग 色具足和合 W, 和合

之所生…色境皆具足 T, वैष्णवे वैष्णवे वैष्णवे (201b), 352².

वर्णित 所演說 S, 說 W, 所說 T, वैष्णवे (94b), 78¹.

वर्तक 行 W, 轉所依 T, वैष्णवे वैष्णवे (175b), 270².

वर्तमान 現在 T, 取現法 W, वैष्णवे (77b), 41¹³, 206¹⁰, 229¹¹, 278⁴, 354¹.

वर्त्मन 行路 W, 緣於(本住法) T, वैष्णवे वैष्णवे (204a), 143¹⁰, 361².

(०) वर्ष-शत 百年 WT, वैष्णवे (204b), 362¹⁰.

वर्षी 蔓草 S, 行列 T, वैष्णवे वैष्णवे वैष्णवे (71a), 27², 33¹².

वर्ष 力 T, वैष्णवे (68a), 17¹⁷, 142², 204²,

219², 340¹⁵; -(श)-गत 隨 SWT, 149².

21⁹, 318¹⁴, 329¹⁶; -भूत (for शब्द-भूत),
276¹; -वर्तिना 自在SWT, महाद्वा-
महेन्द्र-ध (64b), 134¹⁵ (न in text), 137¹⁶,
181¹, 289¹⁶; -वर्तन् 自在SWT, 55द्वा-
षेन्द्र-ध (116a), 11¹⁶, 13¹¹, 43¹, 70¹⁶, 101¹⁶,
125¹⁴.

बृशत् 自在 SWT, ५७८ (92a), २४^{१०}, ७३^{१०}, २७६^{११}, ३०९^{१२}, ३१२^{११}, ३१८^{१३}, ३७४^{१४}.

वशिता 自在 SWT, ५८८ (61a), १^०, ३०
१, ४२^१, ४५^१, ८१^१, १२६^१, १३७^१ १, १६०^१, १९५
१^७, २१३^७, २२७^१, २३१^१, २७३^७, २९०^१, ३५९^१; - पु=
ष-वरित वर्त अर्थात् 自在華莊嚴 W, ५८८
षी-मे-कृषा-८ण (121a), १३७^१, २९०^१; - स्वा=
द-सुख-भूमि 力三昧門地 S, 自
在次第入於諸地 W, 自在漸入
諸地 T, ५८८ ष-कृषा-८वि-८दि-८ष
८८-८वि-८दि-८ष-८वि-८८८-८ष (153
b), २१३^७.

वश्वन् 自在天 W. 自在宮 T. ५८८
६५ (206a), 269^a, 367¹².

वसन (*clothes*), 333⁶

वसुधरा (地), 192³.
वसुमति 善才 W. 具財 T. ວົດໝາດ (205
a), 364³.

事 ST, 行 W, 事性 S, 世事, 實事
本有 W, 體相, 妙物, 物, 事物,
諸法 T, 五蘊五處 (81b), 37¹⁶ 17¹¹, 50¹⁴
18⁶, 52⁶, 54¹, 57⁶, 67⁶ 7⁹ 10¹⁶, 77¹⁷ 1⁸, 93¹, 94¹⁴, 95¹¹, 98¹⁹, 100¹⁴, 108⁶ 7⁹ 112¹⁴ 1⁶, 128¹², 131¹, 147⁶, 152⁶, 164⁹ 10¹², 165⁶ 10¹² 14⁶,
166⁵, 167¹⁰, 168⁷ 8⁹, 265⁴, 271⁶, 275¹³ 1⁴,
276⁷ 1⁸, 279⁷, 281¹, 283³, 297¹⁵, 298², 300¹⁴, 304⁶, 307¹², 308³, 335⁵ 7⁹ 17⁶, 341¹¹, 342

², 350^b; -त्व भूमि WT, 法體 w, दर्शक
 दृष्टि (178b), 280¹⁴, 281¹; -हृषि 有無
 事見 S, 有無見 w, 有無一切諸
 著 T, दर्शक-दृष्टि दर्शक-भूमि-दृष्टि-
 भूमि दृष्टि-दृष्टि (133b), 166^a; -प्रतिति=
 विकल्प-विद्यान 分別事識 SWT,
 कृमि-दृष्टि-कृमि-दृष्टि-कृमि-दृष्टि-मैषा-दृष्टि (75
 b), 371¹⁷ 39.

बस्तु 衣 SWT, वैष्ण (61b), ३^a, १६^a, ७७^{१२}_{१३}
 (बस्तु in text), ३०८^{१२}, ३५९^{१२}, ३६३^{१२}; -च्छ-
 दन (बस्तु in text), 割截衣 WT, वैष्ण
 ५४३^{१२} (१८७a), ३०८^a; -पूत 濾 WT,
 ४०४३^{१२} (२०४b), ३६३^{१२}_{१३}

वहिर् (see वहिर्)

火 火焰 SW, 火 T, मेघ (73a), 32²,
363³, 372⁴ १९ १०.

वाक्य वैदिक WT, कृष्ण (172a), 257^a, 293^a.

पात्र (क्-ग-व) 言說 ST, 言 W, 言
語 WT, 語言 T, कृष्ण (86b), 61⁶, 86¹⁷
18¹⁹, 87², 12¹⁷, 88³, 100³, 141⁸, 12¹³, 142²⁴
13¹, 143⁸, 148¹¹, 154¹⁰, 155¹¹, 12¹, 160¹⁴, 218²⁰,
286⁴, 318⁴, -अश्वर-प्रतिक्रियन

言說文字妄想覺 S, 言說文字妄想 W, 文字語言虛妄分別 T, 160¹⁴; -काम-चिन्ता॒हृत्य उ身心諸障 W, 身語意過失 T, द्वयाभ्युक्ति॑ शेषाग्नि॑मन्तरान्ति॑वर्त (190b), 318¹⁵; -चिन्ता॑गोचर उ心境界 W, 語言心所行 T, द्वयाभ्युक्ति॑भ्युपि॑ (180a), 298¹⁶; -बलि॑ 口力 WT, क्लेश॑भृष्टि॑ठक (205b), 367¹⁷; -(ग)॑-मात्र 但有名字 W,

唯言說 T, क्षेपं रूपम् (143a), 188¹,
368²; - (क्षेपं)-मात्र (離一切量則) 無
言說 S, 唯有言說 T, 但有其名
W, कृद्य-स्वप्नश्च तद्यथा कृमा दद
क्षेप्याद्यद्वैक्षेप्यारूपम् (144a), 189¹(bis),
368²; -मात्र-त् 但有言說 S, 唯有
言說 T, 唯名 W, क्षेप्यारूपम् (151b),
208³; -विकल्प य言說妄想 S, 言語
分別 W, 言說相 T, क्षेप्याद्वैक्षेप्या
ददक्षेप्याद् (98b), 61¹⁶, 87¹⁴, 88², 143⁸,
148¹¹, 155¹¹¹², 209⁷, 218²⁰; -विकल्प-
मात्र 但言說妄想 S, 但虛妄分
別 W, 唯是分別但有言說 T, 61
⁸⁶; -विकल्प-लक्षण 言說妄想相 S,
相言說 WT, क्षेप्याद्वैक्षेप्याददक्षेप्या
ददि-मक्तु (98a), 86¹²; -विकल्प-
लक्षण-हृदय 言說妄想相心 S, 分
別言語相心 W, 言說分別相心
T, क्षेप्याद्वैक्षेप्याददक्षेप्यादि-मक्तु-क्षेप्या
(97b), 85¹¹¹²; -विकल्पाभिव्यक्ति-
गोचर 言說妄想所現境界 S, 虛
妄執着言語之相 W, 言語分別
所行之相 T, क्षेप्याद्वैक्षेप्याददक्षेप्याद
मक्तु-पदि-क्षेप्याद्युभ्य (98b), 86¹⁶; -समता
語等 S, 語平等 WT, प्रश्नाद्वैक्षेप्याद
(128a), 141¹¹¹⁷.

वाचक 說者 W, 能說 T, 9³, 1927.

वाच लोक WT, लोक W, कैष(184b), 9^a,
301^b, 369^c, 372^d.

वात्जि 馬 W, ५ (68b), 197

वातायन 窓 S, 胫 W, 隙游 T, 31⁴.

वाद 論 ST, 言說 T, 義 W, 謝論 T,
 麥^१口(77a), 39^{1 2}(bis), 40^{3 6}, 78²(bis)⁴
 5¹⁸, 90^{16 17}, 91¹⁴, 92⁷, 95¹, 96¹⁶, 103^{16 17}, 105
 3¹, 114^{12 16}, 132¹⁵, 147¹², 166¹⁴, 181³, 197^{1 14}
 (bis), 198^{5 7}(bis)^{11 13}(bis), 236², 300⁶,
 348⁷, 349¹¹, 370¹⁰; -मात्र 唯從言語
 (生)W, 呪術與謝論 T, (वाद-
 मन्त्र?), 300⁶.

वादित्र 音樂 SWT. श्वेतम् (४३६), ५५^{१०}.

वादिन 論 ST. 韶·訛(100b), 7¹⁴, 40¹⁵, 74¹⁶.

91¹⁵, 158¹⁶, 159⁹, 179¹³, 186⁷, 250⁴, 355⁹¹⁰;
-आं-वर 大師 W, 勝說者 T, 韶
घटि-मक्ति (201a), 351¹⁴.

वादिनी 論者 ST, 2017

भारत 樂器 ST, 妖樂 W, श्वेत (105b).
 102°; -भारत 樂器 W, 音樂器 T,
 श्वेत (67a), 16°, 102°.

猿猴 SWT, 三(89b), 68

遠離 W, 洗滌 T, ສົດສ (171b),
255th.

वाम 左 SWT, पार्श्व 189^a.
 वायु 風 SWT, त्रूप (69b), 35¹², 68¹⁴, 354³,
 366⁴; -धारा 風界 ST, 風大 W, त्रूप
 मीषमध्यस (115b), 124⁶; -पद 風句 ST.
 風見 W, त्रूप-मीषमध्यस (74b), 35¹².

वात्र (water), 365¹⁶.
 वात्स्तिक 解釋 T, 子注 W, विशेषण (204
 b) 362¹⁷.

बालका (ब्राह्मण in text) ये विद्या

(160b), 229¹²¹⁶, 230⁴, 231⁴⁸¹¹¹⁵¹⁷, 232⁴⁵⁸ (bis)⁹ (bis)¹²¹⁸, 233⁴⁶, 234⁵⁷.

367³.

वास 住 WT, 衣 WT, वास (204b), 303¹⁰, 363¹¹; -न वास ST, 煙習 W, वास क्षमा (76a), 38², 43⁷, 63¹¹, 85⁴, 220¹⁴, 265¹⁷, 285⁶, 293¹, 296⁶ (bis) *⁸, 302⁶, 307¹⁰, 316¹⁷, 326¹⁶, 327⁷, 342¹¹, 343¹⁴, 356²; -न-ना वास ST, 餘習 T, वास वास क्षमा (170a), 252¹; -न-हेतुक वास W, 煙氣因 T, वास क्षमा *⁸ वास (190a), 43⁷, 317¹⁷, 374⁶; -ना वास SWT, वास W, 煙習 ST, वास क्षमा (75b), 37¹⁰, 382⁴, 411⁹, 44⁵, 45², 56⁸, 57⁶, 58⁹, 65⁸, 69¹, 71¹, 75⁶, 80¹, 82³, 86¹¹, 90⁴, 11⁸, 91¹³, 92¹, 93¹⁵, 94⁹, 98¹⁷, 100³, 108¹¹, 109⁷, 126¹⁰, 134¹¹, 135¹⁰, 150¹³, 154¹⁴, 155², 177¹, 186¹, 212², 213¹⁸, 214¹⁸, 218¹⁴, 220¹⁴, 233¹⁴, 235³ (bis) *¹⁷ (bis), 236⁷, 241¹³, 243¹⁰, 244⁶, 251⁶, 255¹⁸, 277¹³, 293⁶, 296⁷, 298⁷, 302⁴, 303², 305¹², 309¹², 321¹⁴, 322⁷, 326², 374⁶; -ना-लेश 習煩惱 S, 重習煩惱 W, 煩惱習 T, वास क्षमा गुणकर्मदाय (87b), 63¹¹, 135¹⁰; -ना-दोष 134¹²; -ना-हेतु वास ST, 煙氣因 S, 因虛熏習 W, 煙氣為因 T, वास क्षमा गुणकर्म (166a), 242⁶; -ना-हेतुक 因熏種 W, वास क्षमा गुणकर्म (191b), 322⁷, 374⁶.

वासम 衣 W, 衣服 T, वास (206a), 333⁶, 367¹³.

वासित 習 S, 重 WT, 熏習 WT, 80⁶, 90⁶, 92¹⁴, 93¹⁵, 94¹², 170¹⁴, 212¹², 220¹⁴, 236⁶, 244⁶, 250⁶.

वासिता (habit-energy), 250⁶.

वाह 流 SWT, वाह (163b), 294⁶; -क

招致S, 能生W, 發生T, वाह (141a), 71⁴, 174¹⁴, 183⁴.

वाहिन (bearing), 308⁴.

वाल (see वाल).

विवर 頻婆羅 SWT, विवर (72b), 31⁴.

विकल्प 分別 SWT, 妄想S, 能…分別 T, क्षमा विवर क्षमा (163b), 9⁷, 11⁵, 12⁴, 15², 17⁴, 18¹⁰, 19¹⁰, 16¹⁷, 20⁸, 38¹⁸, 40⁷, 41⁸, 42², 43⁶, 44⁷, 45¹¹, 13¹⁶, 49⁷, 51¹¹, 52¹⁰, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 54⁵, 57⁶, 58³, 60¹⁵, 61¹⁶, 18¹⁰, 62¹⁴, 67¹⁶, 68¹³, 71¹³, 72⁹, 73¹⁵, 77¹⁰, 78¹⁵, 79³, 80¹⁰, 17, 82³, 11, 93¹⁵, 84¹³, 86⁶, 17, 87¹, 2³, 4 (bis) *¹⁸, 88³, 90⁴, 92¹, 16, 93⁴, 15, 94⁹, 12, 16, 95⁴, 97¹⁷, 17, 99², 106¹⁷, 109⁷, 110¹², 111¹⁰, 114⁷, 118¹⁶, 120², 121², 122⁹, 11, 12, 13¹⁵, 16, 124⁸, 127¹², 128¹⁴ (ter) *⁵ (q.uar) *⁶ (ter) *⁷ (bis) *⁹, 10, 11, 14, 16, 18, 129, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 11, 10 (bis), 139², 140², 142², 143⁴, 148¹¹, 150¹⁰, 15, 16, 16, 17, 151², 7, 9, 13, 14, 15, 16, 152¹, 2, 3, 5, 8, 10, 154³, 155¹¹, 12, 158⁴, 159¹⁴, 17, 161², 162¹, 2, 3, 6, 10, 163⁹, 11, 164⁹, 165⁵, 168³, 169⁷, 170¹⁶, 172¹⁰, 173¹⁷, 176¹³ (bis), 177⁹, 12, 178³, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 179¹⁴, 180¹⁴, 181¹, 182², 12, 183², 5, 7, 185¹, 186¹², 12, 13, 16, 17, 187¹, 188¹⁵, 194¹⁰, 19, 197¹⁵, 198⁴, 199⁶, 10, 200¹, 5, 6, 205¹⁷, 208¹, 18, 17, (bis), 209¹⁴, 212⁶, 9, 12, 214¹, 5 (bis) *⁸, 15, 16, 21, 18¹⁶, 10, 219¹, 7, 221⁴, 224¹⁶, 225⁵, 6, 11, 14, 15, 16, 226³, 5, 227¹³, 14, 16, 228⁵, 10, 16, 233¹⁴, 15, 17, 234³, 236⁴, 237¹², 13, 14, 17, 238², 3, 14, 243¹ (bis), 250⁴, 265¹⁸, 267⁷, 273¹⁵, 274¹⁶, 281⁵ (bis) *⁶, 282¹ (bis), 284³, 10, 12 (bis), 286⁴, 287¹⁰, 11, 291¹ (bis) *⁴ (bis), 297¹³, 14, 298⁵, 299¹⁹, 300¹, 304¹⁷, 311², 7, 11, 12, 312¹², 313¹⁷, 314¹ (आ in text), 316¹⁷, 322¹⁷, 323⁸, 326², 18, 327², 328², 4, 5, 335¹, 336¹⁰, 342⁴ (bis) *⁶ (bis), 343⁶, 10, 17, 344⁹, 10, 345¹⁶

18, 17, 347², 4, 15, 18 (bis), 349⁴, 6, 10, 350⁵, 8, 352⁶, 14, 15, 353⁷, 356⁸, 360², 374¹⁸, 375⁶; -क 126¹¹; -कत्सित लभा संविधान विवर क्षमा (68a), 18¹⁶; -गोचर 分別境界 W, 妄生分別 T, क्षमा विवर (80b), 17¹⁰, 49⁷; -दर्शन 分別見 W, लभा संविधान विवर क्षमा (77b), 41⁵; -इय 313⁵; -ना वास S, 分別 WT, क्षमा विवर क्षमा (108a), 108⁴, 155¹⁷, 266¹⁰, 330¹⁶, 343¹⁵; -ना 分別 WT, क्षमा विवर क्षमा (101b), 94¹, 286⁴, 314¹; -बुद्धि 分別智 W, 分別解 T, 妄想覺知 S, 51¹¹; -भाव (分別法), 19¹⁰; -मनस 分別唯是意 W, 分別名意識 T, 294¹⁰; -माच 123¹⁶, 186¹⁶; -लक्षण 分別相 W, 妄計 T, 妄計相 T, क्षमा क्षमा मार्कन्त्रित (179a), 283¹, 287¹², 326¹⁴.

विकल्प 可分別 W, 所分別 T, क्षमा विवर (176b) 274¹, 282¹, 311¹⁰.

विकल्पमान (being discriminated), 106¹⁷, 107⁸, 12, 16, 108².

विकार 變異 T, 轉變 SWT, विकार (151b), 198⁴, 205⁴, 207⁴, 208⁶, 8, 373¹⁰.

विकारान्तर 轉變中間 S, विकार (150a), 205⁴.

विकारित 轉變 WT, 334¹⁴.

विकृति 形處顯現 S, 形相雖殊 W, 形狀有殊 T, विकृति (130b), 159⁷.

विक्रम (selling), 308⁴.

विक्रीडत (playing), 123⁴.

विक्रीडित 遊戲 ST, 奮迅遊化 W, 110.

विक्षिप 亂 S, 虛妄顛倒 W, 亂想 T,

- प्राप्तेषाद् (64b), 11^८, 242^१.
विशेष 楊 ST, 動 W, विशेष (107a), 105^१.
- विगत** 離 SWT, विशेष (61b), 3^१, 10^१, 49^१, 54^१, 56^१, 57^१, 58^१, 60^१, 72^१, 80^१, 99^१, 115^१, 153^१, 157^१, 198^१, 212^१, 310^१, 325^१, 334^१, 371^१.
- विगम** 壞 S, 分散 T, 離 SWT, 穗 (151b), 208^१, 209^१, 215^१, 242^१.
विगहित (see also गहित), 258^१.
- विग्रह** 身 SW, 色像 T, 形色 SW, प्रतीक्षण-प्रकृति-देव (69a), 13^१, 20^१, 43^१, 57^१, 129^१, 320^१.
- विग्रहित** 繼 W, 取 T, विग्रह (208a), 374^१.
- विघातक** 離 W, 斷 T, विघात (204a), 362^१.
- विघातन** (warding off), 264^१.
- विघ-कर** (causing hindrance), 248^१.
- विचार** 所念 SWT, विचार (81b), 14^१, 50^१.
- विचारयितुम् (to cause to move), 221^१.
- विचार्यमाण** 觀 ST, 觀察 W, विचार्यम् द्वय (111b), 115^१.
- विचालन** 觀察 T, 覺知 W, विचालन (63b), 9^१.
- विचिकित्सा** 疑 SWT, विचित्र (112b), 117^१, 118^१, 18^१.
- विचित्र** 種種 SWT, विचित्र (78b), 44^१, 48^१, 57^१, 69^१, 71^१, 80^१, 82^१, 88^१, 90^१, 106^१, 108^१, 109^१, 110^१, 118^१, 131^१, 132^१, 150^१, 151^१, 154^१, 159^१, 160^१, 172^१, 173^१ (bis) 12^१, 174^१, 175^१, 213^१, 271^१, 304^१, 313^१, 363^१,
- गत 種種 SWT, 46^१, 201^१, 279^१, 314^१, 342^१; -रूप-वेश-धारित् 195^१; -आङ्
 塗身 W, 所服 T, 363^१; -आभ 種種 SWT, 種種現 S, 見種種 WT, विज्ञेय-विद्या (118b), 131^१, 132^१.
- विज्ञानत्** 96^१, 268^१.
- विजृम्भित** 頗呻 T, 欠咗 W, 欠 S, विजृम्भ (107a), 105^१.
- विजृम्भ** 奮迅 WT, विजृम्भ (65b), 13^१.
- विज्ञ** 智者 WT, मायाद् (203b), 360^१.
- विज्ञमि** 言教 S, 假名 WT, 意識 W, 諸識 W, 識 W, 表示 T, 假設 T, 假設設 T, 施設 S, 教 SW, 取 T, 說 ST, 所取 T, 顯示 T, क्वचिद् विषय (98b), 44^१, 65^१, 86^१, 95^१, 96^१, 167^१, 168^१, 169^१, 265^१, 267^१, 268^१, 269^१, 272^१, 273^१, 276^१, 278^१, 322^१; -ज्ञ
 二取 T, 二教 SW, 65^१, 278^१; -माच
 是施設量 S, 唯是內心 W, 但是假名 T, 唯是自心 W, 169^१, 170^१, 270^१, 274^१.
- विज्ञात्** (recognized), 214^१.
- विज्ञान** 識 SWT, 意識 WT, विज्ञान (61a), 22^१, 10^१, 11^१, 18^१, 19^१, 22^१, 30^१, 37^१, 38^१, 39^१, 40^१, 41^१, 42^१, 44^१, 45^१, 46^१, 10^१, 12^१, 13^१, 47^१, 48^१, 49^१, 54^१, 56^१, 57^१, 68^१, 72^१, 80^१, 84^१, 94^१, 95^१, 98^१, 124^१, 125^१, 126^१, 16^१, 127^१, 3^१, 9^१, 13^१, 136^१, 139^१, 140^१, 156^१, 12^१, 157^१, 24^१, 15^१, 158^१, 163^१, 178^१, 215^१ (bis), 220^१, 221^१, 223^१ (bis) 14^१, 224^१, 225^१, 226^१
- गत 種種 SWT, 46^१, 201^१, 279^१, 314^१, 342^१; -रूप-वेश-धारित् 195^१; -आङ्
 塗身 W, 所服 T, 363^१; -आभ 種種 SWT, 種種現 S, 見種種 WT, विज्ञेय-विद्या (118b), 131^१, 132^१, 315^१, 316^१, 317^१ (bis) 14^१, 15^१, 318^१, 319^१, 320^१, 322^१, 323^१, 325^१ (bis), 330^१, 334^१, 344^१, 345^१, 349^१, 354^१, 355^१, 356^१, 357^१, 370^१, 371^१, 372^१, 374^१; -काय 識身 SWT, 139^१, 235^१, 242^१; -गोचर 是智者 W, 智所行 T, क्वचिद् विषय (182b), 298^१; -नरंग (-नरङ् in text), 識波 W, 識波浪 T, 11^१; -पञ्चक 識(共於)五種 W, 五識(伴侶)T, क्वचिद् विषय (191a), 319^१; -पञ्चम 95^१; -परानुत्रि 轉所依識 T, 轉(一切微細)識 W, 10^१; -कुञ्ज 識佛 SW, 識身佛 T, क्वचिद् विषय-प्रकृति-क्वचिद् विषय (121b), 139^१; -विपाक-ज 實通 W, 報得通 T, (अभिज्ञा-), क्वचिद् विषय (182a), 292^१; -स्वभाव 識性 T, 識色 W, क्वचिद् विषय (64b), 11^१; -आलय 藏識 ST, 阿梨耶識 W, 62^१.
- विशेष** 是則 SWT, 203^१, 339^१.
- वित्त** (stretched), 12^१.
- वित्त** 不實 ST, 頗倒 T, वित्त (109b), 頗倒相 WT, वित्त-प्रकृति-देव (109a), 110^१, 162^१, 199^१, 239^१, 276^१, 308^१; -गत 頗倒 W, वित्त (162a), 232^१; -हेतुक 頗倒因 W, वित्त-प्रकृति (206a), 368^१.
- वित्तक** 膽度 T, 222^१, 253^१.
- वित्त** (extension), 361^१.
- वित्तनक** (canopy), 覆 W, 5^१.
- वित्तग्रथ** (acquainted with), 9^१, 174^१.
- विदारण** 離散 W, 分析 T, विद्या (176b), 43^१, 273^१.
- विदारित** 破 W, 斷 T, विद्या (207b), 373^१.
- (विदुस्) (see under विज्ञत).
- विदूष** 和伎者 S, 狡猾者 W, 和技者 T, विदूष-विदूष (191a), 224^१, 319^१.
- विदृष्टि** 邪見 W, 見 T, 348^१.
- विज** 智識 S, विज-कृत (129b), 148^१, 156^१.
- विद्यमान** (being), 145^१, 169^१, 170^१, 171^१, 359^१.
- विद्या** 明處 SWT, 五明處 W, विद्या (71a), 26^१, 12, 30^१, 35^१, 36^१, 57^१, 69^१, 109^१, 152^१, 248^१ (bis) 11^१, 308^१, 319^१, 360^१; -धर 或持咒術 T, विद्या (169a), 248^१; -साधन-मोक्ष-विज्ञ-कर 咒術不成 W, 咒術…解脱…障礙不得成就 T, विद्या-विद्या-विद्या-विद्या-विद्या (169a), 248^१; -साधयितु-काम 諸咒術師 W, विद्या-विद्या-विद्या (169a), 248^१; -स्वान 26^१, -स्वान-कला 明處及技術 S, 五明處技術 W, 明處與技術 T, विद्या-विद्या-विद्या-विद्या (71a), 26^१.
- विद्युत** 電 SW, 電光 T, विद्युत (102b), 16^१, 95^१, 110^१, 265^१, 276^१, 370^१.
- विद्युत्ता** 電 SWT, विद्युत (109b), 110^१.
- विद्यत्** (विदुस्) 智慧者 W, 明智 S, 有智 T, विद्यत् (141a), 106^१, 114^१, 181^१.

185², 188⁶⁷, 311¹⁴, 331¹¹, 360¹⁰.
विधि 種 SWT, कृमादि(80b), 58², 71³,
 74², 75¹⁸, 83⁸, 86¹¹², 97⁶ (bis), 116², 117
¹⁷, 126² (bis) ¹⁰, 132² (bis), 141⁷, 142¹,
 153¹², 157², 158¹¹¹⁶, 172¹⁷, 209⁵, 287¹⁰, 202
¹⁴, 296³, 297⁸¹⁰, 303⁵, 304¹²¹⁴, 305⁷ (bis),
 306²¹⁴¹⁵¹⁹ (bis) ¹⁴ (bis), 329¹⁴, 331⁹, 336
¹, 349², 353¹², 368¹⁷.
विधि 分別 S, 知 S, 善知 W, 善能了
 知 T, मूर्त्यादि(126a), 31⁶, 114⁴, 116¹⁶, 123
¹, 148¹⁶, 297¹⁰; -वत् 309⁴.
विघृत 離衆相 T, 能離相 W, विद्युत्यादि
 (184a), 298¹⁴.
विनय 毗尼 SWT, 調伏 ST, 隨受佛
 教 W, विद्युत्यादि(61a), 2⁹, 28¹², 37², 66⁴,
 134⁷, 247¹⁵, 250⁴, 253¹⁴, 290⁴, 308⁷, 309¹⁴;
 -पद 毗尼句 S, 毘尼句 T, 毗尼
 見 W, विद्युत्यादि-क्षेत्र(75b), 37².
विनष्ट 壞 S, 滅 WT, विष(151a), 206¹⁴.
विनायक 廣說者 S, 如來 WT, 諸導
 師 T, विद्युत्यादि(63a), 8⁷, 54¹², 192¹³, 234
⁵, 320⁶, 356⁴, 365⁴.
विनाश 破壞 SWT, विद्युत्यादि(77a), 17¹⁰,
 40¹⁷, 58⁷, 92¹⁷, 99², 103¹⁴, 175¹⁴, 181⁵, 183
³, 186⁸, 205¹⁰, 207¹³¹⁶, 208⁷, 209¹³, 215⁵,
 217², 233⁸, 238⁶, 257², 366⁴; -क्ष ठ
 SW, 壢 T, विद्युत्यादि(149b), 203⁶, 331¹⁰
¹⁶, 339¹⁶; -धर्मिन् 敗壞之法 WT,
 विद्युत्यादि-क्षेत्र(67b), 17¹⁰.
विनिःसृत 依…因 S, 因於…和合…
 出 W, 依於…而出 T, 從…生 S,
 出 WT, 154⁸, 209⁷, 361¹ (विनिःसृत
 in text).
विनिष्टित (fallen down), 252⁴.

—(158)—

विनिवड 通達 SWT, विद्युत्यादि-
 विक्षेत्र(97b), 85¹³.
विनिर्गत 出 W, 從…中出 T, विद्युत्यादि
 (190a), 266⁴, 283⁷.
विनिर्मुक्त 離SWT, मूर्त्यादि-विद्युत्यादि(148b),
 51⁴, 71⁶, 44¹², 93¹, 96¹⁴¹⁶, 108¹³, 114³, 132
¹¹, 143⁸, 145⁵, 153¹⁷, 187², 191¹, 200⁴, 202
², 207⁴, 210¹, 219⁴, 271¹⁹, 311¹³, 313², 330
⁵, 331¹, 332¹, 337¹¹, 338¹³, 345⁵, 348¹, 351²
¹³¹⁵, 360⁵, 370¹⁰, 375⁴.
विनिर्वृति 轉 W, 轉滅 T, विद्युत्यादि(166
 a), 241¹³.
विनिर्वर्तन 減ST, 斷 W, विद्युत्यादि-विक्षेत्र(77a),
 40¹¹, 56¹², 139¹⁴.
विनिर्वृत्त 捨離ST, 得離 W, कृमादि-
 विद्युत्यादि(84b), 12², 14³, 51⁴, 52¹²⁴⁷, 57¹³,
 72⁸, 78¹⁸, 89⁴⁹, 151¹⁷, 152⁴, 161², 166¹, 172
¹², 189¹⁷ (bis), 190⁴, 214⁸, 220¹⁸, 225¹⁵, 226
¹⁴, 242⁸; -विज्ञान 離諸一切心識
 W, 雜諸識 T, 14⁵.
विनिर्वृति 減除 S, 遮 W, 除 T, विद्युत्यादि
 (66a), 14⁶, 40¹², 42³, 58¹, 73⁹, 79⁴, 81²,
 83¹⁷, 151¹⁴, 152⁴, 185⁴, 200⁴, 205¹³, 207¹¹
¹⁵, 233¹⁵, 241¹⁴, 243², 311², 337⁴.
विनिष्पय 決斷 S, 決定 W, 善達 T,
 विद्युत्यादि(79b), 45¹⁰.
¹⁰ **विनिःसृत** (see विनिःसृत), 361¹.
विन्यास (*a deposit*), 255².
विपत्ति 過失 T, 不淨之垢 W, 所治
 ST, 對治WT, मूर्त्यादि-विद्युत्यादि(66
 a), 15², 101⁴.

विपरीत 與此相違ST, विद्युत्यादि-विक्षेत्र(147a), 197².
विपर्यय 無頗倒W, 非倒 T, 頗倒ST,
 因緣 W, (for प्रत्यय); कृमादि-विद्युत्यादि
 विक्षेत्र(126a), 149⁷, 252¹¹, 301¹¹.
विपर्यस्त 頗倒SWT, विद्युत्यादि(133a),
 164¹⁰, 279⁶.
विपर्यास्त 頗倒SWT, विद्युत्यादि(107
 b), 99¹⁸, 106¹⁸, 107⁴⁸, 279⁶, 280¹⁴¹⁵, 281¹,
 312¹².
विपश्यत् (*seeing*), 223¹⁷, 298⁶.
विपश्यमान (*seeing*), 285³.
विपाक 果 W, 果報 T, 82³, 374²; -ज
 報生 S, 報 WT, कृमादि-विक्षेत्र(71b), 28¹,
 283⁸, 292¹⁸; -स्य 報 SWT, कृमादि-विक्षेत्र
 (73b), 34².
विपुल-प्रत्यय 相違及無因 W, विद्युत्यादि-
 ->, 頗與緣習 T, 353⁸.
विप्र 婆羅門 W, 梵志 T, विद्युत्यादि(198
 a), 342¹⁶, 364¹³.
¹⁰ **विवृद्धि** 成等正覺 SWT, विद्युत्यादि-
 विक्षेत्र(71b), 28⁷.
विमङ्ग 減SWT, विद्युत्यादि(149a), 201⁷; -ज
 त्पाद-वादिन् 201⁷.
विभज्य 分別SWT, कृमादि-विक्षेत्र(112a),
 116⁶, 280⁷; -मान 53¹⁶¹⁷.
विभव 不生 W, 減 T, विद्युत्यादि(175a),
 269²³, 301¹¹, 346⁶, 347¹⁵.
विभाग 分析推求 T, 分別 S, 部分
 S, 差別 WT, विद्युत्यादि-विक्षेत्र(92b), 74
¹¹, 84⁴, 89⁷, 130³ (bis), 189¹⁰¹¹, 206¹¹ (bis),
 213⁷, 214⁴, 228², 323¹³, 357¹⁶, 373⁵; -ज
 善分別SW, 善知 T, विद्युत्यादि(192a),
 149³, 323¹³.
विभाव 分別 S, 所見 W, 諸物 T, कृमा-
 दि-विक्षेत्र(70b), 24¹³; -ज 281¹⁸; -न 善
 分別 S, 善知 W, 觀察 WT, कृमा-
 दि-विक्षेत्र(95b), 80⁶, 344³; -नाता 79¹⁴;
 -ना 善分別 S, 善知 W, 觀察 T, 分別 WT, 妄想 S, कृमा-दि-विक्षेत्र
 (95b), 80⁶¹¹, 190⁶, 272¹⁶, 370²; -ना-
 धातु 能觀禪道 W, 行者修於定 T, कृमा-दि-विक्षेत्र-प्रत्यय (206b),
 370².
विभावत् (*see विभावयत्*), 324¹¹.
विभावयत् 觀 T, 能知 W, विद्युत्यादि(184
 b), 95⁶, 226¹⁷, 296⁴, 300¹³, 305¹⁰, 324¹¹
 (*विभावत्* in text), 370³ (-वेत्तो in text).
विभावयत्य 應觀察 T, विद्युत्यादि(195
 b), 10⁷, 77⁶.
¹¹ **विभावन्त्** (*gatiha* form for *वयन्*), 95⁶,
 370³.
विभू 周徧 SW, 自在 T, विद्युत्यादि(94b),
 78³; -ति 妙事 W, 自在 T, विद्युत्यादि
 (66a), 333³.
विभूषित 嚴飾 T, 51², 12¹⁴, 101⁷.
विभ्रम 惡亂 S, 亂惑 W, 迷惑 T, 14²
 65¹⁰, 121¹⁵, 199⁸¹⁰¹², 271⁶, 273³, 274²,
 279¹⁴, 281¹³¹⁵, 293⁴.
विभ्रमत् 迷亂心 ST, 迷惑 W, 95⁶.
विभावन् 宮殿 SWT, विद्युत्यादि(61b), 32², 56⁶,
 70², 102⁷, 239⁶, 266⁷, 368¹⁰.
विमुक्त 遠離 SW, कृमादि-विक्षेत्र(78
 a), 42¹⁰, 146⁶, 344¹⁵.

विमुक्ति 離 ST, 空相 (85a), 58^a, 135^a,
 139^a, 241^a, 306^a, 321^a; -एक-रसता
 一味 ST, 無差別 W, 空相無相 (123a), 241^a.
विमुद 迷惑 T, 迷堅固 W, 空相 (183b), 294^a.
विमोक्ष 解脫 SWT, 空相無相 (72b),
 30^a, 57^a, 58^a, 79^a, 90^a, 120^a, 137^a, 139^a,
 143^a, 166^a, 168^a, 170^a, 176^a, 181^a, 189^a,
 193^a, 221^a (bis), 289^a, 291^a, 322^a, 346^a,
 349^a, 358^a; -चय 三解脫 SWT,
 空相無相 (95a), 79^a, 139^a, 163^a, 166^a,
 176^a, 291^a, 332^a; -चय-चारिन 修
 三解脫 W, 修行三解脫 T, 空相
 無相無相 (195a), 332^a.
विमोहित (*confused*), 186^a.
 ४ **विमृ** (see विमृ), 36^a; -पद 像句 S, 像見
 W, 影像句 T, 空相無相 (74b), 36^a.
विमुक्ति 離 S, 護 W, 遠離 T, 102^a.
विरञ्ज 離 SW, 無垢 T, 離塵 T, 離
 垢 WT, 離於諸煩惱 W, 離垢 T,
 空相無相 (71b), 28^a, 364^a, 365^a, 367^a.
विरह 離 T, 空相 (183b), 72^a, 297^a,
 318^a.
विरहित 離 W, 拾離 S, 空相 (78a),
 42^a, 45^a, 49^a, 62^a, 67^a, 69^a, 108^a, 198^a,
 232^a.
 ५ **विरुद्ध** (*hindered*), 259^a.
विरुद्धक 四天王 WT, 367^a.
विरोध (*opposition*), 351^a.

विलक्षण 異相 ST, 非…相 W, 空相
 空相無相 (116a), 60^a, 76^a, 125^a,
 167^a, 207^a, 344^a, 354^a, 360^a.
विलेपन 塗香 WT, 空相 (66b), 15^a.
विवर्जन 離 SWT, 空相 (111a), 80^a,
 114^a, 165^a, 258^a; -त 離 SW, 除 T,
 空相 (184b), 167^a.
विवर्जित 遠離 SWT, 離 SWT, 空相無相
 (78b), 34^a, 52^a, 70^a, 78^a, 80^a, 81^a, 96^a,
 106^a (bis), 108^a, 125^a, 132^a, 133^a,
 135^a, 153^a, 166^a, 181^a, 186^a, 194^a, 203^a,
 207^a, 224^a, 226^a, 234^a, 249^a, 250^a (bis),
 258^a, 266^a, 269^a, 271^a, 291^a, 295^a, 296^a,
 298^a, 306^a, 313^a, 321^a, 324^a, 325^a,
 330^a, 339^a, 343^a, 346^a, 354^a, 356^a, 358^a,
 359^a, 362^a, 363^a, 370^a, 371^a, 372^a, 375^a;
 -त 離 SWT, 空相無相 (145b),
 194^a.
 ६ **विवाद** 諸過 W, 違諍 T, 空相 (156a),
 219^a.
विविक्त 寂靜 SWT, 遠離 SW, 性離 T,
 離 SWT, 空寂 SWT, 空相無相
 (114a), 91^a, 121^a, 125^a, 140^a, 147^a,
 151^a, 162^a, 165^a, 171^a, 197^a, 200^a, 214^a,
 215^a, 218^a, 219^a, 234^a, 238^a, 280^a, 290^a,
 297^a, 331^a, 343^a, 344^a, 354^a; -त 遠
 離寂 S, 如實解 W, 樂寂 T, 空相
 (88b), 65^a, 297^a; -त 145^a;
 -दर्शित 見…寂靜 SW, 見寂靜 T,
 空相無相 (132a), 162^a;
 -धर्म 寂靜法 ST, 寂靜之法 W,
 空相無相 (116a), 125^a,
 165^a, 166^a, 214^a; -धर्म-विहार 住
 …如實空法 S, 修行寂靜諸法 W

證寂靜空法 T, 空相無相 (133b), 165^a; -धर्म-विहारित
 空相 (133b), 166^a; -धर्मोपदेश 說空法 S,
 說言一切諸法寂靜無相 W, 說
 寂靜空法 T, 空相無相 (133b), 165^a; -धर्मोपदेश=
 भाव 不說寂靜空無之法 T, 說
 空法非性 S, 諸法寂靜無相 W,
 空相無相 (133b), 165^a; -अर्थ 寂靜
 義 WT, 空相無相 (202a), 354^a.
विविध 種種 SWT, 空相 (99a), 4^a,
 6^a, 11^a, 56^a, 57^a, 64^a, 78^a, 88^a, 91^a,
 102^a, 106^a, 128^a, 130^a, 136^a, 148^a, 150^a,
 151^a, 155^a, 220^a, 250^a, 303^a, 312^a;
 -विनय-विकल्प-वादिन 說種種毗
 尼 W, 妄說毗尼 T, 空相無相 (169b),
 250^a, 253^a.
विवृत (*uncovered*), 228^a.
विवृद्ध 增進 S, 增長 WT, 空相 (106a),
 12^a, 102^a.
विवृद्धि 增長滿足 WT, 增長 WT, 空相
 無相 (65a), 12^a, 286^a.
 ७ **विवेक** 寂靜 SW, 空離 W, 遠離 T,
 寂然不動 T, 空相無相 (120a),
 184^a, 186^a, 291^a; -त 常樂遠離 T,
 樂觀 W, 9^a.
विवेच्यमान 觀察 WT, 分別 S, 空相
 無相 (112a), 116^a, 132^a, 287^a, 312^a.
विशेषा (*hesitation*), 258^a.
विशेषित 差別 SWT, 空相 (124a), 144^a.
विशारद (*experienced*), 61^a, 71^a.
विशाल (*spacious*), 186^a.
विशिष्ट 種勝 S, 勝妙 WT, 勝 W, 空相
 (146b), 117^a, 195^a.
विशुद्ध 清淨 SWT, 空相無相 (99b),
 23^a, 77^a, 89^a, 182^a, 171^a, 185^a, 223^a,
 264^a, 298^a, 313^a, 355^a; -लक्षण 清淨
 實相法 W, 清淨真實相 T, 355^a.
 ८ **विशुद्धि** 清淨 SWT, 空相無相 (88b), 55^a,
 77^a, 89^a, 97^a, 124^a, 290^a.
विशेष 各各差別 S, 各各有差別 W,
 各差別 T, 差別 S, 勝 WT, 種勝 T,
 空相 (68b), 11^a, 16^a, 17^a, 18^a, 9, 11, 12, 13^a,
 46^a, 51^a, 57^a, 58^a, 102^a, 103^a, 105^a,
 117^a, 119^a, 123^a, 130^a, 142^a, 148^a, 155^a,
 158^a, 168^a, 195^a, 196^a, 198^a, 206^a,
 207^a, 208^a, 217^a, 221^a, 228^a, 230^a, 235^a,
 236^a, 241^a, 249^a, 297^a, 302^a, 314^a,
 322^a, 323^a, 332^a, 336^a, 337^a, 346^a, 547^a,
 355^a, 359^a, 362^a; -गामिता 勝 S,
 進趣勝處 W, 最勝 T, 空相無相
 (118a), 119^a; -प्र विशेष
 差別 SWT, 空相 (80a), 46^a, 192^a, 305^a, 314^a, 371^a;
 -भव-उपपति 上妙生 T, 出三有
 W, 11^a; -लक्षण-प्राप्ति 得…無差
 別相 ST, 置…無異相 T, 空相
 無相 (152b), 211^a; -तस (especially), 291^a; -अर्थित 欲
 求勝進者 S, 欲證勝法 W, 欲得
 勝法 T, 厥離發勝 T, 精勤勝進 S,
 求出世法 W, 空相無相 (157a), 222^a, 230^a.
विशेषित 差別 SWT, 空相 (124a), 144^a.


- ¹³, 324^a, 348^a.
- विशेषोक्तोहर 上上勝進 WT, 差別
上上昇進 S, विशेषोक्तोहर (112b), 117¹⁰.
- विशेषक 清淨 WT, 10¹⁷.
- विशेषन 清淨 W, 悉清淨 T, विशेष (203a), 358^a.
- विशेषयित्य (to be made to cleansed), 222¹⁰.
- विशेषित 清淨 W, 已淨 T, विशेष (201a), 103^a, 299^a, 322^a, 328^a, 352^a, 373^a, 375^a.
- विश 諸 ST, विशेष (141a), 9^a, 185^a; -कर्मन自在天王 W, कर्मन-विश (170a), 251^a; -रूप 衆色 S, 種種色 W, पञ्चाश-कर्मन (64b), 43^a, 72¹⁰, 266^a, 375^a; -रूप-गति 勝道法 W, 法殊勝 T, 11^a; -रूप-चिना-मणि 摩尼 T, 如意寶 W, 衆色如意寶珠 S, विशेष-चिना-मणि (91b), 72¹⁰; -रूप-मणि 衆色摩尼 S, 衆色隨摩尼寶 W, 如意寶 T, पञ्चाश-कर्मन-विशेष (78b), 48^a, 89^a, 117¹⁰.
- विष 毒 SWT, विष (121b), 138¹⁰.
- विषम 不正 ST, 不相似 W, विषम-विष (83b), 41¹⁰, 53¹⁰, 231¹⁰; -मति 邪曲迷醉 S, 邪見迷意 W, 邪見迷醉 T, विषम-विष (77b), 41¹⁰.
- विषमारेतु 頽倒因 WT, विषमारेतु (201a), 551¹⁰.
- १० विषय 境界 SWT, विषय (61b), 2¹⁰, 14¹⁰, 15¹⁰, 18¹⁰, 20¹⁰, 24¹⁰, 32¹⁰, 38¹⁰, 39¹⁰, 40¹⁰, 42¹⁰, 44¹⁰, 45¹⁰, 46¹⁰, 48¹⁰, 51¹⁰, 54¹⁰.
- 5 विसंयोजन 不和合 S, 遠離 W, 離 T, क्रमादसंयोजन (78b), 43¹⁰.
- विसदृश 不相似 S, 異 WT, विसदृश (150b), 165^a, 206¹⁰; -हेतुक 不相似因 S, 因不相似 WT, क्रमादसंयोजन (133b), 165^a.
- विसंमूढ 愚癡 S, 迷 W, 癡惑 T, 迷沒 W, 迷惑 T, विसंमूढ (111a), 114¹⁰, 294^a, 295^a.
- विसर्जित 已爲我說 WT, विसर्जित (67b), 16¹⁰, 19¹⁰, 179¹⁰.
- विस्पन्दन 搖動 W, 唯令心意馳散 T, विस्पन्दन (142a), 185¹⁰.
- विस्पन्दित 諸動法 W, क्रमादसंयोजन (177b), 168^a, 178^a, 276¹⁰.
- विहरत (living), 249^a.
- विहार 住 ST, 行 W, 境 T, 安住 S, क्रमादसंयोजन (65a), 12¹⁰, 15¹⁰, 42¹⁰, 65¹⁰, 98¹⁰, 119¹⁰, 136¹⁰, 215¹⁰, 278¹⁰, 284¹⁰, 295¹⁰, 309¹⁰; -सुख (see सुख-विहार), 樂住 S, 樂法 W, 樂 T, विहार (85a), 58¹⁰.
- विहारिन् (living), 165¹⁰, 166¹⁰.
- १० विहल (agitated), 373¹⁰.
- वीक्षितुम् (to look at), 196¹⁰.
- वीज (see वीज).
- वीणा 箫管 SWT, 所持樂器 WT, वीणा (83b), 3¹⁰, 28¹⁰, 34¹⁰, 55¹⁰, 359¹⁰.
- वीज-दोष (free from passions), 243¹⁰.
- ११ वीज-राग 離欲 SW, 離染 T, विशेष (71b), 28¹⁰, 361¹⁰.
- वीथी 徑跡 S, 巷路行迹 W, 足跡 T, वीथी (110b), 113¹⁰; -अन्तर 術路市肆 T, वीथी (174a), 246¹⁰.
- वीरण 草 SWT, वीरण (96b), 82¹⁰, 334¹⁰.
- वीर्य 精進 SWT, 毗梨耶 W, वीर्य (161a), 280^a, 237^a, 238^a; -पार-भिता 毗梨耶 SWT, वीर्य-पार-भिता (164b), 238^a.
- वृक 狼 WT, वृक्ष (170a), 252^a, 259^a.
- १२ 樹樹 SWT, वृक्ष (96a), 81^a, 93¹⁰, 95^a, 102^a, 265¹⁰; -सूख 樹下 WT, वृक्ष (187a), 303¹⁰.
- वृत (rhythm), 音 T, 聲 W, 4¹⁰.
- वृत्त 起衆相 T, 轉識 W, 採集業 S, 業 S, 起 T, 轉 W, वृत्त (80a), 47¹⁰, 50¹⁰, 48¹⁰, 55¹⁰, 56¹⁰, 161¹⁰, 164¹⁰, 201¹⁰, 311¹⁰, 315¹⁰, 316¹⁰, 332¹⁰, 338¹⁰, 343¹⁰, 349¹⁰, 353¹⁰, 374¹⁰.
- वृत्तिन् 能轉 S, 見 T, 住 W, वृत्तिन् (138a), 176¹⁰.
- १३ 老 SWT, वृत्तिन् (185a), 169¹⁰, 170¹⁰, 171¹⁰, 362¹⁰.
- १४ वृत्तिहत (strengthened), 265¹⁰.
- वृत्तम् (vigorous), 192¹⁰.
- १५ वृहस्पति (for वृहस्पति), 太白 W, 廣主 T, वृहस्पति (205b), 366¹⁰.
- वृत्ताल 死屍兜力故行 T, 幻起屍 W, 幻術神咒機發像起 S, वृत्ताल (90a), 69¹⁰, 94¹⁰, 95¹⁰; -यत्ता 幻起屍機關 W, वृत्ताल-पृष्ठ (174a), 94¹⁰, 95¹⁰, 265¹⁰ (वृत्ताल- in text).

वेद 智者 W, 知 T, मुक्तिं वृ (174^a), 266¹⁰ (bis).
 वेद 草陀 T, 天 W, वैष्णवी (204b), 363^a.
 वेदना 受 SWT, कृद्धि (116a), 124^a, 125².
 वेदली (name of a province), 286¹².
 ५ वेदयित्य 當知 WT, 64¹⁰, 227¹² 17.
 वेदित 受 ST, कृद्धि (114a), 121^a, 221⁹.
 वेलातस्यां वेलायाम्, 翁時 SWT, 12⁹, 13², 46², 54⁴, 65⁴, 68², 73², 76⁴, 79¹⁰.
 वेश 形像 S, 身 T, प्रृष्ठ (137a), 72¹⁴, 174⁵; -धारिन् 現…形 W, 作…像 S, 作…身 T, 72¹⁴, 195¹⁷; -रूप-धारिन् 繁身 T, 化身 W, 251⁴.
 वेष्टित (see परिवेष्टित), 77¹⁰.
 १० वैकल्प (see also under वैकल्प्य), 思惟想 S, 諸相 W, 分別相 T, मर्कर्त्ते (130a), 158⁷.
 वैकल्प 不具 SWT, 無 SWT, मुक्तिं वृ (135b), 45¹, 47¹¹, 48⁴, 114¹ 10 (वैकल्प in text), 170⁴ 16, 219⁷, 315¹⁰, 316¹.
 वैचित्र-सत्त्वभाव (for वैचित्र-), 衆生種性 S, 衆生種種異 W, 衆生及諸物 T, वैशार्द्धत्वं द्वयं वैशित्र (71a), 26⁴.
 वैचित्र 種種 SWT, वैशित्र (84a), 26⁴, 32⁷, 37¹, 38⁴, 56¹⁷, 64⁴, 91⁴, 127¹³, 128¹⁵, 129¹⁶ 17, 130¹ (bis)⁸, 141⁴, 142⁹, 144², 150⁸ 16, 151¹² 13, 152² 3 10 11, 155¹⁷, 156¹, 157⁸ 14, 159⁷, 169⁸ 10 14 16, 173¹⁸, 184⁴, 189⁶, 198⁷, 199¹, 212⁹, 267¹⁰, 332¹⁰, 336³, 341¹³; -पद 雜句 S, 種種見 W, 種種句 T, वैकल्पानुरूप (75b), 37¹.

वैदूर्यं 毗琉璃 W, 瑞琉璃 T, वैदूर्य (61b), 35⁵.
 वैद्य 醫 SWT, वैद्य (149b), 340¹⁶.
 वैनाश 壞 S, 滅 W, 壢滅 T, वैनाश (152a), 209¹¹.
 वैनाशिक 壢者 ST, 不如 W, वैनाशिक वैनाशिक (125a), 145¹⁸, 146³ 8 10 14, 147², 360¹.
 ५ वैनेय 調伏 ST, 可度 W, वैनेय (123a), 142⁴, 230¹⁰.
 वैपाकिक 報相佛 W, 淳熟者 W, 實報佛 T, वैपाकिक वैपाकिक (179a), 283⁴ 11, 292¹⁸.
 वैपुत्त म妙方便 W, 大方廣 T, वैपुत्त घट्स्तुते (181b), 291¹; -नय 廣說 W, 方廣 T, वैपुत्त नय (179b), 283⁹.
 वैष्यर्य 空無義 S, 空無益 T, 壢 W, 空 S, 虛妄 W, वैष्यमेद्य (77b), 41¹⁰, 187¹⁷, 217¹² 11, 219⁶.
 वैरकृतिन् 懷惡人 W, 懷怨 T, 362⁴.
 १० वैराग्य 離欲 SWT, 182¹⁶.
 वैलक्षण्य 別異相 T, 無作者 W, वैलक्षण्य (205b), 366⁸.
 वैशेषिक 毗舍師 S, 毗世師 W, 勝論 T, 殊勝 S, 勝 T, वैशेषिक (112a), 116⁷, 123⁸, 280⁴, 342¹⁰, 354¹⁶.
 वैषम्य 異因 W, 無因 T, वैषम्य (201a), 351¹; -तीर्थ-दर्शन 異因見外道 W, 無因不生論 T, वैषम्य वैषम्य (201a), 351¹.
 वैज्ञक 顯 SW, 能照 T, 顯示 ST, 了

別 W, वैज्ञक (149b), 203⁸, 226⁴, 339¹⁷, 372¹.
 वैज्ञन 形 S, 字 W, 文 T, वैज्ञन (95a), 78¹⁷, 112¹⁰ 11 12 18, 113¹⁵ 8 9 10 (bis) 11 13, 173¹⁰, 174² 12 17, 175¹⁰ 18, 178⁸, 195¹ (bis), 322¹¹, 362²; -हेतु 顯示因 S, 了因 W, 顯示了因 T, वैज्ञन वैज्ञन वैज्ञन (97a), 83⁹ 15.
 वैज्ञित (clearly manifested), 362⁷.
 वैतिकमण 超 ST, वैतिकमण (114a), 121¹⁰.
 वैतिकान्त 隘 SW, वैतिकान्त (129b), 157³.
 ५ वैतिभित 分析 T, 彼此別 W, वैतिभित (202a), 354⁸.
 वैयस्त 覆 SW, 覆住 T, 28¹.
 वैयदेश 起 T, 從…生… W, वैयदेश (153b), 103⁹ 16, 104¹¹, 164¹⁴, 213¹⁴.
 वैयेत 離 WT, 超 T, 9¹⁴, 10¹, 11¹⁷, 231⁹, 370¹⁰.
 वैभिचार (being separated), 48¹², 246⁴, 256¹³.
 ० वैभिचारिणी (deviating from), 316¹³.
 वैभिचारित 別施行 S, 離 W, 變異 T, वैभिचारित (80b), 48¹² (चारं च in text) 17, 77⁶, 194¹⁸, 316⁸.
 वैय 滅 SWT, 去 SWT, 40¹⁸, 157⁸, 174¹², 175¹⁸ 16 17, 182² 4, 204¹⁴, 347³ 4.
 वैचित्र वैचित्र 斷 WT, 斷絕 W, 永斷 T, वैचित्र (64a), 9¹⁴, 96¹, 265¹⁴, 296¹³.
 वैवदान 淨 WT, वैवदान (68a), 18⁹, 163¹⁴, 275¹.
 वैवधान 障礙 SWT, वैवधान (135b), 171⁷.

वैवलोकन 觀察 SWT, 222².
 वैवसित 愛著 W, वैवसित (169b), 250⁵.
 वैवस्या 住 S, 住持 W, 所住相 T, 建立 ST, वैवस्या वैवस्या (81a), 49¹⁴, 57⁹, 65⁴ (bis), 213¹⁰; -न 建立 ST, 說法 W, वैवस्या वैवस्या (70b), 25³, 53¹¹, 54¹⁸, 65¹⁴, 77¹⁰, 135⁴, 169⁸, 170¹⁰, 201¹⁵, 278⁶, 301¹¹, 316⁹, 320¹², 338¹².
 वैवस्यापित 建立 ST, 說 W, वैवस्या वैवस्या (116b), 126¹³ 14 15.
 ८ वैवस्यित 建立 S, 住 SWT, वैवस्यित (129a), 61⁸, 8³, 154⁶, 100¹⁴, 103¹⁷, 155¹⁶, 226¹², 367⁴.
 वैवहार 言說 S, 世間說 W, 世俗 T, 言語 W, 受用 W, 俗 T, वैवहार (190b), 85⁹, 188⁴, 276⁴, 319¹².
 वैवहित 隘 S, 所障 W, 所覆隔 T, वैवहित (134a), 169¹¹, 170⁹.
 वैसन 大苦惱 T, वैसन वैसन (170a), 251⁴.
 वैस्त 或散 T, 若離 SW, वैस्त वैस्त (87b), 64⁸.
 ० वैकारण 分別解釋 T, 記論 ST, 說 W, वैकारण (111b), 15¹, 36¹², 115³, 116⁶, 241⁸, 280⁶; -पद 記句 ST, 記見 W, वैकारण (75a), 361².
 वैकूली-कृत 迷惑 W, 所迷惑 T, वैकूली-कृत (201a), 351¹⁷.
 वैकूत 記 SW, 有記 T, वैकूत (138b), 176²⁰, 240², 243³.
 वैकृत 與授記 W, 與…授記 T, वैकृत (205a), 365².



आत्मा 論 S, 解 W, 釋 T, अत्म (78b),
 33¹⁰; -न 論 S, 解義 W, 解釋 T,
 अप्त्माद (71a), 26⁷.
आधात (*striking against*), 111¹¹;
आग 虎 WT, अग (170b), 252⁴, 259².
आधि 痘 SWT, अधि (137a), 174¹, 180⁹,
 249⁹.
आपि 遍 W, 普遍 T, अपि (175a),
 269¹¹.
आम-मात्र 一尋 W, मद्मात्रा रम
 (200a), 348⁴.
आमोह 愚癡 S, 迷惑之法 W, 錯亂
 之中 T, मेद्मात्रा (152b), 211¹; -布愚
 S, क्लिप्ट-क्लिप (141b), 185².
आयाम 方便 ST, 大方便 W, 214¹².
आर्वतक 離 T, 滅 T, 破 W, अवृत्ति
 (69a), 11¹¹.
आर्वतन 離 S, 拾 T, अवृत्ति-प्रद
 (166a), 10¹², 241¹.
आर्वतनीय (*to be taken back*), 125¹⁴,
 185¹⁰.
आर्वतयत्य 應捨 ST, 拈 W, अवृत्ति-
 प्रद (85b), 59⁴.
आरुष 滅 ST, 轉滅 W, अवृत्ति-प्र (117a),
 127¹, 226¹¹, 296¹¹, 301¹¹, 330⁹.
आरुचि 轉 SW, 拈 T, 離 SWT, 滅 SWT,
 क्लिप-क्लिप (87b), 64³, 111¹¹, 121¹,
 126¹¹¹¹, 127¹, 153¹⁴, 168¹, 164⁹, 165⁴, 172
 10, 173¹⁷, 180¹⁰, 185⁶, 194¹¹¹⁰, 200², 201⁴,
 212⁷, 238², 325¹⁴, 338¹¹.
आरुषीयता (那婆ニ作ルハ非也) WT,
 廣說 WT, अरुषीयता (20b), 141¹, 192¹¹, 290
³ (नोश in text), 362¹¹, 364¹⁰.

अुच्छिति 斷 S, 滅 WT, अक्षिति (76b),
 39⁴, 84¹.
अुच्छिति 斷絕 W, 永盡 T, क्षिति (186b),
 307¹¹.
अुच्छेद 斷絕 SWT, अक्षिति (79b), 46⁴,
 162¹⁷, 271¹⁶.
अुच्चान् 起 S, 發起 W, 生起 T, अक्षिति
 (200a), 30⁴, 36⁶, 349⁷.
अुदाश्या (see under शिति), 311¹.
अुदासि 壞 S, 遮 W, 離 T, 止 S, 出離
 T, अलिप्त-प्र (110a), 111¹, 114¹², 185³, 211
 11, 217¹¹, 287⁹.
अुपशम 滅 S, क्लिप-प्र-क्लिप (160a), 228¹.
अण 孔 W, 痘竅 T, क्लिप (180b), 285¹⁴.
अत (*penance*), 361¹.
अ-व्रीहि 稲 WT, अव्रिहि (205b), 366⁹.

श
शकुनि 鳥 WT, अ (198b), 343¹¹.
शक्ति (power), 301⁷.
शक 釋揭羅 T, 釋迦 S, 帝釋 W, अक्षि-
 ति (61a), 24¹¹, 187¹⁰, 192⁴, 193¹², 251¹⁰,
 350¹.
शङ्क 貝 T, 珍 SW, 螺殼 T, 珍殼 W,
 55 (187a), 46⁷, 314⁴, 359⁴.
शत 百 SWT, अक्षि (92a), 301⁴, 72¹⁰, 73¹, 81
 1, 123²¹ (bis) 4⁵, 362¹⁰, 367¹¹; -धा 354
 7; -सहस्र 百千 SWT, अक्षि-क्षुटि (122
 b), 72¹⁰, 81¹, 101¹, 141¹, 174¹⁷, 192¹⁰, 193
 4; -साहस्रि 百千 WT, 81¹.

शत्रु 怨 S, 怨讐 T, 所聞 W, (श्रुत?),
 86¹.
शब्द 聲 SWT, 名 S, 法 W, अ (107a),
 10², 12², 84⁷, 105⁷, 106⁸, 111¹⁵, 120¹², 174⁴,
 189⁹, 192⁷, 221¹², 226²; -नेतृ 出聲論
 W, 作聲論 T, 366¹¹; -शास्त्र 174⁴.
शब्दित (called), 91¹, 372².
शम 6¹¹, 120¹²¹⁴, 352¹; -उद्धि 寂靜 W,
 अ-प्रभिक्षिति (62b), 61⁵; -हेतु 寂滅因 WT,
 अ-प्रभिक्षिति (201a), 352¹.
शमय 奢摩他 WT, अ-प्रभिक्षिति (66b),
 15⁴.
शमैकायन-मार्ग 寂靜-一乘道 S, 一向
 趣寂 T, 決定寂靜 W, अ-प्रभिक्षिति
 अ-प्रभिक्षिति (114a), 120¹²¹⁴.
शयनासन (*sleeping place*), 248⁹.
शयित (reposed), 91¹, 214¹¹.
श्या (a bed), 373¹.
शरण 歸依 W, 所歸 T, अपश-शमकि
 (203a), 358¹⁰, 365¹⁰.
शर्कर 石 W, 鑽 T, अ (198a), 341¹⁴, 359⁷,
 360⁷; -मधु 石蜜 WT, 360⁷.
शरीर 身 SWT, अश (68b), 19², 44¹⁵, 57²,
 81¹¹, 112¹⁵, 114¹⁴ (bis), 127², 174¹⁶, 192⁶,
 220¹⁰, 235¹¹, 334⁷, 348⁸; -वतृ 身法者
 S, 有身 WT, अश-क्लिप-प्र (162a),
 232¹⁴.
श्रीरिति 諸身 W, 衆生 T, अश-ठिति
 (175b), 271¹, 332¹¹.
शत्य-विज्ञ 穿孔床 SWT, अ-प्रक्षेत्र (172
 a), 256¹⁷, 307¹⁴ (तत्य-विज्ञ in text).
शव 死尸 W, अ (177b), 167¹⁷ (वश in
 text), 276⁴; -भूत 死屍 SWT, अ (184
 b), 167¹⁷ (वश- in text), 276⁴.
शश 兔毫 SWT, 兔 WT, अ-क्षेत्र (68b),
 19⁷, 31⁴, 51¹², 52¹⁴⁵, 53¹⁵, 54⁹, 62¹⁰, 72⁴,
 105¹⁷, 218², 322⁴, 336⁴; -रोम (शृङ्ग)?,
 兔角 WT, 375¹⁰; -विषाणु 兔角 SWT,
 अ (81a), 51¹², 52⁸¹⁰¹⁷, 53⁴⁵, 614⁷, 104¹⁸,
 188¹, 291¹, 341⁴; -शृङ्ग 兔角 SWT, 51
 14, 52¹⁴, 105¹⁷, 322⁴, 336⁴.
शस्त्र 刀 W, 刀子 T, 刀劍 W, 刀兵
 T, अ (187a), 308³, 362¹³ (bis); -संज्ञोभ
 刀劍亂 W, 刀兵起 T, अ-क्षेत्र-प्र-प्रण
 (204b), 362¹⁸.
शाकुनि-कौरभक 彼殺生者 S, अ-क्षण
 क्षण-.....प्रश्न-प्र (170b), 253³.
शाक्य 釋迦種 T, 釋種 SW, पूर्णि-क्षण
 (71b), 27¹¹, 257⁹; -कुल-कुलीन 我
 種姓中 T, पूर्णि-क्षण-प्रु..... (169b),
 250⁷; -ननय 釋種 WT, 364⁷, 367¹;
 -नायक 釋迦 W, 我釋迦 T, पूर्णि-
 शक्ति (204b), 362⁴; -पुत्र 沙門釋子
 SW, 沙門瞿曇 T, पूर्णि-प्र (139b),
 179¹²; -पुत्रीयत्व 沙門釋子 S, पूर्णि-
 積 (170b), 253¹³; -शासन 257⁹;
 -सिंह 釋迦師子 W, 釋師子 T,
 पूर्णि-क्षेत्र-प्र (205a), 364⁹.
शाल 枝 WT, अ-प्र (68a), 18⁴.
शास्त्र 珂 W, 55 (187a), 308¹.
शास्त्र-靜寂 SW, 寂滅 T, अ (180a), 23⁶,
 158⁹, 265¹, 299², 302¹⁴.
शास्त्रि 寂靜 SWT, अ-प्र (70a), 23⁶, 265¹.

शार्कर 石蜜 SWT, 爾^८(79b), 46^१, 81^४.
 शालि 稷米 W, 稷米 T, 爾^८(169b), 250^१.
 शाश्व (belonging to a hare), 373^१.
 शास्त्र 常 SWT, 楊^८(69b), 22^१, 33^१, 70^१, 72^१, 76^१, 78^१, 99^२(bis)^१, 106^१, 107^१, 181^१(bis)^१, 224^१, 242^१, 243^१, 244^१, 264^१, 266^१, 297^१, 300^१, 301^१, 310^१, 356^१; -पद 常句 S, 變見 W, 恒句 T, 34^१; -उच्चद 斷常 WT, 楊^८(70b), 22^१, 25^१, 33^१, 72^१, 76^१, 99^१, 224^१, 234^१, 301^१, 310^१, 346^१, 356^१; -उच्चद-दर्शन 斷見及常見 S, 常見及斷見 T, 常…斷 W, 楊^८(70b), 25^१; -उच्चद-हुष्ट 斷常見 SWT, 楊^८(70b), 25^१; -उच्चद-हुष्ट 斷常見 SWT, 楊^८(73a), 33^१.
 शासन 法輪 W, 教法 S, 教 W, 法 T, 正法 T, 爾^८(71b), 28^१, 147^१, 148^१, 194^१(bis), 204^१, 244^१, 247^१ १०^१, 248^१, 253^१, 257^१, 287^१, 288^१, 323^१, 330^१, 331^१, 333^१, 341^१, 342^१, 363^१, 364^१, 373^१; -हुष्ट 謗於我法輪 W, 毀壞我正法 T, 爾^८(195a), 338^१; -लोप 教法壞 S, 法輪斷滅 W, 教法斷 T, 爾^८(145b), 194^१; -अपवाद 謗毀三寶 W, 悉懷譏謔 T, 爾^८(168b), 247^१.
 शास्त्र 天師 S, 世尊 WT, 大師 ST, 佛 WT, 尊者 W, 爾^८(68b), 5^१, 8^१, 28^१, 118^१, 367^१.
 शास्त्र 论 SWT, 爾^८(72a), 9^१, 28

१^१, 30^१, 49^१, 174^१, 175^१, 185^१, 204^१, 340^१.
 शिक्षापद 令其修學 T, 爾^८(71a), 255^१.
 शिक्षितय 應學 WT, 爾^८(64a), 10^१, 58^१, 68^१, 70^१, 181^१.
 शिखर 山頂 T, 山上 W, 爾^८(72a), 1^१, 2^१, 51^१ १०^१, 8^१, 12^१ १३^१, 13^१.
 शिला 火焰 SW, 火風 T, 爾^८(73a), 82^१.
 शिरस 頭 SWT, 爾^८(187b), 86^१, 98^१, 310^१.
 शिला 瓦石 SWT, 楊^८(150b), 206^१.
 शिल्प 工巧論 SWT, 人工 ST, 人功 W, 爾^८(72b), 30^१, 35^१, 78^१; -कला-विद्या-पद 工巧伎術明處句 S, 工巧見 W, 工巧明句…技術句 T, 爾^८(74b), 35^१; -विद्या 技術 W, 爾^८(187a), 308^१; -विद्या-कला-गम 學種種技術 W, 解了工巧明 T, 爾^८(190b), 819^१.
 शिव 清涼 WT, 清淨 W, 爾^८(150b), 78^१, 204^१, 310^१, 341^१, 342^१; -पथी 戶陀林 W, 塚間淨處 T, 310^१.
 शिविन (शिविन?), 尸毗 WT, 251^१.
 शिशुमार 輸收魔羅 S, 龍 W, 爾^८(161b), 231^१.
 शिष्य 弟子 SWT, 爾^८(71a), 26^१, 33^१, 35^१, 111^१, 174^१, 181^१, 249^१, 334^१ १४^१, 346^१, 347^१, 361^१, 365^१; -गम 諸弟子 WT, 爾^८(195b), 334^१; -पद 弟

子句 ST, 弟子見 W, 爾^८(74a), 35^१; -वर्ग 諸弟子衆 W, 爾^८(199b), 181^१, 346^१.
 शीघ्र-गामिन 去迅疾 S, 念即至 W, 去速疾 T, 爾^८(96a), 81^१.
 शीतल (cool), 5^१.
 शीतोष्ण 寒熱 W, 冷熱 T, 爾^८(202a), 354^१.
 शील 戒 SWT, 界 W, (for 戒), 爾^८(71a), 26^१, 33^१, 36^१, 57^१, 119^१, 181^१, 237^१ १०^१, 346^१; -पद 戒句 ST, 戒見 W, 爾^८(74b), 36^१; -व्रत-तपस 戒禁 T, 爾^८(75a), 117^१, 119^१; -व्रत-परामर्श 戒禁 取 T, 戒取 SW, 爾^८(112a), 117^१, 119^१; -अङ्ग 戒支 W, 戒分 W, 戒品 T, 119^१.
 शुक 叔迦 W, 輸迦 T, 鶲鵠鳥 SW, 鶲鵠 T, 戎迦 T, 爾^८(112b), 41^१, 141^१, 192^१, 286^१.
 शुक 246^१, 256^१; -शोणित-संभव 膿血和雜生 W, 衆穢所生長 T, 不淨所生長 S, 爾^८(172a), 246^१, 256^१.
 शुक 白 SWT, 不淨 S, 不淨赤白 W, 精血 T, 爾^८(168a), 76^१, 91^१, 285^१, 296^१, 302^१ (bis), 307^१.
 शुचि-काम 一切樂清淨者 T, 求清淨 W, 爾^८(169a), 248^१.

-ता 求清淨人 T, 爾^८(168a), 246^१.
 शुद्ध 淨 SWT, 清淨 SWT, 爾^८(83a), 8^१, 54^१, 65^१, 118^१, 131^१, 132^१, 168^१, 215^१, 269^१, 275^१, 277^१, 278^१, 284^१, 291^१, 298^१, 304^१ ११^१, 305^१, 310^१, 318^१, 319^१, 320^१, 333^१, 369^१, 373^१; -चित् 心是淨 W, 淨心 T, 爾^८(198b), 343^१; -मास 257^१; -आवास 首陀會天 W, 淨居天 T, 爾^८(204a), 361^१.
 शुद्धि 淨 SWT, 爾^८(129b), 35^१, 156^१, 282^१, 298^१; -पद 淨句 S, 淨見 W, 淨淨句 T, 爾^८(74a), 35^१.
 शुभ 淨處 T, 清淨 SWT, 淨 WT, 白法 W, 白淨法 T, 爾^८(187b), 98^१, 158^१, 284^१, 302^१, 310^१, 318^१, 358^१; -धर्म 白法 W, 善法 T, 爾^८(61b), 31^१.
 शुच अ空 SWT, 爾^८(72a), 29^१, 74^१ १३^१, 75^१ ११^१, 83^१, 167^१, 188^१, 200^१ १५^१, 238^१, 249^१, 265^१ (bis), 267^१, 273^१, 279^१, 291^१, 301^१, 319^१, 337^१ १२^१, 339^१, 343^१, 352^१; -ता-空 SWT, 性空 T, 爾^८(64b), 11^१, 25^१, 34^१, 58^१, 73^१ १४^१, 74^१ (bis) ४^१ ५^१ (ter)^७ (bis) १०^१ १४^१ १६^१ १७^१, 75^१ ११^१, 76^१ १५^१, 77^१, 78^१, 98^१, 154^१, 176^१, 188^१, 192^१, 200^१ १५^१, 202^१, 242^१, 266^१, 291^१, 288^१, 290^१ (bis) १^१ (b:s) १^१, 300^१ (bis), 311^१, 320^१, 325^१, 330^१, 349^१, 350^१, 354^१, 359^१; -ता-हुष्ट 空見 ST, 諸法是空無也 W, 爾^८(125a), 146^१; -ता-पद 空句 ST, 空見 W, 爾^८(125a), 146^१.

क्षेत्र (74a), 34¹²; -ता-विजित-मति
 因空亂意慧 S, 空虛妄顛倒 W, 妥
 着於空 T, शून्याद्वयं त्रिशूलाद्वयं
 धर्मोद्धरण (166b), 242¹²; -ता-शून्यता
 空空 ST, 空及與不空 W, शून्याद्वयं
 त्रिशूलाद्वयं (99a), 88¹²; -आगार
 空處 W, 野屋 T, शून्याद्वयं त्रिशूलाद्वयं (187a),
 308¹²; -आगार-स्थित 空閑林中 S,
 空閑之處 W, त्रिशूलाद्वयं त्रिशूलाद्वयं (169a), 249¹².
 शून्या (*empty*), 167¹², 202¹² (ter), 265¹², 288
 1², 295¹², 313¹², 339¹² (ter).
 शूरंगम (*going to the valiant state*), 374¹².
 शूगार-मातृ (see मृगार-मातृ).
 शूक्ष्म 角 WT, शूक्ष्म (195b), 51¹², 105¹², 322¹²,
 334¹², 336¹².
 शेष 餘地 WT, शेष (178a), 215¹², 278
 1², 296¹², 313¹², 318¹², 320¹².
 शैलीक 石 WT, शैली (187a), 308¹².
 शोक 憂 SWT, शोक दृष्टिशूलक (197a),
 174¹², 180¹².
 शोणिन 精血 T, 赤白和合 W, 不淨
 S, शोणि (168a), 246¹², 256¹².
 शोभ 淨 SWT, 8¹², 12¹², 32¹².
 शमशान 塚間 WT, शमशान (187a),
 308¹².
 शमशानिक 塚間…修行 T, शमशान (171a), 248¹², 254¹².
 श्येन 鷹 WT, श्येन (170a), 251¹².
 अज्ञा 信 T, 住 W (?), 心懷淨信 T, 能
 信佛語 W, अज्ञा (169b), 51¹².

40¹² (for सताम), 250¹².
 अमण 沙門 SWT, अमण (77a), 40¹²,
 41¹², 376¹².
 अवण 聞 WT, अवण (145a), 94¹², 192¹².
 आमण 沙門道 T, 真實沙門 W, अमण
 247¹².
 आवक 聲聞 SWT, आवक (64a), 7¹²,
 10¹², 11¹², 14¹², 15¹², 18¹², 28¹², 29¹²,
 31¹², 45¹², 49¹², 50¹², 51¹², 54¹², 57¹², 58¹²
 (bis) 59¹², 65¹², 72¹², 73¹², 97¹², 99¹²,
 102¹², 103¹², 107¹², 120¹², 134¹², 135¹²,
 139¹², 140¹², 145¹², 146¹², 148¹², 157¹², 158¹²
 14, 171¹², 172¹², 192¹², 194¹², 195¹², 201¹²,
 211¹², 212¹², 213¹², 218¹², 221¹², 222
 4¹², 223¹², 226¹², 228¹², 237¹², 241¹²,
 242¹², 244¹², 253¹², 254¹², 255¹², 256¹²,
 258¹², 274¹², 282¹², 291¹², 302¹², 303¹², 304
 12¹², 306¹², 312¹², 319¹², 320¹², 321¹², 322¹²,
 326¹², 329¹², 333¹², 338¹², 349¹², 353¹²; -ता
 聲聞 SWT, आवक (103b), 98¹², 310
 1²; -प्रत्येकबुद्ध (सर्व-) 15¹², 45¹², 49¹², 50¹²,
 72¹², 97¹², 99¹², 107¹², 134¹², 140¹², 157¹²,
 211¹² (bis), 212¹², 213¹², 223¹², 228¹²,
 237¹², 241¹², 244¹²; -प्रत्येकबुद्ध-तीर्थ (सर्व-)
 聲聞緣覺及外道 S, 聲聞緣
 覺外道 W, 二乘外道 T, आवक
 दृष्टिशूलाद्वयं त्रिशूलाद्वयं
 (81a), 50¹², 201¹²; -प्रत्येकबुद्ध-तीर्थकर
 (सर्व-)
 聲聞緣覺及諸外道 S, 聲
 聞辟支佛 W, 二乘外道 T, आवक
 दृष्टिशूलाद्वयं त्रिशूलाद्वयं
 दृष्टिशूलाद्वयं (81b), 51¹², 57¹², 218¹², 222¹² (तीर्थ
 ैकर); -प्रत्येकबुद्ध-तीर्थ (सर्व-) (sec

also under तीर्थ and तीर्थकर), 二乘
 及以外道 T, 聲聞緣覺諸外道等
 W, अवक दृष्टिशूलाद्वयं त्रिशूलाद्वयं
 शूलेषण तद् (64a), 10¹², 11¹², 14¹², 45¹²,
 221¹², 222¹²; -प्रत्येकबुद्ध-बोधिसत्त्व भौ
 ग्निशूलेषण (157b), 223¹².
 श्रेयोर्धिन (for श्रेयोर्धिन), 勝求者 S,
 欲求勝法者 W, 欲求勝法 भौग्नि
 धर्मदृष्टिशूलाद्वयं (100b), 91¹².
 श्रेष्ठ 勝 WT, 最勝 T, श्रेष्ठ (181b), 290
 1, 299¹².
 श्रेष्ठिन 長者 WT, श्रेष्ठिन (99a), 88¹²,
 271¹², 308¹².
 श्रोतुकाम 欲聞 WT, श्रोतुकाम (62
 a), 5¹².
 श्रोतु 聞 S, श्रोतु (111a), 7¹², 114¹².
 श्रोतु 耳 SWT, श्रोतु (159a), 226¹².
 श्रन 犬 T, 犬 T, श्रन (168a), 246¹².
 श्रान 犬 WT, श्रान (195b), 334¹².
 श्रानोइ-खर-शूक्ष्म 狗駝驢(無)角 W,
 駝驢狗(生)角 T, श्रानोइ-खर-शूक्ष्म-
 मृ (195b), 334¹².
 श्रेत 白 WT, श्रेत (202a), 354¹² (bis);
 -इप (White Isle), 179¹².

四

शद-चिंशक 314¹²; -चिंशत 313¹². -चिं=
 शत-साहस 185¹²; -पञ्चमी 五…六
 W, 五六 T, 63¹²; -पारमिता 236¹².
 शह 354¹²; -शहु 六節 S, 六時 WT,

प्रभान्नूषा (71a), 27^a; -गुण 六德 S, 六分 T, घन्तन्नूषा (141b), 184¹⁰; -ज् (सहर्य in text), 37^a; -शादशाषादशक 六十十八法 W, 六十二十八 T, 317^a; -धारा 六定 T, प्रभान्नूषा (64a), 10¹¹; -विध (six kinds), 182^a.
षष्ठि (sixth), 176¹⁰.
षष्ठी 第六 ST, 六地 W, 五ण (154b), 211¹⁰, 216⁴, 292³.

स

संयुक्त 相應 WT, क्लन्तेष्ट्वात् ए (202a), 121^a, 294¹⁰, 309¹¹, 355^a, 356^a, 358¹².
संयुत 相應 W, 和合 T, 俱 T, 依 W, क्लन्तेष्ट्वात् ए (184a), 46¹⁰, 73¹⁰, 276¹¹, 285¹⁰, 298^a, 307¹⁰, 314^a, 354¹⁴, 359^a.
संयोग 依 SWT, 和合 SW, 依…和合 T, क्लन्तेष्ट्वात् ए (128b), 57^a, 94¹⁰, 119¹⁰, 124¹⁵, 129¹², 154¹⁵, 286^a, 327⁴ 5, 346^a, 352^a.
संयोगन 結 SWT, क्लन्तेष्ट्वात् ए (112b), 117¹⁰, 14¹⁰, 119¹⁰, 120^a, 121¹⁵.
संरक्त (taunted), 225¹⁰.
संवर्तक (world destroying fire), 255¹⁰.
संवास (union), 251¹⁴.
संविधातव्य (to be used), 308¹².
संवृति 世俗說 S, 世諦 SWT, 隨俗說 T, 世說 W, 世俗 T, 俗諦 T, गुण द्वय (70b), 25^a, 33^a, 131¹¹, 280¹⁰ 12, 294¹², 304¹⁵, 319¹⁰.

संचरवहार 世間義說 W, 隨世俗說 T, गुण द्वय नन्दन नन्दन (68b), 19^a, 208² (b's).
संशब्दित 名 ST, 150¹⁴, 151², 169^a, 220¹⁴, 221¹², 222⁷ 11, 223², 227¹⁴, 228¹⁰, 235⁴ 15.
संशय 疑 WT, गुण (195b), 268^a, 334².
संश्रित (held), 373^a.
संस्थेश (संकेश in text), 遮 SWT, गुण ए (97b), 85¹.
संसक्त (attached), 224¹, 291¹³, 354¹.
संसरत् (transmigrating), 233¹³, 245¹⁰.
संसर्ग 習俗 S, 慣闊 WT, 95¹ ए (80b), 49^a, 108¹.
संसार 生死 SWT, 世間 W, गुण ए (93b), 42⁷, 45¹⁰, 61¹⁵ 10, 62^a, 69², 76⁹ 10 (bis) 11 10, 88^a, 95¹⁴, 111¹³ 15, 112^a, 197², 232¹⁰, 233^a, 292^a, 295¹⁴, 297^a, 330⁷ 14, 332¹⁰ 14, 333¹⁰, 336⁷, 356⁷, 374¹¹; -पञ्चार 身羅網 W, 身籠檻 T, (for शरीर-पञ्चार?), 270^a; -बीज (बीज in text), 世種子 W, 生死種 T, गुण ए वैश्वदेव (183a), 295¹⁴; -यान-गोत्र 生死乘性 T, 世間所有乘性 W, गुण ए वैश्वदेव वैश्वदेव (108b), 108^a; -संग्रह 著世間 W, गुण ए वैश्वदेव वैश्वदेव (183b), 297^a; -आवाहक 流轉生死 T, 集生死 S, 生世間解 W, गुण ए वैश्वदेव वैश्वदेव (147a), 197².
५ संसारित 輪轉 S, 流轉法 T, गुण ए (166a), 242³.
संमृति 縛 W, 生死 T, गुण ए (148a), 330¹³, 342⁵.

संसृष्टि 雜 W, 狹 T, गुण ए (189a), 308^a 15, 309¹.
संस्कार 行 SWT, 所作 T, 諸行 T, 95¹ ए (92a), 73^a, 103¹⁵, 114¹, 125¹ 2, 196¹⁴, 204¹⁴, 276¹⁰, 298¹² (bis), 371¹⁷ (bis), 372¹ (bis)² (bis); -गत (取於) 諸行中 W, 諸行 (取) 所住 T, 95¹ ए वैश्वदेव (207b), 372²; -हेतुक 彼亦爲…因 T, 95¹ ए वैश्वदेव (207b), 372¹.
संस्कृत 有爲 SWT, 95¹ ए (97b), 36¹⁵, 85^a, 99^a, 149^a, 158^a, 189¹⁴, 199¹², 201^a, 234¹⁷, 238^a, 266¹⁰, 267⁴, 279¹⁵, 298¹³, 301⁵, 317¹⁰, 323¹⁰, 325^a, 326^a, 328^a, 344², 357¹, 369¹¹, 372²; -पद 有爲句 ST, 有爲見 W, 95¹ ए वैश्वदेव (75a), 36¹⁵; -असंस्कृत 有爲無爲 SW, 爲無爲 T, 95¹ ए वैश्वदेव (131b), 161¹⁴.
संस्यान 形 SWT, गुण ए (69a), 20¹, 27¹⁷ 18, 28², 51¹⁴, 53⁴, 93¹⁴, 98⁷, 121², 124¹⁴, 153¹, 158¹⁷, 159¹ (bis)⁹, 160⁴, 170¹⁵, 205², 207¹¹ 13 15 17, 208¹⁷, 209⁹, 214¹⁶, 221³, 228⁶, 235¹³, 270⁴, 289⁴, 297¹¹ 12, 305¹¹, 310⁵, 312⁵, 320¹⁷, 325¹, 329¹⁴, 336⁶, 355¹, 370¹⁰, 374²; -विनिरूपि 形處壞 S, 形相休息 W, 形處變壞 T, गुण ए वैश्वदेव वैश्वदेव (150a), 205², 207¹¹ 16.
६ संस्थित 有 S, 住 WT, 23⁴, 288¹⁵.
संस्पर्श 觸 W, 樂觸身 T, गुण ए (206b), 370¹².
संस्तेद 濡 W, 濡生 T, गुण ए (206b), 370¹⁴.
संकर्त्त्व 作 W, 作者 T, गुण (184b), 300^a.
सकाश 從 SWT, 197^a.

सकुड 往 WT, 頓 S, गुण ए (113b), 120¹ (bis)³; -आगामिन 斯陀含 SWT, गुण ए (88b), 65^a, 116¹⁶, 120⁴, 121¹⁴, 279¹³; -आगामि-फल 斯陀含果 WT, गुण ए (113b), 120¹, 279¹³; -पूर्व-कृत (शत्रु-in text), 先所經 ST, 本受用 W, गुण ए (98a), 86^a.
सगायक (together with verses), 375¹⁵.
सगोच 我姓 W, 姓 T, गुण (202a), 364¹⁴.
संकट (intricacy), 220¹¹, 230⁷.
७ संकर 複亂 S, गुण (106b), 104¹⁷, 190¹¹, 219⁹, 275¹.
संकल 鎖 W, 203¹, 339¹¹ 12.
संकला 鉤鎖 WT, 鉤鎖 S, गुण ए (197b), 97⁹ (कक्षर?), 202¹⁵, 203⁸ 14 5 7 (श=कला) १२ १३ १४ १७, 273¹², 339¹⁴ १५ १६ १७ १८, 340² ८ ७ १०, 374⁶; -मात्र 唯是鎖 W, 唯鉤鎖體 W, 339¹⁴, 340⁸ 10.
संकल्प 覺想 S, 分別事 W, 分別 T, गुण ए (160b), 68^a, 229^a (for विकल्प), 257² ४, 282¹⁵, 283², 285^a, 350⁵ ८.
संकाश 如 W, 266⁷, 301¹⁵, 373⁴.
८ संकीर्ण 充滿 SWT, 29¹.
संकुल 和合 T, गुण ए (194a), 329².
संकेत 俗數 S, 名字 W, 隨俗假言說 T, 假立 T, 和合 T, 和合法 T, गुण ए (192b), 202¹⁵, 225⁶, 283³, 289⁹, 339¹¹; -मात्र 但有諸俗數 S, 但有於名

字 W, 隨俗假言說 T, एवं तत्त्व (197a), 202¹⁶, 339¹¹.
 संकोचन 沈沒 W, 破 T, विषयाद्? (200b), 350¹³.
 संक्रम 過 W, 超 T, विषय (177b), 279¹.
 संक्रान्त (reflection), 326¹³.
 संक्रान्ति 趣至 SW, 流轉 T, 去行 W, विषय (72a), 291⁴, 307⁴.
 ५ संक्षेप 碩 S, 染 WT, विकर्मसदा (119b), 85¹, 156¹, 163¹⁴, 275¹, 276¹, 282¹¹, 298², 332¹⁰.
 संक्षेपतस 略說 S, 略而言之 WT, महार्थ (139b), 178¹⁴.
 संक्षेपण 略說 SW, 學要言之 T, महार्थ कुट्टेष्वद्येन्द्रिय (163b), 37¹⁴, 74¹, 235².
 संक्षोभ 亂 ST, 亂動 W, विषय (70b), 25¹³, 268², 362¹².
 संखोभ्यमाण (down-trodden), 231⁷, 232¹⁰.
 १० संख्या 數 SWT, विषय 35¹⁰, 125⁴, 177¹⁶, 342¹⁴, 344¹¹, 354¹⁶; -गणित-पद 數句 S, 數見 W, 算數句 T, विषय १८८-डिश्ट्रीक्षण (74b), 35¹⁰.
 संख्यात (संवि-) 334¹.
 सङ्क्ष प礙 S, 無障礙 W, 著 T, विषय (120a), 157¹⁴.
 संगति (sec also under संतति), 緣和合 ST, 法 W, 事 S, 和合相續 ST, 自我和合 W, 長愛欲 SWT, विषय (130a), 41¹⁰, 157¹⁵, 163¹³, 179², 220¹¹, 257⁸.
 संगम 使 W, 隨眠 T, (अनुशय-गण?), 324¹¹.

संगणिका 群聚 S, 49⁷.
 संग्रह 攝受 SW, 攝取 WT, 攝 WT, 取 T, विषय (136b), 112¹, 173¹, 179¹⁶ (bis), 181¹, 297¹, 331¹⁵, 332¹, 345¹², 346¹, 348¹, 350⁵, 353¹⁴.
 संग्राह 取 W, विषय (181a), 289¹.
 संग्राव 諸取 W, 漸次生 ST, विषय (181a), 160³.
 ६ संघ 僧伽 SWT, विषय (71b), 1¹, 28¹⁷, 34³, 140⁷, 323⁸; -भेद 破僧 S, 破和合僧 WT, विषय-विनाय (121b), 28¹⁷, 138¹⁶, 17¹⁷.
 संघात 和合積聚 SWT, विषय-विनाय (121b), 189¹⁷, 320¹⁴.
 संचेतन 有心者 SWT, 102¹.
 संचर 去行 W, 取相 W, 具…行 T, विषय (177b), 278⁹, 307⁴.
 संचार 轉進 S, 增進 T, विषय (154a), 215¹.
 १० संचित 集 T, 所種 T, विषय (61b), 31¹⁴, 101³, 368¹⁵.
 संचोदन 令覺知 W, 232⁸.
 संच्छन 覆 W, 所覆 T, विषय (195a), 269¹², 286¹, 352⁵, 373².
 संज्ञानत (recognising), 193³.
 संजक 相 W, महार्थ (159a), 226¹, 23⁵.
 ११ संहा 名 SW, 想 SWT, 少相 W, विषय (70b), 24¹¹, 33³, 83⁴, 93⁵, 113¹, 121¹³, 158⁷, 187¹, 193⁶, 197¹⁶, 199¹⁵, 212⁶, 215⁴, 221³, 223⁸, 228⁹, 246³, 249¹⁰, 266⁵, 279¹², 300⁷, 302¹², 312¹³, 346²; -निरोध 減受想 T, 受想悉滅 S, 想滅

SWT, 無想定滅盡 W, विषय (88b), 24¹¹, 65¹⁴, 279¹²; -अन्तर-विशेष 名差別 S, 名字相異 W, 名別 T, मैट-पारेविषय 197¹⁰, 346²; -विज्ञान 想識 T, 識相 W, विषय-क्रम-मेश (174a), 266⁵; -विवर ऽ轉諸想 T, 轉虛妄相 W, विषय-क्रम-मेश (194a), 330³; -वेदित 少相 W, 少想(定) W, 121¹, 221¹.
 संहित 相 SW, 少想 WT, विषय (108a), 107⁸ (bis).
 सर 有 SWT, विषय (73a), 32¹⁸, 40¹⁴, 41⁸ (अद्वा in text), 62¹⁷, 72¹, 73¹, 76¹¹, 82¹¹, 85¹, 91¹⁵, 92⁸, 103¹³, 104¹², 105², 111⁶, 116⁷, 118², 152¹⁵ (bis), 17¹⁷ (bis), 153¹⁰, 188² (bis), 303¹², 319⁷ (bis), 322⁷, 324¹⁵ (bis), 21¹⁷ (bis), -ई 真法性 T, 法 W, विषय-विनाय (195b), 333¹⁴; -काम-हृषि 身見 SWT, विषय-क्रम-मेश विषय (112b), 117¹⁵, 118⁸, 11(bis), 12¹², 253¹⁵; -ना 實 W, 有 T, विषय (178a), 279³, 296¹³; -ना-असता 有無 T, 有無物 W, विषय-विनाय-क्रम-मेश (183b), 296¹³; -त्र 衆生 SWT, विषय-ठर (70b), 2¹, 25⁴, 26², 27⁹, 28¹, 30⁸, 31¹, 33¹, 35¹⁵, 42⁹, 43¹⁰, 48¹¹, 49³, 55⁸, 10¹³, 16¹⁶, 56², 57¹, 58¹⁴, 63¹⁵ (bis), 66⁷, 71¹⁷, 77⁶, 81¹⁵, 85¹⁶, 89¹⁰, 98², 105¹⁵, 112¹¹, 115⁴, 116⁷, 117³, 123¹⁰, 126², 138¹¹, 142⁸, 148¹⁶, 161⁴, 162¹⁷, 165⁷, 172⁹, 179², 181¹⁰, 183¹³, 194¹⁶, 195¹², 196¹, 199⁹, 204⁷, 227⁵, 231¹⁴, 232¹³, 233¹³, 234¹, 237¹⁴, 240³, 244⁵ (bis), 245¹¹, 246², 257¹, 266⁸, 272⁷, 283⁹, 286⁷, 304¹⁵, 307⁴, 312⁸, 313¹², 316⁸, 328¹⁷, 346⁹, 351¹¹, 355⁸, 358⁴, 361², 371⁴, 372⁸, 375¹⁵; -त्र-काय 衆生身 W, 衆生…身 T, विषय-ठर-ग्रुष्ण (206b), 370¹⁴; -त्र-कृत 衆生業 W, 利益諸衆生 T, विषय-ठर-द्विष्ट (208a), 242¹³, 375⁴; -त्र-गोच 衆生真如性 W, 衆生…業性 T, विषय-ठर-द्विष्ट (195a), 332⁴; -त्र-देव 衆生身 SWT, 31¹; -त्र-धारु 衆生界 SW, विषय-ठर-ग्रुष्ण (181b), 161¹; -त्र-पद 衆生句 ST, 衆生見 W, विषय-ठर-ग्रुष्ण (74b), 35¹⁵; -त्र-प्रचार (appearance of being), 20⁴; -त्र-भाव 衆生及諸物 T, 衆生…性 S, 26⁴, 332²; -त्र-संतान 彼衆生 S, 諸衆生 WT, विषय-ठर-कृत (149b), 204⁷, 318¹⁴, 340¹⁷; -त्र-आकर 衆生性 S, 衆生生 W, 衆生 T, विषय-ठर-कृत (71a), 26²; -त्र-आशय 衆生希望 S, 衆生心 W, विषय-ठर-कृत-ग्रुष्ण (146a), 194¹⁶; -हृषि 邪見 W, 妄見 S, 橫計 W, (probably कुहृष्टि?), कृद-पद-हृषि (140a), 181¹², 346¹²; -धर्म 正法 ST, 勝妙法 W, विषय-क्रम-मेश (195¹², 363¹, 375¹⁵); -धर्म-अपवाद 謔謗正法 ST, विषय-क्रम-मेश (101a), 92⁷; -भाव 自性 S, 諸法有 T, 有無相 W, विषय-ठर-द्विष्ट (206), 112¹⁷, 158¹⁴, 370⁷, 374¹.
 सर्व 諸 SWT, विषय (77a), 36⁹, 40¹⁷, 58⁸

१, 96¹, 121¹, 123¹, 124¹, 137¹, 149¹, 153¹, 184¹, 214¹, 221¹, 277¹, 282¹, 284¹, 288¹, 289¹, 299¹, 300¹, 301¹, 307¹, 319¹, 323¹, 324¹, 325¹, 358¹, 370¹; -ता 諦者 ST, 實諦者 W, सद्गुणात्मकीय (124a), 144¹, 192¹; -दर्शन 見眞諦 SWT, सद्गुणात्मकीय (114b), 121¹, 265¹, 358¹; -पद 諦句 ST, 諦見 T, सद्गुणात्मकीय (75a), 36¹; -मार्ग 眞諦道 S, 證諦道 W, 證於諦道 T, सद्गुणात्मकीय व्याप्ति (141b), 184¹; -वादित्व 355¹; -विभोषण-कुशल 善眞諦解脫 S, 善入諸諦解脫 T, 實諦解脫 W, सद्गुणात्मकीय व्याप्ति व्याप्ति (156b), 221¹; -स्थिति 實住 W, 住實諦 T, सद्गुणात्मकीय (184b), 300¹.

सदसत् 有無 SWT, पूर्ण-न्यन्त-मेन्द-य (70a), 22¹, 23¹, 32¹ (असत्-सद्), 41¹, 62¹, 72¹, 73¹, 91¹, 92¹, 103¹, 111¹, 116¹, 118¹, 129¹, 147¹, 148¹, 150¹, 151¹, 152¹, 157¹, 159¹, 161¹, 162¹, 164¹, 166¹, 167¹, 170¹, 178¹, 186¹, 191¹, 194¹, 198¹ (bis), 202¹, 205¹, 224¹, 264¹, 267¹, 268¹, 286¹, 288¹, 294¹, 309¹, 310¹, 322¹, 324¹ (bis), 329¹, 330¹, 333¹, 334¹, 335¹, 338¹, 339¹ (bis), 358¹, 354¹, 355¹, 360¹, 375¹; -कार्य-वादिन 說有無諸法 W, 宛說於有無 T, पूर्ण-न्यन्त-मेन्द-य (193a), 333¹; -पद 置於…有無見中 W, पूर्ण-न्यन्त-मेन्द-य कुशल (167a), 23¹, 73¹, 91¹, 92¹, 151¹, 157¹, 159¹, 186¹, 191¹, 202¹, 244¹, 286¹.

294¹, 310¹, 330¹, 334¹, 335¹; -पञ्च-दा=रक (destroyer of one-sided views), 286¹; -पञ्च-पद 有品句 S, 有無立見 W, 有句…無句 T, पूर्ण-मेन्द-युक्तिक्षेप (74a), 35¹; -पञ्च-वा=दिन (dualistic school), 180¹; -पञ्च-उ=त्पाद-परिणाम-वादिन 有無生轉變論 S, 轉變從有無生有無轉變論 T, 159¹; -भाव (existence), 104¹, 105¹, 112¹.

सदा-शान्ति 常寂靜 T, 常世尊 W, कृष्ण-नुजीव (203a), 358¹; -समाहित 常定 S, 常在於定 T, 常入…定 W, कृष्ण-नुजीव-पद-माला-य (165b), 240¹.

सदूषित (for विदूषित), (defiled), 204¹.

सदृश 舛 S, 相似 W, न्यय (161a), 43¹, 68¹, 72¹, 80¹, 89¹, 92¹, 95¹, 98¹, 101¹, 110¹, 112¹, 117¹, 137¹, 149¹, 223¹, 229¹, 230¹, 265¹, 268¹, 276¹, 297¹, 298¹, 357¹; -असदृश 非譬所譬 S, 相似不相似 W, 似非似 T, न्यय-न्यय-मीमांसी-पद्म-शुद्ध-न्यय (161a), 229¹, 230¹, 357¹.

सनायक (with the leader), (समानक?), 悉無有別 13¹.

संतति (see also under संगति), 相續 SWT, त्रूप (77a), 40¹, 76¹, 79¹, 146¹, 177¹, 185¹, 193¹, 195¹, 209¹, 232¹, 235¹, 266¹, 282¹, 296¹, 371¹.

संतान 相續W, 身W, 心相T, (cf. संत-संतान), 18¹, 204¹, 313¹, 318¹, 328¹, 340¹.

सन्तासन 有無見 S, 有無二見 W, पूर्ण-न्यन्त-मेन्द-य (127a), 151¹.

संतुष्ट (contented), 223¹.

संतोषण 發歡喜 S, 令得歡喜 W, 令生歡喜 T, मणि-पद-पूर्ण (94a), 77¹.

संत्वास 畏 S, 生於驚怖 W, 怖 T, पूर्ण-शेष (88a), 64¹, 78¹, 111¹, 249¹.

संदर्शन 現 ST, सद्गुण (165a), 100¹.

संदृष्ट 善見 SW, 明見 T, सद्गुण-मेन्द-य (113a), 119¹.

संदेह 疑 W, न~必是 T, दोषक (202b), 247¹, 355¹.

संधान 相續 SW, 密縛 T, मक्तुक्षेप (132a), 162¹.

संधाय 密意而T, 以…密意 T, न्यय-शेष (93b), 76¹, 141², 142¹, 143², 144¹, 146¹, 159¹, 162¹, 241³, 243¹, 324¹, 336¹.

संधायमाण (obtaining), 222¹.

संधि 相續 SW, 密執 T, 深密 T, 密意 W, 密意說 T, मक्तुक्षेप-पूर्ण (131a), 124¹, 140¹, 160¹ (bis) 18¹ (bis) 14¹, 161¹ (bis) 12¹ (bis) 13¹ (bis) 15¹ (bis) 17¹, 162¹ (bis) 2¹ (bis) 4¹ (bis) 10¹ (bis) 13¹ 14¹ (bis) 17¹, 163¹, 164¹, 288¹, 371¹; -अ=भूमि 七住 ST, 住七地 W, 七地 T, 住在於七地 W, न्यय-न्यय (112b), 117¹; -ता=ल 高七多羅樹 WT, न्यय-न्यय (67a), 16¹; -विश्व 三十七 SW, 三十七種 T, न्यय-न्यय-न्यय (123a), 142¹; -धा (in seven parts), 306¹; -भूमि 七住 ST, 住七地 W, 七地 T, 住在於七地 W, न्यय-न्यय (144b), 192¹, 201¹, 338¹; -मौ 七 S, 七地 W 第七 T, न्यय-न्यय (154b), 215¹, 216¹ (bis), 292¹ (bis), 375¹; -रात्र 七日 WT, 4¹; -अहन् 七日 WT, न्यय-न्यय (61a), 24¹.

सभा 天宮 SWT, मस्तिष्क (197a), 174¹.

सम ए…平等 W, 如 T, मृत्तुदेश(144a), 42^a, 72¹⁰, 81¹², 142^a, 161^a, 190^a, 229¹², 230^a, 231³(bis)¹⁶, 232^a, 233^a, 234^a, 268¹³, 275^a, 287¹¹, 315¹², 318¹², 365¹²; -ता 平等 SWT, मृत्तमाद्यत्रिद (78a), 42^a, 135^a, 141^{7 10 11}(quar)^{12 17}(b:s), 142^{8 12 13}, 153^{12 13}, 169¹³, 193¹, 215², 292^a, 321^a, 325^{12 13}; -ता-चिक्ष 平等心 W, सेमक्षग्रीमृत्तमाद्यत्रिद (182a), 292^a; -ता-शान 平等智 W, मृत्तमाद्यत्रिदप्रेसेश(191a), 135^a, 321^a; -त्व (sameness), 168¹⁶, 292^a; -द=शिन् (regarding impartially), 256^a; -धर्मन् (similar character), 228^a; -धा=रण 等住 W, १५४३६ (164a), 286¹²; -सादृश 如 WT, 318¹⁷; -स्वभाव 平等 W, दै-संत्रिद्यमृत्तुदेश(175a), 268¹³; -हीन-उहम 下中上 SW, 上下 T, द्वयद्वयद्वय(80a), 47¹³; -उज्जव 如是生 W, 依此起 T, 248^a, 287¹⁵. समतिक्रम 超 S, 超過 T, 遠離 W, मैति द्वय(114b), 121^a. समतिक्रमण 超 ST, 次第 W, 越 T, मैति द्वय(84b), 57¹⁸. समननर 卽 WT, 次第 S, 習時 W, मैतिण्य क्षण मैतिण्य (168b), 9¹¹, 100¹², 221^a, 235¹², 368^a; -प्रथस्त 次第滅 S, 卽有滅 W, 無間相續滅 T, मैतिण्य द्वय(165a), 288¹¹, 368^a; -अनु=त्वाच 次第不生 S, 不次第生 W, 不相續生 T, 221^a. ८ समनुपश्यत् (seeing), 248¹².

समनुभय 無異 W, 等無差別 T, ४८८ द्वयमैति (169a), 248^a. समनुभद्र 普賢 SWT, एन्टुष्ट्यत्रिद (107a), 105^a. समन्वागत 成就 ST, मैतिण्य द्वय (77a), 40^a, 50¹⁰, 79¹⁷, 80^a, 82^a, 101^a, 122¹⁶. समन्वित (mixed together), 309^a. समभिद्वन 驚逐 W, 逐 T, एत्तेष्ट्य (170a), 251^a. समय 時 SWT, ५४४ (61a), 1^a, 2^a, 3¹⁷, 141^a, 173³, 239^a, 306¹³, 368¹²; -प्राप्ति 得平等 S, 證平等 W, (सम-प्राप्ति?), 證得 T, 證於法 W, एत्तेष्ट्यक्ष (165a), 239^a, 368¹². समल --切煩惱垢 W, दै-मैति द्वय (207b), 373¹⁸. समवसृत 正住 S, 入 T, दै-मैतिण्य (159b), 226¹⁹. समवाय 和合 SWT, १५४३८ (98b), 86¹⁸, 200¹⁴ (समावाय in text)^{10 17}, 221^a, 337^{11 16 18}. ९ समाख्यात (enumerated), 342¹⁴, 347^a. समागत (come together), 98¹², 310¹⁰. समागम 會集 W, 271¹². समाधि 三摩提 S, 寂定 W, 三昧 T, दै-द्वय (61a), 1¹¹, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 15¹⁸, 21^a, 24¹⁰, 30^a, 33^a, 42^{13 15}, 45¹¹, 51^a, 57¹¹, 58^a, 65¹¹, 72¹⁰, 73¹², 76², 81^a, 98¹², 100^{9 12 14}, 101^a, 102¹², 103^a, 105¹², 119¹⁶, 120^a, 121¹², 123², 125¹¹, 126¹, 134¹², 135^{11 13}, 137^{3 4 14}, 185^a, 214^a, 222¹, 227¹, 235^a, 266^a, 269^a, 273^a, 279¹¹, 289¹⁶, 312¹⁰, 318^a, 321^{13 15}, 322², 359¹⁷, 374¹⁵; -ताय 寂滅三昧 W, 185¹², 321¹³;

-जिन 三昧水 T, (-जल?), दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य (66b), 15^a; -बल 三昧力 W, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य (187a), 309^a, 318^a; -बुद्ध 三昧佛 W, 諸如來 T, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य (66b), 15^a, 212¹⁴, 222^a; -मद-मय 三昧醉…沒 W, 住三昧昏墊 T, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य (191b), 322^a; -मद-मत 三昧樂境醉 W, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्यमैतिण्य (191b), 135¹¹, 321¹⁵; -मुख 三昧…之樂 W, 三昧樂 T, (-सुख?), दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य (65a), 12^a, 13¹³, 72¹⁰, 222^a; -बज्ज-विमोचन (-वि- in text), 金剛喻三摩提 S, 金剛喻三昧 WT, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य एत्तेष्ट्य (78a), 42¹⁵; -वश-वर्तिन 三昧自在 SW, 自在三昧 T, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य (116), 125¹⁵; -वश-वर्तिना 諸三昧自在 W, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य (164b), 289¹⁶; -समापत्त्यधिकान 依三昧三摩跋 提住持力 W, 三昧正受…神力 S, 令入三昧 T, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य एत्तेष्ट्य एत्तेष्ट्य (164b), 100^a, 101^a; -सुख 正受樂 S, 三昧樂 WT, मृत्तमाद्यत्रिदमैतिण्य द्वय (85a), 58¹⁴, 213¹⁷; -सुख-विहार (現法)樂正受住 S, (現法)樂三摩跋提行門 W, (得現法)樂甚深三昧 T, दै-द्वय द्वैत्युत्तुष्ट्य एत्तेष्ट्य (158b), 225¹; -समापत्त थ入 SW, 得 T, 住 W, 45^a, 100¹², 221^a, 268^a. १० समाप्त 入 T, 得 W, 12^a, 376^a. समाप्त थ入 ST, 得 W, 12^a, 376^a. ११ समायोग 和合 WT, श५८८ (180b), 285¹⁰, 369³. समारोप 建立 SWT, (損)益 T, 有 (無) W, श५८८८८ (90b), 70^{10 11 12}

१७^{१८}, ७१^{२३} (bis) * (bis) ५६^{१०} १२ १३ १४ १० १७ १४
 १९, ७२^३ ४ ५ ७ ८ १०, ९२^१, ९५^२, ९०^{१४}, १२२^{१४}, १३१^१,
 १५५^१, १५६^१, २२६^{१०}, २७०^१, ३००^{१२}, ३०४^{१७}, ३०९
 १४, ३१०^{१७}, ३३१^{१२}; -अपवाद 捐益 T,
 有無 W, 建立誹謗 SWT, शैषण्याद
 (११०b), ७०^{१०} ११ १३ १७ १९, ७१^१, ७२^{१०} ११, १३^{११},
 १५५^{१४}, २२६^{१०}, ३०४^{१७}, ३१०^{१७}, ३३१^{१४}; -अपवा=
 दिन 建立及誹謗 T, 謗謗於有無
 W, शैषण्याद (११४b), ३३१^{१२}.
 समावाय (see under समवाय), २००^{१४}.
 समात्रप 成身 S, 諸境界 W, 境界 T,
 積聚 (११७a), १२७^{१०}, २९२^{११}.
 समाप्ति 取境界 W, एत्युर्वद्यन्ति
 पात्र (१८२a), १२७^{११}, २९२^{१२}.
 समाप्त 路說 WT, मिद्द्वयम् (१४१b),
 २९०^१; -तस् 路觀察 W, 實緣起要 T,
 मिद्द्वयम् (१४१a), ३२९^१.
 ५ समाहित 三昧 SWT, शैषण्यादपद्यन्ति
 (११५a), ४८^१, १२३^१, २८४^१, ३१६^१.
 समीरित 放 WT, एत्युर्वद्य (२०५b), ३४३^१
 १०, ३६६^१.
 समुच्चय (collection), १३५^{१६}.
 समुच्चय 身 T, 種 W, एत्युर्वद्य (२०३b), ३६०^१.
 समुच्छित 生 W, 起 T, एत्युर्वद्य (२०१a), २६५
 १०, ३५१^१.
 १० समुच्चन 生 WT, एत्युर्वद्य (१४४b), ७१^{१०}, ८७
 १० (bis), ३००^१, ३४१^१, ३६४^{१०}.
 समुच्चाद (अनुच्चाद in text), 生 SWT,
 शैषण्य (१११b), ११६^१.
 समुद्र 集會 S, 和合 WT, एत्युर्वद्य (७६
 b), ३९१^१, २९९^१, ३४८^१; -सभाव 集性自
 性 SW, 集自性 T, एत्युर्वद्य (७६

१८) २६७^{१०}, २७१^{१०}, २८१^{१०}, २८४^{१०}, २८८^{१०}, २९१^{१०}, २९४^{१०}, २९७^{१०}, ३०१^{१०}, ३०४^{१०}, ३०८^{१०}, ३११^{१०}, ३१४^{१०}, ३१७^{१०}, ३२१^{१०}, ३२४^{१०}, ३२७^{१०}, ३३१^{१०}, ३३४^{१०}, ३३७^{१०}, ३३९^{१०}, ३४१^{१०}, ३४३^{१०}, ३४६^{१०}, ३४७^{१०}, ३४९^{१०}, ३५३^{१०}, ३६०^{१०}, ३६१^{१०}, ३७०^{१०}, ३७२^{१०}, ३७४^{१०}.
 समुदागत 所修 T, 修行 W, एत्युर्वद्य
 (१४३a), १८७^{१०}.
 समुदागम 衆具 S, 功德 W, 所集 T,
 एत्युर्वद्य (१५६a), २१९^{१०}.
 समुदाचार 所行 SWT, एत्युर्वद्य
 (१८०a), १५८^{१०}, ३०२^{१४}, ३१८^{१०}.
 समुदान्वित (समुदानित in text), 集 W,
 積集 T, ३५२^{१०}.
 ५ समुदाहत (declared), ३३४^{१०}.
 समुदित 具足 SWT, एत्युर्वद्य (१२१a),
 १३७^{१०}.
 समुदीरण 飄動 ST, 輕轉動相 W,
 एत्युर्वद्य (११५b), १२४^{१०}.
 समुक्त (come out), १४२^{१०}.
 समुक्ता अ斷 ST, 拔 W, एत्युर्वद्य (१२१b),
 १३८^{१०}.
 १० समुक्त अ生 WT, शैषण्य (२०५a), ३६४^{१०}.
 समुद्र 巨海 ST, 海 W, एत्युर्वद्य (१२२^{१०},
 २२५^{१०}; -तरंग 大海水波 W, 海波
 波 T, एत्युर्वद्य (६१b), २१^{१०}; -मल=
 प-शिलर 南海濱楞伽山頂 S, 大
 海畔摩羅耶山頂上 W, 大海濱
 摩羅耶山頂 T, एत्युर्वद्य (६१b), १०; -एक २७५^{१०}.
 समुपपद्मान (prepared with), २५०^{१०}.
 समूह 積聚 S, 聚 W, 共積聚 T, एत्युर्वद्य
 (११२b), ६९^१, ७४^१, १७५^१, ३६०^{१२}; -आ-
 गम 聚會 S, 聚 W, 集 T, एत्युर्वद्य (१३८
 a), १७५^{१०}.
 संपर्क 樂具 W, एत्युर्वद्य (१११b), ११६^{१०}.

१० संपत्ति (१११b), ११६^{१०}.
 संपद 具足 S, 成就 W, 圓滿 T, एत्युर्वद्य
 (१६५a), २३९^१, ३५९^१, ३६८^{११}.
 संपश्यत (seeing), २१९^१.
 संपूर्ज 供養 WT, ७^१.
 ५ संप्रज्ञान 正智 S, 正知 T, 常如意知
 W, एत्युर्वद्य (१६६a), २४१^{१०}.
 संप्रयुक्त (united with), २३५^{१०}.
 संप्रभ (?) ३१०^१.
 संप्रवर्तिक 生 SWT, एत्युर्वद्य (१६५a),
 २३४^{१०}.
 संप्रस्थित (starting on), २४८^१, २५४^{१४}.
 १० संबद्ध 愚 S, 總 WT, एत्युर्वद्य (१३०a), १३५
 १०, १४०^१, १५८^१, १८९^१, २७१^१, ३०२^१, ३२०^१, ३२१
 १४, ३२३^१, ३३०^{११} १२ १३ १५, ३३६^{१२}, ३६८^{१४}, ३७४^१.
 संबन्ध 互相 SWT, 相續 SW, एत्युर्वद्य
 (८२a), ५४^१, ८४^१, ९६^१, १३०^१, ३०५^१, ३१३
 १७, ३१७^१, ३२६^{१०}, ३३०^{१२} १३ १५; -विकल्प 相
 繼妄想 S, 和合分別 W, 相屬分
 別 T, एत्युर्वद्य (११७
 b), १२८^१, १२९^१; -हेतु 相續因 SWT,
 एत्युर्वद्य (११७a), ८३^{११}.
 संबुद्ध 等正覺 S, 正覺 WT, 佛 W, एत्युर्वद्य
 (६३b), ४^{१०}, ९१^१, १९०^१, २६९^१, २७२^{१०}; -ता 佛 SWT,
 एत्युर्वद्य (१२४a), १४०^{१०}.
 संबोध 覺 WT, एत्युर्वद्य (१४४b), २१७^१, ३११^{१०}.
 संभव 種 SWT, 生 SWT, 起 S, एत्युर्वद्य
 (१४४b), २२^१, २७^१, ८५^१, १०५^१, १२३^{१४}, १३०^{१३},
 १३१^{१३}, १३२^{१४}, १५३^१, १५४^१, १६८^{१३}, १७२^१, १८४^१,
 २०१^१, २०९^{१४}, २४६^{१०}, २५६^१, २५७^१, २५८^१, २६६
 १, २६८^१, २६९^१ ११, २७०^१, २८०^१, २९१^१, २९२^१,
 २९६^१, २९८^१, ३०१^१, ३०३^१, ३०४^१, ३०५^१, ३०७
 १, ३१२^१, ३१३^१, ३१९^१ १४, ३२५^१, ३२६^१, ३३४^१,
 ३३८^१, ३४३^१, ३४६^१, ३४७^१, ३४९^१, ३५३^१, ३६०^१,
 ३६१^१, ३७०^१, ३७२^१, ३७४^१.
 संभार 方便 ST, 功德 WT, 衆具 S,
 福智 T, एत्युर्वद्य (१५५a), १३४^१, १८७^१, १७२^१,
 २१७^१ १५.
 संभाव 稱讚 T, (संस्ताव?), 取法 W,
 (संस्ताव?), एत्युर्वद्य (६९b), २२१^१, ३०३^१.
 संभूत 所起 S, 所生 W, 所從生 T,
 एत्युर्वद्य (१८७b), २७^१, २४३^१, २४५^१, २५३^१,
 ३०३^१, ३०३^१, ३०९^१, ३३४^१, ३५२^१, ३७४^१.
 संभोग 受樂 W, 受用 T, एत्युर्वद्य (१८९
 a), ३१४^१.
 १० संभानि 迷惑 WT, एत्युर्वद्य (१८२a), २९१^१.
 संमुखम (facing), ७२^१.
 संमूद 忘 W, 迷 W, 不了 T, एत्युर्वद्य
 (११४a), १२०^१, १९०^१.
 संमूर्चित (stupefied), २३६^१.
 संमोह 不了 T, एत्युर्वद्य (१२३a), १२५^१,
 १३९^१, २८७^१.
 ० सम्यक् (ग) 正 WT, एत्युर्वद्य (६८b),
 २^१, १९१^१, २८८^१; -अवबोध 正覺 S,
 正智 W, 悟解 T, एत्युर्वद्य (१६०b), २२८^१; -चित्त १४७^१
 -तान 正智 ST, 正妙智 T, एत्युर्वद्य
 (११७b), ६८^१, २२४^१, २२६^१ १०, २२७^१,
 २२८^१ १७, २२९^१, २४५^१, ३७४^१; -परिगृह्यमाण
 (properly embraced), १९५^१; -रस-परि=
 णम-पुष्टि 不能消化增益四大 W,
 २४९^१; -संबुद्ध 正遍知 W, 正等覺 T,
 एत्युर्वद्य (११७b), ६८^१, २२४^१, २२६^१ १०, २२७^१,
 २२८^१ १७, २२९^१, २४५^१, ३७४^१; -परिगृह्यमाण
 (properly embraced), १९५^१; -रस-परि=
 णम-पुष्टि 不能消化增益四大 W,
 २४९^१; -संबुद्ध 正遍知 W, 正等覺 T,
 एत्युर्वद्य (११७b), ६८^१, २२४^१, २२६^१ १०, २२७^१,
 २२८^१ १७, २२९^१, २४५^१, ३७४^१; -परिगृह्यमाण
 (properly embraced), १९५^१; -रस-परि=

१५, 101^{१०}, 102^{१२}^{१७}, 103^१, 105^{१०}, 114^{१०}, 115^४,
141^{११}, 142^{१२}, 143^१, 147^{११}, 172^१, 173^१,
187^१^{१२}, 217^१, 218^१^{१०}, 230^{१०}, 231^{१०},
232^{१०}, 234^{११}, 242^१, 244^१^{१४}; -संबुद्ध-त्व

三藐三佛陀 S, 正偏知 W, 正等覺體 T, यद्यपि यद्यपि समाधिशक्तिः त्रिद (144a), 190^१; -संबोधि 三藐三菩提 SWT, यद्यपि यद्यपि समाधिशक्तिः त्रिद (91a), 70^{१२},
73^{१५}, 79^१, 85^{१५}, 89^{१०}, 103^१, 112^{१२}, 144^{११}, 148^१, 156^{१४}, 240^{१४}, 244^{१०}; -सिंहनाद 正師子吼 ST, अस्त्रपरिष्कृष्टेण (87b), 69^{११}.

सराग-दोष-प्रतिघ लभ्य इव विजये विजये विजये विजये विजये (209a), 373^{१४}.

सर्प 蛇 WT, शूल (155a), 218^२, 327^{१०}.

सर्पिस (clarified butter), 250^१.

सर्व —一切 SWT, समाधि त्रिद ८^१, 23^{१४}, 27^{१३},
28^१, 42^{१०}^{१७}, 43^{१६}, 44^१, 49^{१०}, 50^{१०}^{१५}, 54^१, 55^१, 56^{१०}^{१५}, 57^{१०}^{१५}, 61^{१०}, 62^{१०}^{१०}^{११}^{१२}^{१३}^{१७}, 63^{१७},
66^१^२^४^७^{१३}^{१४}^{१८}^{१७}, 68^{१२}, 69^{१२}, 70^{१४}, 72^{१४}^{१७}
(bis)^{१४}, 73^३^{१३}, 74^{१०}^{१३}, 75^{१०}^{१४}, 76^{१०}^{१५} (bis)^{१०},
77^४ (bis)^०^{१०}, 156^१, 176^{१०}, 182^१, 280^{१०},
282^{१२}, 297^२, 305^{१४}, 313^{१०}, 325^१, 331^{१०}, 337^४,
346^{११}, 351^{१२}, 354^{१३}, 361^{१२}, 366^१, 374^१;
-काय-मुख-पाण्यभिषेकाधिष्ठान —
切身面…手灌頂神力 S, 手摩
其頂授位住持力 W, 身現其前
手灌其頂 T, क्षमा समाधि त्रिद
द्वयं त्रिद्वयं त्रिद्वयं त्रिद्वयं (104b), 100^१;
-काय-मुख-वाच 一切身
面言說 S, 身口意 W, 現其前身
語 T, त्रिद्वयं त्रिद्वयं त्रिद्वयं

त्रिद (105a), 100^{१०}; -कारण-तीर्थ 諸
外道常見因 W, क्षमा समाधि त्रिद
द्वयं त्रिद्वयं त्रिद्वयं (64a), 9^{१०}; -कृश-दो=
ष-वासनापगत 遠離一切煩惱習
過 W, 斷除一切煩惱…一切習
氣 T, त्रिद्वयं त्रिद्वयं त्रिद्वयं
क्षमा समाधि त्रिद्वयं (171b), 255^{१७};
-क्षेत्र 一切國土 T, 十方佛國土
W, ८^१, 98^{१२}; -गत 偏一切處 T, 遍
至一切(智)處 W, समाधि त्रिद्वयं
क्षमा समाधि त्रिद्वयं (65a), 12^१; -जन्म-प्राणि-भूत-संभूत
從有命中來 T, क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा
मूर्त्यं समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा क्षमा (168a),
245^{१४}; -ह 一切智 T, समाधि त्रिद्वयं
क्षमा समाधि त्रिद्वयं (141b), 12^१, 41^{१५}, 184^{१५}, 193^१, 255^{१७},
-ह-हान 一切智人 W, 一切智 S,
समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा क्षमा (155a),
217^{११}; -त 一切時 S, 恒 T, 29^१;
-दर्शन 普觀衆生 T, 一切見 W,
समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा क्षमा (171b),
256^१; -दुःख 苦 WT, शूल शूल (192
b), 324^{१२}; -देहिन 一切身 W, 衆生
身 T, 269^{१२}; -धन 一切法 SWT,
क्षमा समाधि त्रिद्वयं (69b), 10^१, 22^१, 51^{१३}, 62^{११},
63^{१७}, 66^{१२}, 69^{१२}, 72^{१७}, 74^{१०}, 75^{१६}, 76^{१२},
81^१, 82^{१४}; -धर्म-निरभिलाप्य-शून्य=
ता 一切法離言說空 S, 一切法
無言空 W, 一切法不可說空 T,
क्षमा समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा
क्षमा (92b), 74^१, 75^१; -धर्म-परीक्षा

觀察一切法 SW, 觀法 T, क्षमा
समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा क्षमा (114b),
122^१; -धर्म-भूमि-स्वलक्षण 一切法
一切地一切相 S, 一切地相 W,
一切法相 T, क्षमा समाधि त्रिद्वयं
क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा (146a), 195^{१६};
-धर्म-वश-वर्तिन 於法自在 T, 於
一切法面得自在 W, क्षमा समाधि
त्रिद्वयं क्षमा क्षमा क्षमा (65b), 13^{१०}; -बुद्ध-क्षेत्र
一切諸如來 T, 7^१, 43^{१७}, 50^{१५}, 98^{१४},
102^१, 125^{१५}, 187^१, 141^१, 224^१; -बुद्ध-क्षेत्र
一切佛刹 S, 一切佛國土 W, 衆
佛國 T, क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा
क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा (78a), 42^{१७}, 51^१, 70^१, 72^{१४}, 105^१, 137^१, 160^१;
-बुद्ध-हानाभिषेक 一切諸佛智
慧灌頂 S, 一切諸佛所共灌頂 T,
入諸佛智受位之地 W, 180^{१७}; -बुद्ध-
पर्वन्नायडल 一切佛刹 S, क्षमा
क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा (116a), 125^{१५};
-बुद्ध-प्रणिधानाधिष्ठान 一切諸佛
自願處 S, 一切諸佛自願住持
W, 一切諸佛願持 T, क्षमा क्षमा
समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा (81a), 49^{१०};
-बुद्ध-प्रवचन-हृदय 一切佛語心 S,
一切諸佛所說法心 W, 諸佛教
心 T, क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा
क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा (78b), 43^{१७}, 259^१; -भाव
一切法 SWT, क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा
(87a), 52^२, 62^{१०}^{१२}^{१३}^{१७}, 74^{१०}^{१३}, 76^१ (bis),
80^१, 82^२^३^{११} (-भावना for -भावना =

म), 88^१; -भावनार्गत 住諸法中 T,
同諸法 W, 入一切性 S, क्षमा क्षमा
समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा (150b), 206^१;
-भूत 一切衆生 ST, 諸衆生 W,
क्षमा क्षमा समाधि त्रिद्वयं (167b), 245^{१५}; -भू=
तात्मभूत 一切猶如己身 T, क्षमा
क्षमा क्षमा क्षमा (169a), 245^{१४}, 248^{१५}, 250^{१०}; -भू=
भि 一切諸地 W, 諸地 T, क्षमा
समाधि त्रिद्वयं (68b), 9^{१०}; -मांस 一切肉
WT, 一切諸肉 W, समाधि त्रिद्वयं
(171a), 254^{१२}^{१०}; -मांस-प्रतिषेध 斷一
切肉 T, 遮一切肉 W, मांस समाधि त्रिद्वयं
(171a), 254^{१०}; -यान-संप्रसित
趣大乘者 T, 修行大乘住大乘
者 W, समाधि समाधि त्रिद्वयं (171a), 254^{१४};
-योग-वश-वर्तिन 於觀自在 T,
क्षमा क्षमा क्षमा (64b), 11^{१६}; -योग-
वाधन 修觀行者 T, 如實行者
W, क्षमा क्षमा क्षमा समाधि त्रिद्वयं (171a),
254^{१५}; -योग-वाधनात्माराय-कर 兇
術不成 W, 一切障礙不得成就
T, क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा (169a), 248^{१२}; -त=
त्राभरण-विभूषित-किरीट 衆寶瓔
珞莊嚴其身 S, 寶冠瓔珞莊嚴其
身 W, 首戴寶冠 T, क्षमा क्षमा क्षमा
समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा क्षमा (105
a), 101^{१७}; -रोम-कूप 一一毛孔 T, 諸
毛孔 T, क्षमा क्षमा क्षमा समाधि त्रिद्वयं (65b),
13^१; -लोकानुकर्मक 哀愍世間 WT,
क्षमा क्षमा क्षमा समाधि त्रिद्वयं क्षमा क्षमा

(167b), 245¹; -**बैशु** 一切知 W, 普遍智
उद्धारकार्य (174b), 266¹⁰; -**शास्त्र** —
切諸論 W, एवं प्रभा इमेष्टु उद्धारकार्य (68
b), 91³; -**संख्यात्** 諸衆生 W, 一切
物 T, 普遍智 उद्धारकार्य (195b), 334¹;
-**सत्त्व** 一切衆生界 SW, 諸衆生 T,
普遍智 उद्धारकार्य (78a), 42
9, 55¹⁰, 56², 57¹, 65¹⁰, 66⁷ 1¹; -**सत्त्व-चिह्न-**
आशय-अनुग्रहित 入一切衆生
心中 T, 知一切衆生心使煩惱
W, 普遍智 उद्धारकार्य (88a), 31⁷.
सलिल 水 W, 水 (186a), 305¹⁰.
संस्कर (*being in confusion*), 219⁴.
सह (*with*), 81¹².
सहगत 俱 ST, 俱生 W, 138¹², 162¹⁰.
सहज 俱生 S, कृष्ण-ठिण-सूक्ष्म (96a), 81¹²,
136⁹, 137⁸ 10.
सहजा 俱生 SWT, कृष्ण-ठिण-सूक्ष्म (112b),
117⁷, 118⁷.
सह-धर्म (*common usage*), 174⁷.
सह-विश्वान 諸識俱 T, 一切識 W,
कृष्ण-धर्म-मेष्टु उद्धारकार्य (182b), 293⁹.
१० सहसा (*suddenly*), 34⁴.
सह-शुक्लण 共(赤)白 W, 令(赤)白
T, अद्य-पुण्ड्र-सुक्ल-उद्धारकार्य
(180b), 285¹¹.
सहस्र 千 SWT, कृष्ण (91b), 72⁹, 73¹, 81⁹,
361⁴, 363¹; -**अर** 千幅 SWT, कृष्ण-
कृष्ण-मेष्टु (137a), 174⁸ 9.
सहा 婆呵 S, 婆婆 WT, कृष्ण-मेष्टु (145
a), 192⁹.
सहित 俱 ST, 共 W, ९५४ धर्म (169b),
124⁴, 127¹, 197¹⁰, 227¹⁴, 235¹⁰ 17, 236⁹.

生自在用 W, 普益群生 T, 普遍智
उद्धारकार्य-उद्गतकार्य (116b), 126² 4;
-**आकार-हता** 一切種智 SWT,
कृष्ण-इमेष्टु उद्धारकार्य (165b),
240¹⁴; -**आमिषाहार-स्थिति** 一切
飲食住身 W, 雜食身 T, ३८-३८-
३८ (171b), 255¹⁰.
सर्वप 舍梨婆婆 S, 芥 W, 芥子 T,
अद्य-धर्म (88a), 31⁷.
सलिल 水 W, 水 (186a), 305¹⁰.
संस्कर (*being in confusion*), 219⁴.
सह (*with*), 81¹².
५ सहगत 俱 ST, 俱生 W, 138¹², 162¹⁰.
सहज 俱生 S, कृष्ण-ठिण-सूक्ष्म (96a), 81¹²,
136⁹, 137⁸ 10.
सहजा 俱生 SWT, कृष्ण-ठिण-सूक्ष्म (112b),
117⁷, 118⁷.
सह-धर्म (*common usage*), 174⁷.
सह-विश्वान 諸識俱 T, 一切識 W,
कृष्ण-धर्म-मेष्टु उद्धारकार्य (182b), 293⁹.
१० सहसा (*suddenly*), 34⁴.
सह-शुक्लण 共(赤)白 W, 令(赤)白
T, अद्य-पुण्ड्र-सुक्ल-उद्धारकार्य
(180b), 285¹¹.
सहस्र 千 SWT, कृष्ण (91b), 72⁹, 73¹, 81⁹,
361⁴, 363¹; -**अर** 千幅 SWT, कृष्ण-
कृष्ण-मेष्टु (137a), 174⁸ 9.
सहा 婆呵 S, 婆婆 WT, कृष्ण-मेष्टु (145
a), 192⁹.
सहित 俱 ST, 共 W, ९५४ धर्म (169b),
124⁴, 127¹, 197¹⁰, 227¹⁴, 235¹⁰ 17, 236⁹.

सहेतुक 有因 WT, कृष्ण-मेष्टु (199b), 277¹²,
346¹.
साक्षात् 證 ST, 取 W, 58¹⁶.
सांख्य 數論 T, 僧法 SW, शृण्व-उद्धारकार्य
(112a), 116⁷, 207¹⁶, 280⁴; -**वाद** 數論
ST, 僧法 W, शृण्व-उद्धारकार्य (151
a), 207¹⁶, 368¹⁷.
सागर-नाग-राज 海龍王 WT, कृष्ण-
मेष्टु (61a), 2⁸ 11.
६ सागरेन्द्र 龍 T, कृष्ण (62a), 4⁸.
सादृश 相似 W, ९५४ धर्म (143b), 47⁸, 98⁷,
224², 271¹¹, 283¹⁰, 312⁸, 315⁷, 318¹⁷, 319¹⁷,
324⁴, 331⁹.
सादृश्य 相似 SWT, 189⁹, 366⁷.
साधक 成 SWT, 可作 W, 作 T, कृष्ण-धर्म
(88a), 54¹⁴ (bis), 320¹⁰, 341⁸, 354¹², 357
11, 372⁸ 9.
साधन 依作 W, कृष्ण-धर्म (202a), 248¹¹
12, 254¹⁵, 354¹².
१० साधर्म (साधर्म?), 諸法 W, उद्धारकार्य
कृष्ण (177a), 110⁷ 10, 276¹.
साधर्म 種々法 ST, 相對法 T, कृष्ण-
मेष्टु उद्धारकार्य (189a), 47² 12, 60⁸, 109¹⁴, 110⁷ 15,
315¹¹.
साधारण 共 S, 共同 W, कृष्ण (77a), 40⁵ 7.
साधिक 成 W, कृष्ण-धर्म (181b), 290¹¹.
साधित (*accomplished*), 346².
१० साधु 善哉 SWT, 1² (bis), 3, 11 12, 29¹¹,
73¹⁴ 16, 85¹⁷, 86¹, 89¹² (ter), 16¹⁷, 117⁶ 8, 133
8⁷, 136⁴, 138⁸ 9, 145¹ 2, 148⁸ 9, 150¹ (ter)
8⁸, 154¹², 161⁹ 7, 172¹ 2, 180¹ (bis), 182
10 13, 191¹³ (bis), 211⁷ 8, 220⁸ 7, 224 11 12,
234¹³ 14, 240¹⁵ 14, 245¹ 5 8.

साधुमती (*a name for Bodhisattva stage*),
15⁸, 318¹².
साध 作 W, 所作 T, कृष्ण-धर्म (202a),
354¹².
सानुशयंगण (मानुषसंगम in text), 隨煩
惱及使 W, 於煩惱隨眠 T, कृष्ण-
मेष्टु उद्धारकार्य (192b), 324¹¹.
सामग्री 和合法 SW, 和合中 T, ९५४ धर्म (107b), 105¹⁰.
५ सामग्र्य 和合生 T, 和合 W, कृष्ण-धर्म
(175b), 270⁸.
सामाच (see also under स्व-सामाच),
共 ST, 同 W, कृष्ण (81b), 51¹, 110¹²,
291¹²; -**लक्षण** 共相 ST, 同相 W,
कृष्ण-मेष्टु उद्धारकार्य (81b), 51¹, 56¹⁴, 58⁹,
63⁸, 67¹⁸, 69⁹, 71¹⁰, 74⁹ 11, 75¹⁰, 93⁹, 97¹³, 99⁸ 16,
107¹³ 17, 291¹².
सामीप्य 極近 SWT, कृष्ण (185a), 169¹¹,
170³, 171⁷.
सार 實法 W, 實 T, कृष्ण-धर्म (198a), 342
9, 359¹²; -**ता** 實法 W, 真實法 T,
कृष्ण-धर्म (198a), 342⁹.
सार्थ 商賈 ST, कृष्ण-धर्म (148a), 199⁷, 372
12; -**वाह** 商主 ST, 賣主 W, ९५४ धर्म (103a), 97².
१० सार्थम् 俱 SWT, 1⁴, 12¹⁶.
सावद्य 有罪 S, अनुभव-सूक्ष्म (163b), 235¹.
सास्त्र 有漏 S, 有漏法 WT, कृष्ण-धर्म (163
b), 235¹.
सिंह 師子 SWT, कृष्ण-धर्म (71a), 27¹⁴, 231
7, 251¹⁴, 252⁸, 259⁸; -**नाद** 師子吼 ST,
कृष्ण-धर्म-मेष्टु-कृष्ण-धर्म (87b), 63¹²; -**नाद-**

नादिन् 大師子吼 T, 184¹¹; -रा अ師
 子王 WT, सेत्योपीतुभ्यर्थे (65b), 13¹;
 -संवास 與雌師子共行慾事 W,
 有牝師子與同遊處 T, सेत्योपीतु
 भ्यर्था ध (170a), 251¹⁴; -सौदार
 師子蘇陀婆 S, 師子奴 W, 師子
 T, सेत्योपीतुभ्यर्था ध (169b), 250¹¹;
 -अवलोकनता 師子視觀 W, 師
 子王周廻顧視 T, सेत्योपीतुभ्यर्था
 धुशाशुप्रवैषण (65b), 13¹⁴.
 सिंही 雌師子W, 牝師子 T, सेत्योपीतु
 (170a), 251¹³.
 सिकाता 沙 SWT, प्राप्त (77b), 41¹.
 सिद्ध 成 ST, शुद्धध (115b), 83¹⁸, 124¹, 227
 1¹, 300¹; -अन्त 悉檀 ST, 如來立…
 法 W, शुद्ध धर्म मध्य (136b), 28¹¹, 80
 11, 93¹⁰, 84¹, 43¹², 103¹¹, 149¹, 171¹¹¹², 172
 14¹¹¹²¹³, 297¹⁰, 306¹¹, 323¹², 346¹²¹³, 352
 17, 356¹; -अन्त-नय 宗通 S, 建立正
 法相 W, 宗趣法相 T, शुद्धधर्म
 मध्य धृत्य (126a), 148¹⁰, 171¹¹¹², 172¹;
 -अन्त-नय-देशना 宗通及說通 S,
 शुद्ध धर्म मध्य ध धर्मन् ध (136b),
 172¹⁴; -अन्त-नय-लक्षण 宗通相 S,
 建立修行正法之相 W, 宗趣之
 相 T, शुद्धधर्म मध्य धृत्य मध्यन् धृत्य
 (125b), 147¹¹, 148¹²¹³, 171¹⁰; -अन्त-
 प्रत्यवस्थान-नय 如實法 T, 建立如
 實法相 W, 自宗通 S, शुद्धधर्म
 मध्य धर्म मध्य धृत्य (136a), 172
 1¹; -अन्त-लक्षण 所立諸法 W, 自

宗 T, 352¹⁷; -अर्प 悉達他 W, 悉
 達多 T, शेत्युपाधि (205a), 364¹, 367¹.
 सिद्ध成 SWT, शुद्धध (92b), 58¹, 168¹.
 सुकर (easy to do), 45¹.
 सुख 樂 SWT, शुद्धध (66b), 11², 12¹, 15
 1⁴, 20¹, 51¹, 58¹⁰¹⁴ (bis) 10¹⁷, 65¹, 87¹¹, 89
 14¹⁸, 98¹², 119¹¹¹²¹³, 123¹, 136¹², 137¹, 143
 1⁸, 150¹⁴, 188¹⁰, 195¹, 211¹, 213¹, 221¹,
 222¹, 231¹⁸, 233², 235⁴, 236¹⁰, 237¹⁴, 242⁴,
 308¹²; -मद-मह 樂醉所醉 S, 樂
 著…醉 W, 樂之所昏醉 T, शुद्ध
 धर्म मध्य धृत्य (153b), 218¹⁷; -विज
 हार 樂住 S, 樂行 W, 住…樂 T,
 शुद्धधर्म मध्य धृत्य (85a), 58¹⁰, 98², 225¹;
 -आगत 來施者應受 W, 他自與
 聽受 T, शुद्धधर्म मध्य धृत्य (187a), 308¹².
 सुखावती 阿彌陀佛國 W, 無量壽
 極樂界 T, शुद्धधर्म (179a), 283¹,
 286¹⁵.
 5 सुगत 善逝 ST, 如來 WT, शुद्धधर्म
 मध्य धृत्य (61b), 8¹⁴, 61⁴, 23¹⁴, 28¹, 149¹³,
 191¹, 220², 224¹, 286¹⁰; -आनन्द 諸
 佛子 SWT, शुद्धधृत्य (70a), 23¹⁴.
 सु-चिरम् (for a long time), 364¹.
 सुत 子 WT, 佛子 W, शश (72a), 6⁴, 23
 1¹, 29¹⁴, 32¹², 34¹⁰, 85⁶, 266¹¹, 267⁴, 271¹⁴,
 330¹; -भूम्यनुकमण-गोचर 超子
 地境界 S, 過佛子地境界 W, 超
 子地所行 T, शश श्रुति धर्म धृत्य
 मध्य धृत्य (76b), 39¹⁵.
 सु-दुर्लभ 難得見 S, 難遇 T, 無人曾
 見當亦不見 W, शुद्धधर्म धर्म (161

b), 280¹¹¹⁴.
 सु-हृष्ट 善見 SW, 善修 T, 善知 WT,
 善達 T, मेन्दुभृष्ट (194b), 120¹, 127
 1⁷, 331¹.
 सु-हृष्टि 善見 SWT, मेन्दुभृष्टध (113
 a), 118¹⁵.
 सु-निबृद्ध 善究竟滿足 S, 善縛 W,
 具足成滿 T, मेन्दुभृष्टधृत्य (159b),
 51¹, 123¹, 161¹, 227⁴; -तुष्टि 善縛所
 縛 W, 覺慧善入 S, 覺慧善住 T,
 मेन्दुभृष्टधृत्य (131a), 161¹.
 सु-हृष्टित (entirely spoiled), 340¹⁷.
 5 सु-धर्मता (the highest essence of the Dhar-
 ma), 245¹⁴.
 सु-नीत (well taught), 329¹¹.
 सु-नेत्र 善眼 SW, 紗眼 T, मेन्दुभृष्ट
 (122b), 141¹.
 सुन्दरिका 孫陀利女 S, 孫陀梨 W,
 孫陀利外道女 T, मेन्दुभृष्ट
 (165b), 240¹².
 सुपिन 夢 WT, (for स्वप्न), श्वीधर्म (180a),
 48³, 287¹⁴, 315¹⁶.
 1/0 सु-मुद्रा 睡中寤 W, 睡覺 T, श्वीधर्म
 धर्म (180b), 286².
 सु-प्रतिविभाग 善知 SWT, शुद्ध धर्म
 मध्य धृत्य (129b), 51¹, 85¹⁰, 127¹⁴, 148¹,
 156¹², 160¹¹; -विभि 善分別 S, 善
 分別知 W, 善知 T, मेन्दुभृष्ट
 धृत्य (117a), 51¹, 127¹⁴, 148¹, 156¹².
 सुबहु (多), 12¹¹, 34¹.
 सु-मुद्रित 印種 S, 所印 T, 善印所印
 W, शश श्रुति (131a), 160¹⁰, 166¹.
 सुमेह-माच 如須彌山 SWT, शुद्धध
 धृत्य (125a), 146¹².
 सुमेह-शृङ् 頒彌…頂上 W, 頒彌…
 頂 T, शेत्युपेत्त (65b), 13¹.
 सुर 天衆 WT, शुद्धधृत्य (206a), 367¹².
 सुरक्षाकोटित 如法染 W, 有正色者
 T, मेन्दुभृष्टधृत्य धृत्य (204b), 363¹².
 5 सुरालय 阿脩羅 W, 諸天種 T, शेत्यु
 धृत्य (186b), 307¹.
 सुलभ-त्रुट्य 諸佛易見 S, 易成 T,
 श्वीधर्म धृत्य धृत्य (161a), 280¹⁰.
 सुलभ-त्रृप 侍使易生 T, शुद्धधर्म
 (167b), 245¹¹.
 सुवर्ण 金 SWT, धृत्य (76a), 26², 30⁷, 38
 1¹, 128¹⁷, 159¹¹, 208¹ (bis), 236¹², 239⁴,
 288¹¹¹², 307¹², 358⁷, 371¹; -जिन-धातु
 金安闍那性 धृत्य शुद्धधर्म
 धृत्य (206a), 368¹; -तन्तु 金樓 SW,
 針與線 T, धृत्य शुद्धधृत्य (118a), 129
 1¹⁰; -भाव 金性 S, 金體 W, 金 T,
 धृत्य शुद्धधृत्य (151b), 208²; -मणि-
 मुक्त-ज 金銀摩尼等 S, 金摩尼珠
 性 W, 金摩尼真珠 T, धृत्य शुद्धधृत्य
 (72b), 26², 30⁷; -मणि-मुक्ति-ज
 金銀諸珍寶 W, 金摩尼珠 T, शु
 द्धधर्म धृत्य धृत्य (194b), 332²; -आभ
 見金 W, 謂金 T, धृत्य शुद्धधर्म
 (181a), 288¹².
 सुविनिवृद्ध 深入計著 S, 使縛 W, 相
 繫深縛 T, मेन्दुभृष्टधृत्य (79a), 44¹²,
 59⁴.

सुविभाग 善分別 ST, 善解知 W, त्रैम्
द्वय-द्वय (103a), 97¹.

सुविमुक्त-चिह्न-प्रह 善分別知心心
智慧 W, 善擇諸心智慧 T, बेम्श-
द्वय-मेश-द्वय-मेन्दु-क्षमा-द्वय-शेष-द्वय
(171b), 255¹⁷.

सु-शिक्षित 善覺 W, मेन्दु-मेश-द्वय
(176b), 273¹³.

सुहृ चमनसिक्तुर 善思念之 S, बेम्श-
द्वय-क्षमा-पर्याप्त-द्वय-मेन्दु-मेष (92b), 73¹⁸,
85¹⁷, 89¹⁶, 117¹⁶, 133¹⁶, 136¹⁶, 188¹⁶, 145¹⁶, 148¹⁶,
150¹⁶, 161¹⁶, 172¹⁶, 180¹⁶, 182¹⁶, 191¹⁶, 211¹⁶,
220¹⁶, 224¹⁶, 234¹⁶, 240¹⁶, 245¹⁶.

५ सूख 深 W, 深妙 T, 微細 SW, लेपम्
(157b), 43¹⁶, 45¹⁶, 223¹⁷, 246¹⁶, 247¹⁶;
-जन्तु 246¹⁶; -मति 微細識 W, 妙
慧 T, लेपम् (64a), 10¹⁵.

सूचक 開示 T, 說 W, 8¹².

सूत 繩 SWT, 絲 ST, 繩 W, 契經 S, 修
多羅 W, 教 T, 經 SWT, मैद-सू (63
b), 5¹⁶, 81¹⁶, 78¹⁶, 82¹⁶, 162¹⁶ (bis), 172¹⁶,
187¹⁶ (bis), 254¹⁶, 255¹⁶, 290¹⁶, 309¹⁶, 322¹⁶
(bis), 361¹⁶; -कर्तु 作經 W, 造經
T, मैद-कर्तु (205b), 366¹⁶; -अन्त वृ
多羅凡所有經 S, 修多羅中 WT,
經中 T, मैद-सू-कर्तु (94a), 66¹⁶, 77¹⁶,
80¹⁶, 283¹⁶, 308¹⁶; -अन्त-पाठ 77¹⁶.

सूपलक्षित (well understood), 112¹¹.

सूर्य 日 SWT, लेप (72b), 80¹⁶, 161¹⁶; -विद्
शुत्-प्रभ 日電光明 T, 電光明 W,
श्वेष-शेष-द्वय (67a), 16¹⁷.

१० सृष्टित 化作世間 W, 能作世間 T,
364¹¹.

सेवनीय (to be served), 197¹.

सेवमान (serving), 173¹⁷, 180¹².

सेवित (served), 249¹¹, 14.

सेवितय (to be served), 173¹⁶, 174¹⁶.

६ सेवमान (being served), 179¹⁴.

सोपादान 有取 T, 可取 W, 妄取 T,
共因 W, लेप-वेत्तु (202b), 356¹², 357¹⁶;
-उपलभि 可得 T, द्विष्णव-द्वय (203a),
357¹⁶.

सोम 月 SWT, लेप (71a), 26¹¹, 27¹⁷, 29¹⁷,
36¹⁶, 56¹⁶, 98¹⁶, 192¹⁶; -गुम 月護 W, 月
藏 T, लेप-मेश-द्वय (205a), 364¹⁶; -भास-
कर 日月 WT, लेप-लेप (176a), 26¹¹,
27¹⁷, 36¹⁶, 98¹⁶, 273¹⁶, 274¹⁶, 305¹¹, 310¹⁶,
330¹⁶; -भासकर-नक्षत्र-पद 日月星
宿句 ST, 日月星宿見 W, लेप-द्वय-
क्षमा-पर्याप्त-लेप (75a), 36¹⁶; -वेश 月種
WT, लेप-शेष-द्वय (205a), 364¹⁶.

सौगत 此等事 W, 諸妙事 W, 如是
等物 T, लेप-द्वय (63b), 81¹⁷, 14, 374¹⁷.

१० सौवर्ण 金 WT, लेप (186b), 307¹⁶.

सौषष्ठु 巧妙 W, 篩 T, 莊嚴 S, लेप-
(137a), 173¹³.

सूच्य 陰 SW, 蘊 T, लेप-द्वय (68a), 18¹⁶, 30¹⁶,
35¹⁶, 40¹⁶, 41¹⁶, 43¹⁶, 57¹⁶, 58¹⁶, 63¹⁶, 68¹⁶,
69¹⁶ (bis) १, 71¹⁶ १, 74¹⁶, 75¹⁶, 77¹⁶, 79¹⁶,
83¹⁶ १, 95¹⁶, 96¹⁶, 113¹⁶, 124¹⁶ (bis) १, 125¹⁶
७, 121¹⁶ (bis), 126¹⁶, 138¹⁶, 140¹⁶, 149¹⁶, 153¹⁶
(bis), 156¹⁶ (bis), 182¹⁶, 188¹⁶, 189¹⁶ (bis),
190¹⁶ (bis), 217¹⁶ (bis), 218¹⁶, 220¹⁶, 221¹⁶,
265¹¹, 266¹², 267¹⁶, 272¹⁶, 289¹⁶ (bis),

295², 301⁵, 301¹⁶, 306⁴, 323⁸, 324⁴, 325¹¹,
333¹, 344¹¹, 14, 15, 354⁹, 355⁷, 357¹⁴, 358⁹
१, 359⁵, १, ११, १३, १५, 360^१, 369¹⁰, 14, 370¹, 371^१,
३, 372¹¹; -कदम्बक 陰集 S, 陰聚 W,
蘊聚 T, लेप-द्वय-द्वय (122a), 140^१;
-क-पञ्चक 陰 W, लेप-द्वय-द्वय (192a), 323^१;
-ना 諸陰陰 SW, 蘊蘊 T, लेप-द्वय-
द्वय (128a), 153¹¹, 325¹¹; -धात्रायतन
陰界入 SW, 蘊界處 T, लेप-द्वय-
द्वय-मेश-द्वय-कर्तु (125a), 40¹⁶,
41¹⁶, 43¹⁶, 57¹⁶, 58¹⁶, 63¹⁶, 68¹⁶, 69¹⁶, 7, 71¹⁰, 16,
77¹⁷, 88¹⁶, 146¹⁷, 189¹⁶, 220¹⁶, 221¹⁶; -पद
陰句 S, 陰見 W, 蘊句 T, लेप-द्वय-
द्वय (74b), 35¹⁴; -विकल्प 陰妄想 S,
陰虛妄 W, 諸蘊分別 T, लेप-द्वय-
द्वय-कर्तु (116a), 218¹⁴; -विज्ञा-
न-पञ्चम 五陰識 W, लेप-द्वय-कर्तु-
द्वय-मेश-द्वय-द्वय (174a), 265¹¹; -स्वभाव-
लक्षण 諸陰自性相 S, 五陰體相
W, 諸蘊自性相 T, लेप-द्वय-द्वय-
द्वय-मेश-द्वय (116a), 125¹⁸.

७ स्वित 住 SWT, लेप-द्वय (63b), 9⁷, 37¹⁹
¹² (ter), 40¹⁶, 42¹⁶, 43¹⁶, 62¹⁶, 79¹⁶, 80¹⁶, 81¹⁶,
90¹⁶, 94¹⁶, 95¹⁶, 181¹⁶, 207¹⁶, 225¹⁶, 239¹⁶,
255¹⁶, 274¹⁶, 300¹⁶, 324¹⁶, 353¹¹, 368¹¹;
-ना 法性本住處 W, 法本性 T,
常住 S, लेप-द्वय-द्वय (124a), 143¹¹, 18;
144¹², 218¹⁶, 324¹⁶; -अयथात्-पद 住
異句 ST, 住異見 W, लेप-मार्ग-
द्वय-द्वय-द्वय (73b), 34¹⁴.

स्थिर 常堅固 W, 堅固 T, लेप-द्वय (174a),
265¹⁷.

स्नेह 津潤 ST, 柔軟濕潤 W, लेप-द्वय
(115b), 124¹⁶.

स्त्रवन 動搖 S, 動搖運轉 T, लेप-द्वय (102
a), 94¹⁶.

स्त्रिन एव एव ST, लेप-द्वय (107a), 105¹⁶,
312¹², 356¹⁶.

स्परिश 觸 W, रेण(175a), 268¹⁴.
 स्पष्ट अ त्रुपा दि(159a), 226².
 स्फटिक-मणि 摩尼珠 S, 玻瓈珠 WT,
 कृत्त्व-संभेद(101a), 92¹²-18; -मय 玻璃
 器 T, 琉璃W, सेप्तव्यसंक्षेप(187a),
 308¹.
 स्कुरभाण (trembling), 286¹.
 स्मरण (remembering), 43⁹.
 स्मित 熙怡微笑 W, 即便微笑 T,
 नृक्त्वा दि(61a), 2⁸, 13¹¹, 14⁶, 110¹⁶, 276².
 स्मृत (remembered), 116⁷, 204², 280⁴, 340¹².
 स्मृति 念 ST, नृक्त्वा दि(71a), 27¹, 72², 105⁴,
 241¹⁶.
 स्नोत्तापति 須陀洹 SWT, शैवं तु
 त्रुपा दि(112a), 116¹³(bis) 1⁴, 117²; -फल
 須陀洹果ST, 須陀洹…果W, शैवं
 तुकृदं पौर्वनृपा दि(112b), 65⁹, 117⁴.
 10 स्नोत्तापति 須陀洹 SWT, शैवं तु
 त्रुपा दि(112a), 116¹² 1⁴, 117⁴, 118⁶ 7¹⁰,
 119¹² 1¹⁰, 121⁶.
 स्नोत्तापति 須陀槃那 S, 逆流修無
 漏 W, 預流 T, शैवं तु त्रुपा दि(88b),
 65⁹, 121¹⁴, 279¹²; -फल 須陀槃那果
 S, 逆流修無漏 W, 預流 T, शैवं
 तुकृदं पौर्वनृपा दि(114b), 121¹⁴, 279¹².
 स्व 自 SWT, नृ (92b), 23⁸, 43¹¹, 49¹⁶, 58
 1⁴, 60¹², 61¹², 64⁶, 65⁶, 74¹¹, 80¹⁸, 87¹⁶, 91
 1⁴, 97¹³, 104¹⁰, 118⁹, 173¹⁴, 187⁴(bis), 188
 1⁹, 195² 7, 248¹², 251¹⁰; -कर्म-दोषावर=
 णावृत 成大罪障 W, 惡業所纏
 T, नृषी त्रिष्टुपौर्वनृपा दि(171b), 255²;

-कर्त्त्व 自妄想 S, 自心虛妄分別
 W, 自所分別 T, नृषी बेमश्च त्रै
 कृम-पूर्वनृपा दि(97a), 84², 309¹²; -कर्त्त्व-
 कर्त्त्व-कर्त्त्व-कर्त्त्व-कर्त्त्व-कर्त्त्व-कर्त्त्व-
 分別 W, 從自分別 T, 309¹²; -कारण 自因 W, 自性 T, नृषी
 वैकृ (200b), 349¹⁰; -कृत्य 自事 WT,
 各…事 S, नृषी त्रै(107a), 105¹⁵; -
 गुण 功德 W, 功能 T, नृषी वैकृ
 घट्कृ (209b), 359⁹; -गोचर 境界
 SWT, नृषी त्रै(80b), 48⁴, 315¹⁷.
 स्वचित् (see also चित्), 自心 SWT, नृषी
 वैकृ बेमश्च (76a), 38⁸, 40⁷ 8¹², 41⁴, 42³ 6¹² 14,
 43⁹ 10¹⁶, 44⁴ 17, 45¹¹ 13, 47⁶, 49⁸ 11, 51¹⁸, 54
 4⁶, 55³ 4, 56³ 7¹⁵, 57¹⁷, 58⁹, 62⁸, 64¹⁴, 68¹²
 1⁸, 72⁶, 73⁴, 80⁸ 11, 81¹⁰, 84¹⁰ 12, 88¹, 89⁷,
 90¹ 6¹⁷, 91⁹ 9⁴, 100⁴, 136¹¹, 180¹⁴, 182²,
 212⁸ 10¹⁶, 235¹², 237¹²(bis), 309¹⁹, 315⁴,
 326⁸ 10¹³, 327¹¹, 328¹, 343¹¹, 344¹⁰, 345
 11, 347²; -चित्र-दर्शन 心種種見 W,
 बेमश्च त्रै कृम-पूर्वनृपा दि(193a),
 326¹⁰; -हृश्य 自心現量 S, 自心所
 見 T, 以見自心爲見所見 W, नृषी
 वैकृ बेमश्च त्रै(114a), 38⁸, 40¹², 41⁴, 44
 4¹⁷, 45¹¹ 15, 49⁹ 11, 54⁴, 55³ 4, 56³ 7¹⁵, 68¹²,
 73⁴, 79¹⁸, 80⁸ 11, 100⁴, 121³ 9¹⁰, 127³ 5, 140
 1¹, 159¹⁰, 171¹², 172¹⁰, 184¹⁷, 221⁴, 225², 227
 1¹, 233¹⁴, 235¹², 237¹²; -हृश्य-गति 自
 心所見境 T, 自心現量 S, 心見
 諸法 W, नृषी बेमश्च त्रै त्रै
 (114a), 121¹⁰; -हृश्य-गोचर 自心現
 境界 S, 自心爲境 W, 自心現義
 T, नृषी बेमश्च त्रै त्रै
 (61b), 1¹⁰, 43¹⁸, 62⁸; -हृश्य-धर्मता 見

自心法性 T, 見自心法 W, नृषी
 बेमश्च त्रै(68b), 18¹⁸; -हृश्य-धारा
 自心現流 55³ 4 5⁷ 10 14¹⁷, 56¹; -हृश्य-
 मात्र 自心所現 ST, 自心想見 W,
 自心現量 S, 但是心見 W, 唯心
 T, 唯自心 T, 唯是自心 W, 唯自
 心 T, नृषी बेमश्च त्रै त्रै त्रै
 (77a), 9¹¹, 40⁴, 72⁴, 73⁴, 88¹, 90¹ 17, 93¹⁷, 100⁴, 104
 8⁸, 108², 111⁸, 112¹ 7, 115², 123¹⁵, 138¹⁸,
 140¹, 146¹⁴, 150¹², 151² 17, 165¹⁸, 170¹⁰ 17,
 173¹⁶, 176⁹ 4, 177⁹, 178¹⁸, 183⁹, 184¹⁶, 194
 1⁹, 199⁹, 209⁹, 213¹¹ 17, 214²; -हृश्य-मा=
 या-विषयानुदर्शन 自心所現幻境
 隨見 S, 自心所見如幻境界 W,
 了境如幻自心所現 T, नृषी
 बेमश्च त्रै त्रै त्रै त्रै त्रै त्रै
 (77a), 40¹²; -हृश्य-विकल्प 自心
 分別 W, 自心現妄想 S, नृषी
 बेमश्च त्रै त्रै त्रै त्रै त्रै त्रै
 (138a), 45¹¹, 176⁶, 184¹⁷; -हृश्य-विकल्प-मात्र
 自心現妄想量 S, 但是自心虛妄
 分別 W, नृषी बेमश्च त्रै त्रै
 (164b), 237¹²; -हृश्य-विज्ञान-विषय
 自心所見境界 T, 自心見等識境
 S, 自心識見境界 W, 38⁸; -हृश्य-
 विषय-भावाभाव-परिवान 知自心
 現境界性非性 S, 見自心境界 W,
 了境心現皆無所有 T, नृषी
 बेमश्च त्रै त्रै त्रै त्रै त्रै त्रै
 55³ 4 5⁷ 10 14¹⁷, 56¹; -हृश्य-
 धर्मता 見

心過失 W, 自心倒惑 T, 327¹⁸; -हृश्य
 自心二 S, 自心二法 T, 見內外
 法 W, नृषी बेमश्च त्रै (164b), 237
 1²; -मात्र 唯是自心 T, 唯心 S, 但
 是一心 W, नृषी बेमश्च त्रै (156a), 80
 7¹⁶, 159⁹, 208¹⁷, 219⁹; -विकल्प 自妄
 想 S, 自心分別 W, 自分別 T, नृषी
 वैकृ बेमश्च त्रै त्रै त्रै (130b), 42³,
 159¹⁷, 238⁹; -विकल्प-हृश्य-धारा 自
 心分別流注 T, 分別見自心中虛
 妄見 W, 自心妄想流注 S, 45¹³;
 -विविध-विवेक-विहार 種種自心
 寂靜安住 S, 自心寂靜行種種行
 W, 離種種心寂然不動 T, 136¹¹;
 -विषय-विकल्प-हृश्य 自境界妄想
 見 S, 自心境界妄想見 W, 境界
 自分別現 T, नृषी बेमश्च त्रै त्रै
 कृम-पूर्वनृपा दि त्रै त्रै त्रै
 (76a), 40⁷; -अभिनिवेश 執着自
 心現 T, 虛妄取自心 W, नृषी
 बेमश्च त्रै त्रै त्रै त्रै (177b), 277¹⁴.
 स्वच ल性清淨 S, 浄 W, 恒淨 T,
 बेमश्च त्रै त्रै त्रै त्रै त्रै (182b), 231⁹,
 293⁷.
 स्वजन 親 S, 春屬 T, नृषी त्रै (168a), 245¹³;
 -बन्धु-भाव 六親眷屬…常爲眷
 屬 W, 衆生皆是親屬 T, नृषी त्रै
 नृषी त्रै नृषी त्रै (168a), 246²; -बन्धु-
 बन्धु-भूत 菩爲六親 S, 曾作…眷
 屬 T, नृषी त्रै नृषी त्रै नृषी त्रै (167b),
 245¹³.

स्व-जाति-लक्षण 自真相 S, 真相 T,
自相 W, स्व-योगिक्षेप-प्रतीक्षिद्
(76b), 38¹¹, 18.

स्वतन्त्र 真實 S, 實 T, स्व-दृष्टि (141a),
184¹.

स्व-दृष्टिं 自見 WT, स्व-योगित् (196a),
335¹⁰; -दृष्टि 自見 SW, 自惡見 T,
41¹¹; -पारा (रं)…न चिन्तते 不自
割 WT, (-धार in text), स्व-मैषत्तु
(196a), 335¹¹.

स्वनय 自說道 S, 自通 S, 如實理 T,
真實 T, स्व-योगित् (145b), 103⁹, 175⁶
7¹⁰, 193⁹; -प्रत्यवस्थान 解自通 S, 決
定名號真實 W, 真實 T, स्व-योगित्
हृषीक्षेप-सद-मणिक्षण-प्रतीक्षिद् (92b), 193¹²;
-प्रत्यवस्थान-कथा 自宗實法 T, 建
立真法 W, 自通處 S, स्व-योगित्
हृषीक्षेप-सद-मणिक्षण-प्रतीक्षिद्
(106b), 179¹², 230¹⁴, 242¹⁴; -प्रकृत्यवस्थान-कथा 自
體起 T, 自說道 S, स्व-योगित्
हृषीक्षण-प्रतीक्षिद् (106a), 103⁹.

स्वपत्र 自法 W, 自宗 T, 我宗 T, स्व-
योगित् (146a), 195⁴, 334¹⁰, 18.

स्वपर 自他 SWT, 74¹¹; -दोषावहन 自
身他身有如是過 W, 自惱惱他
T, स्व-दृष्टि-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद्
(170a), 251¹⁰; -लक्षण 自他相 ST,
自相他相 W, स्व-दृष्टि-प्रतीक्षिद्
मृक्षिद् (99a), 87¹¹; -आत्म-हित-
काम 欲利自他 T, स्व-दृष्टि-प्रतीक्षिद्
हृषीक्षण-प्रतीक्षिद् (169a), 248

11¹; -उभय (भाव) 自他俱性 S, 自
他二種 W, 自他及俱 T, स्व-दृष्टि-
दृष्टि-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (106a), 74¹¹,
80¹¹, 97¹¹; -उभय-अर्थ 自利利他
W, 利自他 T, स्व-दृष्टि-प्रतीक्षण-
प्रतीक्षिद् (66a), 14¹¹.

स्व-पुच्छ-मांस 子肉 WT, स्व-योगित्-प्रतीक्षिद्
(171b), 256³.

स्वस्थ (to be slept), 307¹⁴.

स्वम 夢 SWT, योग्यम् (63b), 91², 22¹⁰, 88¹,
91¹, 95⁷, 96⁸, 106⁸, 112¹, 125¹¹,
137¹, 149¹¹, 160² (bis), 161¹, 167¹¹, 198¹⁷,
200¹², 202¹, 214¹⁰, 249⁴, 264⁷, 265¹³,
266¹¹, 268¹⁰, 273¹, 279⁹, 281¹⁰, 283¹³,
289¹³, 292¹⁴, 294⁶, 295⁸, 298⁶, 301¹⁵, 308⁴,
306¹, 309¹³, 317¹, 318¹⁷, 321², 324², 329¹,
331¹, 334¹⁰, 335¹³, 337¹³, 374¹²; -कार्य
夢中作事 W, 夢中事 T, योग्यम्
श्रिष्ठिकैः प्र-प्र (186b), 306¹⁷; -पद 夢
句 ST, 夢見 W, योग्यम्-प्रतीक्षण (74b),
35¹⁷; -पुरुषाघोषण 人夢中方便
度水 S, 人睡夢度大海水 W, 人
夢中方便渡河 T, योग्यम्-योग्यम्
कुरुक्षेप-द्युप्रयत्न-कृत्य-प्र (154a),
214¹⁰; -रूप 夢中見色 W, 夢 T,
योग्यम्-प्रतीक्षण (190a), 317⁹; -वाच 夢
言說 SWT, योग्यम्-प्रतीक्षण (98a), 86¹¹;
-उपम 如夢 WT, योग्यम्-प्रतीक्षण (174b),
22¹⁰, 264⁷, 267¹², 270¹¹; -आय द
暴雨 W, 夢渡河 T, 318¹⁷.
स्वप्रत्याम अ身 W, 自證 T, स्व-दृष्टि-

योग्यम्-प्रतीक्षण (64a), 10¹¹, 80², 214⁸;
-गति-गोचर 證智所行 T, 自身內
證諸境界行 W, 緣自得法究竟
境界 S, स्व-सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-
हृषीक्षण-प्रतीक्षिद् (123b), 143¹, 152⁷, 172¹²; -गति-बोधक
得內身覺觀 W, 成就自證聖智
T, स्व-योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (64b), 11¹; -शान-पद 緣自聖智…句
S, 緣內身聖見 W, 自證聖智句
T, स्व-सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद्
कैष (74a), 35⁷; -धर्मता 自身內證法
W, 緣自得法 S, 自證法 T, स्व-सद-
योग्यम्-कृत्य-प्रतीक्षिद् (123b), 143¹; -धर्मता=
नुसंधि 緣自信法 S, 自身內證法
W, 自證法 T, स्व-सद-योग्यम्-कृत्य-
प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (123b), 143¹; -उद्धि 自
覺 ST, 自內智慧 W, स्व-सद-योग्यम्
(119b), 133¹⁰; -भूमि 自覺地 S, 自證
地 T, 證地 W, स्व-सद-योग्यम्-
कृत्य-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (154a), 214¹⁰, 224¹⁰; -अधिगम
自覺 S, 自身內證 W, 所證 T, स्व-सद-
योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (113a), 119⁶;
-आर्य-गति 自覺聖趣 S, 自內身
聖行 W, 內境 T, स्व-योग्यम्-प्रतीक्षण-
सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (164b), 155¹², 222¹², 226¹¹,
238¹⁰; -आर्य-गति-गोचर 自證
聖智所行之境 T, 自覺境界 S, 內
所證法聖智境界 W, स्व-योग्यम्-प्रतीक्षण-
सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (166b),
172¹¹, 242¹¹; -आर्य-शान 自覺聖智

S, 自證聖智 T, 自身內證聖智
W, स्व-सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (61a),
27, 21³, 35⁷, 75⁸, 80², 194¹⁴, 200⁷, 228¹⁴, 231¹¹; -आर्य-शान-गति 自覺聖智 S,
自身內證聖智修行 W, 自證聖
智行 T, स्व-योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद्
-मेष-कृत्य-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (69b), 133¹²; -आर्य-शा-
न-गति-गोचर 自覺聖智究竟境
界 S, 自覺聖智境界 W, 自證聖
智所行之處 T, स्व-सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-
प्रतीक्षिद् (81a), 50¹⁰, 157¹⁷; -आर्य-
शान-गति 自覺聖智境界 S, 自
內身聖智境界 W, 內證聖智所
行境界 T, स्व-सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-
प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद्-मेष-कृत्य-
प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (65b), 13¹³, 231¹; -आर्य-शान-पद 緣
自聖智…句 S, 緣內身聖見 W,
自證聖智句 T, स्व-सद-योग्यम्-प्रतीक्षण-
प्रतीक्षिद्-मेष-कृत्य-प्रतीक्षिद् (74a), 35⁷; -आर्य-
धर्म 自覺聖法 S, 自身內證聖智
法 W, 聖智所現證法 T, स्व-सद-
योग्यम्-प्रतीक्षण-कृत्य-प्रतीक्षिद् (141b), 185³, 226¹⁴.

स्व-वल 自力 T, 自成…力 W, स्व-
मम् (201b), 953¹⁰.

स्व-विद्म 自見影 W, 自見其影 T,
कृत्य-प्रतीक्षण-योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (69b),
201⁵.

स्व-बीज (बीज in text), 自種 S, स्व-
योग्यम्-प्रतीक्षण-प्रतीक्षिद् (98a), 86¹¹.

स्व-बुद्ध-बुद्धता 自性自覺覺他 S, 自
悟悟他 T, 如來法身之相自身及

他俱入無疑 T, 空空無所起不生不滅
空空無所起(142b), 187¹.

स्व-बुद्धि 證智 T, 自覺 S, 自智 W,
9¹⁴, 115¹⁰.

स्वभाव 自性 SWT, 自體 W, 空空無所起
(61a), 2², 9¹⁷, 11¹¹, 14⁴, 17¹⁴, 22¹², 26
1⁶, 30⁴, 34¹⁵, 35¹⁴, 39¹⁰ (ter)¹¹, 40², 24
2², 48¹⁶, 44⁸, 45¹⁶, 51¹, 2² 1¹, 54¹¹, 56¹⁶
1¹⁰, 57⁴, 57⁸, 58³, 62¹¹, 13 14 16, 64¹², 67², 4 5 7
14 16, 68³, 69⁸, 70², 72¹⁸, 74¹⁵, 75⁵, 76
3³, 81²⁴, 82⁴, 84⁶, 88⁸, 89⁶, 90⁶, 98¹⁰ (bis)¹²,
96¹¹, 98¹⁷, 99¹⁷, 100¹² (bis)⁴, 108¹¹, 111
14¹⁷, 112⁸, 113⁴, 115¹⁰, 116⁶, 117¹⁰, 118¹²
4⁴, 122³, 124¹⁷, 125¹⁰, 127¹⁴, 128² (b's),
129¹⁴, 130⁹, 131¹², 132¹⁴, 11¹², 136⁴, 137¹⁷,
141¹¹, 142⁴, 152⁴, 153³, 155¹⁴, 157¹⁴, 168¹²
13 16, 17, 164¹, 2 8 6 8 11 13 14 17 18, 165², 3 8 14 14
10⁶, 166⁴, 167¹⁶, 168⁷, 169¹⁰, 173¹⁷, 184
7⁷, 192⁶, 193¹⁶, 198⁸, 199¹⁷, 200¹³,
202², 205¹¹, 207¹⁴, 211¹, 212¹, 214⁷, 221⁷,
224⁶, 225², 227¹⁰, 12 14, 11 16, 228¹⁸, 229
1¹⁰, 231¹⁸, 232⁴, 267¹³, 268², 269¹⁸,
275¹³, 15 14, 276⁷, 280¹¹, 284⁴, 285¹, 287
1¹³, 291¹⁸, 293⁷, 296¹¹, 297¹², 300², 302¹⁶,
303⁴, 305¹, 313² (bis), 317¹⁶, 318⁴,
319⁴, 320², 322⁸, 325⁶, 327³, 336¹⁴, 337¹⁰,
338¹⁴, 339³, 342¹⁶, 344⁴, 348¹⁰, 12 13; -क
法體相 W, 自性 T, 空空無所起(206
b), 128¹², 297¹⁸, 369¹¹; -चय 348¹⁰; -हृ=
हृ 外道圓陀邪見 W, 圓陀諸見
T, 空空無所起(64a), 10¹⁰; -चय
二自性法 S, 二自體 W, 二自性
T, 空空無所起(101a), 93¹, 202², 267
1⁴, 269¹⁵, 274¹⁰, 338¹⁴; -निःस्वभाव-ध=
अभिसमय-गोच 自性無自性法

T, 離自性法無間種性 S, 離實法
證性 W, 空空無所起-空空無所起-
空空無所起-空空無所起(88a), 64¹²;
-पद 自性句 ST, 離自性見 W, 空空
無所起-空空無所起-空空無所起(74a), 34¹⁵, 35¹⁴;
-परमार्थ 自性第一義 ST, 無有
實體以爲第一義 W, 空空無所起-
空空無所起-空空無所起(77a), 40²; -लक्षण
自性相 T, 自體相 W, 法自體相
W, 自性 S, 空空無所起-空空無所起-
空空無所起(89a), 48¹⁵, 67², 111¹⁸, 214⁷; -विकल्प
自性分別 T, 自性妄想 S, 自體分
別 W, 空空無所起-पद क्षमा-प्रकृति-
(117b), 128¹⁶, 327²; -विग्रह 自身 W,
身 T, 13¹²; -अभिनिवेश 自性相計著
S, 執著…體相 W, 執著…自性
相 T, 空空無所起-पद क्षमा-प्रकृति-
(104b), 100¹; -अभिनिवेश-विकल्प
自性妄想 S, 分別執著 T, 虛妄執
著以爲實有 W, क्षमा-प्रकृति-परि-
प्रकृति-परि-परि-परि-परि-
(85b), 59⁴; -अतभावत् 自性無自性 T,
實及於不實 W, 空空無所起-空空無所起-
空空無所起(190b), 319⁴.

स्व-प्रत � 自通 S, 自身內智證法 W,
自智所證之法 T, 空空無所起(137
b), 175¹³.

स्वमति 自心 SW, 自生 T, 空空無所起
(150b), 205¹⁸, 229³, 242¹⁷; -विकल्प 自
妄想 S, 自心分別 WT, 空空無所起

प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(166b), 205¹⁶, 242¹⁷,
243¹.

स्वयम् 自 SWT, 空空(120a), 76¹, 91¹⁴, 134
1⁷, 165¹⁷, 197⁶, 206¹, 244¹⁴, 254⁴, 256
4⁴; -प्रे-भू 在者 W, 無師者 T,
空空-空空-空空(145a), 192¹³.

स्व-वाच स, 音聲 W, 音詞 T, 空空-
(117b), 128¹⁰, 359⁴.

स्व-रस-भङ्ग-भेद 自之散壞 S, 自然
而滅 W, 自然歸滅 T, 空空-
空空-空空-空空(150a), 205⁵.

स्वर्ग 天宮 SWT, मृष्टी-क्षेत्र(137a), 174³,
364¹.

स्वलक्षण 自相 SWT, 自…相 T, 空空
षी-क्षमा-क्षमा-क्षमा-क्षमा-क्षमा-क्षमा-क्षमा-
(63b), 9¹⁶, 41¹¹, 53¹³, 59¹⁰
1⁷, 61⁴, 63⁶, 74¹¹, 93⁹, 113¹⁰, 124¹, 148¹²,
161¹⁸, 164¹², 205¹⁰, 207⁸, 208⁴, 271¹,
295²; -त्व 208¹⁰; -सिद्ध 自相宗 S,
自體相 W, 自相 T, 空空-प्रकृति-
प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(159b), 227¹; -भावाभाव-
वावबोध-निर्वाण 自相自性非性
覺涅槃 S, 自覺體有無涅槃 W, 覺
自相性無性涅槃 T, 空空-प्रकृति-
प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(116b), 126⁴.

स्वत्म (very little), 253¹.

स्व-वाद 自法 W, प्रकृति-क्षमा-क्षमा-क्षमा-
(147b), 198¹¹.

स्वविकल्प 自心分別 W, 自所分別
T, 自妄想 S, 自分別 T, 空空-प्रकृति-
प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(94a), 77¹⁰, 84², 86⁶, 110

1², 209⁴, 327⁸, 360²; -न (अविकल्पन?),
94¹; -ग्रहण 20¹⁷; -चित्त-मात्र 自妄
想心量 S, 自心虛妄覺知 W, 合
知所見皆是自心 T, 152⁶; -हृशय-
लक्षण 自妄想現相 S, 自心分別
所見 T, 自心見相 W, 空空-प्रकृति-
प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(189b), 179¹³; -अभिसमय 自分別現證 T,
自妄想無間 S, 分別自分別 W,
空空-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(131b), 161¹⁸.

स्व-विषय 境界 S, 內外法 W, 外境
T, 空空-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(106b), 104¹⁰.

स्व-शास्त्र-मति-बुद्धि 自心論 W, 自宗
T, 空空-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(141a), 185¹².

स्व-सामान्य (自相)共(相)S, 自(相)
同(相)W, 自共(相) T, 空空-
(103a), 40⁴, 51¹, 97¹³, 138¹⁶, 333¹; -ल=
ज्ञण 自共相 ST, 同相別相 W, 自
相同相 W, 空空-प्रकृति-प्रकृति-
(77a), 40⁴, 56¹⁴, 58⁶, 59³, 63⁶, 67¹³, 69⁹, 71¹⁰, 74⁹
11 16, 75¹⁶, 84¹¹, 89⁴, 93⁹, 97¹³, 99¹⁴, 107¹³
17, 115¹⁰, 146¹⁴, 157⁵, 169⁴, 14 16, 177¹⁰,
183¹¹, 213⁸, 221¹⁶; -लक्षण-प्रतित
墮自共相者 T, 自相同相 W, 入
自相共相 S, 空空-
प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(81b), 51¹, 56¹⁴; -लक्षण-
संतति-प्रबन्ध-बुद्धेद-निर्वाण 自共
相相續流注斷涅槃 S, 自相同相
斷相續體涅槃 W, 自共相流注
涅槃 T, 空空-
प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-प्रकृति-
(177a), 126⁴.

त्रूपं कदं परिषुद्धं वस्त्रं ददश ए (116b), 126^a.

स्वसिद्धान् 自悉檀 ST, 自行內法 W, पद्मा-षीषुप-परिषुद्धम् (78b), 43¹², 171^{11 18}, 181^{12 13}, 346^{12 13}; -नय 自宗通 S, 如實 T, 建立自法 W, 建立正法 W, पद्मा-षीषुप-परिषुद्धम् (136a), 171^{11 18}.

स्वस्ति (svayati), 159^a.

स्वस्य 安穩快樂 S, 住於自性(處) T, पद्मा-षीषुप-कृत्ति (148a), 199^a.

स्वस्थान 自處 T, 自住處 W, पद्मा-षीषुप-कृत्ति (139a), 178^{14 15}.

स्वाप्र (३)…न स्मृशते 不自指 W, 不自觸 T, इहम-मे पद्मा-उपेषां पद्मा-भैषज्यपूर्वम् (196a), 335¹⁵.

स्वाङ्ग-च्चाया 影自(見)影 W, 自(見)其像 T, पद्मा-षीषुप-कृत्ति (69a), 20¹⁶.

स्वाजन्य 爲親屬 ST, 莫非親 W, पद्मा-उपेषां वृत्तिः (171b), 256¹³.

स्वाल्प(न) 自 SWT, पद्मा-उपेषां (146a), 173¹⁵, 198⁹, 195², 369¹; -प्रसाधित 成就果 W, 應自成 T, पद्मा-उपेषां वृत्तिः (206a), 369¹; -भाव दृष्टा…भाव - च 自見己身 W, 自見其身 T, 121¹.

स्वाद 可味 T, 巧諳著味 W, 味 S, भूषण (140a), 180⁷, 213⁷.

।। स्वादित (अस्वादित in text), 249^a.

स्वाभाविक 實體 W, 自性 T, पद्मा-षीषुप-कृत्ति (189a), 314^{2 3}.

ह-कार 呵字 WT, 𠂔 (110b), 113^a.
 हनु 頬輔 S, 頬 W, 輔 T, 𠂔𠂔 (128b), 154¹⁶.
 हय 馬 SWT, 𠂔 (71a), 27^a, 30¹⁰, 62¹⁰, 72⁶, 218², 307¹³.
 हरिताल-कनक 黃金 ST, 閣浮檀金 W, 𠂔𠂔 (105a), 101⁷.
 ६ हरीतकी 詞梨 S, 詞梨 WT, 𠂔 (72a), 29^a.
 हर्षि (for षड्), 3⁷.
 हस्त 手 WT, 𠂔 (94b), 31^a, 78¹⁴, 192⁵, 350¹.
 हस्ति 象 SWT, 𠂔 (93a), 75^{12 13}, 91², 113², 226⁴, 373¹; -कष्ट 紛象 S, 象脢 W, 象脇 T, 𠂔 (172a), 258⁴; -श्य 象臥 T, 白象 W, 373¹.
 हस्तिन् 象 SWT, 𠂔 (100a), 91², 226⁴, 231⁷, 281⁷, 322¹.
 ७ हानि 壞 SWT, 𠂔 (77b), 41^a, 167¹, 352¹⁷.
 हार 瓔珞 WT, 𠂔 (66b), 15¹⁴, 17¹, 288¹¹. -कूट 假金瓔珞 T, 鐵 W, (आर-कूट?), 𠂔 (181a), 288¹¹.
 हास 談笑 T, 呵呵大笑 W, 欣然大笑 T, 能笑大笑 W, 𠂔 (65b), 10¹⁰, 13^{3 8 11}, 14⁶.
 हास्य (daughter), 55¹⁵.

हित 鏡益 SW, 利益 T, धन्-दि (164b),
७२^{१३}, ८९^{१३}^{१४}, ९६^{१४}, १५०^{१४}४, २३७^{१४}, २४८^{१३}.
हिक्षु-गम ऋ闢 W, 與渠 T, में-तुक्-
दि (206b), ३६९^{१०}.
हिरण्य 金 SWT, 金色 (123b), १४३^{१०}, ३७३
१२; -मण 真金 W, 成金光 T, त्रिमा-
धर-पत्र (207b), ३७३^{१२}.
हीन 下 SWT, 坐-ム (72b), १८^१, ३१^१, ११७^१
१०, ३१५^{१२}; -मध्य-विशिष्ट 下中上
SWT, 坐-ム-ハ-ム-ハ-ム-ム-ム-ム-ム-ム-
ा (112a), ११७^१; -उत्कृष्ट-मध्य 上下中 W,
上中下 T, ३१^१, ३४७^१; -उत्कृष्ट-मध्यम
下中上 SW, 上中下 T, 五-ハ-ム-
ハ-ム-ハ-ム-ム-ム-ム-ム-
१२.
हुताशन 火焰 W, 盛火 S, 大火聚 T,
火……… (178a), २१५^१, २७४^१.
हृदय 心 SWT, 佛心 (77a), २९^{१०}, ४०^२, ४३
१७, ६४^१, २५९^१.
हृषि 舉身毛堅 SWT, (cf. रोभाच्चित),
毛-ム-ム (87b), ६४^१.
हेतु 因 SWT, 事 (72b), १३^{१०}, ३०^{११}, ३४^{१४}, ३६
१०, ४०^{१४}, ४१^{११}, ४३^१, ४४^११४^{१०}, ५१^{११}, ५२^११३^{१३},
५४^१, ५६^{१५}, ५९^{१०}, ६०^२४^४१२^{१३}११, ६१^१४^७०^{१२}, ६९
१^१, ७१^{१०}, ७२^३१३, ७५^२, ७६^१, ८२^०१०^{१३}, ८३^४ (ter)
१० (bis) ११ १२ १४ १५ १२, ८४^४१४^१, ८७^२ (bis), १५
(bis), ९०^४, ९१^{१०}१७, ९०^{१४}, १०४^४, १०५^{१०}, ११०^४
५, ११२^२, ११४^१, १२२^{१२}, १२४^१, १२६^{१७}, १२७^०११,
१२९^२०^{११}, १३२^१, १४५^७०^{१०}, १४६^०१०, १५१^०, १५३
१२, १५७^३, १५९^१, १६४^१, १६६^४, १६४^१, १७२^१, १७३
१^१, १७४^०१०^{१४}, १७५^२^१, १७६^४, १७४^१, १७९^१, १८१
१^१, १८६^०, १९४^४, २०४^१, २०१^१, २०६^१२^१, २१४^१,
२१७^१, २२१^०१४, २३२^१, २३४^५, २३६^०, २४६^४,
२५१^४, २५३^१, २६७^१, २७०^१, २७२^१, २८२^२, २९२^१,

295¹, 300¹, 301¹⁰, 309¹¹, 313⁷, 318¹⁰, 325
12, 326¹¹¹², 332¹⁴, 334¹⁷¹⁰, 335³, 336¹⁵, 338
11, 341⁴, 346⁴, 349¹⁸, 352¹, 353⁵, 360¹⁰, 361
7 (bis)¹¹¹⁸, 368¹, 376² (bis); -कृ त् या SWT,
कृ (69a), 20⁶, 37¹¹⁰, 38¹²¹⁵, 45¹⁰, 53¹
(bis)²¹⁸, 56¹, 82³, 127¹⁰, 129², 131², 154
¹⁹, 155¹, 157⁴, 164¹⁷, 165³, 177¹⁸ (bis), 206
अस्तुक् in text), 220⁶, 235², 239¹, 242⁶,
280¹¹, 292¹¹, 302⁷, 304⁴, 322⁷, 326¹, 332³,
341⁴, 351⁸, 355⁷, 368⁷¹⁵, 372¹, 374⁵¹⁰; -कृ-
त् या SWT, कृ (82b), 53¹; -कृ त् या SWT,
कृ (147a), 87⁴, 197¹⁴; -पद
因果句 ST, 因果見 W, कृषि कैषा (74a),
34¹⁸; -प्रवय �因果 SWT, कृषि (78a),
43⁴, 82⁹¹⁰; -प्रभव 376²; -फल 因果
SWT, वृष्णि पृष्ठ (77b), 41¹¹; -फल-
पद 因果句 ST, 因果見 W, कृषि वृष्ठि
वृष्णि पृष्ठि कैषा (75a), 36¹⁵; -फलाभिर-
वर्कि-इव �因果外顯現諸物 T,
因果現及事 S, 依因果而現 W,
कृषि वृष्णि वृष्णि पृष्ठि कैषा वृष्ठि
(77b), 40¹⁴; -मत् 有因 ST, 因相應
W, कृषि वृष्ठि कैषा मक्तुं त्रिदं वृष्ठि वृष्ठि
(85b), 60⁸; -मत् 因生 ST, 因 W, कृ-
वृष्ठि वृष्ठि (134b), 168⁴; -लक्षण-संयुक्त
因相成 ST, 因相相應成 W, कृ-
वृष्ठि वृष्ठि कैषा मक्तुं त्रिदं मक्तुं
वृष्ठि वृष्ठि (86a), 61¹⁵; -वाद 有因說 S, 說有因 T,
कृषि वृष्ठि वृष्ठि (106b), 103¹⁰; -वादिन् 說
因 SWT, कृषि वृष्ठि वृष्ठि (138b), 177¹²; -वि-
क्त्य 因妄想 S, 因分別 WT,
वृष्णि पृष्ठि वृष्ठि वृष्ठि (117a), 128¹,

129²³; -समुत्पन्न 因依彼生 W, 彼
和因法 T, तु॑क्षेषा॒भृष्टा॒ष (198a),
341²; -संभव 因…生 SW, तु॑पृष्ठा॒
ष्ट (119a), 132¹⁰, 360¹⁰; -स्वाभाव 因
性自性 SW, 因自性 T, तु॑पृष्ठा॒ष्ट
ष्टदि॑ष्ट-सृष्टि॑ष (76b), 89¹¹; -स्वलबण
-युक्त 因自相成 S, 因自相相應
W, 因自相…成 T, तु॑पृष्ठा॒ष्ट-षी॑
मक्षु॑ष्टिद॑ष्ट-सृष्टि॑ष (85b), 59¹⁰¹¹, 60²;

-अस्ति-वादिन् 說無因 WT, 說…
無因 S, तु॑मेद॑ष्ट-ष्ट॑ष (124b), 145¹⁰.
हेम 金 W, षष्टेष (185b), 304¹⁰, 359².
हैम 真金 SW, 金 T, षष्टेष-ष्ट॑ष (118
b), 131².
इत् 短 SWT, ष्ट॑ष (83a), 54¹⁰, 76⁴, 113⁴,
189², 207¹⁴, 350⁶; -दीर्घत् 長短 SWT,
ष्ट॑ष-ष्ट॑ष-ष्ट॑ष (143b), 189⁶.

अ

अञ्ज

अभि-वि- 顯現 S, 了出 W, 顯示
T, 現 S, 了別 W, 顯 T, 59¹⁷, 113¹⁰,
(व्यञ्जन in text).

अद्

परि- 143¹⁴.

अर्थम्

प्र- 求 S, 求樂境界 W, 願 T, 119⁵.

अस्

2¹⁰, 51⁴, 61⁴, 19¹¹²¹⁴, 30¹³ (bis), 38¹¹¹³¹⁴¹⁵
¹⁶¹⁹, 89²⁴, 75¹²¹⁵; et seq; अप- 247¹²;
वि-उद्ध- (चुदाश्रय in text), 捨離 T,
311¹; उप-नि- 立 T, 可說 W, 可
為…S, 231³; वि-परि- 頽倒 S, 見
…顛倒見故 W, 生顛倒解 T, 106⁷.

अह् 告 SW, 言 T, 14⁷, 16¹⁰, 17¹⁶, 34¹²,
37⁴, 87⁷⁸, et seq.

इ

अधि- 現 WT, 174¹¹; अव- 知 W,
354¹ (अवेत्ति), (cf. 224¹); उद्ध- 出
SWT, 47¹³, 315¹²; उप- 到 T, 3³, 147¹⁴,
290¹⁴; अभि-उप- 取 ST, 計爲 T,
145¹⁸¹⁴¹⁷.

अ॒計 T, 與惡見言 T, 作如是說 W,

欲令 W, 40¹⁴, 111¹⁰, 149⁵, 323¹⁴, 355¹²;

अधि- 請 WT, 2⁴, 71¹²¹⁶, 55³, 73¹², 79

¹⁴, 82⁴, 86¹⁸, 144¹⁴, 147¹⁴, 149¹³, 160⁸, 220

², 244²; अनु- 求 SWT, 61¹⁰, 63¹⁰.

ई

आ

आदर्शम् 示現 S, 現 WT, 142⁹.

आप्

अव- 得成 S, 得 W, 便成 T, 236¹⁷;
परि-अव- 261³, 262³; प्र- 得 SWT,
15¹⁴, 45¹⁴, 50², 59¹⁵, 65⁶, 135¹⁵, 191¹⁰, 321

ई॒ष

अप- 觀 SW, 待 T, 53³⁴⁶¹⁵¹⁴ (b.s);

प्रति-अव- 觀 ST, 觀察 W, 80⁶; नि-

स- 觀察 SW, 普觀 T, 23¹⁴; परि-

觀察 W, 88⁶, 270¹²; उप-परि- 思

惟 SWT, 214¹³.

ई॒ट

सम-उद्ध- 施設 ST, 226³, 228⁶; प्र-
372⁴.

खाइ 食 SWT, 258^७.

ख्या 發 S, 現 S, 見 W, 顯現 T, 47^१, 48^२, 54^१, 57^४ (bis), 67^६, 80^{१०}, 85^४, 90^{१४}, 92^{१२}, 93^{१४ १८}, 94^{४ ८}, 96^७, 106^८ (bis), 110^५, 111^३, 125^{१२}, 164^{१४}, 268^{१२}, 271^१, 273^{१०} (bis), 277^३, 281^८, 289^{१०}, 288^९ (bis), 302^४, 303^२, 313^{१३}, 314^{१०}, 315^६, 316^३, 320^{४ १७}, 321^३, 336^७, 341^{८ १० १३}, 342^{११}, 361^{१०}; **आ-** 現 S, 見 W, 37^{१६}, 154^४; **प्रति-आ-** 352^{१२}; **वि-आ-** 見 W, 現 T, 302^२.

गद

नि- 說 W, 演說 T, 5^४, 63^{१३}.
गम- 詣 T, 2^८, 4^१, 7^२, 47^{१०}, 72^{१३}, 99^५, 139^४, 358^{१०}; **अधि-** 得 S, 獲 T, 12^१ (ter), 49^{१७}, 50^{११}, 58^{१० ११}, 59^४, 99^{१०}, 117^{१०}, 123^४, 136^४, 153^१, 158^४, 302^१, 325^१; **सम-अधि-** 到 S, 住 T, 66^८; **अनु-** 228^{१४ १६} **अभि-** 測量 S, 知 WT, 45^४; **अव-** 覺 W, 知 T, 328^{१०}; **आ-** 來詣 W, 取 WT, 得 S, 120^४, 179^{४ ७}, 196^{११}, 225^{१४}; **अभि-उद-** 升 WT, 16^४; **उप-** 至 W, 往 T, 3^४.
अभि-उप 145^{१७}.
गाह 知 ST, 了知 W, 178^{११}.

१०, 204^४, 340^{१५}; **प्रदक्षिणी-** 遠(佛) W, 右遠 T, 8^४; **भावी-** 立 S, 取…爲有 W, 觀察…非無 T, 226^०; **म-** नसि- 思念之 ST, 73^{१४}, 85^{१७}, 89^{१७}, 117^०, 136^३, 145^२, 148^०, 150^०, 154^{१२}, 161^७, 172^१, 182^{१३}, 191^{१३}, 211^७, 220^७, 224^{११}, 240^{१०}, 245^०; **वशि-** 降 WT, 181^०, 346^०; **सत-** 恭敬 WT, 193^०; **अभि-सम-** 積集 S, 造作 WT, 225^{१०}; **वि-सम** 見 (v.l. 取) W, **隨** (v.l. 隨) T, 349^{१०}.

कृष 引導 S,**आ-** 161^४, 173^{१३}.

कृप 分別 W, 說 ST, 11^२, 20^३, 46^४, 51^५, 52^{१८}, 77^१, 82^{१२}, 83^७, 91^{१२}, 96^०, 105^{१०}, 108^०, 130^०, 131^४, 158^{१२}, 160^४, 168^०, 183^{७ १३ १४ १८}, 184^{१ ४ ११ १२ १४}, 185^४, 190^{१५}, 193^{११}, 199^{५ १७}, 204^०, 205^७, 207^५, 209^{५ १० १२ १४}, 224^३, 231^{१२}, 232^२, 238^०, 260^७, 270^७, 271^{१५}, 275^४, 277^१, 279^१, 279^{१८}, 285^१, 287^४, 289^०, 290^४, 291^२, 294^४, 295^{११}, 297^{१३}, 300^{१०}, 302^{१७}, 303^४, 304^०, 308^{१०}, 309^{५ ६ १० ११}, 310^{१३ १४}, 311^४, 314^५, 317^०, 319^४, 321^५, 326^०, 327^{११ १७}, 328^४, 333^४, 345^०, 349^०, 350^{१०}, 352^४, 353^{१२}, 355^०, 361^{१४}, 370^०, 372^०, 373^०, 375^{१२}; **परि-** 想 S, 取著 T, 分別 W, 92^{११}, 165^१, 185^{१०}, 288^{११}; **प्र-** 思惟 S, 說 WT, **वास-** 應住 WT, 分別 W, 46^३, 308^{१०}, 312^{१७}, 314^{१०}; **सम-प्र-** 分別 W, 所分別 T, 368^{१०}; **प्रति-** 異妄想 S, 異異分別 W, 見 T, 156^१; **वि-** 繢 (v.l. 繢) S, 畫 W, 成 T, 想 T, 分別 W, 覺知…想 S, 16^{१०}, 19^{१७}, 20^{१४}, 21^२, 48^{११}, 51^{१२}, 53^०, 54^{१५}, 62^{१७}, 69^{११}, 72^४, 79^{१२}, 80^{१०}, 85^२, 88^३, 90^४, 91^{१२}, 93^{२ १०}, 95^७, 96^०, 108^४, 112^०, 118^३, 124

गै

अनु- 說偈 W, 讀佛 T, 說頌 T, 3^o, 4^o.

अन्यथा 254¹.

प्रह 想謂爲 S, 妄想見爲 W, 取爲取 WT, 17¹¹, 18¹¹, 20¹⁴, 95¹¹¹¹, 130¹⁰, 155¹, 168¹, 200¹⁴, 223¹⁴, 265¹⁴, 266¹¹¹⁵, 274¹⁴, 275¹, 277¹², 281¹³, 302¹⁷, 315⁹, 316¹⁹ (bis), 328¹⁶, 353¹⁵, 356¹¹¹², 357⁹, 359⁹, 360¹¹¹², 372²; अनु- 摄受 T, 受 W, 4¹⁸, 103⁴; उद्ध- 受持 WT, 260¹, 261¹, 262¹; नि-

201²; परि- 195¹⁴; प्रति- 納受 T, 6⁶, 20¹⁷; वि- 337¹.

ष

पद 然 S, 84⁷, 238¹.

पात् 殺害 W, 殺事 T, 252¹.

प्रा

आ- 246¹⁷.

च

चक्र

आ- 謂…言 S, 說言 W, 謂言 T, 92¹.

चर 住 W, 遊行 T, 20¹⁴, 21¹, 70¹⁰, 168¹⁰, 277¹, 331¹⁴, 332¹, 343⁹; वि-अभि- 無如實智 W, 違背於理 T, 185¹², 829¹,

12; वि-अव- 察 S, 觀 WT, 240⁷; स=

म-आ- 行 WT, 259¹, 308¹⁴, 371¹, 373¹⁰; उद्ध- 334⁹; निस- 唱 SW, 作 T, 13¹¹¹² (bis), 141¹¹¹², 142¹³, 215¹⁵, 269⁹, 278¹³

12; वि- 察 S, 思 W, 思慮 T, 傾動 S, 觀察 W, 動 T, 133¹¹, 221¹⁴, 241¹⁶¹⁷.

चल 運行 T, 330¹ (बल् in text).

चि 採集 ST, 集 W, 46¹⁷, 158³, 302⁸, 314¹⁴; वि- 廣採集 S, 觀集境 W, 廣積集 T, 46¹⁷, 158³ (विधीयेत in text) 300⁴, 314¹⁴.

चित्रम्

सम-प्र- 壞色 W, 染之令壢色 T, 363¹⁰; वि- 365¹².

चिन्त

अनु-वि- 思惟 WT, 11¹³, 13¹⁵.

चु 現退 W, 現滅 T, 311¹⁷.

छ

छिद्

परि- 決了 S, 覺 W, 知 T, 45⁹, 323⁴, 335¹¹.

ज

जन 作…生 S, 能生 W, 生 T, 21⁴, 24⁹, 26⁹, 83¹⁰, 85⁹, 107¹², 109¹⁸, 124⁴, 131¹⁶, 153¹⁴, 168¹⁰, 171¹, 186¹², 201⁴, 202¹³¹⁸, 206¹⁰,

238¹⁶, 257²⁴⁵¹⁶, 258²³⁷⁸, 267³, 273³, 281¹¹, 283²¹⁶, 292⁶, 303¹², 305⁴, 311³, 317¹³

(bis), 324¹¹, 325³⁴, 326³, 327², 328⁹, 329⁷, 330¹⁴, 331⁴, 334⁶, 335¹⁸, 336³, 337¹³, 338¹, 339⁹, 340⁹, 344¹⁴, 345¹⁴¹⁶, 346⁶, 347⁴⁹, 349², 351⁷, 352⁷, 356⁷, 366⁹, 368¹, 371¹⁰¹¹, 372⁸; आ- 生 S, 得證 W, 生長 T, 228¹, 237¹⁴; सम-उप- 252¹¹; प्र- 有 SW, 繢生 T, 162¹⁶, 286¹; सम- 生 SWT, 158¹⁰, 252⁸, 302¹⁵, 335⁵, 343¹⁵, 357¹⁷, 364¹.

जि

वि- 勝 W, 摧伏 T, 令其屈伏 W, 174⁹.

जृम्

वि- 奮迅 WT, 13³.

ज्ञा 知 SWT, 61¹², 114⁹, 169², 193¹⁷, 204⁸, 249⁷, 292⁷, 301¹, 323¹⁷, 326¹³, 329⁹, 341¹, 350¹², 353¹⁴, 357¹⁷, 368⁴; अनु- 聽 W, 許 T, 249¹¹, 255⁸ (bis), 256⁸; अभि- 知 S, 智 W, 了 T, 70¹⁴, 176⁴; आ- 知 SWT, 14¹, 50¹⁴; प्र- 覺知 ST, 覺…知 W, 45², 90⁷, 125¹¹, 132¹, 162¹², 163¹, 170¹⁴, 175⁷, 177¹⁸, 192¹¹, 193⁸, 195¹⁵, 207⁴, 220⁸, 225¹², 232¹², 233⁹¹²¹⁸, 240¹¹, 243¹², 305⁶; स= म-प्र- 知 SWT, 192¹³, 233¹¹; प्रति- 所知 ST, 識知 W, 96³, 146¹⁵, 166⁹, 268¹⁰; वि- 識所識 S, 了所識 W, 了別 T, 46¹⁸, 48⁶, 68¹³, 288⁹, 314¹⁵, 316²; प्रति- वि- 知 S, 覺知 W, 了 T, 91⁹; सम- 知 SWT, 192¹⁶, 193³⁶.

ज्वल् 然火 WT, 312², 360⁹.

त

तरङ्गाय 波浪 S, 波動 T, 94¹⁴.

तर्क्य

वि- 思慮 T, 慮 S, 覺 W, 240⁷, 241¹⁶¹⁷.

उ 超度 S, 超 T, 45¹⁰; अव- SWT, 4¹², 16⁷, 165¹⁶; उद्ध- 離…度 W, 從…出 T, 出 TW, 2¹¹, 4¹, 214¹².

त्रस्

उद्ध- 驚怖 S, 驚 W, 64¹⁵, 249⁹; स= म-उद्ध- 247¹³; सम- 驚怖 S, 怖 WT, 64¹⁰, 249⁶.

द

दम् 調伏 T, 181⁹, 346⁹.

दह् 燒 SWT, 208¹⁰, 231¹⁰, 232², 354⁴, 357¹.

दा 與 SW, 付 T, 惠 T, 施 T, 88¹¹, 127¹¹, 257⁶, 292¹², 365³, 367¹⁴; उप-आ- 依 W, 13¹⁷, 17¹², 142⁴, 159¹², 188¹⁶, 194¹⁰, 211¹⁰, 232⁸, 245³, 246¹⁰, 253¹¹.

दिश् 說 W, 開示 T, 宣說 T, 2⁹, 3¹², 4³, 5⁸¹¹, 8¹²¹⁸, 16¹⁰¹¹, 23¹⁶, 43⁹¹⁴, 47¹⁴, 48⁹, 49⁶, 112²; अति- 361⁴ (अन्य-दिशयन्); उद्ध- 故 WT, 112¹⁰, 255², 309⁶; उप-

宣揚 S, 讀嘵 W, 顯揚 T, 18¹⁷, 73³, 114¹³, 121⁴, 127¹¹, 134⁴, 136³, 139⁹, 140⁶, 156¹¹, 309¹ (see उप-सत्त्व), 323⁷, 372⁴;

निस- 作如是說 SWT, 41¹, 79⁸, 124¹, 125⁸, 170¹⁰, 238¹⁰; **वि-निस-** 說 WT, 375⁸.

दीपय

प्र- 成…燈 T, 能然…燈 W, 373¹.
दूर 毀 ST, 謗 W, 191².

दृग् 觀 ST, 見 W, 8¹, 9¹, 10¹, 12¹, 13¹, 15¹, 20¹, 27¹, 47¹, 85¹, 178¹, 186¹⁰, 11¹⁷ et seq;

अनु- 143¹⁵; **सम-अनु-** 觀 S, 見 W, 知 T, 155⁸, 212⁸, 214¹⁴; **अ-** 指 ST, 指示 W, 142⁸, 196⁸; **उप-** 現 SWT, 100¹⁶; **प्र-** 觀察 S, 見 W, 觀見 T, 73⁸, 98⁸, 139¹⁰, 152¹⁷, 276⁸, 310⁸, 324¹⁷, 360², 369¹⁰, 371¹⁷; **वि-** 見 W, 觀 T, 269³, 304¹⁵, 317¹², 318¹, 326⁴, 346¹⁵; **प्रति-** **वि-** 觀察 SW, 觀 T, 123¹⁴, 17; **सम-**頓現 ST, 俱現 W, 55⁸, 56⁸.

ह

वि- 破 SWT, 33⁴, 363⁸.

धूत

उद- 顯示 S, 重明 T, 重宣說 W, 71¹ (**उद्योतयन्** for **उद्योतयन्** in text).

ध

धा

अभि- 說於名字 W, 說有名字 T, 名 T, 以…說而說 S, 19⁸, 111¹³; **सम-आ-** (心)得寂止 S, 得(心)三昧 W, (心)住一境 T, 58⁹(bis);

निस- निर्धायते (for -धायते) 357⁴; **वि-** (cf. विचि) 158³; **सम-** 密意 T, 76³, 141², 10¹², 142¹², 143², 144¹², 146¹¹, 159⁴, 162¹, 170⁸, 241¹, 243⁷, 324⁷, 336².

धाव 動搖 W, 移動 T, 322¹; **प्र-** 迷亂馳趣 ST, 東西馳走 W, 東西走 W, 馳求 T, 90⁸, 92¹³, 357¹²; **वि-** 流轉 T, 走 (v. l. 是) W, 88⁸, 300⁸.

धू

वि- 捨離 SWT, 98¹¹, 109¹³, 281¹¹, 310⁸.

धू 持 WT, 28⁹, 261³, 262⁵, 286⁹, 308², 323⁴, 363¹³; **अव-** 得 SWT, 115¹¹, 116⁸, 164², 239⁹, 286⁴, 287¹, 331⁸, 357⁴, 360¹¹, 368⁸; **निस-** 觀察 W, 決了 T, 356⁹, 369¹⁰ (**अनिर्धार्थि**), 357⁴ (**निर्धायते** in text), 371²; **वि-** 212¹⁴; **सम-** 持 ST, 212¹⁴.

धेस 330¹².

न

नह कृ ST, 63¹²; **निस-** 16⁷.

नम- 48⁸, 272³, 316⁸; **प्रि-** 向向 SW, 惟求 T, 119⁷, 159¹⁰, 212¹⁴; **प्र-** 曲躬 T, 22⁴.

नग् 壞 S, 失壞 W, 損壞 T, 181¹⁰, 190¹⁷, 195³, 201⁸, 236³, 290⁸, 310¹⁸, 331¹², 333¹⁰, 337¹⁸, 346¹⁰, 352¹⁸ (**नयेत्** in text), 359⁸, 365⁴; **वि-प्र-** 還滅 W, 退失

34⁴; **वि-** 壢 SWT, 72², 76¹⁴, 131¹¹, 147⁷, 207², 208⁷, 267³, 288¹⁰, 304¹⁷, 330⁹, 331⁷, 342².

नी 通 S, 墮 WT, 98⁸, 310⁷, 353¹⁰; **अनु-** 聞說 WT, 說 S, 64⁷, 65³; **आ-** 328¹⁶; **उद-आ-** 高聲唱言 T, 自嘆言 W, 21⁵; **उप-** 通 S, 說 W, 廣開演 T, 47¹², 315¹¹.

नृत् 224².

प

पच् 熟 ST, 成熟 W, 55⁷, 257⁷, 309⁴; **परि-** 50⁸.

पठ 詩 W, 受持 T, 262¹⁶.

पत् 隘 SW, 墮在 T, 156⁴, 181³, 197⁹(bis), 238⁶; **नि-** 頂禮 SWT, 墮 SWT, 12³, 23¹⁸, 98¹⁰, 100⁷, 120¹², 165⁹, 310⁸; **वि-** **नि-** 陷 ST, 92⁸, 252⁹; **प्र-** 墮 SWT, 90¹², 160¹⁸, 205¹⁶, 207¹⁵, 211⁸, 213¹⁰, 367¹².

पद

आ- 生 S, 不捨 T, 50², 64¹⁰, 287⁴; **अ-** **धि-आ-** 138³, 139⁴; **सम-आ-** 入禪正受 S, 入三昧 W, 入於三昧 T, 45⁴, 100¹², 123², 211¹², 212⁴, 252⁹.

उद- 生 SWT, 44⁴, 76¹(bis), 80¹⁶, 82¹⁶, 84⁹, 10¹², 14¹⁷, 111¹², 115⁷, 145⁴, 147¹³, 175¹⁷, 197¹⁸, 198², 199¹³, 253⁸, 272⁸, 273⁹, 275¹², 285⁷, 290¹⁴, 299¹¹, 354¹¹; **निस-** 生 SW, 成 T, 124⁴, 7; **सम-प्र-** 成熟 W, 出生 T, 285¹³.

बालेनि (see under चल).

पश् (see दृग्).

पुर् 增長虛妄 W, 增長一切虛妄 T, 增長 WT, 21², 51⁷, 345⁷; **प्र-** 長養 ST, 增長 W, 127¹, 149⁷, 323¹⁷, 337⁶.

पूज् 供養 SW, 4², 7¹⁰, 193⁸; **सम-** 供養 WT, 7⁹.

पृ

परि- 具足充滿 S, 悉令滿足 W, 具足圓滿 T, 89¹¹, 236¹⁷, 237⁶.

प्रश्न 請問 WT, 7¹⁵, 14¹⁰, 16¹⁷, 16¹⁰, 12¹², 23¹², 31¹¹, 321¹², 33¹², 12¹⁸, 34², 6⁶, 114², 179¹¹ (**अपृष्ठा**)¹⁵, et seq; **परि-** 問 WT, 14¹⁶, 23¹⁸, 50¹⁶, 100⁸, 187⁷, 244².

प्रार्थय 293⁹.

प्रीण्य 自娛樂 S, 受樂受 W, 受 T, 195⁴.

ब

बालेनि (see under चल).

बन्ध 繡 SWT, 162¹¹, 163⁹, 255² (**बआ**), 269⁷(bis), 312¹³; **अनु-** 所護 ST, 隨 W, 242¹¹; **सम-** 俱相續 S, 和合 W, 適相繫屬 T, 129¹⁰.

बुद् 覺 S, 成 W, 成佛 T, 能知 W, 了知 T, 25¹⁵, 28⁸, 33¹⁵, 121¹⁷, 177¹², 265⁸, 266¹⁷ (b's), 269⁷, 274², 280¹, 293², 329¹¹, 352¹, 355¹⁰, 361⁸, 372¹⁴, 373⁶; **अभि-** 解 WT, 350¹²; **अव-** 覺 SW, 知 T, 得菩提 T, 了 T, 覺了 T, 9⁸, 25¹⁵, 28⁸, 37

१०, 104^a, 112¹¹, 184^a, 187^a, 188¹⁴, 193^a, 195^a, 206^a, 209^a, 212¹¹, 213¹³, 218¹¹, 220¹², 236¹², 242^a, 252¹³, 258¹¹, 344^a, 351¹¹, 369¹²;
नि- 諦聽 SWT, 29¹¹, 256¹², 286¹¹;
प्र- 覺 SWT, 185¹³, 321¹³; **प्रति-** 覺 ST, 寢 W, 214¹³, 249^a; **वि-** 覺 S, 悟 WT, 135¹⁴, 321¹⁴, 361¹⁴; **प्रति-वि-** 覺 SWT, 91¹⁴, 134¹³; **सम-** 出於世 W, 成等正覺 T, 365¹⁰; **अभि-सम-** 得 SWT, 覺 S, 70²¹³, 73¹⁶, 79^a, 85¹⁴, 89¹⁰, 103², 112¹³, 144¹⁷, 148^a, 156¹⁴, 244¹⁰.
क्ष 說 W, 開演 T, 16¹⁹, 25¹¹¹³, 26¹⁷, 27²¹⁰, 30¹⁰¹⁴¹⁷, 33², 41¹⁰, 201^a et seq.

भ

भृश 食 SWT, 27¹⁸, 244¹⁴, 245¹, 252¹³, 253^a, 256^a, 257³¹³¹⁴, 259^a.
भृज 不續 W, 滅 WT, 174^a, 347¹³, 348¹¹;
वि- 分別 SW, 分析 T, 129^a, 320¹¹.
भा
आ- 222¹⁷; **प्रति-** 分別 S, 辨說 S, 能說 S, 說法 WT, 102¹³⁴.
भाष 說 SWT, 29¹², 40¹³, 46², 48¹², 54^a, 62^a, 65^a, 68^a, 70¹⁶, 73^a, 76¹⁴, 79¹⁶, 86^a, 117^a, 360^a (**अ-भाष-य** "या in text), past-sim; **प्र-** 說 SWT, 29^a, 44¹, 54¹², 320^a; **प्रति-** 稱說 T, 250^a.

भास

अव- 照 W, 光明照耀 T, 光照 S, 123⁴.

भिह 分別ST, 差別 W, 204¹⁹, 227¹⁸, 296¹, 341²; **निस-** 24¹⁴.

भी

प्र- 驚吠 T, 驚怖 W, 246¹⁴.
भुज 364^a; **परि-** 食 SWT, 196¹³.
भू (…स्य एतद—作是念 WT,) 2⁴, 5^a, 11¹⁵, 12², 13¹⁰¹², 14², 16¹³, 17², 18¹³, 19², et seq.
अहमली 得阿羅漢果 WT, 得阿羅漢 S, 117¹⁷; **अ॒** 受如意樂 S, 受種種樂 W, 止息遊戲 T, 143¹⁶; **आ-** मुखी- 住現在前 S, 225¹; **उ॒** 修集 (v. l. 行) W, 說 T, 分別顯示 S, 示現 W, 顯示 T, 16¹⁵, 87¹³¹⁶¹⁷, 93¹²; **हरी-** 遠離 SWT, 167¹⁴; **वि-** 觀察 W, 略說 T, 分別 S, 7⁴, 14¹⁵, 20²¹², 42^a, 47^a, 56^a, 69¹², 132², 186¹⁷, 200¹⁹, 202⁷, 203^a, 224^a, 270², 291⁹, 293¹², 309¹⁹, 310², 315^a, 332^a, 333³, 337⁷, 339¹⁴, 352¹³, 353²^a, 358¹⁰, 361¹², 369¹⁴, 370¹¹¹⁵, 374¹³; **प्र=** ति-वि- 善分別 S, **न**…離 WT, 171¹⁴; **सम-** 同遊止 W, 共同遊止 T, 259², 347¹³.

भृम 輪廻 SW, 流轉 T, 106¹, 270^a, 284^a, 363²; **वि-** 去來 W, 沈淪 (v. l. 輪) T, 195^a, 310³, 363^a.

म

मन 意謂然 ST, 然不然 W, 48^a, 89¹³.

91⁵, 144¹, 193⁸, 254², 255^a, 265¹⁰, 287⁵, 299¹³, 300¹⁴¹⁵, 316², 323⁴.

मन्त्रय

आ- 告…言 WT, 260¹.

मा

अनु- 比度 T, 比智 W, 隨比 S, 52¹¹, 373¹¹ (**अनुमिनोति**); **निस-** 化 SWT, 8², 215¹⁷, 240^a, 279¹; **अभि-नि=** स- 作化 WT, 16³⁴.

मि (or **मी**).

निस- 化現在 S, 化作 W, 化現 T, 215¹⁶, 278¹⁴.

मुच 解脫 SW, 解 T, 24⁴¹¹, 32¹⁴, 121¹⁷, 129¹², 162¹², 257⁶, 265^a, 293⁸, 324¹², 370³; **अधि-** 度脫 S, 信 W, 148¹⁷, 193¹²; **वि-** 得解脫 SW, 95^a, 96¹, 102⁹, 134⁷, 140^a, 265¹⁴, 275¹⁰, 281¹⁶, 283¹⁴, 284¹, 298^a, 322⁸, 360¹⁰.

मुद 迷醉 W, 醉 T, 257⁴, 349¹⁴; **वि-आ-** 誣惑 ST, 迷誣 W, 173¹⁰¹⁵, 174³¹²; **प्र-** 迷 W, 迷惑 T, 299^a, 320³; **प्रति-** 所惑 T, 211⁸.

मृ 死 W, 殺 T, 246¹⁵.

मृग्य 359^a.

मृज 壓 SWT, 98¹³, 310¹¹.

मृश 取 SWT, **परा-** 119²³⁶.

य

यम

प्र- 處(方) S, 處(藥) W, 授(藥)

T, 49², 316¹⁶; **वि-आ** 勤修行 W, 修行 T, 133¹².

या 去 WT, 12⁴, 27³, 261¹⁵, 286³¹⁸; **आ-** 入 W, 住詣 T, 5¹⁴; **उप-** 107¹.

यज् न…**यते** 不得言 W, 不成 T, 121¹¹, 277¹¹, 279⁷, 291⁴, 310⁶ (**पुञ्जान्** in ext), 335¹², 341⁶, 342⁷; **प्र-** 作…方便勤修 T, 215⁴, 237¹⁰, 238⁷.

यू

आ- 所來 S, 可取 W, 所從 T, 115¹³; **निस-** 所去 S, 可捨 W, 所至 T, 115¹⁴.

र

रक्ष

सम- 善護 W, 守護 T, 347¹⁰.

रक्ष 染着ST, 起於貪心 W, 225⁹, 307¹⁷.

रभ्

आ- 43¹⁴, 207⁸, 230¹⁹, 232⁸, 300⁶, 310³, 333¹³; **प्र-आ-** 可得 S, 共造 T, 207⁸; **सम-आ-** 可得 S, 墓 W, 219⁸.

राग्य

वि- (विनाय in text), 244⁷.

राज्

वि- 照令除滅 S, 照除 W, 為照耀 T, 56¹¹¹³, 123⁸, 131⁴, 148¹³, 215¹⁴, 227⁴, 268², 278¹², 296⁸, 302⁸, 304⁶, 319¹⁰.

रा॒

आ॑ 令得歡喜 W, 令汝歡喜 T,
15¹.

रु॒

नि॑ 已滅今滅當滅 S, 滅 W, 已
現當滅 T, 41⁴ (bis), 45³, 84¹⁷, 147⁴¹⁸,
198³, 199¹⁴, 202¹⁰, 272³, 273⁸, 275¹¹¹², 288
¹¹, 285³, 288⁶, 289⁸, 290¹⁴, 307¹¹, 339⁸; वि॑-
相違 SWT, 25⁶, 84¹⁸, 85⁶.

रु॒

अधि॑ 乘 WT, 3³; सम-आ॑ 建立
SW, 安建立 T, 122¹³, 156³, 298¹³, 300¹²;
वि॑ 生 ST, 增長 W, 55¹².

ल

लक् 所說 S, 可得 WT, 187², 327¹⁴.
लप् 告…言 SW, 說是言 T, 23¹⁴ (अ=
लपी); अभि॑ 言說 S, 說言語 W,
有言說 T, 82⁴, 87⁴⁹, 105²¹⁸, 113⁹, 192
¹¹, 322⁸; प्र- 妄說 S, 不名善說法
者 W, 虛誑說 T, 194⁶.

लभ॑ 得 SWT, 24¹⁰, 46¹⁰, 73¹⁰, 113⁴, 197³,
261⁴¹², 262⁶¹⁵, 276¹¹, 292¹⁴¹⁵, 295¹, 300¹³,
314¹³, 318⁶, 375² (bis); अभि॑ 可得
T, 336⁶; उप॑ 可得 115¹⁷, 122⁴, 131¹⁴,
146⁴, 153⁴, 160³, 169⁶¹⁰¹²¹³¹⁴¹⁶¹⁷, 170³⁴
⁶¹¹, 177¹⁵, 206³, 210³, 281¹, 297³, 325³;
प्र- (प्रलभ॑?), 見 W, 293¹⁰, 305³; प्रति॑-

得 SWT, 15⁷, 21³, 42¹³, 43², 51⁸, 65⁷, 69
¹⁵¹⁷, 72¹⁰, 73¹, 81³⁴, 83⁴⁸, 101³, 105¹², 117
², 123², 126¹, 134¹⁴, 152⁹, 171¹⁴, 222¹⁵, 226
¹⁴¹⁵, 227²³, 244⁹ (bis), 249¹⁰.

लक्

आ॑ 觀 W, 緣 T, 127¹⁰, 239¹, 277¹⁰,
368⁶, 374¹⁰; वि॑ मा विलक्ष इ應
速問 T, 14¹⁸.

लिप॑ 14.

लिख॑ 塗 WT, 307¹⁴, 369⁴.

लभ॑

प्र- 令…喜 WT, 謎 W, 退捨 T, 88
¹¹, 95¹⁸, 271¹², 292¹⁰, 293¹⁰, 329¹.

लोक्

अव॑ 觀察 W, 舉目觀見 T, 觀
T, 24¹²¹⁴, 132¹⁴, 141⁶, 101¹⁵, 155¹⁰; सम-

आ॑ 觀察 W, 觀 S, 普觀 T, 79¹³,
180².

व

वच॑ 說 W, 告之言 T, 6⁹¹², 14¹⁷, 23¹, 33
³, 34¹², 37¹², 37⁷, 41¹⁵, 44³, 52¹⁰, 69⁴, 70
¹⁰, 71¹⁸, 91¹⁰¹⁸, 98⁴¹⁵, et seq.

वह॑ 說 WT, 27⁹⁶¹⁸, 282⁴⁶⁷¹²¹⁴¹⁶¹⁸, 292
⁴, 47², 49³, et seq; अप॑ 謗 S, 建立
W, 生毀謗 T, 70¹⁴, 247¹⁰; वि॑-सम-
作不正論 S, 欺誑 WT, 112⁶.

वह॑ 禮拜 W, 禮 T, 4¹².

वण॑ 說 SWT, 39⁶, 47⁴, 77¹⁴, 92¹⁰, 103⁹¹²
¹⁴, 177⁶, 179¹⁴, 183²⁴⁵⁸, 197¹⁴¹⁵, 205³, 289

*, 293⁶, 315³, 327⁵, 361¹⁵; वि॑ 令潔
淨 W, 363⁹.

वस॑

अधि॑ 謩答 W, 受 (汝) 所謂 T,
6¹⁵.

वह॑

आ॑ 起 S, 生 WT, 109⁶, 275¹⁰; प्र-
飄蕩 S, 漂蕩 W, 漂激 T, 135⁶, 321¹⁰;
वि॑-प्र 轉 SWT, 135⁶, 321¹⁰.

वा॑

निस॑ 混槃 S, 入…滅 W, 住涅槃
T, 23⁴, 66⁸, 88⁹, 127⁴, 283³, 264¹³, 267
⁶, 372⁶; परि॑-निस॑ 般涅槃 S, 入
涅槃 WT, 66⁷ (bis), 11¹², 67¹, 120⁴, 142
¹¹, 144⁷, 212¹⁵, 213¹, 214⁴, 365².

वादय॑

प्र- 自然出音樂之聲 S, 能出於
說法之聲自然皆出伎樂之音 W,
演法音 T, 102⁴.

विद॑ 知 SWT, न विद्यते 無 SWT, 12

10, 25⁴, 41¹¹, 46⁴, 47³⁵, 48²¹⁰¹⁶, 54⁹, 64³,
65¹⁶, 70⁶¹⁷, 93², 95¹¹, et seq; सम- न
संविद्यते 無 ST, 無…有 W, 75¹⁷, 85
⁶, 179⁶, 188¹³, 189¹⁷.

विश॑

नि॑ 解 W, 295⁷; अभि॑-नि॑ 計著
S, 虛妄執著 W, 謎惑 T, 77⁴, 90¹⁷, 92
¹³, 94¹⁷, 95², 128¹⁵, 129¹⁴¹⁶, 171¹³, 174¹²,
225⁹; प्रति॑-नि॑ 入 SW, 即便隨入
T, 143¹⁶; प्र- 入 WT, 2¹⁰, 91³, 143¹⁶,
173¹⁴; अनु॑-प्र- 知 SWT, 3⁹, 123⁴, 125
¹⁶, 143¹⁶, 155⁶¹².

वि॑ 摄受 S, 聞 (?) W, 開示 T, 158¹², 303
⁶, 326¹¹; वि॑-आ॑ 滅 S, 離 W, 125¹⁴;

नि॑ 滅 S, 觀察 W, 捨離 T, 59⁷, 85
¹², 183³, 219⁴⁷, 228¹⁵, 244¹³, 245¹, 275¹⁵,
276¹, 334⁹, 346¹⁵; वि॑-नि॑ 遍 SW,
令…離 T, 165⁷, 222⁴; सम-नि॑ 遍
W, 止 T, 85² (स निवार्पते in text), 276
⁶; वि॑-निस॑ 變滅 S, 起 T, 生 W,
146¹⁷; प्र- 生 SWT, 72², 235¹².

वृ॑ 不共 W, 棄 T, 256¹⁷, 331¹¹, 351⁹, 360
⁶; परि॑ 遠離 WT, 248¹⁶; वि॑ 遠
離 WT, 256¹⁴¹⁶, 258¹⁰.

वृ॑ 生 SW, 入 T, 24¹³, 282⁷, 348⁹, 363⁶,
369⁷, 372¹²; अति॑ 越 ST, 離 W, 132⁴,
305¹⁰; वि॑-आ॑ 退 SWT, 27¹, 153¹, 201
⁷, 325¹, 338⁴; नि॑ 滅 S, 轉 (v. l. 繼)
WT, 25¹, 32¹⁰, 85⁷, 127⁴, 135¹², 146¹⁷, 151
¹⁶, 152¹, 160¹, 185¹¹, 202⁹¹⁴, 207⁶, 208¹⁴,
213¹¹, 221¹⁷, 294⁴, 236⁶, 297⁴, 302¹, 321¹²,
330⁶, 339⁵¹⁰, 344¹⁶, 345²⁴, 373⁴, 375¹; अ॑-
भि॑-नि॑ 生 W, कायं॑ 有所生
ST, 104³; वि॑-नि॑ 捨離 S, 入法 W,
令出離 T, 95¹⁸, 146¹⁷ (bis); प्र- 生 S,
起 T, 見 W, 轉 W, 11¹¹, 242³¹²¹³, 25
¹⁵, 27⁷, 38¹², 38⁶, 44¹³¹⁸¹⁸, 45¹, 46⁴⁶¹²,
48⁵, 50⁹⁹, 54⁹¹³, 55¹, 56⁹, 59³, 66⁷⁴,
69³, 71¹⁴, 72² (bis), 75², 81¹¹¹⁴, 84³⁴¹³,
86⁷¹⁰¹¹¹²¹⁹, 87³, 93⁵⁷, 99¹⁰, 100⁴⁵,
104¹⁴, 107⁴, 109⁷, 114¹⁷, 118²¹², 119¹⁰¹²,
120², 124¹⁰¹¹, 127⁴⁵¹³, 128¹³, 130⁷, 132⁷,
135², 142²⁴, 149¹⁶, 150¹⁰¹⁵¹⁷, 151³⁸⁹¹⁰¹⁵,
152¹⁴¹⁰¹⁵, 157¹¹, 158⁶¹⁴, 160¹, 163⁶, 169⁷,
170¹, 176⁶, 177¹⁰, 178¹³¹⁶, 182⁴¹⁷, 185⁹,
186¹³, 202⁹¹⁴, 205⁶, 208¹⁴¹⁵, 209¹¹⁵, 213¹¹,

214¹¹, 218²⁰, 220^{10 12 14}, 221⁶, 223¹⁵, 225⁶, 226⁶, 231¹, 233⁸, 234², 235^{11 13 14}, 236⁶, 238¹⁷, 239^{1 2}, 267¹⁰, 271^{4 7 16}, 272², 274¹⁷, 276², 277⁷ (bis)^{4 10}, 282¹, 283¹⁴, 284³, 285⁶, 286⁶, 291¹⁶, 293¹, 294^{12 13}, 295^{9 14}, 296^{1 2}, 297^{3 4}, 299⁷, 301¹, 302¹⁰, 303¹¹, 311¹¹, 312¹¹, 314⁶, 316¹, 317⁷, 318¹⁴, 320⁶, 322¹⁵, 324¹¹, 326⁷, 327³, 329¹¹, 333¹⁴, 334^{17 18}, 335¹¹, 336^{4 12}, 339^{8 10}, 342⁶, 343^{12 17}, 345^{4 8 10}, 346², 347^{1 4}, 348¹⁴, 353⁷, 354^{8 11}, 355¹², 356⁶, 363⁴, 368^{1 6 7}, 371¹⁰, 374^{4 10 11}; अनु-

प्र- 生 S, 生分別 W, 隨轉 T, 127²; अभि-प्र- 自覺知 W, 循環不絕起 T, 生 W, 225¹² (अतिप्र- in text), 277⁶, 295⁸, 344⁸, 349⁶, 352¹¹; सम-प्र- 生 SWT, 24⁶, 130¹, 158⁶, 265¹³, 277¹⁴, 281¹⁴, 291³, 300^{10 11}, 302¹¹, 313⁷, 316⁷, 326¹⁴, 327⁶, 328^{2 8}, 329¹⁴, 336¹⁰, 344¹⁰, 352⁶, 356⁶, 368⁷; सम- 起 S, 生 WT, 107¹⁴, 233⁶.

वृ 158¹².

वृध् 增 ST, 增長 W, 232¹⁴, 236¹³, 285¹¹; वि- 增長 WT, 181¹⁰, 346¹⁰.

वृष् 注雨 WT, 312²; प्र- 天雨 W, 92¹²; अभिप्र- 雨 WT, 16⁶.

वैष्

परि- 繩 SWT, 162⁴.

वैष् 殺 W, 253¹.

वैश्

प्र- 爲出家 T, 出家WT, 253¹², 362⁷.

श

शक् 能 SW, 221¹⁰.

शम् 滅 WT, 365¹⁶.

शस्

वि- 被殺害 WT, 253⁷.

शिष् 學 WT, 185¹⁴, 308⁴, 331¹⁵; प्रति-

सम- 作是學 S, 修行 W, 觀 T, 129¹³.

शिष्

वि- 勝 SWT, 104¹, 197¹⁰, 198⁶, 371^{2 8}, 357¹.

शीलय् 戒 S, 隨順清涼 W, 237¹⁰.

शुध् 淨 SWT, 24², 33¹, 298⁹; परि- 清

淨 W, 淨 T, 359¹; वि- 淨 SWT, 26¹, 53^{4 5 8 11 14 17}, 56², 85¹⁰, 125¹⁷, 241^{11 14}, 299⁶, 335⁴; प्रति-वि- 淨除 S, 清淨

W, 淨治 T, 51³, 117¹.

शुभ् न… 爲不善 ST, 不得具足莊嚴法身 W, 196¹⁴.

शम्

वि- 息 W, 休息 T, 止息 WT, 244¹¹, 274⁴.

शि

आ- 依 SW, 起 T, 50¹, 112¹⁴, 128¹², 171², 242¹⁶, 317^{1 8}, 334¹², 341^{9 10 12}; सम-

आ- 依 S, 執著 WT, 91¹⁰, 131¹⁴, 132¹³, 284⁶, 295⁴, 300¹⁰, 305¹, 313⁶, 326¹⁶, 341¹³, 342²; सम- 依止 W, 依 T, 300¹¹.

शु 聞 2¹⁰, 4¹, 6^{2 8}, 10², 16¹¹, 20^{10 11}, 23¹³, 29⁶, 72¹¹, 264¹, et seq; अनु- 94⁶; उप-

245¹⁴; प्रति- 74¹, 86², 89¹⁴, 117⁷, 133⁶, 136⁶, 138⁷, 145³, 148⁷, 150⁷, 154¹³, 161⁶, 172³, 180⁶, 182¹⁴, 191¹⁴, 211⁶, 220¹, 224¹³, 234¹⁴, 241¹, 245⁷, 269⁹; सम- 說 SWT, 23¹⁰.

ष

उभ्

अव- 翬覆 WT, 16³.

स

सञ्च 計著 SWT, 113¹⁴.

सञ्ज 322¹²; प्र- 有如是過 S, 虛妄分別 W, 成(無窮過) T, 彼有是過 T, 41⁶, 61⁶, 104^{5 7 10}, 111²⁷, 119⁶, 151¹⁰, 153⁴, 163¹⁴, 164¹⁶, 167¹, 188⁴, 219¹⁶, 311¹⁴, 325⁴, 335¹⁴, 341^{11 12}, 350¹⁰, 355⁹, 360¹⁴.

सद्

आ- 證得 W, 得 T, 140⁶, 286¹⁵; सम-

आ- 249⁶; नि- 坐 WT, 16^{4 8}; प्र-

樂 S, 淨 W, 信 T, 54¹⁶, 163⁷, 320¹².

समाधय 三昧心 ST, 得定心 W, 24¹⁷, 33¹, 203¹², 340¹.

साध् 同 SWT, 所成 T, 47⁶, 147¹⁰, 315³, 357², 368²; प्र- 申暢 S, 成 W, 申述 T, 201^{2 3}, 337^{17 18}.

सि

वि-उद्ध-आ- (बुद्धासयेत्) 311¹ (बुद्धाश्रया in text).

सिच् 授於佛位 W, 灌頂 T, 373¹⁴; अ- मि- 灌頂 S, 灌…頂 W, 灌頂 T, 70⁴, 101¹⁰, 310², 365².

सिध् 成 S, 實 W, 成就 T, 130^{11 12}, 294⁶, 303^{14 15}; नि- 27¹³.

सु

अनु- 隨(心)流散 S, 隨順生法 W, 隨流動 T, 3¹, 225¹; प्रति- 196¹; सम- 輪轉 S, 生死流轉 T, 242⁴, 270¹².

सृज्

वि- 說 ST, 分別 W, 187⁴ (cf. 19¹³, 186²).

सृष्

उप- 入 W, 成 T, 244¹¹, 247¹; प्र- 普照 ST, 遍 W, 232⁷.

सैव्

उप- 往 W, 親近 T, 309¹ (उपदेशत in text).

स्कन्द्

प्र- 樂 SW, 心樂 T, 63⁸.

स्तु

अभि- 讀曰 S, 讀 W, 說頤曰 T, 22⁵, 23⁹.

स्था 住 WT, 安住 SW, (स्थापयित्वा) 除 SW, 唯除 T, 4¹¹, 17¹³, 28¹⁰, 45⁷, 49¹⁴, 135¹¹, 185¹¹, 266⁶, 271¹⁰, 298¹⁴, 319¹⁷, 321¹⁶, 322³, 330⁶, 355⁶, 359⁹; अ-

धि- 建立 S, 作住持力 W, 持 T, 102¹⁴, 223¹⁴, 273¹³; अव- 剎那不住 S, 可得見彼何等何等法有何等

何等法無 W, 現 T, 53¹⁷, 74¹², 178¹⁴, 18¹⁶, 355⁵; वि-अव- 建立 SW, 安立 T, 40^{4 5}, 57¹², 67⁴, 126¹⁴, 213¹⁴; आ- 示

現 ST, 現作 W, 73⁴, 251⁶; उद्ध- 從

座而起 T, 從座而起 SW, 15¹, 22¹,
138¹²; (उत्तिष्ठते in text); वि-उद-
生 SWT, 66¹; प्र- 住 WT, 296⁴; प्र-
ति- 著(地) ST, 22⁴, 48¹¹, 97¹, 161⁶,
195⁶; सम- 住 T, 309¹, 363⁴.
सा 洗浴 W, 沐 365¹.
सन् 動轉 ST, 搖動 W, 95¹⁰ 12, 238¹⁴,
265³ 5.
सृश् (自)指 W, (自)觸 T, 935¹.
सुर् 起念 W, 見 T, 286¹.
सू 念 WT, 5⁷, 295⁶; अनु- 憶念 SWT,
91⁶, 293¹²; सम-अनु- 憶念 SWT, 91⁶.
सप् 眠 W, 256¹⁷.

ह

हन्

वि-नि- 降伏SW, 伏T, 148¹², 160¹⁴.

हम् 呵々大笑 W, 欣然大笑 T, 13³ 4
11, 14¹.
हा 捨SWT, 50¹, 166¹⁰ 11, 196¹, 236¹², 373
4; प्र- 壊 S, 自破 W, 自壞 T, 166¹⁴,
168⁴, 241¹², 281⁵, 300⁶, 311⁴ 6, 317⁵ 6; वि-
捨 ST, 離 W, 198³, 231¹⁰, 233².
हे 奮 T, 249⁵; अप- 得樂所牽 S, 著
T, 213²; आ- 食SW, 食(於凡夫)
段食 T, 255¹²; उद-आ- 說 SWT,
144⁶, 194¹⁰ 10; प्रति-आ- 答 ST, 示
W, 193¹; वि-आ- 說 SWT, 143¹;
अभि-निस- 生SWT, 237⁴; वि- 住
SWT, 1⁶, 162⁷, 176⁸, 222¹³; सम- 簡
(v. l. 捷) 擇 W, 善解 T, 309¹.

THE CHINESE-SANSKRIT SECTION

蠻
蠻麥, swt, Yava.

(生)蠻麥, w, Yava-hetuka.

蠻麥因, t, Yava-hetuka.

vitāna-pada.

鶲

鶲

鶲鵠, t, Śuka.

鶲鵠鳥, sw, Śuka.

欝
欝樹, s, Druma.

欝樹葛藤句, s, Druma-gulma-latā-

欝

欝淺, w, Jaghanya.

THE TIBETAN-SANSKRIT SECTION

ग

- ग'य'ग' 54R.
 गु'न'ग' 55R.
 गो'द'क्षेत्र'ग' 64R.
 गौ'द'ग' 59R.
 गुरु'ग' 140R.
 गुरु'द'क्षेत्र'ग' 180R.
 -ग्रह'ग' 178R.
गुरु'पद्मश'ग' 16L. 104R, 148L, 172R.
 -गृह'ग' 20R.
 -गृह'स'विन'स'ग' 104R.
 गृह'क'ग' 104R.
गुरु'र'ग' 104L.
 -गृह'म'ग' 104R.
 गुरु'स'ग' 174R.
गुरु'ह'ग' 172L.
गुरु'ग'ग' 43L.
 -गृह'ग' 64L.
 -क्षेत्र'ग' 103R.
गुरु'म'क्षेत्र'ग' 43L.
 -गृह'त्रु'प'ग' 13L.
 -गृह'म'ग' 48L.
गुरु'त्रु'ग' 141R.
 गु' 91R, 185L. गु'ग' 91R.
गुरु'ग'ग' 91R.
गुरु'ग'ग'ग'ग' 20L.
- ग्रुदी'ग' 91R.
 ग्राम'ग' 77L.
 ग्राम' 171R.
 ग्रुष्मा' 165R.
 ग्रंथ'ग' 55R.
 ग्रंथ'ग' 102R.
 ग्रंथ'ग'ग' 4L.
 ग्रंथ'ग'ग'ग' 59L.
ग्रन्थ'ग'ग'ग'ग' 61L.
 -ग्रंथ'ग' 61L.
 -ग्रंथ'ग'ग'ग'ग' 61L..
 -ग्रंथ'ग' 61L.
 -ग' 61R. -ग' 61L.
 -ग'ग'ग'ग' 61R.
 -ग'ग'ग' 4L.
 -ग'ग'ग' 61R. -ग'ग'ग' 61L.
 -ग'ग'ग'ग' 61L.
 -ग'ग'ग'ग' 61L.
 -ग'ग'ग'ग' 61L.
 -ग'ग'ग'ग' 61L.
 -ग'ग'ग'ग' 61L.

༐ 107R.
 ༐-କ୍ରି-ମୁଖ୍ୟ-ମା-ପତ୍ର 11L.
 କୁନ୍ଦ-ଧ 71L.
 କୁରୁ 142L, 197R.
 କୁରୁ-ଶ୍ରୀ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 115L.
 -କୈଣ 115L.
 -କୁ-ପତ୍ର.....କୁନ୍ଦ-ଧ 56L.
 କୁରୁ-ଶ୍ରୀ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 51R.
 -କମ-ଧର-କେନ୍ଦ୍ର 115L.
 କୁରୁ-ଶ୍ରୀ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 115L.
 -କୁମା-ଧର୍ମ-ଧ 21R, 115L.
 -କୁନ୍ଦ-ଧର୍ମ-ଧ 115L.
 -କୁମା-ଧର୍ମ-କୈଣ 22R.
 -କୁ-ପତ୍ର-ଧ 115L.
 -କୁ-ପତ୍ର-କୁନ୍ଦ-ଧ 115L.
 କୁମା-ଧର୍ମ-ଧ 58R.
 -ଧର୍ମ 64R.
 -ଶୁ-ମହି 167L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 112L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 112L.
 କୁ-ମକ୍ରଦ 40R.
 କୁ-ମୁଣ୍ଡା-ଧ 128R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ.....କୁନ୍ଦ-ଧ 46R.
 କୁ-ମନ୍ଦିର 144L.
 କୁ-ମନ୍ଦିର-କ୍ଷେତ୍ର-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ-ମନ୍ଦିର
 କୁନ୍ଦ-ଧ 182R.
 କୁ-ଧ 46L, 72L, R, 180L.

କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 72L.
 -କୁନ୍ଦ-ଧ 46R.
 -କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 46R.
 -କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 46R.
 -ମନ୍ଦିର-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 46R.
 -ମନ୍ଦିର-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 46R.
 -ମନ୍ଦିର-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 46R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 121L.
 -ମେନ୍ 6L, R. -ମେନ୍-ଧ 6R, 100R.
 -ମେନ୍-ଧର୍ମ-କ୍ଷେତ୍ର-ଧ 46R.
 -ମା-କୁମା-ଧର୍ମ-ଧ 46R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 120L.
 -ମୁନ୍ଦ-ଧ 46R.
 -କୈଣ 46R.
 -ମକ୍ରଦ 46R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 46R.
 -ମୁନ୍ଦ 46L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 72L..
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 6R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 71R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ-ମନ୍ଦିର 64R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 46L, 49L, 52R, 108R, 180R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ-କୁନ୍ଦ-ଧ 16L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ-କୁନ୍ଦ-ଧ 72R.
 -ମନ୍ଦିର 72R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 109L.
 -କୁନ୍ଦ-ଧ 91L.

-ଶ୍ରୀ-ଧ 31L.
 -ଶବ୍ଦ 103L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 112L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 59L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 40R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 47L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 47R.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 59L.
 କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 45R.
 ସମ୍ମା-ଧ-କୁନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦିର-କୁନ୍ଦ-ଧ 55R.
 ଶ୍ରୀ-ଧ-ମନ୍ଦିର-କୁନ୍ଦ-ଧ 55L.
 -ଧନ୍ୟ-ମି-ଶନ୍ 37R.
 ସମ୍ମା-ଧ-ମନ୍ଦିର-ଧ 55L.
 ସମ୍ମା-ଧ 45R, 46I, 47L, 180L, 189L..
 ସମ୍ମା-ଧ-ମନ୍ଦିର-ଧ 47L, 72L.

ମ

ମ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 151R.
 -ଶ୍ରୀ-ଧ 109R.
 -ମନ୍ଦ 82R.
 ମ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 185R.
 -ମେନ୍ 11L.
 ମ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 18R, 128L, 132R.
 -ମ-ଧ 134L.
 -କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ-ମନ୍ଦିର 109L.
 ମ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 168L.

ମନ୍ଦ=ମନ୍ଦ-ଧ 122L, 159R.
 ମନ୍ଦ-ଧ 27R.
 ମନ୍ଦିର 89R.
 -ଶ୍ରୀ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 183L.
 -ମନ୍ଦିର 80L.
 ମନ୍ଦ 62R.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 11L.
 ମନ୍ଦ-ଧ 169L, 170L.
 -ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 169L.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 129L.
 ମନ୍ଦ-ଧ 102L.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 101R.
 ମନ୍ଦ-ଧ 113L.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 17R, 157R.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 8R, 9L, 16R, 28R, 30R.
 -ମନ୍ଦିର-ଶ-ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦିର-କୁନ୍ଦ-ଧ-
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 9L.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 63L.
 -କୁ-ନୂର୍ଦ୍ଦିନ-ଧ 10R.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 11L, R.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 66R.
 ମନ୍ଦ-ଧ 161R.
 ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ-ମନ୍ଦ-ଧ 32L.
 -ମନ୍ଦ 90R.
 -ମନ୍ଦ-ଧ 161R.
 -ମନ୍ଦ-ଧ 161R.
 -ମନ୍ଦ-ଧ 32L.

-**କେନ୍** 178R.
କ୍ରମ 159R, 166L.
କ୍ରି 171R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ମ୍ର୍ତ୍ସନ୍ଧ 171R.
କ୍ରିମ୍ବୁଦ୍ଧ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 170L.
କ୍ରିମ୍ବୁଦ୍ଧ 177R.
କ୍ରିମ୍ବ 65L.
କ୍ରିମ୍-ପରିମଳ 48R.
କ୍ରି 170L.
କ୍ରିମ୍ବିଣ୍ଣ 95L.
କ୍ରିମ୍ବିଣ୍ଣ 174L.
 -**ଶିଳ୍ପୀ** 7L, 74L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ମ୍ର୍ତ୍ସନ୍ଧ 187R.
କ୍ରି-ନ୍ତର୍ମଣ 77R.
କ୍ରି-ପରିତ୍ରୀ 167L.
କ୍ରିମ୍ବ 91L.
କ୍ରିମ୍ବ-ନ୍ତର୍ମଣ 62R.
କ୍ରିମ୍ବ-ଧାରୀ 59R, 134L, 156R, 157R.
 -**କ୍ରିମଶ** 102L.
କ୍ରିମଶ-ଧରୀ-କ୍ଷେଣ 59R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ପ୍ରକାଶ 57R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ 164L.
କ୍ରିମଶ-ଧରୀ-ମର୍ତ୍ତନ୍ତମ 181L.
କ୍ରିମଶ 71R, 106R,
କ୍ରିମଶ-ଶୁଣ୍ଡ-ଧାରୀ 107L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ମ୍ର୍ତ୍ସନ୍ଧ** 107L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ 107L.

କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ 106L, 172R.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ପରିତ୍ରୀ** 172R.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ** 172R.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-କ୍ଷେଣ** 33R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ଶେଷ-ଧାରୀ-ମ୍ର୍ତ୍ସନ୍ଧ 172R.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ** 173R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 66R.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-ଶୁଣ୍ଡ** 66R.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-କ୍ଷେଣ** 5L.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-କ୍ଷେଣ** 5L.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-ଶୁଣ୍ଡ** 62L.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-କ୍ଷେଣ 66R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-ଶୁଣ୍ଡ 66R.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-କ୍ଷେଣ** 67R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-ଶୁଣ୍ଡ 80L.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ-କ୍ଷେଣ** 7R.
କ୍ରିମଶ 67R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ 141L.
 -**କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ** 27R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 141L.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 132R.
କ୍ରିମଶ 181R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ 142R.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ 163L.
କ୍ରିମଶ-ଧାରୀ 165L.
କ୍ରି 62R.

କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ 62R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ମ୍ର୍ତ୍ସନ୍ଧ-ଧାରୀ-ମ୍ର୍ତ୍ସନ୍ଧ 14L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 169L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 109L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା** 88R.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା** 109L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା** 109L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 172R.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ** 191L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ 90R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 163R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 91R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ 58R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ 60L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ 45R.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ** 46L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ 27L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 26R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 152R, 154L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 41L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 152R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 135R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 80L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 59R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 105L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 53L.

କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ 66L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 167R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 174L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ** 185L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା** 185L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ** 34L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ** 63L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ** 174L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 167R.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 71R.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା** 6L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 25L, 186L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ 186L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ** 186L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ** 186L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ-ଧାରୀ-ନ୍ତର୍ମଣ** 99L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 99L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 189L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 65R, 71R, 109L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା 64R, 90R.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ** 90R.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ** 111L, 146L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ** 111L.
 -**କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ-ଧାରୀ** 10L.
କ୍ରି-ନ୍ଦା-ନ୍ତର୍ମଣ 109L.

ଶ୍ରୀ-ନୂ-ପତ୍ରାଳ 109L.	- ନେତ୍ର-ଦୟ 174R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 58L.	- ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 63R.
ଶ୍ରୀ-ଦୁଃଖ 93R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 58L.	- ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 45R.	- ନୂ-କଣ୍ଠ 71R.
- ନୂ-କଣ୍ଠ 109L.	- ନୂ-କଣ୍ଠ-ପତ୍ରାଳ 58L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 14R., 168R.	ଶ୍ରୀ-ଦୁଃଖ 63R.
- ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 109L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 169R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 51R.	ଶ୍ରୀ-କଣ୍ଠ 185R.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 139R.	- କଣ୍ଠ 58L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 92L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 72L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 123R.	- ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 55R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 169L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 163R.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କେତେ 135R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 170R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 96L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 72R.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କେତେ 62R., 196R.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 130R., 170R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ = ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 96L., 175L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 47L., 180R.
- କେ 196R.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 130R.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 96R.	- ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 47L.
ଶ୍ରୀ-ଦୁଃଖ-ଅକ୍ଷ୍ୟ-ପତ୍ରାଳ 196R.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 130R.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 14R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 185L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 156R., 157L.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 130R.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 14R.	- କେତେ-ପତ୍ରାଳ-କଣ୍ଠ 137L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 87L.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 130R.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 14R.	- କେ-ମା-ବ୍ୟାହି-କେ-ମ 180R.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର-କଣ୍ଠ-ପତ୍ରାଳ 38L.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 24L.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 96R.	- କଣ୍ଠ 180R.
- ପତ୍ରାଳ 38L.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 130R.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 96R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 60R.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 157R.	- ପତ୍ରାଳ-କେତେ 177L.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 7L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 132L., 146L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 188L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 174L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 40L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 40L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର-କଣ୍ଠ-ପତ୍ରାଳ 28L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 48R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 58R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 58R., 99R., 146L.
- କ୍ଷେତ୍ର 48R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 28R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 96R.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 137L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 28L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 28L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 196R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 146L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 29R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 29R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 81L.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 28L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 29R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 29R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 186R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 72R.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 91L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 29R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ = ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 99L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-କ୍ଷେତ୍ର 73L.
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 91R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 25R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 153R.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 73L..
ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 174R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 44L.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 63L.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 73L.
- ପତ୍ରାଳ 174R.	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 177L..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ-ଦୟ 64L.	- ଶ୍ରୀ-ପତ୍ରାଳ 126R.

କୁର୍ମ'ଦୟ'ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ'କ୍ରେଷଣ 48L.	କୁ'ଶେନ୍-ପ୍ର 37L.
କୁର୍ମ'ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ 90R, 102L.	-.....ଶ୍ଵ'ପ 198R.
କୁର୍ମ'ଶ୍ଵର 38R, 73L, 186R.	କୁ'ଶେନ୍-ଧ୍ୟ'କ୍ଷେଣ 37L.
କୁର୍ମ'ଶ୍ରୀ 146L.	କୁ'ଶେନ୍-ଧ୍ୟ'କ୍ଷେଣ 37L.
କୁର୍ମ 166L.	କୁ'ଶେନ୍-ଧ୍ୟ'କ୍ଷେଣ 198L.
କୁର୍ମ'ଦୟାନ୍ତ'ପ 109R.	କୁ'ପି'ଶ୍ଵରାଶ୍ରୀ'ଶ୍ଵର 26L..
କୁର୍ମ'ପ 109R.	କୁ'ପ'ନମୀଷ'ପ 76R.
କୁ 56L, 197L, R.	କୁ'ପ'ମୀଷ 56R.
କୁ'ତର୍ତ୍ତର 185L.	କୁ'ପଶ'ପ୍ରତ 198L..
କୁ'ନ୍ଦ'ନ୍ଦ୍ରି 49R.	-ବସ୍ତ୍ର'ମେନ୍-ପ 37L..
-ପ୍ରେତ'ଧ୍ୟ'କ୍ଷେଣ 37L.	-ବସ୍ତ୍ରାଶ'ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ'ନ୍ଦ'ନ୍ଦ୍ରି'ଶ୍ଵର 197R..
-ବସ୍ତ୍ରାଶ 122R.	କୁର୍ମ 51R, 89R.
-ବସ୍ତ୍ରାଶ'ମେନ୍-ପଦି'କ୍ଷେଣ 37L..	-ଏଶୁମ 80L..
-ବସ୍ତ୍ରାଶ'ପଦି'କ୍ଷେଣ 197R.	କୁର୍ମ 58L, 119L, 176R:
-ଦ୍ୱାଣ'ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ'କ୍ରେଷଣ 197R.	-କୁ'ପ 119L.
କୁ'ର୍ମ 99R.	-ବସ୍ତ୍ରାଶ 119L..
-ଦ୍ୱାଣ'ଶର୍ମା'କୁର୍ମ 88L, 101R.	-ଏଶୁମ'ପ 119L..
କୁ'ର୍ମ'ଶ୍ଵର 197R.	କୁର୍ମ'କୁ'ର୍ମ'ବସ୍ତ୍ରାଶ 190L..
କୁ'ର୍ମ'ପ 174R.	-କୁର୍ମ'ପଦି'ବସ୍ତ୍ରାଶ 190L..
-ମେନ୍-ପ 34L, 37L.	-ବସ୍ତ୍ରାଶ'ପ 190L..
କୁ'ପ୍ରେତ'ପ 37R.	-ବସ୍ତ୍ରାଶ'ପଦ 15L..
କୁ'ଅ'ମକିଷ'ପ 37L.	କୁର୍ମ'ଦ୍ୱାଣ'ପଦି'ଦ୍ୱାଣ'ପରିଳ 198L..
କୁ'ଅ'ମସ୍ତୁର'ପ 163L.	-କ୍ଷୟ 197R..
କୁ'ମୈନ 96L.	-ଦ୍ୱାଣ'ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ'କ୍ରେଷଣ'ନ୍ଦ'ନ୍ଦ୍ରି'ଶ୍ଵର 197R..
କୁ'ମେନ 11R, 92R, 98R, 164R.	19 L.
-ନ୍ଦ'ନ୍ଦୁର'ପ 37L..	କୁର୍ମ'ନ୍ଦୁର 56R..
-.....ଶ୍ଵ'ମୈଷ'କ୍ଷେଣ'କ୍ଷୟ 164R.	-ଶ୍ଵ'ପ 197R..

କୁଣ୍ଡଳୀ	56L.	-ପାତର୍ଦ୍ଵାରା କଣାଶାପ	142L.
କୁର୍ମ	86R, 139R.	-ପାତର୍ଦ୍ଵାରା	142R.
କୁର୍ମି	7L.	କୁର୍ମି ସବୁନ୍ତି ମର୍ଦନ ଦୟା କଣାଶାପାର୍ଦ୍ବାରା ମର୍ଦନ	
କୁର୍ମି	107L, 149L..	କୁର୍ମି	142R.
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି ସବୁନ୍ତି ପାର୍ଦ୍ବାରା	142L.
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	138L.
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	5L.
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି ଗର୍ବକ ଶ୍ରୀ	19L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି ପାତର୍ଦ୍ଵାରା	146R.
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	46L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	43L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	43L, 60R.
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	185L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି ପର୍ଦ୍ବାରା	185R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି କୁର୍ମି	180L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି କୁର୍ମି	165R, 179R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	21L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	180L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	166R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	166R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	166R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି କୁର୍ମି କୁର୍ମି କୁର୍ମି	33R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	33L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	49L..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	130L, 159R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	55R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	156R..
କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	କୁର୍ମି	121L..

མුෂ්‍යාධිකාරී 43R.
 མුෂ්‍යාධිකාරී 180R.
 མුෂ්‍යාධිකාරී 185L.
 མුෂ්‍යාධිකාරී 121L, 185L.
 མුෂ්‍යාධිකාරී මැඩින් 39R.
 མුෂ්‍යාධිකාරී 45R.
 མුෂ්‍යාධිකාරී 45L.

၅

ན 135L, 138L.
 ན·ත්‍යාච්‍ර 25L.
 ན·දෙශීන් 138L.
 ན·ඡ්‍යෑල් 133R.
 ན·ඡ්‍යෑල් 100L, 134R.
 -ගුඩ්‌ක්මාද්විජාපින් 100L..
 -ඡ්‍යෑල් 143L.
 -ඡ්‍යෑල් 134R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 152R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් සේවකාරී මාත්‍රාදාරී මැඩින් 152R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 57R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ක්‍රිජ්‍යාධිකාරී 57R.
 -ඡ්‍යෑල් 37R, 50R.
 -ඡ්‍යෑල් 38L.
 -ඡ්‍යෑල් 57R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජාධිකාරී මැඩින් 8L.
 ནාෂ·සේවකාරී 135L.

ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 17L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් සේවකාරී මැඩින් 57L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 57L.
 -ඡ්‍යෑල් මාත්‍රාදාරී මැඩින් 57L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 95L.
 -ඡ්‍යෑල් ඡුඩාධිකාරී 120L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 111L, 141R.
 ན·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී = ན·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 36R, 98L.
 -ඡ්‍යෑල් මැඩින් 178L.
 -ඡ්‍යෑල් මැඩින් 100R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 135L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 47R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 144R, 146L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 108L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 129R.
 -ඡ්‍යෑල් 129R.
 -ඡ්‍යෑල් මාත්‍රාදාරී මැඩින් ප්‍රාථමික සුෂ්ක්‍රීඝ්‍යෑල්
 සුෂ්ක්‍රීඝ්‍යෑල් 37L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී මැඩින් 180L.
 -ඡ්‍යෑල් මැඩින් 180L..
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 51R, 101L, 128R, 129L, 152L,
 185L.
 -ඡ්‍යෑල් 188L..
 -ඡ්‍යෑල් මාත්‍රාදාරී මැඩින් නුවු ප්‍රාථමික 188R.
 -ඡ්‍යෑල් 175L.
 -නාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී මැඩින් ප්‍රාථමික
 නාෂ·ඡ්‍යෑල් 152R.
 -නාෂ·ඡ්‍යෑල් මාත්‍රාදාරී මැඩින් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී මැඩින් 152R.

ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී මැඩින් 152R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 129R.
 -ඡ්‍යෑල් 23R, 34L.
 -ඡ්‍යෑල් ඡුඩාධිකාරී 30R, 130L.
 -ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 175R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 129R.
 -ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 180L..
 -ඡ්‍යෑල් ඡුඩාධිකාරී 130L.
 -නාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 130L..
 -ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 195L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී මාත්‍රාදාරී මැඩින් ප්‍රාථමික
 වාම්ප්‍රාථමික ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 129R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 30R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 98L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 152L, 188R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 72L, 144R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 25R.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 24L..
 -ඡ්‍යෑල් ඡුඩාධිකාරී 24R..
 -ඡ්‍යෑල් 15L, 16R, 39L, R.
 -ඡ්‍යෑල් ප්‍රාථමික මාත්‍රාදාරී ප්‍රාථමික 25L, 113R.
 -ඡ්‍යෑල් ප්‍රාථමික ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 122L..
 -ඡ්‍යෑල් 25R.
 -ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 26L..
 -නාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 26L..
 -නාෂ·ඡ්‍යෑල් 26L..
 -ඡ්‍යෑල් 25R.

-ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 26L..
 -ඡ්‍යෑල් 24R.
 -ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 10R.
 -ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 24L..
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 159L.
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් 114R.
 ན·ම් 50L..
 ན·ම් 139R.
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 101R.
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 157L..
 ན·න්ද්‍ය 101L, R.
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 110L..
 ན·න්ද්‍ය 121R.
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 110R..
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 110L..
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 110R..
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 110L..
 ན·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය·න්ද්‍ය 108L..
 ན·න්ද්‍ය 109R, 111L..
 ནාෂ·ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී මැඩින් 110L..
 -ඡ්‍යෑල් 110L..
 -ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 110L..
 -ඡ්‍යෑල් 110L..
 -නාෂ·ඡ්‍යෑල් 110R..
 -ඡ්‍යෑල් ත්‍රිජ්‍යාධිකාරී 110L..
 -ඡ්‍යෑල් 110L..

-**ଘ** 151R.
 -**ଘର** 109R.
 -**ଘରାଶ** 111L.
 -**ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍** 89L.
 -**ଘରାଶ୍ରୁତି** 110L.
ଘରାଶ୍ରୂତିଧ୍ୱନି 110L.
ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ 121R.
ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ 99R.
 -**ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ** 99R.
ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ 21R.
ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ 110R, 173R.
ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ 110L.
ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ 113L.
ଘରାଶ୍ରୀକଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ରମ୍ଭାବୀ 130R.

ର

ରାଜିକାରାଜିକାରୁ 79L.
ରାଜିକାରୁ 57L, 139R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 53L.
ରାଜିକାରୁ 71R.
ରାଜିକାରୁ 51L.
ରାଜିକାରୁ 20L.

-**ରାଜିକାରୁ** 96L.
ରାଜିକାରୁ 44R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 19R.
ରାଜିକାରୁ 143R.
ରାଜିକାରୁ 51R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 145R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 51R.
ରାଜିକାରୁ 20L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 19R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 8R.
ରାଜିକାରୁ 178L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 45R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 104L.
ରାଜିକାରୁ 51L.
ରାଜିକାରୁ 19R.
ରାଜିକାରୁ 114L.
ରାଜିକାରୁ 38L, 48L, 180R.
ରାଜିକାରୁ 123L.
ରାଜିକାରୁ 123L.
ରାଜିକାରୁ 123L.
 -**ରାଜିକାରୁ** (ରୁ) 123L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 123L.
ରାଜିକାରୁ 123L.
ରାଜିକାରୁ 33R.
ରାଜିକାରୁ 81R.
ରାଜିକାରୁ 81R.
ରାଜିକାରୁ 48L.
ରାଜିକାରୁ 128L.

ରାଜିକାରୁ 41L.
ରାଜିକାରୁ 73L.

ର

ରାଜିକାରୁ 133R.
ରାଜିକାରୁ 25R, 114L, 174L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 84L.
ରାଜିକାରୁ 160L, 163L.
ରାଜିକାରୁ 166R.
ରାଜିକାରୁ 45L, 49L, 84R, 165L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 15R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 15L.
ରାଜିକାରୁ 45R.
ରାଜିକାରୁ 45R.
ରାଜିକାରୁ 113L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 175R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 182R.
ରାଜିକାରୁ 45R.
ରାଜିକାରୁ 47L, 72L, 90R, 107R, 120L, 184R.
ରାଜିକାରୁ 28L.
ରାଜିକାରୁ 137L.
ରାଜିକାରୁ 151L.
ରାଜିକାରୁ 52R, 72L, 126R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 137L.
ରାଜିକାରୁ 77L.

ରାଜିକାରୁ 6L, 16L.
ରାଜିକାରୁ 6L.
ରାଜିକାରୁ 72L.
ରାଜିକାରୁ 53L.
ରାଜିକାରୁ 198R.
ରାଜିକାରୁ 72L.
ରାଜିକାରୁ 133L, 168R.
ରାଜିକାରୁ 52L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 23L.
ରାଜିକାରୁ 47L.
 -**ରାଜିକାରୁ** 72L.
ରାଜିକାରୁ 72L.
ରାଜିକାରୁ (ରୁ) 92R.
ରାଜିକାରୁ 8R.
ରାଜିକାରୁ 47L.
ରାଜିକାରୁ 139L.
ରାଜିକାରୁ 47R.
ରାଜିକାରୁ 135R..
ରାଜିକାରୁ 121R.
ରାଜିକାରୁ 7R.
ରାଜିକାରୁ 165L, R.
ରାଜିକାରୁ 87R, 108R.
ରାଜିକାରୁ 88L, R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 89R.
 -**ରାଜିକାରୁ** 89L..
ରାଜିକାରୁ 89R.
ରାଜିକାରୁ 189R.
ରାଜିକାରୁ 89L..

-ଶ୍ରୀ 89L, 135R.
 -ନୁହିଲେ 88R.
 -ବ୍ୟକ୍ଷଣ 89R.
 -ରୁ 89L.
କଣ୍ଠମର୍ତ୍ତବ୍ୟ 24L.
କଣ୍ଠମୂଳ 88R, 101L.
କଣ୍ଠମକ୍ଷିଣ୍ୟ 8R.
କଣ୍ଠପ୍ରିଣ୍ୟ 131L.
 -ଶ୍ରୀକଣ୍ଠମୁଖ 90L.
 -ଧ୍ୟାନ୍ୟ 89L.
 -ଶ୍ଵରମୁଖ 88L.
କଣ୍ଠମଧ୍ୟନ୍ୟ 88R.
କଣ୍ଠମଧ୍ୟମର୍ତ୍ତବ୍ୟ 182R.
 -ଧ୍ୟାନ୍ୟମେଦ୍ୟମଧ୍ୟମର୍ତ୍ତବ୍ୟପ୍ରିଣ୍ୟ 182R.
 -ଧ୍ୟାନ୍ୟମେଦ୍ୟମଧ୍ୟମର୍ତ୍ତବ୍ୟପ୍ରିଣ୍ୟ 188L.
 -ଧ୍ୟାନ୍ୟମେଦ୍ୟମର୍ତ୍ତବ୍ୟ 189L.
କଣ୍ଠମସ୍ତନ୍ୟ 185L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 88R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟକଣ୍ଠମନ୍ୟ 89R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 88L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 89L..
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 89L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 88L.
 -ମର୍ତ୍ତବ୍ୟପ୍ରିଣ୍ୟମନ୍ୟ 101R.
କଣ୍ଠମୈନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 88R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 88R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 88R.

କଣ୍ଠମର୍ତ୍ତବ୍ୟ 89L.
କଣ୍ଠମଧ୍ୟମନ୍ୟ 88R.
 -ଶ୍ରୀନୁହିଲେ 88R.
କଣ୍ଠମଧ୍ୟମର୍ତ୍ତବ୍ୟ 89L.
କଣ୍ଠମଧ୍ୟମର୍ତ୍ତବ୍ୟ 88R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 89R.
 -ନୁହିଲେ 88L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 52R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 77R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 151L, 171R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 102R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 109R, 128L.
 -ଧ୍ୟାନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 109R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 109R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 141R.
 -ଧ୍ୟାନ୍ୟ 141R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 71R, 166R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 92R, 135L, 140R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 123L.

E
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 132L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 142L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 142R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 44R.

କଣ୍ଠମନ୍ୟ 119L, 128L, 159L..
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 71R, 149L, 150L, R.
 -କୁଞ୍ଚ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟମନ୍ୟ 149R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟମନ୍ୟ 149R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 71R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 40R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 150L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 150L.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 150L.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 150L.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 30L.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 150L.
କଣ୍ଠମନ୍ୟମନ୍ୟ 149L..
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟମନ୍ୟ 183R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 150L.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟମନ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟମନ୍ୟ 149R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟମନ୍ୟ 150L, R.
 -କୁଞ୍ଚିତ୍ୟ 80R.
କଣ୍ଠମନ୍ୟ 119L, 157R, 158L, 159L..

-ଫୁଲମୁଖ 105L.
ଫୁଲମୁଖମନ୍ୟ 158L.
ଫୁଲମେନ୍ୟ 123R.
ଫୁଲମେନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 13L.
ଫୁଲମୁଖମନ୍ୟମନ୍ୟ 175L.
ଫୁଲମନ୍ୟ 131L, 177L.
ଫୁଲମନ୍ୟ 128R.
ଫୁଲମନ୍ୟ 140R.
ଫୁଲମନ୍ୟମନ୍ୟ 140R.
 -ଫୁଲମନ୍ୟମନ୍ୟ 140R.
ଫୁଲମନ୍ୟ 166R.
ଫୁଲମନ୍ୟ 30L, R, 48L, 120L, R, 163R,
 164R, 165L.
 -ଫୁଲ 22R.
ଫୁଲମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 120R.
 -ଫୁଲମନ୍ୟ 120L.
 -ଫୁଲମନ୍ୟ 26R.
ଫୁଲମନ୍ୟ 162R.
ଫୁଲମନ୍ୟ 138L.
ଫୁଲମନ୍ୟ 133R.
ଫୁଲମନ୍ୟମନ୍ୟ 15L, 22L, 48L.
 -ଫୁଲମନ୍ୟମନ୍ୟମନ୍ୟ 97L.
 -ଫୁଲମନ୍ୟ 17L.
 -ଫୁଲମନ୍ୟ 17R.
 -ଫୁଲମନ୍ୟ 16R.
 -ଫୁଲମନ୍ୟ 17R.
 -ଫୁଲମନ୍ୟ 17L.

-ଶ୍ରୀ 17R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 15L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 17L.
ଶତାବ୍ଦୀ 97L., 165R.
ଶତାବ୍ଦୀ 10R., 95L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 95L.
ଶତାବ୍ଦୀ 24L., 120L., 138L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 110R.

3

3 = ଶତାବ୍ଦୀ 59L., 139R.
ଶତାବ୍ଦୀ 170R.
ଶତାବ୍ଦୀ 171L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 171L.
ଶତାବ୍ଦୀ 171L.
ଶତାବ୍ଦୀ 171L.
ଶତାବ୍ଦୀ 170R., 171L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 170R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 126R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 126R.
ଶତାବ୍ଦୀ 126R.
ଶତାବ୍ଦୀ 171R.
ଶତାବ୍ଦୀ 171R.
ଶତାବ୍ଦୀ 72L., 196R.

ଶତାବ୍ଦୀ 192R.
ଶତାବ୍ଦୀ 187L.
ଶତାବ୍ଦୀ 39L., 130R., 188L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 77L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 188R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 47R.
ଶତାବ୍ଦୀ 35R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 188R.
ଶତାବ୍ଦୀ 38R.
ଶତାବ୍ଦୀ 97R.
ଶତାବ୍ଦୀ = ଶତାବ୍ଦୀ 85R., 121L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 18L.
ଶତାବ୍ଦୀ 54L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 57R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 154L.
ଶତାବ୍ଦୀ 85R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 18L.
ଶତାବ୍ଦୀ 185R.
ଶତାବ୍ଦୀ 48R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 101R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 49R.
ଶତାବ୍ଦୀ 49R., 188R.
ଶତାବ୍ଦୀ 60L.
ଶତାବ୍ଦୀ 60R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 60R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 60R.

—(444)—

-ଶତାବ୍ଦୀ 174L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 60R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 182R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 60R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 93L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 185R.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 60R.
ଶତାବ୍ଦୀ 143R.
ଶତାବ୍ଦୀ 17L.
ଶତାବ୍ଦୀ 50L..
ଶତାବ୍ଦୀ 50L..
ଶତାବ୍ଦୀ 72L.
 -ଶତାବ୍ଦୀ 72L..
ଶତାବ୍ଦୀ 50L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 50L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 17R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 100R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 86R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 50L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 87L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 86R., 87L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 8R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 86R..
ଶତାବ୍ଦୀ 191R.
ଶତାବ୍ଦୀ 123L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 73R.

—(445)—

ଶତାବ୍ଦୀ 123L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 191R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 191R..
ଶତାବ୍ଦୀ 178L..
ଶତାବ୍ଦୀ 178L..
ଶତାବ୍ଦୀ 179R..
ଶତାବ୍ଦୀ 186R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 187R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 144R..
ଶତାବ୍ଦୀ 56R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 54R..
ଶତାବ୍ଦୀ 188R..
ଶତାବ୍ଦୀ 58R., 66L., 136L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 53R., 135R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 63L..
ଶତାବ୍ଦୀ 64L., 185R., 197L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 35R..
ଶତାବ୍ଦୀ 59L..
ଶତାବ୍ଦୀ 15L., 40L..
ଶତାବ୍ଦୀ 33L..
ଶତାବ୍ଦୀ 104L..
ଶତାବ୍ଦୀ 180L..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 96R..
 -ଶତାବ୍ଦୀ 48R..
ଶତାବ୍ଦୀ 112L..
 5
ଶତାବ୍ଦୀ 77R.

ཨྜନ୍ତର 168L.
 ཨྜନ୍ତର ପ୍ରେଦ 48R.
 ཨྜନ୍ତର ଲେଖ 128L.
 ཨྜନ୍ତର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଅନ୍ତର ଧରି ମେଷ ଧରି 128R.
 ସକଳ ଧରି 55L.
 ସକଳ ଧରି 155R.
 ସକଳ ଧରି 7R, 111L, 159R, 173R.
 ସକଳ ଧରି ଧରି 77R.
 ସକଳ 182R.
 ସକଳ ଲୁଣଶ ଲୁଣଶ ଧରି 169L.
 -କୁନ୍ତ ଧରି 71L.
 -ଦୟା ଧରି କୈ 35R.
 ସକଳ ଧରି 83L, 74L, 86L.
 ସକଳ ଧରି କୈ କୁନ୍ତ 82L.
 ସକଳ ଧରି କନ୍ଦ ଧରି 45L.
 ସକଳ ଧରି 24L, 168L, 177L.
 -କୁନ୍ତ ଧରି 168L.
 -କୁନ୍ତ ଧରି 84R.
 -ଧରି କୁନ୍ତ 168L.
 ସକଳ ଧରି କୁନ୍ତ 84R, 85L.
 -ଧରି ଧରି ନନ୍ଦ 87R.
 ସକଳ ଧରି ମନୁଦ ଧରି କୈ 8L.
 -ମନୁଦ ଧରି କୈ 85L.
 ସକଳ ଧରି ମନୁଦ ଧରି 168L.
 ସକଳ ଧରି 98R.
 ସକଳ ଧରି 121R, 181R.
 ସକଳ ଧରି 118L, 189L.

ସ

ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 24L, 172R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 26R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ଧରି 19L.
 -ମାଧୀନି 10R.
 -ମାଧୀନି ମହନ ତୈନ 25L.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 132L.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ମଧୀନି 110R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ମଧୀନି 23R.
 ସକଳ 107L, 140R, 197L.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ମହନ 197L.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ମଧୀନି 20R.
 ସକଳ ଧରି 76R, 108L, 144R.
 ସକଳ ଧରି 49R, 119R.
 -ମାଧୀନି 49R.
 -ଧରି କୈ 49R.
 -ମାଧୀନି କୈ 16R.
 -ଧରି ମାଧୀନି ନନ୍ଦ ଧରି 49R.
 -ଧରି ମାଧୀନି 59R.
 ସକଳ ଧରି 182L.
 -ଧରି 106R.
 -ମାଧୀନି 182R, 184L.
 -ମାଧୀନି ଧରି ମଧୀନି 182R.
 -ଧରି ଧରି 184L.
 -ନନ୍ଦ ଧରି 182R.

-ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ମହନ ନନ୍ଦ ଧରି ମାଧୀନି 184L.
 -ନନ୍ଦ ଧରି 183R.
 -ଧରି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 183L.
 ସକଳ 97R, 141L.
 -କୈ ମନ୍ଦ 14R.
 -ଧରି କୈ ଲେଖ 141L.
 -ମାଧୀନି 160L.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ 141L.
 -ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 27R.
 -କଳା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି କୈ 141L.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 120R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ 106R.
 -ନନ୍ଦ 7L.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 53R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ 64L..
 ସକଳ ନନ୍ଦ 99L.
 -ମନ୍ଦ ଧରି 11R.
 -ମନ୍ଦ ଧରି ମନ୍ଦ 15L..
 ସକଳ ନନ୍ଦ 56R, 58R.
 -କୈ ଧରି 135R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 59L..
 ସକଳ ନନ୍ଦ ଧରି 15L..
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 8R, 90L..
 ସକଳ 198R.
 ସକଳ ମନ୍ଦ ମଧୀନି ଧରି 85R.
 ସକଳ କୈ 136L..
 ସକଳ ଧରି 139R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ 141R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ 156L, 172R, 177L..
 ସକଳ ଧରି 142R, 143L..
 -ନନ୍ଦ 101R.
 -ମାଧୀନି 51R.
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ 136L..
 -ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 136R..
 -ଧରି ନନ୍ଦ ଧରି 136L..
 -ଧରି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ 136R..
 -ଧରି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ 136L..
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ 143L..
 -ନନ୍ଦ 143L..
 -ମନ୍ଦ ନନ୍ଦ 183R..
 -ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 143L..
 -ମନ୍ଦ ନନ୍ଦ 27R..
 -ମାଧୀନି 80L..
 -ମାଧୀନି ନନ୍ଦ 143L..
 -ମାଧୀନି ଧରି କୈ 143L..
 -ମାଧୀନି ଧରି କୈ 27R..
 ସକଳ ନନ୍ଦ 82L, 100R..
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ 18R..
 -ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 39L..
 -ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ମଧୀନି 39L..
 -ମନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି 12R..
 -ମନ୍ଦ ନନ୍ଦ 12R..
 ସକଳ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ 12L..
 -ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରି କୈ 12R..

-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 12L.
 -ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାରାକଷାଦନ ପିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମଣା କଣାଶ
12L.
 -ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ପାତକାଦନ ପିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମଣା
କଣାଶ 12R.
 -ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ପାତକାଶ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ କୁଳ
ପ 12R.
 -କଣାଶ ଧର୍ମ ପାତକାଶ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ
ମାତ୍ରାପାତକାଶ 12L.
ମଧ୍ୟ 39L.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 110L.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 11R.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 22L.
ମଧ୍ୟ 16R, 39R, 48L, 113R, 121R.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 122L.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 161R.
 -ମଧ୍ୟ 23L, 35L.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 122L, 178R.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 121R.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 119R.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 83R.
ମଧ୍ୟ 170R, 171L.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 171R.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 171R.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 95L.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 43L.
ମଧ୍ୟ 18L, 59L, 110R.
 -ମଧ୍ୟ 86R.

-ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 18L.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 18R.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 99L..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10L.
 -ମଧ୍ୟ 67L, 68L.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 68L.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 34L.
 -ମଧ୍ୟ 10L.
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 99L..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 99L..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 99L..
 -ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାରାକଷାଦନ ପିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମଣା କଣାଶ
99L.
 -ମଧ୍ୟ 81L.
ମଧ୍ୟ 195L, 177R.
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 84R.
ମଧ୍ୟ 107L..
ମଧ୍ୟ 16R, 86L, 156L..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 8L, 83L..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 83L..
ମଧ୍ୟ 16L..
ମଧ୍ୟ 48L..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 14L..
ମଧ୍ୟ 122L..

ଫ

ମଧ୍ୟ

ମଧ୍ୟ

-ମଧ୍ୟ 117R.
ମଧ୍ୟ 89R, 108R.
ମଧ୍ୟ 169R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 33L..
 -ମଧ୍ୟ 33L..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 169R..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 110R..
 -ମଧ୍ୟ 118R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ । ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ମଧ୍ୟ 118R..
ମଧ୍ୟ 121L..
ମଧ୍ୟ 170R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 19R..
ମଧ୍ୟ 113L..
ମଧ୍ୟ 45L, 175R..
 -ମଧ୍ୟ 175R..
ମଧ୍ୟ 59L..
ମଧ୍ୟ 90L..
ମଧ୍ୟ 17R..
ମଧ୍ୟ 162L..
ମଧ୍ୟ 166R, 167L..
ମଧ୍ୟ =ମଧ୍ୟ 170R..
ମଧ୍ୟ 54L..
ମଧ୍ୟ 9R, 50R, 56R, 143R, 178R..
 -ମଧ୍ୟ 54R..

-ମଧ୍ୟ 143R..
 -ମଧ୍ୟ 10L..
 -ମଧ୍ୟ 28L, 50R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 80L..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 56R..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 56R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 48R..
ମଧ୍ୟ 80L, R..
ମଧ୍ୟ 80R..
 -ମଧ୍ୟ 80L..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 74R..
ମଧ୍ୟ 188R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 35R..
 -ମଧ୍ୟ 52L..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 28L..
ମଧ୍ୟ 52L, 77R..
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 96L..
ମଧ୍ୟ 95L..
ମଧ୍ୟ 76R, 142L..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 142L..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 75L..
ମଧ୍ୟ 75L, 77R..
 -ମଧ୍ୟ 75R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 75R..
 -ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 75R..

- ଶ୍ରୀଦୟ 75R.
 -ବୈଷ୍ଣବ·ମର୍ତ୍ତନ·ଧର୍ମବ୍ସ୍ତୁଦ·ଧର୍ମ·ବୈଷ୍ଣବ
 76L.
 -ବୈଷ୍ଣବ·ମର୍ତ୍ତନ·ଧର୍ମବ୍ସ୍ତୁଦ·ଧର୍ମ·ବୈଷ୍ଣବ
 ଧର୍ମ·ବୈଷ୍ଣବ 76L.
 -ଧର୍ମବ୍ସ୍ତୁଦ·ଧର୍ମବ୍ସ୍ତୁଦ·ଧର୍ମ·ବୈଷ୍ଣବ·ଧର୍ମ
 76L.
 -ଶ୍ରୀଦୟ·ଧର୍ମ·ବୈଷ୍ଣବ 76L..
 -ବୈଷ୍ଣବ·ଶ୍ରୀଦୟ 76R..
 -ସ୍ଵାମୀ 76L..
 -ବୈଷ୍ଣବ·ଶ୍ରୀଦୟ 75R..
 -ଶ 96L..
 -ଧର୍ମବ୍ସ୍ତୁଦ·ଧର୍ମବ୍ସ୍ତୁଦ·ଧର୍ମ 76L..
 ଦ·ପରିତ୍ୱାଗବୈଷ୍ଣବ·ଧର୍ମ·ବୈଷ୍ଣବ 75R.
 ଦ୍ୱାରିତ୍ୱ·ଧର୍ମ 76R..
 ଦ୍ୱାରିତ୍ୱ 76R..
 ଦ୍ୱାରିତ୍ୱ 76R..
 ଦ୍ୱାରିତ୍ୱ 159L..
 ଦ୍ୱାରିତ୍ୱ 185R..
 ଦ୍ୱାରିତ୍ୱ 97R..
 ଦ୍ୱାରିତ୍ୱ 28R, 86R..
 -ଶ୍ରୀଦୟ·ଶର୍ମା·ଶର୍ମିଳୀ 29L..
 -ସୁଧା 186R..
 -ମହିଳା·ମାଧ୍ୟମ 100L..
 -ମାଧ୍ୟମ 92L..
 -ମାଧ୍ୟମ 11L..
 -ମାଧ୍ୟମ 29L..
 -ମାଧ୍ୟମ 92R..

- ମ୍ୟିନ୍ 28L.
କୁଣ୍ଡ 135L.
 - କୁଣ୍ଡ ସମ୍ 135L.
 - କୁଣ୍ଡ 27L.
 - କୁଣ୍ଡ ଶିଥ 82L, 85R.
କୁଣ୍ଡମଦ୍ରଷ୍ଟକ 178R.
 - ପୁଣ୍ୟ 135R.
କୁଣ୍ଡମା 63R.
 - ମ୍ୟିନ୍ ଦରି କ୍ଷେତ୍ର 4R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 63R.
 - କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 63R.
 - କ୍ଷେତ୍ର 63R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 172L.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 108L..
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 80R.
 - କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 80R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 50R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 50R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 50R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 22L.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 71L.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 94R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 98R, 158R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 67L, R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 38R.
କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 196L.
 - କୁଣ୍ଡମିଶ୍ରମ 196L..

- ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 192R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 195L.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ (ଅର୍ଥପାଠ) 5L.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 196L.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 190R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 190R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 191R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 191L..
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 190R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 193L.
ପଦ୍ମପିଣ୍ଡ 39L..
ପଦ୍ମପଞ୍ଜିଲକାରୀ 38R.
ପଦ୍ମତିଳି 196L..
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 196L..
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 29R, 38R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 38R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 196L..
ପଦ୍ମତିଳି 183R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 38R. -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 38R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ = -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 38R, 109R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 38R, 109R, 148L..
ପଦ୍ମପିଣ୍ଡ 193R.
ପଦ୍ମପିଣ୍ଡ 39L..
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 192R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 192R.
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 192L..

-ଶାରିନ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଶାଖା ଧର୍ମପାତ୍ର 192L.

-ଶାରିନ୍ ଧର୍ମପାତ୍ର 192I..

-ଶେଷକା ତକ୍ତିକା ମେଦ 34R.

-ଶେଷକା ତକ୍ତିକା ମେଦ 34R.

ପଦମା ପଦମା ସ୍ତୁତି ଧର୍ମପାତ୍ର 38R.

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୨୯L.

ପଦମା ମେଦ ୨୩L, ୨୫R, ୧୦୦L, ୧୦୨L..

-କଣ୍ଠମାଧ୍ୟମ ୮୮R.

-ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୧R, ୨୫R, ୧୦୦L, R.

-ଧର୍ମପାତ୍ର ୮R, ୧୦୦R.

-ଧର୍ମପାତ୍ର ୯୫R.

-ଶ୍ରୀ ୧୦୦R.

ପଦମା ଘନ ୩୬L.

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୬୩L..

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୬୩L.

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୬୩L.

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୩୯L.

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୩୯L.

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୭୭R.

ପଦମା ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୮୬R.

-ତର୍ତ୍ତ ୧୮୬R.

-ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୬୩L, ୧୮୬R.

ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୬୩L.

-ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୮୦R.

ଧର୍ମପାତ୍ର ୧୭୯R.

-শুশ্ৰাণ্শুশ্ৰাণ 186R.
ষদ্ব-ষদ্ব-ষিন্দ-ধ 186R.
-শাৰীৰণাধ 186R.
ষদ্বন্দ্ব (ষদ্বন্দ্ব) 176L.
ষদ্বন্দ্ব-ধ 40L, 175R.
-ঔৰ্দ্ব 176L.
-বৰ্দ্ব-ক্ষম-বৰ্দ্ব-ধ 176L.
-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব 176L.
-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-ধ 176L.
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-ক্ষে 34R.
ষদ্বন্দ্ব-বৰ্দ্ব-ক্ষে 176L.
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-পৰ্ব 21L.. -ধ 21L.
বৰ্দ্ব 44R.
বৰ্দ্ব-নি 188L..
বৰ্দ্ব-জ্ঞেন্দ্ৰি-কৰ্ম 188L.
বৰ্দ্ব-প্ৰেৰ-ধ 189L.
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব 45R.
বৰ্দ্ব-ম 87R.
-বৰ্দ্ব-তম 166L.
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব 180L..
-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব 180L..
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব 174L.
-ঔৰ্দ্ব-ষদ্ব-বৰ্দ্ব-ধ 174L..
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-ধ 101L..
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব 98R.
বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব 7L, R, 15L.. বৰ্দ্ব 174L..
-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-বৰ্দ্ব-ধ 7R.

୭୫·କ୍ରମ-ତେଷ.....୫୨L.
 -ପଦଗ·ବିଶ·ପ୍ରକ 52L.
୭୫·ନ୍ଦ-ସ୍ଵେଚ୍ଛ 45L.
 -ଘନ·ବିଶ-କ୍ରମ·ନ୍ଦୁନ 36R.
୭୫·ସ 179R, 180L.
 -ନ୍ଦଶ·ଘନି·ନ୍ଦ-ବିଶିତ 180L.
୭୫·ସ·ନ୍ଦ-ନ୍ଦ 40L.
 -ମେନ·ଧ 12R.
୭୫·ପ୍ରେ 26L, 178L.
 -ଶ୍ରୀ 178L.
 -ପଞ୍ଜିଯଶ·ଧ 178L.
୭୫·ନ୍ଦିତ 189R.
୭୫·ମେଶ=୭୫·ମେଶ·ଧ 129R, 175L.
 -କ୍ରମ·ମେଶ 175L.
 -(ମେନ·ଧରି),ନର୍ତ୍ତଣ·ଧ 48R.
 -ଶ୍ରୀମା 175L.
୭୫ମାତ୍ର 178L.
୭୫ମାଧ 189R.
୭୫ମାଧରି·କ୍ଷେତ୍ର 158L.
୭୫ର 71L.
୭୫ମାସ 158L.
 -ମେନ·ଧରି·କ୍ଷେତ୍ର 31R.
 -ପ·କ୍ରମ·ଧରି·କ୍ଷେତ୍ର·ଧ·କ୍ରମ·ଧ·ମଦ·ଧ·ଶ୍ରୀମା
 161L.
୭୫ମାସରି·ନ୍ଦନ 164R.
୭୫ମାଧ 40R, 174L, 178R, 180L, R, 184R,
 185R.
 -କ୍ରମ·ଧରି 18L.

ନ୍ରିକ୍ଷେପଣ 173L..
 -ଶ୍ରୀଙ୍କେଷ 173L..
 -ମାଘିନି-ଧର୍ମିଙ୍କେଷ 84L..

ନ୍ରିକ୍ଷେପଣ-ପତ୍ର 173L..

ନ୍ରିକ୍ଷେପଣ-ଦ 112L..

ନ୍ରିତ 55R. ନ୍ରିତ-ଦ 29L., 147L..

ନ୍ରିତ-ଶୁଭ 50R., 142R..

ନ୍ରିତ-କଣ୍ଠ 60R., 145R., 162R..
 -ନ୍ରିତ-ବିଶ୍ୱାସ-ନ୍ରିତ-ଶୁଭ 145R., 146L..
 -ଅ 146L..
 -ବିଶ୍ୱାସ-ନ୍ରିତ-ଶୁଭ-ପତକ-ଦ 182L..
 -ବିଶ୍ୱାସ-ନ୍ରିତ-ଶୁଭ-ଦ 146L..

ନ୍ରିତ-କେନ-ଦ 44L..
 -କୁମର-ଶ୍ରୀ-କେନ-ଦ 13R..
 -ମେନ-ଧର୍ମିଙ୍କେଷ 18R..

ନ୍ରିତ-କେନ-ଧର୍ମିଙ୍କେଷ 44R..

ନ୍ରିତ-ଧର୍ମି-ପତକ 55R..

ନ୍ରିତ-ଶର୍ମୀ 111R..

ନ୍ରିତ=ନ୍ରି 79L., 82R., 177R., 185L..
 -ମେନ-ନ୍ରି-ଶ୍ରୀ-ନ୍ରି-ପତକ-ନ୍ରି 176R..

ନ୍ରିତ-ଦ 105R., 158L..

ନ୍ରିକ୍ଷେପଣ=ନ୍ରିକ୍ଷେପ 173L., R..

ନ୍ରିକ୍ଷେପ-ପତକ-ଶୁଭ-ନ୍ରି-ନ୍ରି-ଦ 38L..

ନ୍ରିମ 107R., 144R..

ନ୍ରିମ-ଶ୍ରୀ-ଦ 109R..
 -ଶ୍ରୀ-ଦ-ନ୍ରି-ନ୍ରି-ଦ 40L..

ନ୍ରିମ-ଶ୍ରୀ-ନ୍ରି 7L..

କୁଳମୈଦାଙ୍କଣ 89L.
 କୁଳମୈଦାଙ୍କଣ 10L.
 ଗୁ 167L..
 ଗୁରୁ 150R.
 -ଶ୍ରୀ.....ରୀ 151L..
 ଗୁରୁପିତ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ଦ୍ର 150R.
 ଗୁରୁନାନ୍ଦପଣ 168R.
 ଗୁରୁମହାରୀ 177R.
 -ନାନ୍ଦୁପରମନ୍ଦଯାପିମିଆପାଦ 35L..
 ଗୁରୁପାରାଜନାନ୍ଦମିତ୍ରପାଦ 6L..
 ଗୁରୁପାଦ 107R.
 ଗୁରୁମେଦ 95R.
 ଗୁରୁପଥ 107R.
 ଗୁରୁପତ୍ର 82L., 182R.
 -ଶ୍ରୀପ 82L..
 -ପରମାପ 82L..
 -ପରମାପ 82L..
 ଗୁରୁପାଦ 37R.
 ଗୁରୁପାଦ 174L..
 ଗୁରୁପାଦ 174R., 180R.
 ଗୁରୁପାଦମାନାନ୍ଦ 151R.

୩

ଶ୍ରୀ 164L.
ଶ୍ରୀମଦ୍ 57L..

ଶ୍ରୀମାନ୍ତିଶବ୍ଦ 151L.
 ଶ୍ରୀମାନ୍ତିଶବ୍ଦ 47R., 151L.
 ଶ୍ରୀ 9R., 18R., 26R.
 ଶ୍ରୀମିଶ୍ଵରମକଣ 39R.
 -ଶ୍ରୀପ 9R.
 ଶ୍ରୀ 94R. ଶ୍ରୀପ 38R.
 ଶ୍ରୀମିଶ୍ଵରମବନ୍ଦ 85R.
 ଶ୍ରୀମିଶ୍ଵରମବନ୍ଦକଣ୍ଠ 142R.
 ଶ୍ରୀ 146L.
 ଶ୍ରୀମାନ୍ତିଶବ୍ଦ 37R., 62L., R, 91L..
 -ଶ୍ରୀ 64L.. -ଶ୍ରୀମଦ୍ 64L.. -ଶ୍ରୀମଦ୍
 62R.
 ଶ୍ରୀମାନ୍ତିଶବ୍ଦ 62R.
 -ଶ୍ରୀପ 37R., 62L..
 ଶ୍ରୀମିଶ୍ଵରମବନ୍ଦ 103L.,
 110L..
 ଶ୍ରୀ 65L., 142R.
 ଶ୍ରୀମିଶ୍ଵର 106R.
 ଶ୍ରୀମଦ୍ 146L.
 ଶ୍ରୀକୁମାର 169L..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ 64R.
 ଶ୍ରୀମଦ୍ 135R.
 ଶ୍ରୀମଦ୍ବାର 152L..
 ଶ୍ରୀମଦ୍=ଶ୍ରୀ 132R., 133L., 141L..
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ବାରିକ୍ଷେଣ 27L..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ବାରିକ୍ଷେଣ 132R..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ 133L.. -ଶ୍ରୀମଦ୍ 27L..
 -ଶ୍ରୀମଦ୍ 190L..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ 87R.

—(456)—

ଶ୍ରୀମଦ୍ବାରିକ୍ଷେଣ 29L..
 ଶର୍ଦ୍ଦ 15R. ଶର୍ଦ୍ଦ 114L,R.
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵରମକଣ 109L..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 30R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 86L..
 -ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 86L..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 31L., 43R., 98R., 177R., 189R..
 -ଶର୍ଦ୍ଦ 189R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 114R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର=ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 111L,R., 22L..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 36R..
 -ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 189R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 47L., 50L..
 ଶର୍ଦ୍ଦ 82R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 141R..
 -ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 141R., 145R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 82R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 52R. ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 52R..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 32L..
 ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 39R..
 ଶ୍ରୀ 171R..
 ଶ୍ରୀମିଶ୍ଵର 162R..
 ଶ୍ରୀମିଶ୍ଵର-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 159R..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ 55L,R..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ବାରମକଣ-ଶର୍ଦ୍ଦ 155R..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ବାରମକଣ 155R..
 ଶ୍ରୀମଦ୍ବାରମକଣ-ଶର୍ଦ୍ଦମିଶ୍ଵର 184R..
 ଶ 113R.

—(457)—

-**ପ୍ରକାଶ** 114L.
କୁମାର-**କୁମାର**-**ପଦି**-**କୁମାର**-**ପଦି** 31L.
 -**କୁମାର**-**ମେଳା**-**ପଦି** 152R.
 -**ପାତା**-**କାନ୍ଧା**-**ଗୁଣ୍ଡା**-**କୁମାର** 155L.
 -**ମହାନ୍ତିର**-**କୁମାର**-**ପଦି**-**ପାତା**-**ମହାନ୍ତିର**-**ପଦି**
କଣାଶ-**ପାତା**-**କୁମାର** 155L.
 -**ମହାନ୍ତିର**-**କୁମାର** 155L.
 -**କୁମାର**-**ପାତା**-**ମହାନ୍ତିର**-**କୁମାର**-**ପଦି** 194R
କୁମାର-**କୁମାର**-**ପାତା**-**ମହାନ୍ତିର** 55L.
 -**କୁମାର**-**ପଦି** 155L..
 -**ପାତା**-**କୁମାର** 113R.
 -**କୁମାର** 114R.
 -**ପାତା**-**ପାତା**-**କୁମାର** 160L..
 -**କୁମାର** 161R.
 -**କୁମାର** 119R., 161R..
 -**ପାତା**-**କୁମାର** 163L..
 -**କୁମାର** 156L..
 -**କୁମାର**-**ପଦି** 113L., 160R..
 -**କୁମାର**-**ପଦି** 161L..
 -**କୁମାର** 165L..
 -**କୁମାର** 151R., 163L..
 -**କୁମାର**-**ପଦି** 159R., 160R..
 -**କୁମାର**=**କୁମାର** 159R., 188L..
 -**କୁମାର**-**ପଦି** 30L., 106R..
 -**କୁମାର** 175L..
 -**କୁମାର** 39L..
 -**କୁମାର** 3R., 31R..

ଶ୍ରୀ 66L, 92R.
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 54R, 70R, 156L, 161L, 162L,
 164L.
-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 164L.
-ଶ୍ରୀ-ଦାତା-ଶ୍ରୀ 70R. -ଶ୍ରୀ-ଷ 156R
-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-କୃଷ୍ଣ 32L.
-ଶ୍ରୀମତୀ 70R.
ଶ୍ରୀ-ଷ = ଶ୍ରୀ 39L, 40L, 48L, 119R, 165L.
-ଶ୍ରୀ-ଅଶ୍ଵି-ଯମ-ର୍ତ୍ତବ୍ୟ 138R.
-ଶ୍ରୀମତୀ-ଯମ 27L..
-ଶ୍ରୀ 40L.
-ଶ୍ରୀ-ଦ 92R.
-ଶ୍ରୀ-ଦା-ପତ୍ନୀ-କ-ଶ୍ରୀ 38R.
-ଶ୍ରୀ-ଷ ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-କୃଷ୍ଣ 14L, 95R.
-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-କୃଷ୍ଣ-ତ୍ରୈନ 95R.
-ଶ୍ରୀ-ଦା-ଦୟ-କୁର୍ତ୍ତେଷ-ଷ 95R.
ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-କୃଷ୍ଣ-ପିତା-ଷ 62R.
-କୃଷ୍ଣ 8L, 83L.
ଶ୍ରୀ-ଦା-ପିତା-ଧର୍ମ-କୃଷ୍ଣ 165L..
ଶ୍ରୀ-ମେଂ 12R, 95R.
-ଶ୍ରୀ-ଷ 95R.
ଶ୍ରୀ-ନନ୍ଦ 135R.
ଶ୍ରୀ-ମହା-ଷ 101R.
ଶ୍ରୀ-ର୍ତ୍ତବ୍ୟ 128R, 129L..
ଦଶତ୍ରୁ 111R.
ଦଶତ୍ରୁ-ଷ 142R.

-କେନ୍-ଦୀ-ଏଣ୍ଡ 145L..
 -କେନ୍-ଏଣ୍ଡ-ମାର୍ଗ-ମେନ୍-ଫିଲ୍-ବୁଝ-ବ୍ୟା
 ୧୫୩-ଥ 102R, 185R.
 -୧୫-ସାର୍ଵ-ମାର୍ଗ-ମେନ୍-ଫିଲ୍ 102R.
 ଫିଲ୍-ବ୍ୟା 107R.
 ଥି-ଏଣ୍ଡ 163L..
 ଥି-ଏଣ୍ଡ-ଶି-ର୍ଷା-ଥ 44R.
 ଖିଲ୍-ଦୀ-ପ୍ଲ୍ୱୁ 101L..
 ଖିଲ୍-ମେଲ୍-ବୁଝ-ନ 72R.
 ନ୍ୟାନ୍-କନ୍ 144L..
 ନ୍ୟାଚ-ଶ୍ରୀ-ବେଳ 50R, 171L..
 ନ୍ୟାନ୍ 151R.
 ନ୍ୟାନ୍-ଦୀ-କେନ୍-ଦୀ 136R.
 ନ୍ୟାନ୍-ଫିଲ୍-ବ୍ୟା 99R.
 ନ୍ୟାଚ-ଶ୍ରୀ-ଶ୍ରେଦ୍ଧ-ଥ 171R.
 ନ୍ୟାନ୍-ସାର୍ଵ-ବ୍ୟା-ଦୀ-ଶ୍ରୀ 171L..
 ନ୍ୟାନ୍-ମେନ୍-ଫିଲ୍-କେଣ୍ଟ 8L..
 ନ୍ୟାନ୍-ରମ୍-ଫିଲ୍-ବୁଝ-ଥ 49L..
 ନ୍ୟାନ୍-କେଣ୍ଟ 83R.
 ନ୍ୟାନ୍-ପା 66L..
 ନ୍ୟାନ୍-ଥ 139R.
 ନ୍ୟାନ୍-ଥ 6R.
 ନ୍ୟାନ୍-ଥ 160R.
 ନ୍ୟାନ୍-ଥ 18R, 95L, 106R, 110R, 151R.
 ନ୍ୟାନ୍-ଥ 16R, 20L, 21R, 47L, 60L, 104L,
 106L, 121R, 156L, 158L, R, 160L.

-ମେଦି 23L.
ଶୁଣ୍ଡି 147L.
ଶୁଣ୍ଡି 197L.
ଶୁଣ୍ଡି 132R.
ଶୁଣ୍ଡିତ୍ରି 147L.
 -ପରିଷାଠି 183L.
ଶୁଣ୍ଡି 63R.
ଶୁଣ୍ଡିବିଜିତ 63L.
ଶୁଣ୍ଡିରୀ 163R.
ଶୁଣ୍ଡି 185L,R.
ଶୁଣ୍ଡି 140L.
ଶୁଣ୍ଡିପା 72L.
ଶୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 185R.
ଶୁଣ୍ଡିର୍ଦ୍ଦିନ 53R, 67R, 68L, 112L.
ଶୁଣ୍ଡିଧର୍ମିଶ 67L.
ଶୁଣ୍ଡିଶୁଭ 63L, 65L, 162R, 190R.
 -ମୈତି 4R.
 -ଧରମମୈତି 6L.
ଶୁଣ୍ଡି 30R.
ଶୁଣ୍ଡି 66L, 140R.
ଶୁଣ୍ଡିଶୁଭିକ୍ଷା 66L.
ଶୁଣ୍ଡିକନ୍ତ 136L.
ଶୁଣ୍ଡିନ୍ଦିଶୁଣ୍ଡିଶୁଭିକ୍ଷା 27L.
ଶୁଣ୍ଡିପା = ଶୁଣ୍ଡି 97L, 182L.
ଶୁଣ୍ଡିଧର୍ମିଶ 97L.
 -ଧରମଶୁଭ 97L, R.
ଶୁଣ୍ଡିଧର୍ମିଶୁଭିକ୍ଷା 97R.
 -ଶୁଣ୍ଡିତ୍ରି 97L.

ଶୁଣ୍ଡି 158R.
ଶୁଣ୍ଡି 119L.

ଶ

ଶ 108L,R.
ଶାନ୍ତିମାନନ୍ଦନତମାଧାରିଶବ୍ଦି 187R.
ଶାମାମଶଦି 187R.
ଶବ୍ଦି 197L.
ଶବ୍ଦିକୁ 19R, 44R, 103R.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିଲୁହି 19R.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିଲୁହି 19R.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିଲୁହି 20L.
ଶବ୍ଦିଶ 123R.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103R.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 19R.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 20L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 20L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 20L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103L.
ଶବ୍ଦିକୁଣ୍ଡିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 103L.

ଶବ୍ଦିଧାରିକୁଣ୍ଡିଲୁହି 103L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକୁଣ୍ଡିଲୁହି 108L.
ଶବ୍ଦିଧାରିମକନ୍ତିର୍ଦ୍ଦିନ 21R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 108L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 64R, 107L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 146L, 188R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 189L. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 189L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 189L. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 101R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 189L. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 189L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 36L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 36L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 67L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 67L. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 159L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 31R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 31R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 178R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 108L. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 871L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 107L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 48L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 14R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 82L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 51R. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 81L. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 118R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 3L. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 51R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 172L, 177R, 179R.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 29L.
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 41R, 121L..
ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 42R. -ଶବ୍ଦିଧାରିକ୍ଷେଷ 13L.

-ਮ. ਘੰਨ. ਧਰੀ. ਸ਼੍ਰੀ. ਧ(or ਧ) 18L, 92R.
 -ਮ. ਘੰਨ. ਧਸ. ਵਾਨੀ 18L.
ਭਖਣਸਾ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਮਨੁ. ਧ.
 ਕੁਦ. ਧ. ਪ. ਧ 42R.
 -ਕੁਦ 117L. -ਘ. ਸੇਖ 116L, 117L.
 -ਘ. ਸੇਖ. ਗੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 42L.
 -ਘ. ਸੇਖ. ਗੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 116R.
 -ਘ. ਸੇਖ. ਕੁ. ਸਾ. ਧ 198R.
 -ਘ. ਸੇਖ. ਨਾ. ਪੇ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ(or ਧ) 117R.
 -ਹੋ. ਧ. ਪਿ. ਘ. ਸੇਖ. ਗੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 117L.
ਭਖਣਸਾ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ.
 117R.
 -ਭਖਣ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 117R.
 -ਭਖਣ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 117L, 193L.
 -ਮਨੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 117L.
 -ਪਿ. ਸੇਖ 41R, 42L, 117L.
 -ਪਿ. ਸੇਖ. ਗੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 42L.
 -ਸੇਖ. ਧ. ਪ. ਧ 116R.
ਭਖਣਸਾ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ.
 116R.
 -ਭਖਣ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 116R.
 -ਭਖਣ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 41R.
 -ਭਖਣ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਾਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ
 42L.
 -ਭਖਣ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਾਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 198L.
ਭਖਣਸਾ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ. ਪ. ਧ 42R.
ਭਖਣ 61R.
ਭਖਣ. ਧ 161L..
ਭਖ. ਧ = ਭਖ 174L, R.
ਭਖ. ਮੈਨ. ਧ 74L. -ਮ 74L..
ਭਖਣ. ਧ 97L, 101R.
ਭਖਣ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ 97L..
 -ਭਖਣ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਤੁ. ਧ 97R.

 ॥

ਭਖ. ਕ 164R.
ਭਖ. ਗ 181L.
ਭਖ. ਮ 65L. -ਮੀ. ਰ 65L..

-ਭੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 42R.
 -ਭੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 42L.
 -ਭੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ. ਮੇਖ. ਧ 42L.
 -ਭੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ 41R. -ਭੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ 41R.
 -ਭੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 117L.
 -ਕੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਨਾ. ਧ. ਪਿ. ਤੁ. ਧ 74R.
 -ਕੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ 41R.
 -ਕੁ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਿ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 42L.
ਭਖਣਸਾ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 41R.
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 41R.
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਿ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 42L.
ਭਖਣਸਾ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 41R.
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 41R.
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਿ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ
 42L.
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਿ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 198L.
ਭਖਣਸਾ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 42R.
ਭਖਣ 61R.
ਭਖ. ਧ 161L..
ਭਖ. ਧ = ਭਖ 174L, R.
ਭਖ. ਮੈਨ. ਧ 74L. -ਮ 74L..
ਭਖਣ. ਧ 97L, 101R.
ਭਖਣ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ 97L..
 -ਭਖਣ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਤੁ. ਧ 97R.

-ਭੁ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 65L. -ਮੀ. ਰ 65L..
ਭ. ਵਾ. ਨਾ. ਮਨੁ. ਧ 196R.
ਭਾ 120L. -ਮੈਨ. ਧ 99L..
ਭਾ. ਮਨੁ. ਧ 27L, 154L.
 -ਭੁ. ਧ 154L. -ਭੁ. 154L..
 -ਭੁ. ਤ੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ 154L..
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਿ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 48R.
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਿ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 67L..
 -ਭੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ. ਸੇਖ. ਮਿ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 51R..
ਭਾ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 17R..
ਭਦ. ਕੁ. ਧ 18R. -ਮੈਨ. ਧ 10R, 18L..
 -ਮੈਨ. ਧ. ਪ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 100L..
 -ਮੈਨ. ਧ. ਪ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ. ਪ. ਧ 100L..
ਭਦ. ਕੁ. ਧ 18R..
ਭਦ. ਧ. ਸ਼੍ਰੀ. ਮਨੁ. ਧ 185R, 189L, R.
ਭ 108R. -ਮੀ. ਧ 71R..
ਭ. ਨਾ. ਧ 20R, 99R. -ਮੀ. ਧ 82R..
ਭ. ਮੈਨ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 67L..
ਭ. ਮੀ. ਮਨੁ. ਧ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ 109L..
ਭ. ਮੁ. ਧ. 64R, 122R. -ਮੁ. ਮੁ. ਧ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ 44L..
ਭਦ. ਧ 182R..
ਭਦ. ਮੈਨ. ਧ 189L..
 -ਭਦ. ਧ. ਤ੍ਰੀ. ਧ 189L..
ਭਮ. ਧ 66L. -ਕ 57R..
 -ਭ. ਮਨੁ. ਧ. ਪ. ਧ 66L..
ਭਮ. ਧ. ਪ 62L. -ਭਮ. ਧ. ਪ. ਧ. ਪ 62L..
ਭ 101L, 166R. -ਮੀ. ਧ 57R..

ཆෂ' པෂ' ອද' ດඩ' ດඩ' ດඩ' 124L.
 ດෂ' 160R.
 ອද' ດ= ອද' 24R, 46L, 47R, 71R, 119L,
 154R, 158R, 180L, 181R.
 ດ' ດ' 59L.
 ດ' ດ' 113L, 114L, 161R. - ດ' 164R.
 - ດ' ດ' 180R.
 - ດ' ດ' 162L.
 - ດ' ດ' 105L.
 - ດ' ດ' 31R.
 - ດ' ດ' = ດ' 32L, 98L, 160L.
 ດ' ດ' 153R, 186L.
 ດ' ດ' ດ' 34L.
 ດ' ດ' = ດ' 47R, 54L, 56L, 58R, 67R,
 173L.
 - ດ' ດ' 56R.
 - ດ' ດ' 3R.
 ດ' ດ' ດ' 3R, 60L.
 ດ' ດ' 96L.
 ດ' ດ' 78L.
 ດ' ດ' 114L.
 ດ' 50L.
 ດ' ດ' 81L.
 ດ' ດ' = ດ' 20L, 151L, 156L, 160L.
 ດ' ດ' 127R, 159L.
 - ດ' ດ' ດ' 59L.
 ດ' ດ' ດ' 128L.
 ດ' 121R, ດ' ດ' 86L.

ດ' ດ' ດ' ດ' ດ' 28L.
 ດ' ດ' ດ' 145L.
 ດ' ດ' ດ' 26R.
 ດ' ດ' 45R.
 ດ' ດ' ດ' 15R.
 ດ' ດ' 64R.
 ດ' ດ' ດ' ດ' 4R.
 ດ' ດ' ດ' 64R.
 ດ' 41L.
 ດ' ດ' ດ' ດ' 18L.
 ດ' ດ' ດ' 48L.
 ດ' ດ' ດ' ດ' 41L.
 ດ' 140L..
 ດ' 126R, 133L..
 ດ' ດ' ດ' 133L. - ດ' ດ' 136L..
 ດ' ດ' ດ' 126L.
 ດ' ດ' ດ' 23L.
 ດ' 188L..
 ດ' ດ' ດ' 40L..
 ດ' 140R. ດ' ດ' 27L.
 ດ' ດ' 126R.
 ດ' 152L.
 ດ' ດ' = ດ' 25R.
 ດ' ດ' ດ' 152L.
 ດ' ດ' 152L..
 ດ' ດ' 44R, 45L, 80L, 91L.
 - ດ' ດ' 14L.
 - ດ' ດ' 21L, 105R.

ດ' ດ' ດ' 44R..
 - ດ' 44R..
 - ດ' ດ' ດ' 44R..
 ດ' ດ' 137L..
 ດ' ດ' ດ' 39R.
 ດ' ດ' 152L..
 ດ' ດ' ດ' ດ' ດ' 152L..
 ດ' ດ' ດ' ດ' ດ' 77L.
 ດ' ດ' ດ' 133R..
 ດ' 8R. ດ' ດ' 80R.
 ດ' ດ' ດ' 168R..
 ດ' ດ' 160R..
 - ດ' 31R..
 ດ' ດ' ດ' 161L..
 ດ' 195L..
 ດ' ດ' 80R..
 ດ' 37R, 155R, 173L..
 - ດ' ດ' 173L..
 ດ' ດ' 80R..
 ດ' ດ' 132L..
 ດ' 154L..
 ດ' ດ' 119L..
 ດ' ດ' 98L..
 ດ' ດ' 146R.

ດ' ດ' 136L..
 ດ' ດ' 38L, 39L, 43L, 46L, 72R,
 100R, 121R, 131L, 181R..
 - ດ' ດ' ດ' ດ' 136L..
 - ດ' ດ' 183R..
 - ດ' ດ' ດ' 91L, 136L..
 - ດ' ດ' 131R..
 - ດ' ດ' 35L, 97R..
 - ດ' ດ' 131R, 132R..
 - ດ' ດ' 26R..
 - ດ' ດ' 26R..
 - ດ' ດ' 131R..
 ດ' ດ' 131R..
 ດ' ດ' 128R..
 ດ' ດ' 26R..
 ດ' 159R..
 ດ' ດ' 56R, 122R, 133R, 160R,
 168L, 197R..
 - ດ' ດ' 121L..
 - ດ' 122R..
 - ດ' 122R..
 - ດ' ດ' 23L..
 - ດ' 34R..
 - ດ' 122R..
 ດ' ດ' 122R..
 ດ' 39L, 133R, 138L..
 ດ' 89R. ດ' ດ' 79R..
 ດ' ດ' = ດ' 35L, 39R, 49L, 123L,
 173R, 181L.

ବ୍ୟୋଧ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-କ୍ରିଷ୍ଣ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ	181L.
ବ୍ୟୋଧ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-କ୍ରିଷ୍ଣ	181L.
ବ୍ୟୋଧ	7L..
ବ୍ୟୋଧ-ନର୍ତ୍ତନ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-କ୍ରିଷ୍ଣ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-କ୍ରିଷ୍ଣ	
କ୍ରିଷ୍ଣ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-କ୍ରିଷ୍ଣ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-କ୍ରିଷ୍ଣ-ଦ୍ୟୁମ୍ୟ-କ୍ରିଷ୍ଣ	31L..
ଦ୍ୟ	102L..
ଶ୍ଵର-ଦ୍ୟ	77L..
ଶ୍ଵର-ଦ୍ୟ	162L..
ଶ୍ଵର-ଦ୍ୟ	81R..
ଶ୍ଵର-ଦ୍ୟ	172L..
ଶ୍ଵର-ମ	133L..
ଶ୍ଵର-କ୍ଷ	62L., 133R..
ଶ୍ଵର-ମ	64L..

୫

ମୁଦ୍ରା	141R.	ମୁଦ୍ରା	141R.	ମୁଦ୍ରା	137R.
ମନ୍ତ୍ରଶ୍ଵର	ମନ୍ତ୍ରଶ୍ଵର	ଏ	6L., R., 15R.		
-କ୍ଷେତ୍ର	ଏ	6R.			
-ଧୈର୍ଯ୍ୟ	କ୍ଷେତ୍ର	ଧୈର୍ଯ୍ୟ	15R.		
ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ	137R.	ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ	15L..		
ମନ୍ତ୍ରପ	27L..	ମନ୍ତ୍ରପ	14R..		
ମନ୍ତ୍ରବ୍ରତ	ବ୍ରତ	ମନ୍ତ୍ରବ୍ରତ	(ମେନ୍ ?)	33R.	
ମନ୍ତ୍ରକଣ୍ଠ	30L..	ମନ୍ତ୍ରକଣ୍ଠ	31L..		
ମନ୍ତ୍ରକିଳା	କିଳା	ମନ୍ତ୍ରକିଳା	100R.		
ମନ୍ତ୍ରକୁଣ୍ଡ	କୁଣ୍ଡ	ମନ୍ତ୍ରକୁଣ୍ଡ	49R..		

ਮ' ਬਣਾ'ਦੁ' ਧਵਿਆ'ਦ	178L.	ਮ' ਅੜ੍ਹਦਾ'ਦ	7R.
ਮ' ਮਾਰ੍ਹਿਆਦ	158R.		
ਮ' ਧਤਿਆਦ	7L.		
ਮ' ਧਤਿਆਦ' ਧਦ' ਧਨੀਆ'ਦ	22L.		
ਮ' ਕੱਥਾਦ	11L., 23L., 35L.		
ਮ' ਧਤਾਦ	31R.	ਮ' ਮਡੇਈਦ	123L.
ਮ' ਕਣਾਦ	39R.	ਮ' ਧਨੀਨ'ਦ	16L.
ਮ' ਨਾਦ	32R., 33L.	ਮ' ਧਨੀਨ'ਦ	33R.
ਮ' ਜਿਦਾਦ	41R.	ਮ' ਪਲਾਦ	3R.
ਮ' ਪੂਰ੍ਦ-ਦ = ਮ' ਪੂਰ੍ਦ	35L., R.		
ਮ' ਨੁਦਾਦ	18R.	ਮ' ਧੰਮੀਆਦ	16R.
ਮ' ਧਵੰਨਾ'ਦਦ' ਧਨੀਨ	32R.		
ਮ' ਧੰਦਾਦ	11R., 40R.		
-ਕੁਝਾਦ ਧਲਾਦ	82L.		
ਮ' ਕੰਦ-ਦ	164L.		
ਮ' ਰੰਣ-ਕੁ-ਦ	31R.	ਮ' ਰੰਣ-ਦ	31L.
ਮ' ਘਾਡ	64L., 185R.		
ਮ' ਘਾਡ-ਕੋ-ਮੈ	148R.	ਮ' ਘਾਡ-ਫਿ-ਸੰ	148R.
ਮ' ਘੁਕਾਦ	93R.	ਮ' ਖੁਦਾਦ	27R.
ਮ' ਧਨੀਨ'ਦ	30L.	ਮ' ਖੁਦ-ਦ	20L., R.
ਮਦ' ਨੁ' ਬੱਧਾਦ	123R., 124R.		
ਮਦ' ਧੈ	112L., 123R.		
ਮਦ	66L., 80R., 91R.	ਮਦ-ਮੈ	11L., 82L.
ਮਦ' ਧਨੀਨ'... ਸ਼ਾਕ-ਨ੍ਦ ਕੋ-ਭਨ-ਤੈਣ	184R.		
ਮੈ	71R., 91L., 134L., 138L..		
ਮੈਂ ਕੈ	34R.	-ਧਰੀ-ਕੌਣ	16L..
-ਧੜ੍ਹਦ-ਦ	61R.	-ਖੁ-ਦ	16L..
ਮੈਂ ਅਪਣਾ-ਦ	3R., 27R., 31L., R., 127L..		

ਮੀ-ਵਾਣੀ-ਧ	3R, 58L..
ਮੀ-ਅਸ਼ਟ-ਨਵਾਂ-ਧ	97R.
ਮੀ-ਗੁਰੂ-ਨ	31L..
ਮੀ-ਕਲਦ-ਧ	30L..
ਮੀ-ਕਲ-ਨ	16L, 32R.
ਮੀ-ਕਲ-ਿ	31R.
ਮੀ-ਕਲ-ਿ	184R.
ਮੀ-ਕਲ-ਿ	22R.
ਮੀ-ਅਤਮ-ਕੂ	162L..
ਮੀ-ਅਤਮ-ਧ	162L..
ਮੀ-ਅਤਮ-ਧਰੀ	162L..
ਮੀ ਅਤਮ-ਧਰੀ-ਭੇਦ-ਧ	3R.
-ਘੜ-ਕੋ-ਨ-ਧ	3R.
ਮੀ-ਕਸ-ਧ	13R, 14L, 32R, 44R.
ਮੀ-ਕਸ-ਧਵੀ-ਕੌ	14L, 32R..
-ਖੇਤ	14L..
ਮੀ-ਕਸ-ਧ	3L..
ਮੀ-ਕਸ-ਧ	67R..
ਮੀ-ਬ-ਨ	25L..
ਮੀ-ਮਹੂਨ-ਧਵੀ-ਭੇਣ	152R..
ਮੀ-ਮਹੱਦ-ਧ	8L..
ਮੀ-ਨ	163L..
ਮੀ-ਨਵੀ-ਮਹੰ	164R..
ਮੀ-ਖੜ-ਧ	162R..
ਮੀ-ਖੜ-ਧ	33L..
ਮੀ-ਮਨਸ-ਧ=ਮੀ-ਸਨਸ	11R, 13R, 14R, 22L..
ਮੀ-ਖੜ-ਧ	8L..
ਮੀ-ਕੁਣ-ਧ	37L..
ਮੀ-ਨਵੀ	48R..
ਮੀ-ਗੁਰੂ-ਨ	14R, 22R, 23L..
ਮੀ-ਧਰੀ-ਸੈ-ਕੁਣ	23R..
ਮੀ-ਸ-ਧਿਨ	27L..
-ਮੈ	27L..
ਮੀ-ਕੁਣ-ਧ	10L, 22L..
ਮੀ-ਵੈਸ਼ੀਨ-ਧ=ਮੀ-ਵੈਸ਼ੀਨ	11L, 16L, R, 49L..
-ਧਰੀ-ਸਹੰ-ਤ੍ਰੰਨ	4R..

- ଶ୍ରୀ-କୃଷ୍ଣ - ପତ୍ର 78R.	ମେଦି-ପତ୍ର 79L..	ମେଦି-କୁ-ପତ୍ର 4R.	କୁ-ପତ୍ର 160L, 163L, 166L, 181R.	କୁ-ପତ୍ର 74L.
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 78R.	ମେଶ 109R.		କୁ-ପତ୍ର 60R.	କୁ-ପତ୍ର 169R.
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 78R.	ମେଶ 151L..	- ପା-ପତ୍ର 151L..	କୁ-ପତ୍ର 132R.	ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 169L., R.
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 78R.	ମେଶ 141L, 158L..		କୁ-ପତ୍ର 131L..	ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 169R.
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 78R.	ମେଶ 112L..		କୁ-ପତ୍ର 135L, 140L..	ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 168L..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 78L..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..	- କୁ-ପତ୍ର 135L..	- ପତ୍ର 184L..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 78L..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 78L..		- କୁ-ପତ୍ର 27L..	ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 152R..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 141L..		କୁ-ପତ୍ର 135L..	ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 112L..		କୁ-ପତ୍ର 140L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 14R..		କୁ-ପତ୍ର 119L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 178R..	ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 95L..	- କୁ-ପତ୍ର 93L..	କୁ-ପତ୍ର 189R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		- କୁ-ପତ୍ର 22L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		- କୁ-ପତ୍ର 112R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 48L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 72L, 120L, 150R, 151R, 153R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 136R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 153R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 24L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		- କୁ-ପତ୍ର 24L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 24L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 110R, 119R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 105R..	କୁ-ପତ୍ର 123R..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		- କୁ-ପତ୍ର 86L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 79L, 149L, 163R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 174R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 52R..	- କୁ-ପତ୍ର 64R..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		- କୁ-ପତ୍ର 99R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 137R, 138L..	କୁ-ପତ୍ର 67L..
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 137R..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 67L..	
- ନ୍ରୀ-ତ୍ରି-ପତ୍ର 57R..	ଶ୍ରୀ-ପତ୍ର 98L..		କୁ-ପତ୍ର 127R..	- କୁ-ପତ୍ର 127R..

କନ୍ଦା-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 128L. -ଶ୍ରୀ-ଧି 127R.
କନ୍ଦା-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 127R.
-ବ୍ୟକ୍ତି-ଧି 127R. -ଶ୍ରୀ-ଧି 127R.
କନ୍ଦା-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 127L.
କନ୍ଦା 119R.
କନ୍ଦା-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 127L.
କନ୍ଦା-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 153L.
କନ୍ଦା-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି=କନ୍ଦା-ଧର୍ମ 11L., 22R.
କନ୍ଦା-ଧର୍ମ 151L.
କଣ୍ଠ 9L., 65R., 96L., 102L., R., 150R., 152R.,
153L..
କଣ୍ଠ-ବ୍ୟକ୍ତି 106R.
କଣ୍ଠ-ରତ୍ନ 152R., 153L..
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ 96L..
-କଣ୍ଠ 102R., 107R.
-କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 25R.
-କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 153L..
-କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 153L..
-କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 153L..
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 33R.
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 102R.
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 152R..
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 67L..
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 153L..
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 80R..
କଣ୍ଠ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି-ଶ୍ରୀ-ଧର୍ମ-ବ୍ୟକ୍ତି 63R., 64L..

-ସତ୍ୟଧରୀ-ଦ୍ୱାରା 64L.
କୁଞ୍ଚିତମିଶ 169L.
 -ଶ୍ରୀ-କୌଣ୍ଠ 169L.
 -ଦ୍ଵା-ବନ୍ଦୁଷା-ଶ୍ରୀମିଶ 169L.
 -ଶେଦ-ଧରୀ-କୌଣ୍ଠ 33R.
କେ 41L.
କେ-ଧରୀ-ଧ-ପଦି-ପଦି-କ୍ଷଣ-ଶ୍ରୀମିଶ-ଦ୍ୱାରା 83L.
 -ଦ୍ଵା-ବନ୍ଦୁ-ଶକ୍ତି-ଧ 83R.
କେ-ଧରୀ-ଧ-ପଦି-ପଦି-ଶକ୍ତି-ଧ 83R.
କେ-ଦ୍ଵା-ଶବ୍ଦ-ପଦି-ଶବ୍ଦ-ଶକ୍ତି-ଧ 83R.
ଦା-ବନ୍ଦୁ-ଧ 74R.
କେନ-ମ-କ୍ଷ-ଧ 79R.
କୁଞ୍ଚିତମିଶ 53L, 62R, 151L, 181R.
 -ଦ୍ଵା-ବନ୍ଦୁ-ଧ 63L..
କୁଞ୍ଚିତମିଶ 185R. କେ-ଦ୍ଵା-ଶକ୍ତି 171R.
କେନ-ଧ 128L.. ଅକ୍ଷର-ଶ୍ରୀ-ମହିଳା 148R.
ଅକ୍ଷର-ଶିଖ 147L.
 -ଶ୍ରୀ-ଶ୍ରୀ 148L. -ଶ୍ରୀ-ଦ୍ୱାରା-ଧ 148L..
 -ଶ୍ରୀ-କୌଣ୍ଠ 148L. -ଶ୍ରୀ-ଧ 148L..
 -ଶବ୍ଦ-ଧ-ଶିଖ 148L.. -ପତ୍ର 33R..
 -ଦ୍ଵା-ଶବ୍ଦ-ଶିଖ 148L.. -ପଦି-ଶବ୍ଦ-ଧ 164L..
 -ଶ୍ରୀ-ଶବ୍ଦ-ଶିଖ 148L.. -ପଦି-ଶବ୍ଦ-ଧ 25L..
 -ଦ୍ଵା-ଶବ୍ଦ-ଶିଖ 148L.. -ଶକ୍ତି-ଶବ୍ଦ-ଧ 148L..
 -ଶ୍ରୀ-କୁଞ୍ଚିତମିଶ-ଶ୍ରୀ-ଦ୍ୱାରା-ଧ-ଶବ୍ଦ-ଶିଖ
 ଧ-ଶବ୍ଦ-ଧ 148L..
 -ଶେଦ-ଶବ୍ଦ-ଶ୍ରୀ-ଦ୍ୱାରା-ଧ 601R..
 -ଶେଦ-ଶବ୍ଦ-ଶ୍ରୀ-ଦ୍ୱାରା-ଧ-ଶବ୍ଦ-ଶିଖ 22R..

-ମେନ୍-ଧର୍ମି-କୀଣ	29R.		
-ଶୁଦ୍ଧ-ମେନ୍-ଧ	51L..		
-ଶାଶ୍ଵତ	148L..		
ଶକ୍ତ-ନ୍ଦ୍ର-ଭୂତ-ଧ	148L..		
ଶକ୍ତ-ନ୍ଦ୍ର-ଶକ୍ତ-ଶ୍ରୀ-ମହି	148R..		
ଶକ୍ତ-ମ	94R, 149L, 174R..		
-ମେନ୍-ଧର୍ମ-ପଦି-ଧ	14L..		
-ମେନ୍-ଧ = ଶକ୍ତ-ମେନ୍	14L., 39R..		
-ମେନ୍-ଧର୍ମି-କୀଣ	14L..		
ଶକ୍ତ-ମହି-କୀଣ	94R..		
ଶକ୍ତ-ନ୍ଦ୍ର-ଶାଶ୍ଵତ-ଭୂତ-ଧାତ୍ରିକ	86R..		
ଶକ୍ତମଶ-ଶ୍ରୀ-ଧ = ଶକ୍ତମଶ-ଶ୍ରୀ	177I..		
-ନ୍ଦ୍ର-ଶକ୍ତମଶ-ଶ୍ରୀ-ଧାତ୍ରି-ଭାଷା-ଧ	177L..		
ଶକ୍ତମଶ-ଶ୍ରୀ-ଧାତ୍ରି-ଶକ୍ତ-ତ୍ରୈନ-ମେନ୍	35L..		
ଶକ୍ତମଶ-ମେନ୍-ଧ	10R..		
-ମର୍ତ୍ତକ-ଧର୍ମ-କ୍ରୀତମଶ-ଧ	26L..		
-ତ୍ରୈନ-ଧ	39R..		
ମର୍ତ୍ତକ-ଶ	111R, 178L, 179R..		
ଶକ୍ତକ-ଶ୍ରୀ-ମଧ୍ୟମ	167R..		
ମର୍ତ୍ତକ-ଧ	128L..	ମର୍ତ୍ତକ	47R..
ମର୍ତ୍ତକ-ଧ	49L..	ମର୍ତ୍ତକ-ଧ	52L..
ମର୍ତ୍ତକ-ଧର୍ମ-ମଧ୍ୟମ	48R..		

ଶିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୀଣ 61R.
 ଶିଦ୍ଧମେଦ୍ସିକ୍ଷେଣ 4L.
 ଶିଥାନ୍ 94R, 188L.
 ଶୁଣିଷା ଧର୍ମପ୍ରଦୟନ୍ ଯଦ୍ୟମେଦ୍ 22R.
 ଶିଖିନ୍ 87L. ଶି 56R.
 ଶିଥାନ୍ତିଷ୍ଠାନ୍ 39R, 189R.
 -ଧର୍ମଶିରିତ୍ସମ୍ବନ୍ଧନ୍ 39R.
 ଶିରିନ୍ 19J., R. ଶିରିନ୍ତୁଳ 19L..
 ଶିରିନ୍ (ଶିରିନ୍ତୁଳିନ୍) 20R.
 ଶିରିନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ 76R, 102R, 108J..
 -ଶିରିନ୍ତୁଳ 103L.
 ଶିରିନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସିନ୍ଦ୍ରନ୍ଧାନ୍ 20R.
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ସମସ୍ତନ୍ ନ 19R.
 -ନୁହୁନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧନ୍ 19R.
 -ନେତ୍ରପ୍ରେତ୍ 127L..
 ଶିରିନ୍ ନ୍ଦନ 77L..
 ଶିରିନ୍ ମିତ୍ରମରି 103R.
 ଶିରିନ୍ ଶିଶୁ 103L..
 ଶିରିନ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମନ୍ 103L..
 ଶିରିନ୍ ମେଦ୍ସିନ୍ଦ୍ରନ୍ଧାନ୍ 136R.
 ଶିରିନ୍ ଶିରିନ୍ 166R. ଶିରିନ୍ ନ 41L..
 ଶିରିନ୍ ନନ୍ଦନ୍ 157R.
 ଶିରିନ୍ ନନ୍ଦନ୍ 196R. ନନ୍ଦନ୍ 136R.
 ଶିରି 67L.. ଶିରିନ୍ 67L..
 (ଶିରିନ୍ଦ୍ରି) ଶିରିନ୍ଦ୍ରିନ୍ ଧର୍ମଶିରିନ୍ କ୍ରମ
 ଧର୍ମଶିରିନ୍ ମିତ୍ରନ୍ ଯଦ୍ୟମନ୍ତ୍ର 67L..
 ଶିରିନ୍ 157R. ଶିରିନ୍ 20R.

ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଣ 67R.
 ୩
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷେଣ 19L..
 -ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷେଣ 10R..
 ଶିରିନ୍ 185R. -ଶିରିନ୍ 18R..
 ଶିରିନ୍ 40R.
 ଶିରିନ୍ 55R, 75R. ଶିରିନ୍ 61R..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷେଣ 61R..
 ଶିରିନ୍ 64J.. ଶୁକ୍ଳ 52R, 164R..
 ଶିରିନ୍ 128L.. ଶିରିନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ 58R..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ର 18R, 145L..
 ଶିରିନ୍ 73L.. ଶିରିନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ 108L..
 ଶିରିନ୍ 49R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 25L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ଧର୍ମନ୍ 66J..
 ଶିରିନ୍ 67R, 98R, 188R.
 -ଶିରିନ୍ 188R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 67R. ଶିରିନ୍ 188R..
 ଶିରିନ୍ 21R.. ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 109R..
 ଶିରିନ୍ 137R.. ଶିରିନ୍ 158R..
 ଶିରିନ୍ 58L.. ଶିରିନ୍ 87L..
 ଶିରିନ୍ 181R.

ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଣ 146R..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 147L.. -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 147L..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 147L..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 146R, 156L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ 37R, 113L, R..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 125L.. -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 23L..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 23L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ 125L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 68L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ 123R..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 146R..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ 146R, 162L..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 162L..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 136R..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ 125L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ 28L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ର 28L, 31L..
 -ଶିରିନ୍ 41L.. -ଶିରିନ୍ 41L..
 -ଶିରିନ୍ 41L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ର 41L, 76R, 147L..
 ଶିରିନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିନ୍ 146R..
 ଶିରିନ୍ 47R, 65R..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 5L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 65L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 57L, 108R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 178L..
 ଶିରିନ୍ 44L..
 ଶିରିନ୍ 54R, 119R, 168R.

ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ନୁହୁନ୍ 168R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ନୁହୁନ୍ 168R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ନୁହୁନ୍ 168R.. ଶିରିନ୍ 61R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ନୁହୁନ୍ 61R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ନୁହୁନ୍ 61R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ନୁହୁନ୍ 59R, 96R, 97L, 98R,
 158R, 166L, 172R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ ନୁହୁନ୍ 166L.. -ଶିରିନ୍ 166L..
 ୩
 ଶିରିନ୍ 50L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 147L.. ଶିରିନ୍ 61R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 8L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 11L, 53R.. -ଶିରିନ୍ 53R..
 ଶିରିନ୍ 38L.. ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 64L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 68R..
 ଶିରିନ୍ 38L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 102R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 40R..
 -ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 40R..
 ଶିରିନ୍ 3L, 57L, 79L, 135L, 145L..
 ଶିରିନ୍ 57L..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 130R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 122R..
 ଶିରିନ୍ ନୁହୁନ୍ 144R..

ୟାମକନ୍ତିକନ୍ତ 108L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାତ୍ରିନ୍ 74R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାତ୍ରିଶବ୍ଦିନ 142L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାହେତୁଷ୍ଟବ୍ରତୀପ 75L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାମସନ୍ 131R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାମସନ୍ 74R, 142L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାନ୍ତର୍ବନ୍ଧାପ 74R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାମନ୍ତର୍ବନ୍ଧାତ୍ରିନ୍ତିକନ୍ତିନ୍ (ନ୍ତି)
 142R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପ 75L, 76R, 181R.
 -ହିଂକାରିପାତ୍ରିନ୍ 142R.
 -ହିଂକାରିପାତ୍ରିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତି
 142L.
 -ହିଂକାରିପାତ୍ରିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତିନ୍ତି
 141R.
 -ମ୍ପିନ୍ 35L. -.....ମିନ୍ 27R.
 -ମ୍ପିନ୍ଦିପରିକ୍ଷେଣ 26R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପରିମସନ୍ 131L..
 -କ୍ଷେଣ 131L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପରକ୍ଷେଣ 91L.
 -ହିନ୍ଦୁଷ୍ଟନ୍ 120R. -ମନ୍ତ୍ରି 48R.
 -ହିନ୍ଦୁଷ୍ଟାପ 181R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପରିହିତାପରିପରିହିତ 181L.
 -ଶଦ୍ଵାନ୍ତିନ୍ 181L.
 -ଶଦ୍ଵାନ୍ତିନ୍ 126L, 182L.

ୟଦ୍ବନ୍ଧାପରିହିତାପରିହିତାପରିହିତ 181L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପରିହିତାପରିହିତ 75L.
 -ମ୍ପିନ୍ 26R.
 -ମ୍ପିନ୍ଦିପରିହିତାପରିହିତ 26R.
 -ମେଶ 181L.
 -ମେଶାପରିହିତ 75L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପର 50R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପରିହିତ 21R.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପରିହିତାପରିହିତ 111L..
 ଯନ୍ତ୍ରପଥ 30R. -ମୀଳିକ୍ଷେଣ 5L.
 -ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରାମ୍ପିଲ୍ପନ
 -ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରାମ୍ପିଲ୍ପନ 86R.
 -ମେଦିପରିକ୍ଷେଣ 10L.
 ମ୍ପିନ୍ 4L, 165L.
 -ମେଦିପରିକ୍ଷେଣ =ମେଦ 4L, 10L, 95L.
 -ମୁକ୍ତାପରିହିତାପରିହିତ 10L.
 -ମୁଦ୍ରାପରିହିତ 4L. -ମେଦିପରିକ୍ଷେଣ 10L.
 -ମୁଦ୍ରାପରିହିତ 4L.
 ମ୍ପିନ୍ଦିପରିହିତାପରିହିତ 4L. -କ୍ଷେଣ 4L..
 ମ୍ପିନ୍ଦିପରିହିତାପରିହିତ 4L.
 -ମ୍ପିନ୍ଦି 10L. -କ୍ଷୁଦ୍ରାପ 4L.
 ଯଦ୍ବନ୍ଧାପରିହିତ 122R. ମ୍ପିନ୍ 133R, 134L..
 ମ୍ପିନ୍ଦିପରିହିତାପରିହିତ 134L..
 -ମୁଦ୍ରାପରିହିତାପରିହିତ 134L, 180L.
 -ମୁକ୍ତାପରିହିତାପରିହିତ 134R.
 -ମୁକ୍ତାପରିହିତାପରିହିତ =ମୁକ୍ତାମେଶାପର 133R,
 134R.

-ମୁକ୍ତାମେଶାପରିହିତାପରିହିତ 134R.
 -ମୁଖ 73R, 134L.
 -ମୁଖାପରିହିତାପରିହିତ 89R.
 ମ୍ପିନ୍ଦିକ୍ଷେଣାପରିହିତାପର 83L..
 ମ୍ପିନ୍ଦିକ୍ଷେଣାପରିହିତାପର 134R.
 -ମ୍ପିନ୍ଦିକ୍ଷେଣାପରିହିତାପର 134L.
 -ମୁକ୍ତାମେଶାପରିହିତ 138R.
 ମ୍ପିନ୍ଦିକ୍ଷେଣାପରିହିତ 50L..
 ମ୍ପିନ୍ଦିକ୍ଷେଣାପରିହିତ 133R..
 ମ୍ପିନ୍ଦିକ୍ଷେଣାପରିହିତ 140R..
 ମ୍ପିନ୍ଦିମେଶାପରିହିତ 70R, 162L..
 ମ୍ପିନ୍ଦିନ 134R..
 ମୁଦ୍ରାମ୍ପର 184R..
 ମୁକ୍ତାମେଶାପର 71L, 82L..
 ମୁକ୍ତାମେଶାପର 82L..
 -ମୁଦ୍ରାମ୍ପର 51L..
 ମୁଖ 84R, 162L, 180L..
 ମୁଖାପରିହିତ 84R..
 ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 107L..
 ମୁଖାମ୍ପରିହିତାପରିହିତାପରିହିତ 162R..
 ମୁଖାମ୍ପିନ୍ 32L..
 ମୁଖାମ୍ପିନ୍ଦିପରିହିତାପର 85L..
 ମୁଖାମ୍ପରିହିତାପରିହିତାପରିହିତ 162R..
 ମୁଖାମ୍ପିନ୍ 73R..
 ମୁଖାମ୍ପିନ୍ 73R..
 -ମୁଦ୍ରାତ୍ରିନ୍ 74L..
 -ମୁକ୍ତାମ୍ପର 73R, 112R..

-ମୁକ୍ତାମ୍ପର 73R..
 ମୁଖାମ୍ପିନ୍ଦିପରିହିତ 73R..
 -ମୁକ୍ତାମ୍ପର 73R..
 -ମୁକ୍ତାମ୍ପରିହିତାପରିହିତ 73R..
 -ମୁକ୍ତାମ୍ପରିହିତାପରିହିତ 6R..
 -ମୁକ୍ତାମ୍ପରିହିତାପରିହିତ 73R..
 -ମୁକ୍ତାମ୍ପରିହିତାପରିହିତ 5R..
 ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 106L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 106L. -ମୁକ୍ତାମ୍ପର 105L..
 -ମୁଖାମ୍ପର 105L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତାପରିହିତ 105L..
 -ମୁଖାମ୍ପର 106L..
 -ମୁଖାମ୍ପର 105L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 104L..
 -ମୁଖାମ୍ପର 106L. -ମୁଖାମ୍ପର 104L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 21L.. -ମୁଖାମ୍ପର 20R..
 -ମୁଖାମ୍ପର 21L.. -ମୁଖାମ୍ପର 135R..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 20R, 21L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 105R..
 -ମୁଖାମ୍ପର 105R, 106L..
 -ମୁଖାମ୍ପର 106L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 106L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 104R.. -ମୁଖାମ୍ପର 104R, 105L..
 -ମୁଖାମ୍ପର 105L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 105L..
 -ମୁଖାମ୍ପରିହିତ 105L..

-**କ୍ଷା-ପ** 93L. -**କ୍ଷା-ପ** 93L.
 -**ଶୁ-ପ** 176L.
 -**ପଶୁ-କ୍ଷମା-ଦ୍ୟ-ଶ୍ରୀ-ପ** 36L.
ପ୍ରଦ୍ୟନ୍ତରୀକ୍ଷିତି-ମେନ୍ଦ-ପ 175L.
 -**ନ୍ଦ-ମେନ୍ଦ-ପ** 93L., 177L.
 -**ନ୍ଦ-ମେନ୍ଦ-ଧ୍ୱନି-ଶ୍ରୀ-ପ** 176L.
 -**ନ୍ଦ-ମେନ୍ଦ-ଧ୍ୱନି-ଶୁ-ପ** 93L.
 -**ଯୁ-ମ-ପିନ୍-ମେନ୍ଦ-ଧ୍ୟ-ଦ-ମ-ଫିନ୍** 90R.
 -**ପ-ଶନ୍ତି-ପ** 36L.
ପ୍ରଦ୍ୟନ୍ତରୀକ୍ଷିତି-ନ୍ଦ-କ୍ଷମା-ପ 36L.
ପ୍ରଦ୍ୟନ୍ତରୀକ୍ଷମା-ପ 36L.
 -**ନ୍ଦ-ମେନ୍ଦ-ପ** 92R.
ପ୍ରଦ୍ୟନ୍ତରୀକ୍ଷମା-ପ୍ରୀତି-ଶ୍ରୀ-ପ 176R.
 -**ମ-ଫିନ୍-ଧ୍ୱନି-ଶ୍ରୀ-ପ** 34R.
ପ୍ରଦ୍ୟନ୍ତରୀକ୍ଷମା-ପ୍ରୀତି-ଶ୍ରୀ-ପ 93L.
ପ୍ରନ୍ତର 64R. -**ତର** 64R.
 -**ନ୍ଦ-ମୋହା-ଦ୍ୟ-ଶୁ-ପ** 18L.
 -**ଶୁ-ପ** 172L. -**ପ୍ରେ-ଶଣ** 64R.
 -**ମୋହା-ପ୍ରସା-ଦ୍ୟ-ପ୍ରେତ-ପ** 17R.
 -**ମେନ୍ଦ** 96R.
ମୂର୍ଖ-ପ 80R. **ମୂର୍ଖ-ପ** 156L.
ମୂର୍ଖ-ପ=ମୂର୍ଖ 47L, 67R, 180R, 189R.
ମୂର୍ଖ-ପ-ମେନ୍ଦ-ଧ୍ୱନି-ଶ୍ରୀ-ପ 5R.
ମୂର୍ଖ-ପା-ଶ୍ରୀ-ପ 48L, 174R.
ମୂର୍ଖ-ତ 153R.
ମୂର୍ଖ-ଶୁ-ପ୍ରସା-ଦ୍ୟ-ପ 132R.

୩

ମ-ଶଦ-ଶୁ-ପ 196R.
ମ 162R, 167R, 170L. **ମ-ଶ-ପ** 133R.
ମନ 190L, 195L.
ମନୀ-ଶୁ-ପ-ପରି-ମପଦ-ଶ୍ରୀ-ପ 196L.
 -**ଶୁ** 190R. -**କ୍ଷେତ୍ର-ଧ୍ୱନି-ଶୁ-ପ** 190L.
 -**କ୍ଷ** 192L. -**ଶନ୍ତି-ପ** 196L.
 -**କ୍ଷମା-ପ** 195R.
 -**କ୍ଷମା-ପ-କ୍ଷ-ମନ୍ଦ-ଶୁ-ପରି-ମକନ୍-ତ୍ରୀ** 195R.
 -**କ୍ଷମା-ଶ** 192L. -**ପ-ପ** 190R.
 -**କ୍ଷମ** 194R.
 -**କ୍ଷମ-ପି-କ୍ଷମ-ପ** 195L.
 -**କ୍ଷମ-ପମ-ଶୁ-ପି-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପମ-ଶୁ-ପମ-କନ୍** 91L.
 -**କ୍ଷମ** 192L, 194R.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପ** 192L.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପ** 192L.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ** 192L.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-ପ** 192L.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-ପ** 195L, R.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପ** 195L..
 -**କ୍ଷମ** 195R.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ**
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-ପ** 192L.
 -**କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-ପ** 193R.
ମନୀ-ଶୁ-ପ-କ୍ଷମ-ପ 190R.

ମନୀ-ଶୁ-ପ 191R. -**କ୍ଷମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 191R.
 -**ଶୁ-ପ** 69L, R, 190R, 191L.
 -**ଶୁ-ପ-କମ-ଶୁ-ପ** 69L, 191L..
 -**ମ-ମନ୍ଦ-କ୍ଷମା-ପ** 191R.
ମନୀ-ଶୁ-ପ-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ତ୍ରୀ 190R.
 -**କ୍ଷମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 191L.
 -**ଶୁ-ମ-ଶୁ-ମ-ହେତୁ-ଶୁ-ମ-ଶୁ-ପ** 191L.
 -**ଶୁ-ମ-ନ୍ଦ-ଶୁ-ପ-ପ-ନ୍ଦ-ନ୍ଦ-ଶୁ-ପ** 191L..
 -**ମେନ୍ଦ-ଧ୍ୟ-ପ** 191L..
ମନୀ-ଶୁ-ପ-କ୍ଷମ-ଶୁ-ପି-ତ୍ରୀ 195L.
 -**ଏତୁ-ପଣ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 195R.
ମନୁ-ଶୁ-ପ 117R, 118L, R.
ମନୁ-ଶୁ-ପ-ଶୁ-ପ 118L.
ମନୁ-ଶୁ-ପି-ତ୍ରୀ 195R.
ମନୁ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ 195R.
ମନୁ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ 195R.
ମନୁ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ 195L.
ମନୁ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ 118L.
 -**ଶୁ-ମେନ୍ଦ-ଧ୍ୟ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 118L.
 -**ଶୁ-ମେନ୍ଦ-ଧ୍ୟ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 118L.
ମନୁ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ 191R.
ମନୁ-ଶୁ-ପ 45R, 89L.
ମନୁ-ଶୁ-ପି-ମନ୍ଦ-କ୍ଷ-ମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ 139R.
 -**ଶୁ-ମନୁ-ଶୁ-ପ** 121L. -**ମନୁ-ଶୁ-ପ** 120R.
 -**କ୍ଷମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 165R. -**କ୍ଷମ-ପ** 187L.
 -**ଶୁ-ପ** 113R. -**ମନୁ-ଶୁ-ପ** 177L.
 -**କ୍ଷମ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 120L.
 -**ମନୁ-ଶୁ-ପ-କ୍ଷ-ମ-ପ** 114R. -**ଶୁ-ମନୁ-ଶୁ-ପ** 122R.
 -**ଶୁ-ପ** 120L. -**ଶୁ-ପ** 120R.

-ନେତ୍ର-ଦ 161L.
ଶ୍ଵର-ନୁଦେତ-ଧର୍ମ-କ୍ଷେ 160R, 161L.
 -ପାତ୍ର-ଦ 161L.
 -ପାତ୍ର-ଧାର୍ମିକ-ଶାଶ 161L.
ଶ୍ଵର-ନୁଦେତ-ଧର୍ମ-ମହାଦ 160R.
 -ନୁଦେତ 119R, 159L.
 -ନୁଦେତ-ଶାଶ-ଧର୍ମ-ମହାକ-ତ୍ରୈ 119R.
 -ଧର୍ମ-ଦ 51R. -ଧର୍ମ-ଦ 105L.
 -ମାତ୍ର 20R. -ମାତ୍ର 121L.
 -କମ-ଦ 13L, 122L.
 -କମ-ଧାର୍ମିକ-ଧର୍ମ-ଶାଶ 122L.
 -ବି-ଦ 121L. -ବିଜିଷ 120R.
 -ବ୍ରାହ୍ମଣ-ମର୍ତ୍ତନ 30R.
 -ମେଷ-ଧର୍ମ-ମାତ୍ର 22L.
 -ଧର୍ମ-ଦ 111R.
ଶ୍ଵର-ନୁଦେତ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 197L.
ଶ୍ଵର-ନୁଦେ 181L.
ଶ୍ଵର-ବରଣ 112R.
ଶ୍ଵର-ଶିଵ-ତନ 79R.
ଶବ୍ଦ-ଶିଖ 62L.
ଶକ୍ତି-ଧାର୍ମିକ-ଧର୍ମ 102L.
ଶି 5L, 64L, 106R.
ଶିକ୍ଷିତ 87R.
ଶିଳ୍ପାଶ 87R, 140R.
 -ଶିଳ୍ପାଶ-ମହିମାଧର୍ମ 140R.
ଶିଫନ୍ 167R.
ଶିଫନ୍-ମହିମାଧର୍ମ 32L.

ଶିର୍ମ 149L.
ଶିର୍ମ-ମାଧ୍ୟମ-ଶିର୍ମ 70R.
ଶିର୍ମ-ମାଧ୍ୟମ-ଶିର୍ମ 70R.
ଶିର୍ମ-ନୁଦେ-ଧର୍ମ-ମହାକ 144R.
ଶିର୍ମ-ନୁଦେ 168R. ଶିର୍ମ 140R.
ଶିର୍ମ-ନୁଦେ 187R. ଶିର୍ମ-ନୁଦେ 187R.
ଶିର୍ମ-ଦ 148L, 157R.
ଶିର୍ମ-ମହାକ-ତ୍ରୈ 72R.
ଶିର୍ମ-ଶାଶ-ଶିର୍ମ 183R.
 -ନୁଦେ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଶାଶ 157R.
ଶିର୍ମ-ଶାଶ-ଶିର୍ମ-ଶାଶ 157R.
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଶିର୍ମ 148L. ଶିର୍ମ 143L.
 -ନୁଦେ-ମାତ୍ର 27R.
 -ଧର୍ମ-କମ-ଧର୍ମ-କମ 143R.
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ମାତ୍ରକ-ଶାଶ 157R.
 -କମ 143R.
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଶିର୍ମ 127L.
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 164R.
ଶିର୍ମ 37R, 57R, 65L, 173R.
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 58L. -ଶିର୍ମ 58L.
 -କମ 4R, 65L..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 111R.
ଶିର୍ମ-ନୁଦେ-ଶିର୍ମ-ମର୍ତ୍ତନ 65L.
ଶିର୍ମ-ମର୍ତ୍ତନ 175R.
ଶିର୍ମ-ମର୍ତ୍ତନ 4R.
ଶିର୍ମ-ମହିମାଧର୍ମ-କମ 4R, 27R.
ଶିର୍ମ-ମହିମାଧର୍ମ 68L.

ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 52R, 58L. -ଶିର୍ମ 58L.
ଶିର୍ମ-ପିନ୍ଧିଶ୍ରୀ-ଶିର୍ମ 98R.
ଶିର୍ମ 82L, R.
ଶିର୍ମ-ନୁଦେ-ଧର୍ମ-ପିନ୍ଧି 106L.
ଶିର୍ମ-ନୁଦେ-ଧର୍ମ 82R.
ଶିର୍ମ-ନୁଦେ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ = ଶିର୍ମ-ନୁଦେ-ଧର୍ମ 82L, 198R.
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର-ଧର୍ମ 140L.
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ମହାକ-ଧର୍ମ 11L.
ଶିର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର 144R.
 -ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ 145R. -ଶିର୍ମ 145L.
 -ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 145L..
 -ଶିର୍ମ-କୁରୁ 145L. -ଶିର୍ମ-କୁରୁ 92L..
 -ଶିର୍ମ 144R. -ଶିର୍ମ 145L.
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 28L, 187L..
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର-ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 183R.
 -ଧର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର-ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 183R.
 -ଧର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 136R.
 -କେନ୍ଦ୍ର 145L. -କେନ୍ଦ୍ର-ଶିର୍ମ 145L..
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 145L..
ଶିର୍ମ 77R.
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 16R, 59R, 178L..
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 145L..
ଶିର୍ମ 59R. -ଶିର୍ମ 140R..
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 17R..
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 93R..
ଶିର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ-ଧର୍ମ 100L..

-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 52R, 58L. -ଶିର୍ମ 58L.
ଶିର୍ମ 150R. ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 150R..
ଶିର୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର-ଧର୍ମ-ଶିର୍ମ 80L..
ଶିର୍ମ=ଶିର୍ମ 80R, 173L, 190L..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 53L. ଶିର୍ମ 167L, R..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 51R. ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 145R..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 163R..
 -ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 163R..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 64R, 79L, 149L, 153R..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 77L. ଶିର୍ମ 107L, 153R..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 162R. -ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 153R..
 -ଶିର୍ମ 153R..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 107L..
ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ-ଶିର୍ମ 31L..
ଶିର୍ମ 53L..

୪

ଅନ୍ତର୍ଗତ-ଶାଶ 119R..
ଅନ୍ତର୍ଗତ 53R, 196R..
ଅନ୍ତର୍ଗତ-ଶାଶ-ଶାଶ-ଶାଶ 53R..
ଅନ୍ତର୍ଗତ-ଶାଶ-ଶାଶ-ଶାଶ 150R..
ଅନ୍ତର୍ଗତ 148R..
ଅନ୍ତର୍ଗତ-ଶାଶ-ଶାଶ-ଶାଶ-ଶାଶ 148R..
 -ଶାଶ 149L..
ଅନ୍ତର୍ଗତ-ଶାଶ-ଶାଶ-ଶାଶ 148R..
 -ଶାଶ-ଶାଶ-ଶାଶ-ଶାଶ 148R..

-ସୁମାଧୁରିକେମ୍ 148R.
ଅନ୍ତଗର୍ଭପଦ୍ମାଦ୍ 148R.
 -ମର୍ତ୍ତାଦ 148R.
ଅନ୍ତଗର୍ଭ 173R.
 -ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦପଦ୍ମାଦ୍=ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦପଦ୍ମ 11R, 173R.
 -ର୍ବଦ୍ମାଦ 11R.
ଅନ୍ତଗର୍ଭର୍ତ୍ତ 166L.
ଅନ୍ତକ୍ର୍ତ 146L. -ର୍ବଦ୍ମାଦ 149L.
ଅମ 102L, 113I, 139L. ପଥ 54L.
ଅମ୍ବୁତ୍ତି 54L. -ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 3L.
 -ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦପଦ୍ମ 54R. -ର୍ବଦ୍ମାଦ 54R.
 -ମର୍କର୍ତ୍ତିନ୍ 54L.
ଅମ୍ବୁତ୍ତିଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 54R.
ଅମ୍ବୁତ୍ତିଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦପଦ୍ମାଦ୍ 54L.
 -ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମର୍କର୍ତ୍ତିନ୍ 54L.
 -ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦପଦ୍ମମର୍ତ୍ତାଦ 54L.
ଅମ୍ବୁତ୍ତିଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 111R.
ଅମ୍ବୁତ୍ତ 54R. ଅମ୍ବୁତ୍ତିଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 54L.
ଅମ୍ବୁତ୍ତିଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 54L. ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 52L.
ଅମ୍ବୁତ୍ତିଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 6L..
ଅନ୍ତ 38L, 143R.
ଅନ୍ତପଦ୍ମମର୍ତ୍ତାଦ୍=ଶ୍ଵିର୍ବ୍ଦମାହୂର୍ତ୍ତ 165R.
 -ମେନ୍ଦର୍ମଦିକ୍ଷୀଣୀ 32L.
ଅନ୍ତପଦ୍ମମର୍ତ୍ତାଦ୍ 165R.
ଅନ୍ତପଦ୍ମମର୍ତ୍ତାଦ୍ 32L.
ଅନ୍ତପଦ୍ମମର୍ତ୍ତାଦ୍ 32L.
ଅନ୍ତପଦ୍ମମର୍ତ୍ତାଦ୍ 56R, 76R, 85L, 164L, 167L.
ଅନ୍ତପଦ୍ମମର୍ତ୍ତାଦ୍ 100L. ଅନ୍ତଗର୍ଭକ୍ଷୀଣୀ 85L.

ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧାରୀ 85R, 167L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମାହୂର୍ତ୍ତ 167L.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 85R.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ବାମାହୂର୍ତ୍ତ 56L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମାହୂର୍ତ୍ତ 147L.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ବାମାହୂର୍ତ୍ତ 147L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 32R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ବାକ୍ଷୀଣୀ 8L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 29R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 53L. -ମ୍ରଦ୍ଗ 53L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 56L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 171R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ବାମର୍ତ୍ତାଦ୍ 188I.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 96L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 151R. ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 102L, 106R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 139L, 157L.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 139L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 157L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 157L. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 57R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 157L. -ମର୍କର୍ତ୍ତିନ୍ 157L. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 189I..
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 188R, 189R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 48L, 132R, 181R.

୨

ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 137L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 167R. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 167R.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 167R. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 167R.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 167R. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 167R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 137L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 189R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 60L, 108R, 137L, R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 108R, 137R. ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 108R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 137R.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 137R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 137L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 137R. ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 121R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 139R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 71L. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 71L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 135L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 77L, 163R. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 197L.
 -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 151R. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 34L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 86L, 151L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 145L. -ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 184R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 57L.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 8R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 86L, 173L, 189R.
ଶୁଶ୍ରାଦ୍ଧମର୍ତ୍ତାଦ୍ 17R, 25L, 84R, 130L, R, 166L.

A TABULATED LIST OF PARALLEL PAGES OF
THE THREE CHINESE VERSIONS AND
OF THE NANJIO SANSKRIT TEXT

5

ੴ 196R.	ੴ 81R, 84L..
ੳ' ਇਮਣ 84R, 187R.	
ੳ' ਅਪਿਨ 35R.	ੳ' ਮਾਪਿਨ' ਮੈ 35R.
ੳ' ਮਾਪਿਨ' ਧਰੀ' ਕੌਂਝਾ 8L.	
ੳ' ਮੈ 23L, 84L..	

୪

ଆ 3L.	ଆ'ମା 4R.
ଆ'ନୁମାଦ ଶରୀ'କୋର୍ଟ୍ସା 47R.	
ଆ'ନ୍ତି 40R.	ଆ'କ୍ଷରୀ'ବସନ୍ତା 40R.
ଆ'ନ୍ତି 196R.	ଆ'ମାରୀ'ହେ 33L.

Nanjio Text	Sung (T. E. T. XVI)	Wei (T. E. T. XVI)	T'ang (T. E. T. XVI)
1	480a	514c	587b
2	480a	514c	587b
3	—	515a	587c
4	—	515a	587c
5	—	515b	587c
6	—	515c	588a
7	—	516a	588b
8	—	516a	588b
9	—	516b	588c
10	—	516c	588c
11	—	516c	588c
12	—	517a	589a
13	—	517b	589a
14	—	517b	589b
15	—	517c	589b
16	—	518a	589c
17	—	518a	589c
18	—	518b	590a
19	—	518b	590a
20	—	518c	590b
21	—	519a	590b
22	480a	519a	590b
23	480b	519a	590c
24	480b	519b	590c
25	480c	519b	591a
26	480c	519c	591a
27	481a	519c	591b
28	481b	520a	591c
29	481b	520b	591c
30	481c	520b	592a
31	481c	520c	592a
32	482a	520c	592b
33	482a	521a	592b
34	482b	521a	592c
35	482c	521b	593a

Nanjo Text	Sung (T.E.T. XVI)	Wei (T.E.T. XVI)	T'ang (T.E.T. XVI)
36	482c	521b	593a
37	483a	521c	593b
38	483a	522a	593b
39	483b	522a	593c
40	483b	522b	593c
41	483b	522b	593c
42	483c	522c	594a
43	483c	522c	594a
44	484a	523a	594b
45	484a	523b	594b
46	484b	523b	594c
47	484b	523c	594c
48	484c	523c	595a
49	485a	524a	595b
50	485a	524a	595b
51	485b	524b	595c
52	485b	524b	595c
53	485b	524c	595c
54	485c	524c	596a
55	485c	525a	596a
56	486a	525b	596b
57	486a	525b	596b
58	486b	525c	596c
59	486b	525c	596c
60	486b	526a	596c
61	486c	526b	597a
62	486c	526b	597a
63	487a	526c	597a
64	487a	526c	597b
65	487b	527a	597b
66	487b	527b	597c
67	487c	527b	597c
68	487c	527c	598a
69	487c	527c	598a
70	488a	528a	598b

—(490)—

Nanjo Text	Sung (T.E.T. XVI)	Wei (T.E.T. XVI)	T'ang (T.E.T. XVI)
71	488a	528b	598b
72	488b	528b	598b
73	488b	528c	598c
74	488c	528c	598c
75	488c	529a	599a
76	488c	529a	599a
77	489a	529b	599a
78	489a	529b	599b
79	489b	529c	599b
80	489b	529c	599c
81	489c	530a	599c
82	489c	530a	599c
83	490a	530b	600a
84	490a	530b	600a
85	490b	530c	600b
86	490b	530c	600b
87	490c	531a	600c
88	490c	531a	600c
89	490c	531b	600c
90	491a	531b	601a
91	491a	531c	601a
92	491a	532a	601b
93	491b	532a	601b
94	491b	532b	601b
95	491c	532b	601c
96	491c	532c	601c
97	492a	532c	602a
98	492a	533a	602a
99	492b	533b	602b
100	492b	533b	602b
101	492c	533c	602b
102	492c	533c	602c
103	492c	534a	602c
104	493a	534b	603a
105	493a	534b	603a

—(491)—

Nanjo Text	Sung (T. E. T. XVI)	Wei (T. E. T. XVI)	T'ang (T. E. T. XVI)
106	493b	534c	603b
107	493b	535a	603b
108	493c	535a	603b
109	493c	535b	603c
110	493c	535b	603c
111	494a	535c	603c
112	494a	536a	604a
113	494b	536a	604a
114	494b	536b	604b
115	494b	536b	604b
116	494c	536c	604c
117	494c	537a	604c
118	495a	537a	604c
119	495a	537b	605a
120	495a	537b	605a
121	495b	537c	605a
122	495b	537c	605b
123	495c	538a	605b
124	495c	538a	605c
125	496a	538b	605c
126	496a	538b	605c
127	496a	538c	606a
128	496b	538c	606a
129	496b	539a	606b
130	496c	539b	606b
131	496c	539b	606c
132	497a	539c	606c
133	497a	539c	607a
134	497b	540a	607a
135	497b	540a	607a
136	497c	540b	607b
137	497c	540b	607c
138	498a	540c	607c
139	498a	540e	607c
140	498b	541a	608a

—(492)—

Nanjo Text	Sung (T. E. T. XVI)	Wei (T. E. T. XVI)	T'ang (T. E. T. XVI)
141	498b	541b	608a
142	498c	541b	608b
143	498c	541c	608b
144	499a	541c	608b
145	499a	542a	608c
146	499a	542a	608c
147	499b	542b	609a
148	499b	542b	609a
149	499c	542c	609a
150	499c	542c	609b
151	499c	543a	609b
152	500a	543a	609b
153	500a	543b	609c
154	500b	543c	610a
155	500b	543c	610a
156	500c	544a	610a
157	500c	544a	610b
158	501a	544b	610b
159	501a	544b	610c
160	501b	544c	610c
161	501b	544c	611a
162	501c	545a	611a
163	501c	545a	611a
164	502a	545b	611b
165	502a	545c	611b
166	502a	545c	611c
167	502b	546a	611c
168	502b	546a	611c
169	502c	546b	612a
170	502c	546c	612a
171	503a	546c	612b
172	503a	547a	612b
173	503b	547a	612b
174	503b	547b	612c
175	503b	547c	612c

—(493)—

Nanjo Text	Sung (T.E.T. XVI)	Wei (T.E.T. XVI)	T'ang (T.E.T. XVI)
176	503e	547e	613a
177	503e	548a	613a
178	504a	548a	613b
179	504a	548b	613b
180	504a	548c	613b
181	504b	548c	613c
182	504b	549a	613c
183	504c	549a	613c
184	504c	549b	614a
185	505a	549b	614a
186	505a	549c	614b
187	505b	550a	614b
188	505b	550a	614c
189	505c	550b	615a
190	505c	550c	615a
191	506a	550c	615b
192	506a	551a	615b
193	506b	551a	615c
194	506b	551b	615c
195	506c	551c	616a
196	506c	551c	616a
197	507a	552a	616a
198	507a	552a	616b
199	507b	552b	616b
200	507b	552b	616c
201	507c	552c	616c
202	507c	553a	617a
203	508a	553a	617a
204	508a	553b	617b
205	508b	553c	617e
206	508b	553c	617e
207	508c	554a	617e
208	508c	554a	618a
209	509a	554b	618a
210	509a	554c	618b

—(494)—

Nanjo Text	Sung (T.E.T. XVI)	Wei (T.E.T. XVI)	T'ang (T.E.T. XVI)
211	509a	554c	618b
212	509b	554c	618b
213	509b	555a	618c
214	509b	555a	618c
215	509c	555b	618c
216	509c	555c	619a
217	509e	555c	619a
218	510a	556a	619b
219	510a	556b	619b
220	510a	556b	619b
221	510b	556c	619c
222	510b	556c	619c
223	510c	557a	620a
224	510c	557a	620a
225	510c	557b	620a
226	511a	557b	620b
227	511a	557c	620b
228	511b	558a	620c
229	511b	558a	620c
230	511c	558b	620c
231	511c	558b	621a
232	511c	558c	621a
233	512a	559a	621b
234	512a	559a	621b
235	512b	559b	621b
236	512b	559c	621c
237	512b	559c	621c
238	512c	560a	622a
239	512c	560b	622a
240	513a	560b	622b
241	513a	560c	622b
242	513a	560c	622c
243	513b	561a	622c
244	513b	561a	622c
245	513c	561b	623a

—(495)—

Nanjio Text	Sung (T. E. T. XVI)	Wei (T. E. T. XVI)	T'ang (T. E. T. XVI)
246	513c	561b	623a
247	513c	561c	623b
248	—	562a	623b
249	513c	562c	623c
250	513c	562c	623c
251	514a	563a	623c
252	—	563a	624a
253	514a	563b	624a
254	514a	563b	624a
255	514a	563c	624a
256	514a	564a	624b
257	514a	564b	624b
258	514b	564b	624b
259	514b	564c	624c
260	—	564c	624c
261	—	564c	625a
262	—	565a	625a
263	—	565a	—
264	—	565b	625a
265	—	565b	—
266	—	565b	625a
267	—	565c	625b
268	—	566a	625b
269	—	566a	625c
270	—	566b	625c
271	—	566b	626a
272	—	566c	626a
273	—	566c	626a
274	—	567a	626b
275	—	567a	626b
276	—	567b	626c
277	—	567b	626c
278	—	567c	626c
279	—	567c	626c
280	—	568a	627a

—(496)—

Nanjio Text	Sung (T. E. T. XVI)	Wei (T. E. T. XVI)	T'ang (T. E. T. XVI)
281	—	568a	627a
282	—	568b	627a
283	—	568b	627a
284	—	568c	627b
285	—	568c	627b
286	—	569a	627c
287	—	569a	627c
288	—	569b	628a
289	—	569c	628a
290	—	569c	628a
291	—	570a	628a
292	—	570a	628b
293	—	570b	628b
294	—	570b	628c
295	—	570c	628c
296	—	570c	628c
297	—	571a	629a
298	—	571a	629a
299	—	571b	629b
300	—	571c	629b
301	—	571c	629c
302	—	572a	630a
303	—	572a	630a
304	—	572b	—
305	—	572b	630a
306	—	572c	630a
307	—	573a	630b
308	—	573a	630c
309	—	573b	630c
310	—	573c	631a
311	—	573c	631b
312	—	574a	631b
313	—	574b	631c
314	—	574b	631c
315	—	574c	—

—(497)—

Nanjio Text	Sung (T. E. T. XVI)	Wei (T. E. T. XVI)	T'ang (T. E. T. XVI)
316	—	574c	—
317	—	575a	631c
318	—	575a	632a
319	—	575b	632a
320	—	575c	632b
321	—	575c	632b
322	—	576a	632b
323	—	576b	632b
324	—	576b	632b
325	—	576c	—
326	—	576c	632c
327	—	577a	632c
328	—	577b	632c
329	—	577b	633a
330	—	577c	633b
331	—	577c	633b
332	—	578a	633c
333	—	578b	633c
334	—	578b	634a
335	—	578c	634a
336	—	578c	634b
337	—	579a	634c
338	—	579a	—
339	—	579b	—
340	—	579c	—
341	—	579c	634c
342	—	580a	634c
343	—	580a	635a
344	—	580b	635a
345	—	580b	635b
346	—	580c	635b
347	—	581a	635c
348	—	581a	635c
349	—	581b	636a
350	—	581c	636a

—(498)—

Nanjio Text	Sung (T. E. T. XVI)	Wei (T. E. T. XVI)	T'ang (T. E. T. XVI)
351	—	581c	636b
352	—	582a	636b
353	—	582a	636c
354	—	582b	636c
355	—	582b	637a
356	—	582c	637a
357	—	582c	637b
358	—	583a	637b
359	—	583a	637c
360	—	583b	637c
361	—	583c	638a
362	—	583c	638b
363	—	584a	638b
364	—	584a	638c
365	—	584b	638c
366	—	584b	639a
367	—	584c	639a
368	—	584c	639b
369	—	585a	639b
370	—	585b	639b
371	—	585b	639c
372	—	585c	639c
373	—	585c	640a
374	—	586a	640b
375	—	586b	640b
376	—	—	—

—(499)—



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported

You are free:



to Share — to copy, distribute and transmit the work



to Remix — to adapt the work

Under the following conditions:



Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).



Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes.



Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

With the understanding that:

Waiver — Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.

Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the license.

Other Rights — In no way are any of the following rights affected by the license:

- Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
- The author's moral rights;
- Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.

Notice — For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.